

अथैकविंशतितमोऽध्यायप्रारभ्यते ॥

ओ३म् विश्वानि देव सवितदुरितानि परं सुव-
यद्द्रुं तन्न आ सुव ॥ १ ॥

इममित्यस्य शुनःशेष ऋषिः । वरुणो देवता ।

निचृद् गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

अथ विद्वद्विषयमाह ॥

अब इकीशवे अध्याय का आरम्भ है इस के प्रथम मन्त्र में विद्वानों के वि० ॥

इमस्मे वरुणा श्रुधी हवमद्या च मृडय ।
त्वामवस्युराचके ॥ १ ॥

इमम् । मे । वरुणा । श्रुधि । हवम् । अद्य । च । मृडय ।
त्वाम् । अवस्युः । आ । चके ॥ १ ॥

पदार्थः—(इमम्) (मे) मम (वरुण) उत्तमविद्वन् (श्रुधि) श्रुणु ।
अत्र संहितायांमिति दीर्घः (हवम्) स्तवनम् (अद्य) अस्मिन्नहनि । अत्र नि-
पातस्यचेति दीर्घः (च) (मृडय) (त्वाम्) (अवस्युः) आत्म-
नोऽवइच्छुः (आ) (चके) कामये । आचक इति कान्तिकर्मा नियं०
२। ६ ॥ १ ॥

अन्वयः—हे वरुण योऽवस्युरहमिमं त्वामाचके स त्वं मे हवं श्रुधि ।
अथ मां मृडय च ॥ १ ॥

भावार्थः—सर्वैर्विद्याकामैरनूचानो विद्वान् कमनीयः स विद्यार्थिनां स्वा-
ध्यायं श्रुत्वा सुपरीक्ष्य सर्वानानन्दयेत् ॥ १ ॥

पदार्थः—हे (वरुण) उत्तम विद्यावान् जन जो (अवस्युः) अपनी रक्षा की
इच्छा करनेहारा मैं (इमम्) इस (त्वाम्) तुम्हें को (आ, चके) चाहता हूँ वह तू
(मे) मेरी (हवम्) स्तुति को (श्रुधि) सुन (च) और (अथ) आज तुम्हें को
(मृडय) सुखी कर ॥ १ ॥

भावार्थः—सब विद्या की इच्छा वाले पुरुषों को चाहिये कि अनुक्रम से उप-
देश करने वाले बड़े विद्वान् की इच्छा करें वह विद्यार्थियों के स्वाध्याय को सुन और
उत्तम परीक्षा करके सब को आनन्दित करे ॥ १ ॥

तदित्यस्य शूनःशेष ऋषिः । वरुणो देवता ।

निचृत् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा-
शास्ते यजमानो हविर्भिः । अहेडमा-
नो वरुणो ह बोद्धयुरुशशुसु मां न आ-
युः प्रमोषीः ॥ २ ॥

तत् । त्वा । यामि । ब्रह्मणा । वन्दमानः । तत् ।
आ । शास्ते । यजमानः । हविर्भिरिति हविःऽभिः ।
अहेडमानः । वरुणा । इह । बोधि । उरुशशुसेत्युरुः-
शशुस । मा । नः । आयुः । प्र । मोषीः ॥ २ ॥

पदार्थः—(तत्) तम् (त्वा) त्वाम् (यामि) प्राप्नोमि (ब्रह्मणा) वेदविज्ञानेन (वन्दमानः) स्तुवन् (तत्) (आ) (शास्ते) इच्छति (यजमानः) (हविर्भिः) होतुं दातुमर्हः पदार्थैः (अहेडमानः) सत्कियमाणः (वरुण) अत्युत्तम (इह) अस्मिन् संसारे (बोधि) बोधय (उरुशंस) बहुभिः प्रशंसित (मा) (नः) अस्माकम् (आयुः) जीवनं विज्ञानं वा (प्र) (मोषीः) चोर्ग्यः ॥ २ ॥

अन्वयः— हे वरुण विद्वज्जन यथा यजमानो हविर्भिस्तदाशास्ते तथा ब्रह्मणा वन्दमानोऽहं तत्त्वा यामि । हे उरुशंस मयाऽहेडमानस्त्वमिह न आयुर्मा प्रमोषीः शास्त्रं बोधि ॥ २ ॥

भावार्थः— अत्र वाचकलु०—यो यस्माद्विद्यामामुयात्स तं पूर्वमभिनादयेन् । यो यस्याध्यापकः स्यात्स तस्मै विद्यादानाय कपटं न कुर्यात् कदाचित्केनचिदाचार्यो नाऽवमन्तव्यः ॥ २ ॥

पदार्थः— हे (वरुण) अति उत्तम विद्वान् पुरुष जैसे (यजमानः) यजमान (हविर्भिः) देने योग्य पदार्थों से (तत्) उस की (आ, शास्ते) इच्छा करता है जैसे (ब्रह्मणा) वेद के विज्ञान से (वन्दमानः) स्तुति करता हुआ मैं (तत्) उस (त्वा) तुम्हें (यामि) प्राप्त होता हूँ । हे (उरुशंस) बहुत लोगों से प्रशंसा किये हुए जन मुझ से (अहेडमानः) सत्कार को प्राप्त होता हुआ तू इह) इस संसार में (नः) हमारे (आयुः) जीवन वा विज्ञान को (मा) मत (प्र, मोषीः) चुरा लेवे और शास्त्र का (बोधि) बोध कराया कर ॥ २ ॥

भावार्थः— इस मंत्र में वाचकलु०—जो मनुष्य जिस से विद्या को प्राप्त हो वह उस को प्रथम नमस्कार करे जो जिस का पढ़ाने वाला हो वह उस को विद्या देने के लिये कपट न करे कदापि किसी को आचार्य का अपमान न करना चाहिये ॥२॥

त्वमित्यस्य वामदेव ऋषिः । अग्निवरुणौ देवते ।

स्वराड्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

त्वं नोऽग्ने वरुणास्य विद्वान् दे-
वस्य हेडोऽअव यासिसीष्ठाः । यजिष्ठो
वह्नितमः शोशुचानो विश्वा द्वेषांश्च-
सि प्रमुमुग्ध्यस्मत् ॥ ३ ॥

त्वम् । नः । अग्ने । वरुणास्य । विद्वान् । देवस्य ।
हेडः । अव । यासिसीष्ठाः । यजिष्ठः । वह्नितमऽइति
वह्नितमः । शोशुचानः । विश्वा । द्वेषांश्चसि । प्र । मु-
मुग्धि । अस्मत् ॥ ३ ॥

पदार्थः— (त्वम्) (नः) अस्माकम् (अग्ने) पात्रकवत्प्रकाशमान
(वरुणस्य) श्रेष्ठस्य (विद्वान्) विद्यायुक्तः (देवस्य) निदुषः (हेडः) अ-
नादरः (अव) निषेधे (यासिसीष्ठाः) यायाः प्राप्नुयाः (यजिष्ठः) अतिश-
येन यथा (वह्नितमः) अनिशयेन बोधा (शोशुचानः) शुद्धः शोधयन् सन्
(विश्वा) सर्वाणि (द्वेषांसि) द्वेषादियुक्तानि कर्माणि (प्र) (मुमुग्धि) प्रमो-
चय (अस्मत्) अस्माकं संकाशात् ॥ ३ ॥

अन्वयः— हे अग्ने यजिष्ठो वह्नितमः शोशुचानो विद्रांस्त्वं वरु-
णस्य देवस्य यो हेडस्तमव यासिसीष्ठा मा कुर्याः । हे अग्ने त्वं यो नोऽस्माकं
हेडो भवेत्तं मास्वीकुर्याः । हे शिक्तक त्वमसाद्विश्वा द्वेषांसि प्रमुमुग्धि ॥ ३ ॥

भावार्थः--कोपि मनुष्यो विदुषामनादरं कोपि विद्वान् विद्यार्थिनामसत्कारं च न कुर्यात्सर्वे मिलित्वेर्ष्याक्रोधादिदोषांस्त्यक्त्वा सर्वेषांसखायो भवेयुः ॥ ३ ॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के तुल्यप्रकाशमान (यजिष्ठः) अतीव यजन करने (वह्नितमः) अत्यन्त प्राप्ति कराने और (शोशुचानः) शुद्ध करने हारे (विद्वान्) विद्या युक्त जन (त्वम्) तू (वरुणस्य) श्रेष्ठ (देवस्य) विद्वान् का जो (हेडः) अनादर उस को (अच) मत (यासिसीष्टाः) करे । हे तेजस्वि तू जो (नः) हमारा अनादर हो उस को अंगीकार मत कर । हे शिन्ना करने हारे तू (अस्मत्) हम से (विश्वा) सब (द्वेषांसि) द्वेष आदि युक्त कर्मों को (प्र, मुमुग्धि) छुड़ा दे ॥ ३ ॥

भावार्थः—कोई भी मनुष्य विद्वानों का अनादर और कोई भी विद्वान् विद्यार्थियों का असत्कार न करे सब मिल के ईर्ष्या क्रोध आदि दोषों को छोड़ के सब के मित्र हों ॥ ३ ॥

सत्वमित्यस्य वामदेव ऋषिः । अग्निवरुणौ देवते ।

स्वराड्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

स त्वं नोऽअग्नेऽवमो भवती नेदिष्ठो-
ऽअस्या उषसो व्युष्टौ । अवं यक्ष्व नो
वरुणश्चरराणो वीहि मृडोकथु सुहवो न
एधि ॥ ४ ॥

सः । त्वम् । नः । अग्ने । अवमः । भव । ऊती ।
नेदिष्ठः । अस्याः । उषसः । व्युष्टाविति विऽउष्टौ ।
अवं । यक्ष्व । नः । वरुणाम् । रराणाः । वीहि । मृडोकम् ।
सुहव इति सुऽहवः । नः । एधि ॥ ४ ॥

पदार्थः—(सः) (त्वम्) (नः) अस्माकम् (अग्ने) (अवमः) रक्षकः (भव) (ऊती) ऊन्या (नेदिष्ठः) अति शयेनान्तिकः (अस्याः) (उपसः) प्रत्यूषवेलायाः (व्युष्टौ) विविधे दाहे (अत्र) (यच्च) संगमय अत्र बहुलं छन्दसीतिविकरणाभावः (नः) अस्माकम् (वरुणम्) उत्तमम् (रराणः) रममाणः (वीहि) व्याप्तुहि (मृडोकम्) सुखप्रदम् (सुहवः) शोभनो हवो दानं यस्य सः (नः) अस्मान् (एधि) भव ॥ ४ ॥

अन्वयः— हे अग्ने यथाऽस्या उपसो व्युष्टौ वद्निनेदिष्ठो रक्षकश्च भवति तथा स त्वमूती नोऽवमो भव नो वरुणमवयच्च रराणः सन् मृडोकं वीहि नः सुहवएधि ॥ ४ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—यथा प्रातःसमये सूर्यः सन्निहितः सन् सर्वान् सन्निहितान् मूर्त्तान् पदार्थान् व्याप्नोति तथाऽन्तेवासिनां सन्निधावध्यापको भूत्वैतानात्मनो विद्यया व्याप्नुयात् ॥ ४ ॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के समान विद्वान् जैसे (अस्याः) इस (उपसः) प्रभातसमय के (व्युष्टौ) नाना प्रकार के दाह में अग्नि (नेदिष्ठः) अत्यन्त समीप और रक्षा करने हारा है वैसे (सः) वह (त्वम्) तू (नः) (ऊती) प्रीति से (नः) हमारा अवमः) रक्षा करने हारा (भव) हो नः) हम को (वरुणम्) उत्तम गुण वा उत्तम विद्वान् वा उत्तम गुणीजन का (अव, यच्च) मेल कराओ और (रराणः) रमण करते हुए तुम (मृडोकम्) सुख देने हारे को (वीहि) व्याप्त होओ (नः) हम को (सुहवः) शुभदान देनेहारे (एधि) हूजिये ॥ ४ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—जैसे प्रातःसमय में सूर्य समीपस्थित हो के सब समीप के मूर्त्तपदार्थों को व्याप्त होता है वैसे शिष्यों के समीप अध्यापक हो के इन को अपनी विद्या से व्याप्त करे ॥ ४ ॥

महीमित्यस्य वामदेव ऋषिः । आदित्या देवताः ।

निचृत्त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अथ पृथिव्या विषयमाह ॥

अबे पृथिवी के वि० ॥

म॒हीम् षु मा॒तरं सु॒व्र॒ताना॑म॒तस्य॑ प॒-
त्नी॒मव॑से हु॒वेम । तु॒वि॒क्ष॒त्राम॑ज॒र॑न्तीमु॒रू॒-
ची॑ सु॒श॒र्माण॑म॒दि॒ति॑ सु॒प्रणी॑तिम् ॥ ५ ॥

म॒हीम् । ऊँइत्सूँ । सु । मा॒तर॑म् । सु॒व्र॒ताना॑म् । ऋ॒-
तस्य॑ । प॒त्नी॑म् । अ॒व॒से । हु॒वेम॑ । तु॒वि॒क्ष॒त्रामि॑ति॒ तुवि॑-
क्ष॒त्राम् । अ॒ज॒र॑न्तीम् । उ॒रू॒ची॑म् । सु॒श॒र्मा॑णामि॒ति॒ सु॒श॑-
र्मा॑णम् । अ॒दि॒ति॑म् । सु॒प्रणी॑तिम् । सु॒प्र॒णी॑तिमि॒ति॒ सु॒प्र॑-
नी॑तिम् ॥ ५ ॥

पदार्थः—(महीम्) भूमिम् (उ) उत्तमे (सु) शोभने (मातरम्)
मातरमिव वर्त्तमानाम् (सुव्रतानाम्) शोभनानि व्रतानि सत्याचरणानि येषां
तेषाम् (ऋतस्य) प्राप्तसत्यस्य (पत्नीम्) स्त्रीवद्वर्त्तमानाम् (अवसे) रक्षण-
घाय (हुवेम) आदद्याम (तुविक्षत्राम्) तुविर्वहु क्षत्रं धनं यस्यां ताम् (अज-
रन्तीम्) वयोहानिरहिताम् (उरूचीम्) या उरूणि बहून्यञ्चनि प्राप्नोति ताम्
(सुशर्माणम्) शोभनानि शर्माणि गृहाणि यस्यास्ताम् (अदितिम्) अखण्डि-
ताम् (सुप्रणीतिम्) शोभनाः प्रकृष्टा नीतयो यस्यां ताम् ॥ ५ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यथा वयं मातरमिव सुव्रतानामृतस्य पत्नीं तुविन्नत्रा
मजरन्तीमुखीं सुशर्माणं सुप्रणीतिम् महीमदितिमवसे सुहुवेम तथा यूयमपि गृ
हीत ॥ ५ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु० यथा माताऽपत्यानि पतिव्रता पतिं च पाल
यति तथेयं भूमिः सर्वान् रक्षति ॥ ५ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे हम लोग (मातरम्) माता के समान स्थित (सुव्र-
तानाम्) जिन के शुभ सत्याचरण हैं उन को (ऋतस्य) प्राप्त हुए सत्य की (पत्नीम्)
स्त्री के समान वर्तमान (तुविन्नत्राम्) बहुत धन वाली (अजरन्तीम्) जीर्णपन से रहित (उन्म-
चीम्) बहुत पदार्थों को प्राप्त कराने हारी (सुशर्माणम्) अच्छे प्रकार के गृह से और (सुप्रणी-
तिम्) उत्तम नीतियों से युक्त (उ) उत्तम (आदितिम्) अखण्डित (महीम्) पृथ्वी
को (अवसे) रक्षा आदिके लिये (सुहुवेम) ग्रहण करते हैं वैसे तुम भी ग्रहण करो ॥ ५ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु० —जैसे माता सन्तानों और पतिव्रता स्त्री पति
का पालन करती है वैसे यह पृथिवी सब का पालन करती है ॥ ५ ॥

सुत्रामाणामित्यस्य गयप्लात ऋषिः । अदितिर्देवता ।

भुरिक् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अथ जलयानविषयमाह ॥

अव जलयान विषय को अगले० ॥

सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामने हसंश्च सुशर्मा-
णामदितिश्च सुप्रणीतिम् । देवीं नावश्च स्व-
रित्रामनागसुमस्रवन्तीमारुहेमा स्वस्तये
॥ ६ ॥

सुत्रामाणामिति सुत्रामाणाम् । पृथिवीम् । द्याम् ।
अनेहसम् । सुशर्माणामिति सुशर्माणाम् । अदितिम् ।
सुप्रणीतिम् । सुप्रणीतिमिति सुप्रणीतिम् । दैवीम् ।
नावम् । स्वरित्रामिति सुअरित्राम् । अनागसम् ।
अस्रवन्तीम् । आ । रुहेम् । स्वस्तये ॥ ६ ॥

पदार्थः—(सुत्रामाणम्) शोभनानि त्रामाणि रक्षणार्थानि यस्यास्ताम्
(पृथिवीम्) विस्तीर्णाम् (द्याम्) सुप्रकाशाम् (अनेहसम्) अहन्तव्याम् ।
नवि हन एहच । उ० पा० ४ । २२४ (सुशर्माणम्) सुशोभितगृहाम् (अदि-
तिम्) (सुप्रणीतिम्) बहुराजप्रजाऽस्वरिडतनीतियुक्ताम् (दैवीम्) देवानामाप्ता-
नां विधुषामियं ताम् (नावम्) नोदयन्ति प्रेरयन्ति यया ताम् (स्वरित्राम्)
शोभनान्यरित्राणि यस्यां ताम् (अनागसम्) अविद्यमानाऽपराधाम् (अस्रवन्तीम्)
अच्छिद्राम् (आ) (रुहेम्) अंधितिष्ठेम । अत्र संहितायामिति दीर्घः (स्वस्तये)
सुखाय ॥ ६ ॥

अन्वयः—हे शिल्पिनो यथा वयं स्वस्तये सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं
सुशर्माणमदिति सुप्रणीतिं स्वरित्रामनागसमस्रवन्तीं दैवीं नावमारुहेम तथा यूय-
मिमामारोहत ॥ ६ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु० मनुष्या यस्यां बहूनि गृहाणि बहूनि सा-
धनानि बहूनि रक्षणानि बहुविधः प्रकाशो बहवो विद्वांसश्च स्युस्तस्यामच्छिद्रायां
महद्भ्यां नावि स्थित्वा समुद्रादिजलाशयेष्ववारपारौ देशान्तरद्वीपान्तरौ च
गत्वाऽऽगत्य भूगोलस्थान् देशान् द्वीपांश्च विज्ञाय श्रीमन्तो भवन्तु ॥ ६ ॥

पदार्थः—हे शिल्पिजनो जैसे हम (स्वस्तये) सुख के लिये (सुत्रामाणम्) अच्छे रक्षण आदि से युक्त (पृथिवीम्) विस्तार और (द्याम्) शुभ प्रकाश वाली (अनेहमम्) अहिंसनीय (सुशर्माणम्) जिस में सुशोभित घर विद्यमान उस (अदितिम्) अखण्डित (सुप्रणीतिम्) बहुत राजा और प्रजाजनों की पूर्ण नीति से युक्त (स्वरित्राम्) वा जिस में बल्ली पर बल्ली लगी हैं उस (अनागसम्) अपराधरहित और (अस्रवन्तीम्) छिद्र रहित (दैवीम्) विद्वान् पुरुषों की (नावम्) प्रेरणा करने वाली नाव पर (आ, रुहेम्) चढ़ते हैं वैसे तुम लोग भी चढ़ो ॥ ६ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो जिस में बहुत घर, बहुत साधन, बहुत रक्षा करने हारे, अनेक प्रकार का प्रकाश और बहुत विद्वान् हों उस छिद्र रहित बड़ी नाव में स्थित होके समुद्र आदि जल के स्थानों में पारावार देशांतर और द्वीपांतर में जा आ के भूगोल में स्थित देश और द्वीपों को जान के लक्ष्मीवान् हों ॥ ६ ॥

सुनावमित्यस्य गयप्लातऋषिः । स्वर्ग्या नौर्देवता ।

यवमध्या गायत्री छन्दः । पङ्कजः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

सुनावमा रुहेयस्रवन्तीमनागसम् ।
शतारित्राश्च स्वस्तये ॥ ७ ॥

सुनावमिति सुनावम् । आ । रुहेयम् । अस्रवन्तीम् ।
अनागसम् । शतारित्रामिति शतऽत्ररित्राम् । स्वस्तये ॥ ७ ॥

पदार्थः—(सुनावम्) शोभनां सुनिर्मितां नावम् (आ) (रुहेयम्)
(अस्रवन्तीम्) छिद्रादिदोषरहिताम् (अनागमम्) निर्माणदोषरहिताम् (शता
रित्राम्) शतमरित्राणि यस्यास्ताम् (स्वस्तये) सुखाय ॥ ७ ॥

अन्वयः— हे मनुष्या यथाऽहं स्वस्तयेऽस्रवन्तीमनागसं शतारित्रां सु-
नावमारुहेयं तथास्यां यूयमप्यारोहत ॥ ७ ॥

भावार्थः— अत्र वाचकलु०—मनुष्या महतीर्नावः सुपरीक्ष्य तामु स्थि
त्वा समुद्रादिपारावारौ गच्छेयुः । यत्र बहून्यरित्रादीनि स्युस्ता नावोऽतीवोत्तमाः
स्युः ॥ ७ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे मैं (स्वस्तये) सुख के लिये (अस्रवन्तीम्) छि-
द्रादि दोष वा (अनागसम्) बनावट के दोषों से रहित (शतारित्राम्) अनेकों लंगर वा-
ली (सुनावम्) अच्छे वनी नावपर (आ,रुहेयम्) चढ़ूँ जैसे इस पर तुम भी चढ़ो ॥७॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०-मनुष्य लोग बड़ी नावों की अच्छे प्रकार प-
रीक्षा करके और उनमें स्थिर होके समुद्र आदि के पारावार जायें जिन में बहुत लंगर आदि
हों वे नावें अत्यन्त उत्तम हों ॥ ७ ॥

आ न इत्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते ।

निचृद् गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

आ नौ मित्रावरुणा घृतैर्गव्यू'तिमु-
क्षतम् । मध्वा रजांसि सुकृतू ॥ ८ ॥

आ । नः । मित्रावरुणा । घृतैः । गव्यूतिम् । उक्ष-
तम् । मध्वा । रजांसि । सुक्रतूऽइति सुऽक्रतू ॥ ८ ॥

पदार्थः— (आ) समन्तात् (नः) अस्माकम् (मित्रावरुणा) प्रा-
णोदानाविव (घृतैः) उदकैः (गव्यूतिम्) क्रोशद्वयम् (उन्नतम्) सिंचनम्
(मध्वा) मधुना जलेन (रजांसि) लोकान् (सुक्रतू) शोभनाः प्रज्ञाः कर्मा-
णि वा ययोस्तौ ॥ ८ ॥

अन्वयः—हे मित्रावरुणा प्राणोदानववर्त्तमानौ सुक्रतू शिल्पिनौ युवांवृत्तनौ
गव्यूतिमुन्नतमा मध्वा रजांस्युन्नतम् ॥ ८ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—यदि शिल्पिनौ यानानि जलादिना चा-
लयेयुस्तर्हि त ऊर्ध्वाऽधोमार्गेषु गन्तुं शक्नुयुः ॥ ८ ॥

पदार्थः—हे (मित्रावरुणा) प्राण और उदान वायु के समान प्रवृत्ते हो-
(सुक्रतू) शुभ बुद्धि वा उत्तम कर्मयुक्त शिल्पी लोगो तुम (घृतैः) जलों से (नः)
हमारे (गव्यूतिम्) दो कोश को (उन्नतम्) सेचन करो और (आ, मध्वा) सत्र और
से मधुर जल से (रजांसि) लोकों का सेचन करो ॥ ८ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु० — जो शिल्पी विद्या वाले लोग नाव आ-
दि को जल आदि मार्ग से चलावें तो वे ऊपर और नीचे मार्गों में जाने को समर्थ हों ॥८॥

प्रवाहवेत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । आग्निदेवता ।

त्रिष्टुप् छन्दः । ध्रुवतः स्वरः ॥

पुनर्विद्वद्विषयमाह ॥

फिर विद्वानों के वि० ॥

प्रवाहवा सिंसृतं जीवसे न आ नो
गव्यूतिमुक्षतं घृतेन । आ सां जने प्रव-
यतं युवाना श्रुतं मे मित्रावरुणा हव मा ॥८॥

प्र । बाहवा । सिंसृतम् । जीवसे । नः । आ । नः ।
गव्यूतिम् । उक्तम् । घृतेन । आ । मा । जने । श्रव-
यतम् । युवाना । श्रुतम् । मे । मित्रावरुणा । हवा ।
इमा ॥ ६ ॥

पदार्थः--(प्र) (बाहवा) बाहू इव । अत्र सुपां सुलुगित्याकारादेशः
(सिंसृतम्) प्राप्नुतम् (जीवसे) जीवितुम् (नः) अस्मान् (आ) (नः)
अस्माकम् (गव्यूतिम्) क्रोशयुग्मम् (उक्तम्) सिञ्चेताम् (घृतेन) जलेन (आ)
(मा) माम् (जने) (श्रवयतम्) श्रावयतम् । वृद्धयभावशब्दान्दसः (युवाना) युवानौ
मिश्रितामिश्रितयोः कर्तारौ (श्रुतम्) शृणुतम् (मे) मम (मित्रावरुणा) मित्र-
श्च वरुणश्च तौ (हवा) हवानि हवनानि (इमा) इमानि ॥ ६ ॥

अन्वयः--हे मित्रावरुणा बाहवा युवाना युवाः नो जीवसे मा प्रसिंसृतं
घृतेन नो गव्यूतिमोक्तं नानाकीर्तिमाश्रवयतं मे जन इमा हवा श्रुतम् ॥ ९ ॥

भावार्थः--अध्यापकोपदेष्टारौ प्राणोदानवत्सर्वेषां जीवनहेतू भवेतां
विद्योपदेशाभ्यां सर्वेषामात्मनो जलेन वृत्तानिव सिञ्चेताम् ॥ ९ ॥

पदार्थः--(मित्रावरुणा) मित्र और वरुण उत्तम जन (बाहवा) दोनों बाहु के
तुल्य (युवाना)-मिलाने और अलग करने हारे तुम (नः) हमारे (जीवसे) जीने के लिये
(मा) मुझ को (प्र, सिंसृतम्) प्राप्त होओ (घृतेन) जल से (नः) हमारे (गव्यूतिम्) दो
कोश पर्यन्त (आ, उक्तम्) सब ओर से सेचन करो । नाना प्रकार की कीर्ति को
(आ, श्रवयतम्) अच्छे प्रकार सुनाओ और (मे) मेरे (जने) मनुष्य गण में (इमा)
इन (हवा) वाद विवादों को श्रुतम्) सुनो ॥ ६ ॥

भावार्थः—अध्यापक और उपदेशक प्राण और उदान के समान गव के जीवन के कारण होंगे विद्या और उपदेश से सब के आत्माओं को जल से वृत्तों के समान सेचन करें ॥ ६ ॥

शमित्यस्यात्रेय ऋपिः । ऋत्विजो देवताः ।

भुरिक् पंक्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

शर्ना भवन्तु वाजिनो हवेषु देवताता
मितद्रवः स्वर्काः । जम्भयन्तोऽहिं वृकश्च
रक्षांसि सनेम्यस्मद्यु यवन्नमीवाः ॥१०॥

शम् । नः । भवन्तु । वाजिनः । हवेषु । देवताते-
ति देवऽताता । मितद्रव इति मितऽद्रवः । स्वर्काऽइति
सुऽअर्काः । जम्भयन्तः । अहिम् । वृकम् । रक्षांसि-
सि । सनेमि । अस्मत् । युयवन् । अमीवाः ॥ १० ॥

पदार्थः--(शम्) सुखकारकाः (नः) अस्मभ्यम् (भवन्तु) (वाजिनः)
प्रशस्तविज्ञानयुक्ताः (हवेषु) दानाऽदानेषु (देवताता) देवता विद्वांस इव वर्त्त-
मानाः (मितद्रवः) ये मितं द्रवन्ति ते (स्वर्काः) सुध्वर्काअन्नानि वज्रो वा
येषान्ते (जम्भयन्तः) विनाशयन्तः (अहिम्) मेघं सूर्य इव (वृकम्) स्तेनम्
(रक्षांसि) दुष्टान् जीवान् (सनेमि) सनातनं पुराणम् । सनेमि इति पुराण-
नाम निघं० ३ । २७ (अस्मत्) (युयवन्) पृथक्कुर्वन्तु (अमीवाः) रोगान् ॥ १० ॥

अन्वयः—हे स्वर्का मितद्रवो देवताता वाजिनो हवेपु विद्वांसो भवन्तोऽहिं सूर्य इव वृकं रक्षांसि च जम्भयन्तो नः सनेमि शं भवन्तु । अस्मदमीवा युयवन् ॥ १० ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—यथा सूर्योन्धकारं निवर्त्त्य सर्वान् सुखयति तथा विद्वांसः प्राणिनां सर्वान् शरीरात्मरोगान् निवार्यान्न्दयेयुः ॥ १० ॥

पदार्थः—हे (स्वर्काः) अच्छे अन्न वा वज्रसे युक्त और । मितद्रवः) प्रमाणित चलने और देवताता) विद्वानों के समान वर्तने हारे । वाजिनः) अति उत्तम विज्ञान से युक्त (हवेपु) लेने देने में चतुर आप लोग (अहिम्) मेघ को सूर्य के समान (वृकम्) चोर और (रक्षांसि , दुष्ट जीवों का (जम्भयन्तः) विनाश करते हुए (नः , हमारे लिये (सनेमि) सनातन (शम् सुख करने हारे (भवन्तु) होओ और (अस्मत्) हमारे (अमीवाः) रोगों को (युयवन्) दूर करो ॥ १० ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—जैसे सूर्य अन्धकार को हटा के सब को सुखी करता है वैसे विद्वान् लोग प्राणियों के शरीर और आत्मा के सब रोगों को निवृत्त करके आनन्द युक्त करें ॥ १० ॥

वाजेवाज इत्यस्य आत्रेय ऋषिः । विद्वांसो देवताः ।

निवृत्तं त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को अगले मंत्र में ॥

वाजेवाजेऽवत वाजिनो नो धनेषु विप्रा
अमता ऋतज्ञाः । अस्य सध्वः पिबत सा-
दर्यध्वं तृप्ता यात पृथिभिर्देवयानैः ॥११॥

यजुर्वेदभाष्ये

वाजेवाजऽइतिवाजेऽवाजे । अवत । वाजिनः । नः ।
 धनेषु । विप्राः । अमृताः । ऋतज्ञाऽइत्यृतज्ञाः । अ-
 स्य । मध्वः । पिबत । मादयध्वम् । तृप्ताः । यात ।
 पथिभिरिति पथिभिः । देवऽयानै रिति देवऽयानैः
 ॥ ११ ॥

पदार्थः—(वाजेवाजे) युद्धे युद्धे (अवत) रक्षत (वाजिनः) विज्ञा
 नवन्तः (नः) अस्मान् (धनेषु) (विप्राः) मेधाविनः (अमृताः) आत्मस्व
 रूपेण नित्याः (ऋतज्ञाः) य ऋतं सत्यं जानन्ति ते (अस्य) (मध्वः)
 मधुरस्य रसस्य । अत्र कर्मणि षष्ठी (पिबत) (मादयध्वम्) आनन्दयत (तृ-
 साः) प्रीताः (यात) गच्छत (पथिभिः) (देवयानैः) देवा विद्वांसो यान्ति
 येषु तैः ॥ ११ ॥

अन्वयः—हे अमृता ऋतज्ञा वाजिनो विप्रा यूयं वाजेवाजे धनेषु नोऽ-
 वतास्य मध्वः पिबत तेन मादयध्वमनेन तृप्ताः सन्तो देवयानैः पथिभिर्याति
 ॥ ११ ॥

भावार्थः—यथा विद्वांसो विद्यादानोपदेशाभ्यां सर्वान् सुखयन्ति तथैव
 राजपुरुषा रक्षाऽभयदानाभ्यां सर्वान् सुखयन्तु । धर्म्यमार्गेषु गच्छन्तोऽर्थकाम-
 मोक्षान् प्राप्नुवन्तु ॥ ११ ॥

पदार्थः—हे (अमृताः) आत्मस्वरूप से अविनाशी (ऋतज्ञाः) सत्यके जा-
 नने हारे (वाजिनः) विज्ञान वाले (विप्राः) बुद्धिमान् लोगो तुम (वाजेवाजे) युद्ध
 युद्ध में और (धनेषु) धनों में (नः) हमारी (अवत) रक्षा करो और (अस्य) इस
 (मध्वः) मधुर रस का (पिबत) पान करो और उस से (मादयध्वम्) विशेष आनन्द
 को प्राप्त होओ और इस से (तृप्ताः) (तृप्त हो के) (देवयानैः) विद्वानों के जाने योग्य
 (पथिभिः) मार्गों से (यात) जाओ ॥ ११ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—विद्वांसो विद्यया सर्वेषामात्मनः प्रकाशय

सर्वान् जितेन्द्रियान् कृत्वा दीर्घायुषः सम्पादयन्तु ॥ १२ ॥

पदार्थः—जैसे (समिद्धः) अच्छे प्रकार देदीप्यमान (अग्निः) आग्नि, (स-

मिधा) उत्तम प्रकाश से (सुसमिद्धः) बहुत प्रकाशमान सूर्य (वरेण्यः) अंगीकार करने योग्य जन और (गायत्री, छन्दः) गायत्री छन्द (इन्द्रियम्) मन को प्राप्त होता है और जैसे (व्यविः) शरीर, इन्द्रिय, आत्मा, इन तीनों की रक्षा करने और (गाँः) स्तुति प्रशंसा करने हारा जन (वयः) जीवन को धारण करता है वैसे विद्वान् लोग (दधुः) धारण करें ॥ १२ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—विद्वान् लोग विद्या से सब के आत्माओं को प्रकाशित और सब को जितेन्द्रिय करके पुरुषों को दीर्घ आयु वाले करें ॥ १२ ॥

तनूनपादित्यस्य स्वस्त्यात्रेयश्चपिः । विद्वांसो देवताः ।

अनुष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

तनूनपाच्चुचिर्व्रतस्तनूपाश्च सरस्वती ।
उष्णिहा छन्द इन्द्रियं दित्यवाङ्गौर्वयो
दधुः ॥ १३ ॥

तनूनपादिति तनूऽनपात् । शुचिर्व्रतः । तनूपाऽइति
तनूऽपाः । च । सरस्वती । उष्णिहा । छन्दः । इन्द्रियम् ।
दित्यवाङिति दित्यऽवाट् । गौः । वयः । दधुः ॥ १३ ॥

पदार्थः—(तनूनपात्) यस्तनू न पातयति सः (शुचिव्रतः) पवित्र-
धर्माचरणशीलः (तनूपाः) यस्तनूः पाति (च) (सरस्वती) वाणी

(उष्णिहा) (छन्दः) (इन्द्रियम्) इन्द्रस्य जीवस्य लिङ्गम् (दित्यवाद्)
दितये हितं वहति (गौः) स्तोता (वयः) कामनाम् (दधुः) ॥ १३ ॥

अन्वयः—यथा शुचित्रतस्तनूनपात्तनूपाः सरस्वती चोष्णिहा छन्द इ-
न्द्रियं दधाति यथा च दित्यवाद्गौर्वयो वर्धयति तथैतत्सर्वं विद्वांसो दधुः ॥१३॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—ये पवित्राचरणा येषां वाणी विद्या मुशि-
क्षायुक्तास्ति ते पूर्णं जीवनं धातुमर्हन्ति ॥ १३ ॥

पदार्थः— जैसे (शुचित्रतः) पवित्र धर्म के आचरण करने (तनूनपात्)
शरीर को पड़ने न देने (तनूपाः) किन्तु शरीर की रक्षा करने हारा (च) और (सर-
स्वती) वाणी तथा (उष्णिहा उष्णिह (छन्दः) छन्द (इन्द्रियम्) जीव के चिन्ह को
धारण करता है वा जैसे (दित्यवाद्) खंडनीय पदार्थों के लिये हित प्राप्त कराने और
(गौः) स्तुति करने हारा जन (वयः) इच्छा को बढ़ाता है वैसे इन सब को विद्वान्
लोग (दधुः) धारण करें ॥ १३ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—जो लोग पवित्र आचरण वाले हैं और जि-
न की वाणी विद्याओं में मुशिक्षा पाई हुई है वे पूर्ण जीवन के धारण करने को योग्य
हैं ॥ १३ ॥

इडाभिरित्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । विद्वांसो देवताः ।

विराडनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

इडाभिरग्निरीड्यः सोमो देवोऽ-
अमर्त्यः । अनुष्टुप् छन्द इन्द्रियं
पञ्चाविर्गौर्वयो दधुः ॥ १४ ॥

इडाभिः । अग्निः । ईड्यः । सोमः । देवः । अमर्त्यः ।
 अनुष्टुप् । अनुस्तुवित्पनुस्तुप् । छन्दः । इन्द्रियम् ।
 पञ्चाविरिति पञ्चऽअविः । गौः । वयः । दधुः ॥ १४ ॥

पदार्थः— (इडाभिः) (अग्निः) पात्रक इव (ईड्यः) स्तुत्योऽध्यन्वप-
 णीयः (सोमः) ऐश्वर्यवान् (देवः) दिव्यगुणः (अमर्त्यः) स्वस्वरूपेण मृ-
 त्युरहितः (अनुष्टुप्) (छन्दः) (इन्द्रियम्) ज्ञानादिव्यवहारसाधकम् (पञ्-
 चाविः) यः पञ्चभिरव्यते रक्ष्यते सः (गौः) विद्यया स्तोतव्यः (वयः) तृप्तिम्
 (दधुः) दधुः ॥ १४ ॥

अन्वयः—यथाऽग्निरमर्त्यः सोम ईड्यो देवः पञ्चाविर्गौविद्वानिडाभिर-
 नुष्टुप् छन्द इन्द्रियं वयश्च दध्यात्तथैतत्सर्वे दधुः ॥ १४ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलुः— ये धर्मेण विद्यैश्वर्यं प्राप्नुवन्ति ते सर्वाम्
 मनुष्यानेते प्रापयितुं शक्नुवन्ति ॥ १४ ॥

पदार्थः—जैसे (अग्निः) अग्नि के समान प्रकाशमान (अमर्त्यः) अपने स्वरूप से
 नाश रहित (सोमः) ऐश्वर्यवान् (ईड्यः) स्तुति करने वा खोजने के योग्य (देवः)
 दिव्य गुणी (पञ्चाविः) पांच से रक्षा को प्राप्त (गौः) विद्या से स्तुति के योग्य विद्वान्
 पुरुष (इडाभिः) प्रशंसाओं से (अनुष्टुप्, छन्दः) अनुष्टुप् छन्द (इन्द्रियम्) ज्ञान
 आदि व्यवहार को सिद्ध करने हारे मन और (वयः) तृप्ति को धारण करे जैसे इस को
 सब (दधुः) धारण करें ॥ १४ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलुः— जो लोग धर्म से विद्या और ऐश्वर्य को
 प्राप्त होते हैं वे सब मनुष्यों को विद्या और ऐश्वर्य प्राप्त करा सकते हैं ॥ १४ ॥

सुबर्हिरित्यस्यस्वस्त्यात्रेय ऋषिः । विद्वांसो देवताः ।

निबृदनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

सुबर्हिरग्निः पूषण्वान्त्स्तीर्णबर्हि र-
मर्त्यः । बृहती छन्द इन्द्रियं त्रिवत्सो
गौर्वयो दधुः ॥ १५ ॥

सुबर्हिरिति सुबर्हिः । अग्निः । पूषण्वानिति पूष-
ण्वान् । स्तीर्णबर्हिरिति स्तीर्णबर्हिः । अमर्त्यः ।
बृहती । छन्दः । इन्द्रियम् । त्रिवत्सः इति त्रिवत्सः ।
गौः । वयः । दधुः ॥ १५ ॥

पदार्थः—(सुबर्हिः) सुशोभनं बर्हिरन्तरिक्षं यस्मात् सः (अग्निः)
पावकः (पूषण्वान्) पूषाणः पुष्टिकरा गुणा विद्यन्ते यस्मिन् (स्तीर्णबर्हिः)
स्तीर्णं बर्हिरन्तरिक्षं येन सः (अमर्त्यः) स्वस्वरूपेण मृत्युधर्मरहितः (बृहती)
(छन्दः) (इन्द्रियम्) (त्रिवत्सः) त्रीणि देहेन्द्रियमनांसि वत्सा इवानुचराणि
यस्य सः (गौः) धेनुः (वयः) येन व्येति व्याप्नोति तत् (दधुः)
दधुः ॥ १५ ॥

अन्वयः—यथा पूषण्वान् स्तीर्णबर्हिरमर्त्यः सुबर्हिरग्निरिव जना बृहती
छन्दश्चेन्द्रियं दध्यात् त्रिवत्सो गौरिव वयोदध्यात् तथैतद् दधुः ॥ १५ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकत्वं—यथाग्निरन्तरिक्षे चरति तथा कूलो विद्वांसः
मूर्धनिराकारपदार्थविध्यायां चरन्ति यथा गोरनु वत्सो भवति तथा विद्वदनुकूला
अविद्वांसश्चरन्तिन्द्रियाणि च वशमानयेयुः ॥ १५ ॥

पदार्थः--जैसे (पूषणान्) पुष्टि करने हारे गुणों से युक्त (स्तीर्णवर्हिः) आकाश को व्याप्त होने वाला । अमर्त्यः) अपने स्वरूप से नाश रहित (गुर्वर्हिः) आकाश को शुद्ध करने हारा (अग्निः) अग्नि के समान जन और (वृहती) वृहती (छन्दः) छन्द (इन्द्रियम्) जीव के चिन्ह को धारण करें और (त्रिवत्सः) त्रिवत्स अर्थात् देह इन्द्रिय, मन, जिस के अनुगामी वह (गौः) गौ के समान मनुष्य (वयः) वृषि को प्राप्त करें जैसे इस को सब लोग दधुः) धारण करें ॥ १५ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—जैसे अग्नि शान्तरिक्ष में चलता है जैसे विद्वान् लोग सूक्ष्म और निराकार पदार्थों की विद्या में चलते हैं जैसे गाय के पीछे बछड़ा चलता है जैसे अविद्वान् जन विद्वानों के पीछे चला करें और अपनी इन्द्रियों को वश में लावें ॥ १५ ॥

दुरो देवीरित्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । विद्वांसो देवताः ।

अनुष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

अथ वायुप्रभृतिपदार्थप्रयोजनमुपदिश्यते

अथ वायु आदि पदार्थों के प्रयोजन वि० ॥

दुरो देवीर्दिशो महीर्ब्रह्मा देवो बृ-
हस्पतिः । पृक्तिश्छन्द इहेन्द्रियं तुर्य-
वाड् गौर्वयो दधुः ॥ १६ ॥

दुरः । देवीः । दिशः । महीः । ब्रह्मा । बृहस्पतिः ।
पृक्तिः । छन्दः । इह । इन्द्रियम् । तुर्यवाडिति तुर्यवाट् ।
गौः । वयः । दधुः ॥ १६ ॥

पदार्थः—(दुरः) द्वाराणि (देवीः) देदीप्यमानां (दिशः) (महीः) महत्यः (ब्रह्मा) (देवः) देदीप्यमानः बृहस्पतिः) बृहतां पालकः सूर्यः (पङ्क्तिः) (छन्दः) (इह) (इन्द्रियम्) धनम् (तुर्यवाद्) यस्तुर्त्यं चतुर्थं वहति प्राप्नोति सः (गौः) धेनुः (वयः) जीवनम् (दधुः) दधीरन् ॥ १६ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यथेह देवीर्महीर्दुरोदिशो ब्रह्मा देवो बृहस्पतिः पङ्क्तिश्छन्द इन्द्रियं तुर्यवाद् गौर्वयश्च दधुस्तथा यूयमपि धरत ॥ १६ ॥

भावार्थः—नहि कश्चिदप्यन्तरिक्षस्थवाय्वादिभिर्विना जीवितुं शक्नोति ॥ १६ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (इह) यहां (देवीः) देदीप्यमान (महीः) बड़े (दुरः) द्वारे (दिशः) दिशाओं को (ब्रह्मा) अन्तरिक्षस्थ पवन (देवः) प्रकाशमान (बृहस्पतिः) बड़ों का पालन करने हारा सूर्य और (पङ्क्तिश्छन्दः) पङ्क्ति छन्द (इन्द्रियम्) धन तथा (तुर्यवाद्) चौथे को प्राप्त होने वाली (गौः) गाय (वयः) जीवन (दधुः) को धारण करें वैसे तुम लोग भी जीवन को धारण करो ॥ १६ ॥

भावार्थः—कोई भी प्राणी अन्तरिक्षस्थ पवन आदि के बिना नहीं जी सकता ॥ १६ ॥

उप इत्यस्यस्वस्त्यात्रेय ऋषिः । विश्वे देवा देवताः ।

निचृदनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

उषे य॒ह्वी सु॒पेश॑सा विश्वे दे॒वा अम॑-
त्याः । त्रि॒ष्टुप् छन्द॑ इ॒हेन्द्रि॑यं प॒ण्ठवा॑द्
गौर्वयौ दधुः ॥ १७ ॥

उषेऽइत्युषे । यद्द्वीऽइति यद्द्वी । सुपेशसेति सुपेश-
सा । विश्वे । देवाः । अमर्त्याः । त्रिष्टुप् । त्रिस्तुविति त्रिऽ
स्तुप् । छन्दः । इह । इन्द्रियम् । पृष्ठवाडिति पृष्ठऽ-
वाद् । गौः । वयः । दधुः ॥ १७ ॥

पदार्थः—(उषे) दहनकर्त्र्याविव स्त्रियो (यद्द्वी) महती महत्या
(सुपेशसा) सुष्ठु पेशो रूपं ययोस्तावध्यापिकोपदेशिके विभक्तेरात्वम् (विश्वे)
सर्वे (देवाः) देदीप्यमानाः पृथिव्यादयः (अमर्त्याः) तत्त्वस्वरूपेण नित्याः
(त्रिष्टुप्) (छन्दः) (इह) अस्मिन् संसारे (इन्द्रियम्) धनम् (पृष्ठवाद्)
यः पृष्ठेन पृष्ठेन वहति सः । इदं पृपोदरादिना सिद्धम् (गौः) वृषभः (वयः)
प्रजननम् (दधुः) दधुः ॥ १७ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यथेह सुपेशसोपे यद्द्वी अमर्त्या विश्वे देवा त्रि-
ष्टुप् छन्दः पृष्ठवाद्गौर्वयइन्द्रियं दधुस्तथा यूयमप्याचरत ॥ १७ ॥

भावार्थः—यथा पृथिव्यादयः पदार्थाः परोपकारिणः सन्ति । तथाऽत्र
मनुष्यैर्भविष्यम् ॥ १७ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (इह , इस जगत् में) (सुपेशसा) सुन्दर रूपयुक्त
पढ़ाने और उपदेश करने वाली (यद्द्वी) बड़ी (उषे) दहन करने वाली प्रभात बेला
के समान दां स्त्री (अमर्त्याः) तत्त्वस्वरूप से नित्य (विश्वे) सब (देवाः) देदीप्यमान
पृथ्वी आदि लोक (त्रिष्टुप्छन्दः) त्रिष्टुप्छन्द और (पृष्ठवाद्) पीठ से उठाने वाला
(गौः) बैल (वयः) उत्पात्ति और (इन्द्रियम्) धन को धारण करते हैं वैसे (दधुः)
तुम लोग भी आचरण करो ॥ १७ ॥

भावार्थः—जैसे पृथ्वी आदि पदार्थ परोपकारी हैं वैसे इस जगत् में मनुष्यों को होना चाहिये ॥ १७ ॥

दैव्येत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । विश्वे देवा देवताः ।

निचृदनुष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

अथ भिषग्वदितरैराचरितव्यमित्युपदिश्यते ॥

अब अगले मंत्र में वैद्य के तुल्य अन्वियों को आचरण करना चाहिये इस वि० ॥

दैव्या होता'रा भिषजेन्द्रे'ण सयुजा'
युजा । जगती छन्द इन्द्रियमनुद्वा'न
गौर्वयो दधुः ॥ १८ ॥

दैव्या । होतारा । भिषजा । इन्द्रेणा । सयुजेति सयु-
युजा । युजा । जगती । छन्दः । इन्द्रियम् । अनुद्वान् ।
गौः । वयः । दधुः ॥ १८ ॥

पदार्थः (दैव्या) देवेषु विद्वत्सु कुशलौ (होतारौ) दातारौ (भिषजा)
सद्वैद्यौ (इन्द्रेण) ऐश्वर्येण (सयुजा) यौ समानं युङ्क्तस्तौ (युजा)
समाहितौ (जगती) (छन्दः) (इन्द्रियम्) धनम् (अनुद्वान्) वृषभः (गौः)
(वयः) कमनीयम् (दधुः) दधुः ॥ १८ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यथेन्द्रेण सयुजा युजा दैव्या होतारा भिषजाऽनुद्वान्
गौर्जगतीछन्दश्च वय इन्द्रियं दधुस्तथैतद्भवन्तो दधीरन् ॥ १८ ॥

भावार्थः—अत्रवाचकलु० यथावैद्यैः स्वेषां परेषां च रोगान्निवार्य स्वैऽन्ये
चैश्वर्यवन्तः क्रियन्ते तथा सर्वैर्मनुष्यैर्वर्तितव्यम् ॥ १८ ॥

पदार्थः— हे मनुष्य लोगो जैसे (इन्द्रेण) ऐश्वर्य से (सयुजा) ओषधि आदि का तुल्य योग करनेहारे (युजा) सावधान चित्त हुए (दैव्या) विद्वानों में निपुण (हो-तारा) विद्यादि के देने वाले (भिषजा) उत्तम दो वैद्य लोग (अनङ्गान्) बैल (गौः) गाय और (जगती छन्दः) जगती छन्द (वयः) सुन्दर (इन्द्रियम्) धन को (दधुः) धारण करें जैसे इस को तुम लोग धारण करो ॥ १८ ॥

भावार्थः— इस मंत्र में वाचकलु०— जैसे वैद्यों से अपने और दूसरों के रोग मिटा के अपने आप और दूसरे ऐश्वर्यवान् किये जाते हैं जैसे सब मनुष्यों को वर्तना चाहिये ॥ १८ ॥

तिस्र इत्स्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । विश्वे देवा देवताः ।

अनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनर्विद्वद्विषयमाह ॥

फिर विद्वानों के वि० ॥

ति॒स्र इ॒डा सर॑स्वती भार॑ती म॒रुतो॒ विशः॑ ।

वि॒राट् छ॒न्द इ॒हेन्द्रि॒यं धे॒नुर्गौ॑र्न व॒र्यो द॒धुः॑ १८

तिस्रः । इडा । सरस्वती । भारती । मरुतः । विशः ।

विराडिति विराट् । छन्दः । इह । इन्द्रियम् । धेनुः । गौः ।

न । वर्यः । दधुः ॥ १८ ॥

पदार्थः— (तिस्रः) त्रित्वसंख्यावत्यः (इडा) भूमिः (सरस्वती) वाणी (भारती) धारणावली प्रज्ञा (मरुतः) वायवः (विशः) मनुष्याद्याः प्रजाः (विराट्) यद्विविधं राजते तत् (छन्दः) बलम् (इह) अस्मिन् संसारे (इन्द्रियम्) धनम् (धेनुः) या धापयति सा (गौः) (न) इव (वर्यः) प्राप्तव्यं वस्तु (दधुः) दध्युः ॥ १९ ॥

अन्वयः—यथेहेडा सरस्वती भारती च तिस्रो मरुतो विशो विराद् छन्द
इन्द्रियं धेनुर्गौर्न वयश्च दधुस्तथा सर्वे मनुष्या एतद्धृत्वा वर्तेरन् ॥ १९ ॥

भावार्थ—अत्रोपमावाचकलु०— यथा विद्वांसः सुशिक्षितयावाचा विं-
द्यया प्राणैः पशुभिश्चैश्वर्यं लभन्ते तथाऽन्यैर्लब्धव्यम् ॥ १९ ॥

पदार्थः—जैसे (इह) इस जगत् में (इडा) पृथ्वी (सरस्वती) वाणी और
(भारती) धारणा वाली बुद्धि ये (तिस्रः) तीन (मरुतः) पवनगण (विशः , म-
नुष्य आदि प्रजा (विराद्) तथा अनेक प्रकार से देदीप्यमान (छन्दः) बल (इन्द्रि-
यम्) धन को और (धेनुः) पान कराने हारी (गौः) गाय के (नः) समान (वयः)
प्राप्त होने योग्य वस्तु को (दधुः) धारण करें जैसे सब मनुष्य लोग इस को धारण
करके वर्त्ताव-करें ॥ १९ ॥

भावार्थ—इस मंत्र में उपमावाचकलु० — जैसे :विद्वान् लोग सुशिक्षित
वाणी, विद्य, प्राण और पशुओं से ऐश्वर्य्य को प्राप्त होते हैं जैसे अन्य सब को प्राप्त
होना चाहिये ॥ १९ ॥

त्वष्टेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः विश्वे देवा देवताः ।

अनुष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

त्वष्टा तुरीपोऽद्भुत इन्द्राग्नीषु-
ष्टिवर्धना । द्विपदा छन्द इन्द्रियमुक्षा
गौर्न वयो दधुः ॥ २० ॥

त्वष्टा । तुरीपः । अद्भुतः । इन्द्राग्नीऽइति इन्द्राग्नी ।
पुष्टिवर्धनेति पुष्टिऽवर्धना । द्विपदेति द्विऽपदा । छन्दः
इन्द्रियम् । उक्षा । गौः । न । वयः । दधुः ॥ २० ॥

पदार्थः—(त्वष्टा) तनूकर्त्ता (तुरीपः) तूर्णमाप्नोति सः (अद्भुतः)
 आश्चर्यगुणकर्मस्वभावः (इन्द्राग्नी (इन्द्रश्चाग्निश्च तौ वायवग्नी (पुष्टिवर्धना)
 यौ पुष्टिं वर्धयतस्तौ (द्विपदा) द्वौ पादौ यस्यां सा (छन्दः) (इन्द्रियम्)
 श्रोत्रादिकम् (उक्षा) सेचनसमर्थः (गौः) (न) इव (वयः) जीवनम् (दधुः)
 धरेयुः ॥ २० ॥

अन्वयः—हे मनुष्या येऽद्भुतस्तुरीपस्त्वष्टा पुष्टिवर्धनेन्द्राग्नी द्विपदा छन्द
 इन्द्रियमुक्षा गौर्न वयो दधुस्तान् विजानीत ॥ २० ॥

भावार्थः—अत्रोपमालं०—यथा प्रसिद्धोऽग्निर्विद्युज्जाटरो वडवानल
 एते चत्वारः प्राण इन्द्रियाणि गवादयः पशवश्च सर्वस्य जगतः पुष्टिं कुर्वन्ति
 तथैव मनुष्यैर्ब्रह्मचर्यादिना स्वस्य परेषां च बलं वर्द्धनीयम् ॥ २० ॥

पदार्थः—हे मनुष्य लोगो जो (अद्भुतः) आश्चर्य्य गुणकर्मस्वभावयुक्त (तु-
 रीपः) शीघ्र प्राप्त होने (त्वष्टा) और सूक्ष्म करने हारे तथा (पुष्टिवर्द्धना) पुष्टि को
 बढ़ाने हारे (इन्द्राग्नी) पवन और अग्नि दोनों और (द्विपदा) दो पाद वाले (छन्दः)
 छन्द (इन्द्रियम्) श्रोत्र आदि इन्द्रिय को तथा (उक्षा) सेचन करने में समर्थ (गौः)
 बैल के (न) समान (वयः) जीवन को (दधुः) धारण करें उन को जानो ॥ २० ॥

भावार्थः—इस मंत्र में उपमालं०—जैसे प्रसिद्ध अग्नि, विजुली, पेट में का
 अग्नि, वडवानल, ये चार और प्राण इन्द्रियां तथा गाय आदि पशु सब जगत् की पु-
 ष्टि करते हैं वैसे ही मनुष्यों को ब्रह्मचर्य्य आदि से अपना और दूसरों का बल बढ़ाना
 चाहिये ॥ २० ॥

शमितेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः ।

अनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनः प्रजाविषयमाह ॥

फिर प्रजाविषय को अगले मंत्र में कहते हैं ॥

शमिता नो वनस्पतिः सविता प्रसु-
वन्भर्गम् । ककुप्छन्द इहेन्द्रियं वशा
वेहद्वर्यो दधुः ॥ २१ ॥

शमिता । नः । वनस्पतिः । सविता । प्रसुवन्निति
प्रसुवन् । भर्गम् । ककुप् । छन्दः । इह । इन्द्रियम् ।
वशा । वेहत् । वर्यः । दधुः ॥ २१ ॥

पदार्थः—(शमिता) शान्तिप्रदः (नः) अस्माकम् (वनस्पतिः) ओष-
धिराजो वृक्षाणां पालकरच (सविता) सूर्यः (प्रसुवन्) उत्पादयन् (भ-
गम्) धनम् (ककुप्) (छन्दः) (इह) संसारे (इन्द्रियम्) जीवलिङ्गम्
(वशा) अपसूता (वेहत्) या प्रसवं विहन्ति सा (वर्यः) व्याप्तव्यम्
(दधुः) ॥ २१ ॥

अन्वयः— हे मनुष्या यः शमिता वनस्पतिः सविता भर्गं प्रसुवन् ककुप्
छन्द इन्द्रियं वशा वेहच्चेह नो वयो दधुस्तान् यूयं विज्ञायोपकुरुत ॥ २१ ॥

भावार्थः—येन मनुष्येण सर्वरोगप्रणाशिका ओषधय आवरकाण्युत्त-
मानि वस्त्राणि च सेव्यन्ते स चिरंजीवी भवति ॥ २१ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (शमिता) शान्ति देने हारा (वनस्पतिः) ओषधियों का राजा वा वृक्षों का पालक (सविता) सूर्य (भगम्) धन को (प्रमुवन्) उत्पन्न करता हुआ (ककुप्) ककुप् (छन्दः) छन्द और (इन्द्रियम्) जीव के चिन्ह को तथा (वशा जिस के संतान नहीं हुआ और (वेहत्) जो गर्भ को गिराती है वह (इह) इस जगन् में (नः) हमारे (वयः) प्राप्त होने योग्य वस्तु को (दधुः) धारण करे उस को तुम लोग जान के उपकार करो ॥ २१ ॥

भावार्थः—जिस मनुष्य से सर्वरोग की नाशक ओषधियां और टांकने वाले उत्तम वस्त्र सेवन किये जाते हैं वह बहुत वर्षों तक जी सकता है ॥ २१ ॥

स्वाहेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । विद्वांसो देवताः ।

अनुष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनस्तमेवविषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

स्वाहा यज्ञं वरुणाः सुक्षत्रो भेषजं
करत् । अतिच्छन्दा इन्द्रियं बृहदृषभो
गौर्वर्यो दधुः ॥ २२ ॥

स्वाहा । यज्ञम् । वरुणाः । सुक्षत्रञ्छ्रितिं सुक्षत्रः ।
भेषजम् । करत् । अतिच्छन्दा इत्यतिच्छन्दाः । इन्द्रि-
यम् । बृहत् । ऋषभः । गौः । वर्यः । दधुः ॥ २२ ॥

पदार्थः—(स्वाहा) सत्यया क्रियया (यज्ञम्) संगतिमयम् (वरुणाः)
श्रेष्ठः (सुक्षत्रः) शोभनं क्षत्रं धनं यस्य सः । क्षत्रमिति धनना० निघं० २ ।
(भेषजम्) औषधम् (करत्) कुर्वात् (अतिच्छन्दाः) (इन्द्रियम्) ऐश्वर्यम्
(बृहत्) महत् (ऋषभः) श्रेष्ठः (गौः) (वयः) कर्मनीयं निजव्यवहारम्
(दधुः) धरेयुः ॥ २२ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यूयं यथा वरुणः सुक्षत्रः स्वाहा यज्ञं भेषजं च क-
रथोऽतिछन्दाः ऋषभो गौर्वृहदिन्द्रियं वयश्च धत्तस्तथैव सर्वे दधुरेतज्जानीत
॥ २२ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—ये सुपथ्यौषधसेवनेन रोगान् हरन्ति पुरु-
षार्थेन धनमायुश्च धरन्ति तेऽतुलं सुखं लभन्ते ॥ २२ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो तुम जैसे (वरुणः) श्रेष्ठ (सुक्षत्रः) उत्तम धनवान्
जन (स्वाहा) सत्य क्रिया से (यज्ञम्) संगममय (भेषजम्) औषध को (करत्)
करे और जो (अतिछन्दाः) अतिछन्द और (ऋषभः) उत्तम (गौः) बैल (वृहत्)
बहे (इन्द्रियम्) ऐश्वर्य और (वयः) सुन्दर अपने व्यवहार को धारण करते हैं वैसे
ही सब (दधुः) धारण करें इस को जानो ॥ २२ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—जो लोग अच्छे पथ्य और औषध के
सेवन से रोगों का नाश करते हैं और पुरुषार्थ से धन तथा आयु का धारण करते हैं
वे बहुत सुख को प्राप्त होते हैं ॥ २२ ॥

वसन्तेनेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । रुद्रा देवताः ।

भुरिगनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

वसन्तेन ऋतुना देवा वसवस्त्रि-
वृता स्तुताः । रथन्तरेण तेजसा हवि-
रिन्द्रे वयो दधुः ॥ २३ ॥

वसन्तेन ऋतुना । देवाः । वसवः । त्रिवृतेति त्रिऽ-
वृता । स्तुताः । रथन्तरेणोति रथम्ऽतरेणा । तेजसा ।
हविः । इन्द्रे । वयोः । दधुः ॥ २३ ॥

पदार्थः—(वसन्तेन) वसन्ति सुखेन यस्मिन्स्तेन (ऋतुना) प्राप्तव्येन (देवाः) दिव्याः (वसवः) पृथिव्यादयोऽर्षो प्राथमकल्पिका विष्वांसो वा (त्रिवृता) यास्त्रिषु कालेषु वर्तते तेन (स्तुताः) प्राप्तस्तुतयः (रथन्तरेण) यत्र रथेन तरति तत् तेन (तेजसा) तीक्ष्णस्वरूपेण (हविः) दानव्यं वस्तु (इन्द्रे) सूर्यप्रकाशे (वयः) आयुर्वर्धकम् (दधुः) ॥ २३ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या ये वसवो देवा स्तुतास्त्रिवृता वसन्तेनर्तुना सह वर्तमाना रथन्तरेण तेजसेन्द्रे हविर्वयो दधुस्तान् स्वरूपतो विज्ञाय संगच्छद्भम् ॥२३॥

भावार्थः—ये मनुष्या वासेहतून दिव्यान पृथिव्यादीन् विदुषां वा वसन्ते संगच्छेरस्ते वासन्तिकं सुखं प्राप्स्युः ॥ २३ ॥

पदार्थः— हे मनुष्यो जो (वसवः) पृथिवी आदि आठ वसु वा प्रथम कक्षा वाले विद्वान् लोग (देवाः) दिव्य गुणों से युक्त (स्तुताः) स्तुति को प्राप्त हुए (त्रिवृता) तीनों कालों में विद्यमान (वसन्तेन) जिस में सुख से रहते हैं उस प्राप्त होने योग्य वसन्त (ऋतुना) ऋतु के साथ वर्तमान हुए (रथन्तरेण) जहां रथ से तरते हैं उस (तेजसा) तीक्ष्ण स्वरूप से (इन्द्रे) सूर्य के प्रकाश में (हविः) देने योग्य (वयः) आयु बढ़ाने हारे वस्तु को (दधुः) धारण करें उन को स्वरूप से जान कर सगति करो ॥ २३ ॥

भावार्थः—जो मनुष्य लोग रहने के हेतु दिव्य पृथ्वी आदि लोकों वा विद्वानों की वसन्त में सङ्गति करें वे वसन्त संबंधी सुख को प्राप्त हों ॥ २३ ॥

ग्रीष्मेणेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । विश्वे देवा देवताः ।

अनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

मध्यमब्रह्मचर्याविषयमाह ॥

मध्यम ब्रह्मचर्यं वि० ॥

ग्रीष्मेण ऋतुना देवा रुद्राः पञ्च-
दशे स्तुताः । बृहता यशसा बलशुभ-
विरिन्दे वयो दधुः ॥ २४ ॥

ग्रीष्मेणा । ऋतुना । देवाः । रुद्राः । पञ्चदशऽइति
पञ्चऽदशे । स्तुताः । बृहता । यशसा । बलम् । ह-
विः । इन्द्रे । वयः । दधुः ॥ २४ ॥

पदार्थः---(ग्रीष्मेण) सर्वरसग्रहीत्रा (ऋतुना) औष्ण्यं प्रापकेन
(देवाः) दिव्यगुणाः (रुद्राः) दशप्राणा एकादश आत्मा मध्यमविद्वांसो वा
(पञ्चदशे) (स्तुताः) प्रशस्ताः (बृहता) महता (यशसा) कीर्त्या (बलं) (हविः)
आदरतव्यम् (इन्द्रे) जीवे (वयः) जीवनम् (दधुः) दधुः ॥ २४ ॥

अन्वयः---हे मनुष्या ये स्तुता रुद्रा देवाः पञ्चदशे ग्रीष्मेणर्तुना बृहता
यशसेन्द्रे हविर्बलं वयश्च दधुस्तान् यूयं विजानीत ॥ २४ ॥

भावार्थः---ये चतुश्चत्वारिंशद्वर्षयुक्तेन ब्रह्मचर्येण जातविद्वांसोऽन्येषां
शरीरात्मबलमुन्नयन्ति ते भाग्यशालिनो जायन्ते ॥ २४ ॥

पदार्थः---हे मनुष्यो जो (स्तुताः) प्रशंसा किये हुए (रुद्राः) दश प्राण ग्या-
रुद्रां जीवात्मा वा मध्यम कक्षा के (देवाः) दिव्यगुण युक्त विद्वान् (पञ्चदशे) प-
न्द्रहवें व्यवहार में (ग्रीष्मेण) सब रसों के खेंचने और (ऋतुना) उष्णपन प्राप्त
करने हारे ग्रीष्म ऋतु वा (बृहता) बड़े (यशसा) यश से इन्द्रे) जीवात्मा में ह-
विः ग्रहण करने योग्य (बलम्) बल और (वयः) जीवनको (दधुः) धारण करें
उन को तुम लोग जानो ॥ २४ ॥

भावार्थः---जो ४४ चत्वारिंश वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य से विद्वान् हुए अन्य म-
नुष्यों के शरीर और आत्मा के बल को बढ़ाते हैं वे भाग्यवान् होते हैं ॥ २४ ॥

वर्षाभिरित्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । इन्द्रो देवता ।

अनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

अथोत्तमब्रह्मचर्यविषयमाह

अथ उत्तम ब्रह्मचर्यं वि०

वर्षाभिर्ऋतुनादित्यास्तोमैः सप्तदशे
स्तुताः । वैरूपेणा विशोऽजसा हविरिन्द्रे
वर्यो दधुः ॥ २५ ॥

वर्षाभिः । ऋतुना । आदित्याः । स्तोमैः । सप्तदश-
इति सप्तदशे । स्तुताः । वैरूपेणा । विशा । ओजसा ।
हविः । इन्द्रे । वर्यः । दधुः ॥ २५ ॥

पदार्थः—(वर्षाभिः) वर्षन्ति मेघा यासु ताभिः (ऋतुना) (आ-
दित्याः) द्वादश मासा उत्तमा विद्वांसो वा (स्तोमे) स्तुतिव्यवहारे (सप्तद-
शे , एतत्संख्या के (स्तुताः) प्रशंसिताः (वैरूपेणा) विविधानां रूपाणां भा-
वेन (विशा) प्रजया (ओजसा) बलेन (हविः) दातव्यम् (इन्द्रे) जीवे (वर्यः)
कालविज्ञानम् (दधुः) दधुः ॥ २५ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या ये वर्षाभिर्ऋतुना वैरूपेणौजसा विशा सह वर्त्त-
माना आदित्याः सप्तदशे स्तोमे स्तुता इन्द्रे हविर्वर्यो दधुस्तान् यूयं विज्ञायोप
कुरुत ॥ २५ ॥

भावार्थः—ये मनुष्या विद्वत्संगेन कालस्य स्थूलसूक्ष्मगती विज्ञायैक
क्षणमपि व्यर्थं न नयन्ति ते विचित्रमैश्वर्यमाप्नुवन्ति ॥ २५ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (वर्षाभिः) जिस में मेघ वृष्टि करते हैं उस वर्षा (ऋतुना) प्राप्त होने योग्य ऋतु (वैरूपेण) अनेक रूपों के होने से (ओजसा) जो बल और उस (विशा) प्रजा के साथ रहने वाले (आदित्याः) बारह महीने वा उत्तम कल्प के विद्वान् (सप्तदशे) सत्रहवें (स्तोत्रे) स्तुति के व्यवहार में (स्तुताः) प्रशंसा किये हुए (इन्द्रे) जीवात्मा में (हविः) देने योग्य (वयः) काल के ज्ञान को (दधुः) धरण करते हैं उन को तुम लोग जान कर उपकार करो ॥ २५ ॥

भावार्थः—जो मनुष्य लोग विद्वानों के संग से काल की स्थूल सूक्ष्म गति को जान के एक क्षणभी व्यर्थ नहीं गमाते हैं वे नानाविध ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं ॥ २५ ॥

शारदेनेत्यस्य स्वस्त्यात्रय ऋयिः । विश्वे देवा देवताः ।

विराड् बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ।

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

शा॒र॒दे॒न॑ ऽऋ॒तु॒ना॑ दे॒वा ए॒क॒वि॒ंश॑ ऋ॒भ॒वः॑ स्तु॒ताः । वै॒रा॒जे॒न॑ श्रि॒या श्रि॒य॑ ऽह॒वि॒रि॒न्द्रे॑ व॒यं द॒धुः॑ २६ ॥

शा॒र॒दे॒न॑ । ऋ॒तु॒ना॑ । दे॒वाः । ए॒क॒वि॒ंश॑ ऽइत्येक ऽविंश
शे । ऋ॒भ॒वः॑ । स्तु॒ताः । वै॒रा॒जे॒न॑ । श्रि॒या । श्रि॒य॑म् ।
ह॒विः॑ । इ॒न्द्रे॑ । व॒यः॑ । द॒धुः॑ ॥ २६ ॥

पदार्थः—(शारदेन) शरदि भवेन (ऋतुना) देवाः) (एकविंशे) एतत्संख्या के (ऋभवः) मेधाविनः (स्तुताः) (वैराजेन) विराजि भवेनार्थेन (श्रिया) शोभया लक्ष्म्या वा (श्रियम्) लक्ष्मीम् (हविः) दातव्यमादातव्यम् (इन्द्रे) जीवे (वयः) कर्मणीयं सुखम् (दधुः) दधुः ॥ २६ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या य एकविंशे स्तुता ऋभवो देवाः शारदेनर्तुना वैराजेन श्रिया सह वर्त्तमाना इन्द्रे श्रियं हविर्वयश्च दधुस्तान् यूयं सेवध्वम् ॥ २६ ॥

भावार्थः—ये सुपथ्यकारिणो जनाः शरदरोगा भवन्ति ते श्रियमाप्नुवन्ति ॥ २६ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (एकविंशे) इक्कीसवें व्यवहार में (स्तुताः) स्तुति किये हुए (ऋभवः) बुद्धिमान् (देवाः) दिव्य गुण युक्त (शारदेन) शरद (ऋतुना) ऋतु वा (वैराजेन विराट् छन्द में प्रकाशमान अर्थ के साथ (श्रिया) शोभा और लक्ष्मी के साथ वर्त्ताव वर्त्तने हारे जन (इन्द्रे) जीवात्मा में (श्रियम्) लक्ष्मी प्रो (हविः) देने लेने योग्य (वयः) वाञ्छित सुख को (दधुः) धारण करें उन का तुम लोग सेवन करो ॥ २६ ॥

भावार्थः—जो लोग अच्छे पथ्य करने हारे शरद ऋतु में रोग रहिन होते हैं वे लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं ॥ २६ ॥

हेमन्तेनेत्यस्य आत्रेय ऋषिः । विद्वांसो देवताः ।

भुरिगनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ।

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०

हे मन्तेन ऋतुना देवास्त्रिंशवे मूर्तः स्तुताः । बलेन शकरीः सही हविरिन्द्रे वयो दधुः ॥ २७ ॥

हेमन्तेन । ऋतुना । देवाः । त्रिणावे । त्रिनवइति
तिऽनवे । मरुतः । स्तुताः । बलेन । शकरीः । सहः । ह-
विः । इन्द्रे । वयः दधुः ॥ २७ ॥

पदार्थः— हेमन्तेन) वर्द्धन्ते देहा यस्मिन्स्तेन (ऋतुना) (देवाः)
दिव्यगुणाः (त्रिणावे) त्रिगुणा नव यस्मिंस्तस्मिन् सप्तविंशो व्यवहारे (मरुतः)
मनुष्याः (स्तुताः) (बलेन) मेघेन (शकरीः) शाक्तनिमित्तागाः (सहः)
बलम् (हविः) (इन्द्रे) (वयः) इष्ट सुखम् (दधुः) ॥ २७ ॥

अन्वयः— हे मनुष्या ये त्रिणावे हेमन्तेनर्तुना सह वर्त्तमाना स्तुता देवा
मरुतो बलेन शकरीः सहो हविर्वय इन्द्रे दधुस्तान् सेवध्वम् ॥ २७ ॥

भावार्थः— ये सर्वरसपरिपाचके हेमन्ते यथायोग्यं व्यवहारं कुर्वन्ति ते
बलिष्ठा जायन्ते ॥ २७ ॥

पदार्थः— हे मनुष्य लोगो जो (त्रिणावे) सत्ताईसवें व्यवहार में (हेमन्तेन)
जिस में जीवों के देह बढ़ते जाते हैं उस (ऋतुना) प्राप्त होने योग्य हेमन्त ऋतु के
साथ वर्त्तते हुए (स्तुताः) प्रशंसा के योग्य (देवाः) दिव्य गुण युक्त (मरुतः)
मनुष्य (बलेन) मेघ से (शकरीः) शक्ति के निमित्त गौश्रों के (सहः) बल तथा
(हविः) देने लेने योग्य (वयः) वाञ्छित सुख को (इन्द्रे) जीवात्मा में (दधुः)
धारण करें उन का तुम सेवन करा ॥ २७ ॥

भावार्थः— जो लोग सब रसों को पकाने हारे हेमन्त ऋतु में यथायोग्य व्यवहार
करते हैं वे अत्यन्त बलवान् होते हैं ॥ २७ ॥

शैशिरेणेत्यम्यस्वस्त्यात्रय ऋषिः । विश्वे देवा देवताः ।

भुरिगनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह

फिर उसी विषय को अगले मं० ॥

शैशिरेणाऽऋतुना देवास्त्रयस्त्रिंशु
शेऽमृता स्तुताः । सत्येन रेवतीः क्षत्रं
हविरिन्द्रे वयं दधुः ॥ २८ ॥

शैशिरेणां । ऋतुना । देवाः । त्रयस्त्रिंशु इति त्रयः
ऽत्रिंशे । अमृताः । स्तुताः । सत्येन । रेवतीः । क्षत्रम्
हविः । इन्द्रे । वयः । दधुः ॥ २८ ॥

पदार्थः—(शैशिरेण) शिशिरेण (ऋतुना) (देवाः) दिव्यगुणक-
र्मस्वभावाः (त्रयस्त्रिंशे) वस्वादिसमूहे (अमृताः) स्वस्वरूपेण नित्याः
(स्तुताः) प्रशंसिताः (सत्येन) (रेवतीः) धनवतीः शत्रुसेनोन्लक्षिकाः
प्रजाः (क्षत्रम्) धनं राज्यं वा (हविः) (इन्द्रे) (वयः) (दधुः) ॥ २८ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या येऽमृताः स्तुताः शैशिरेणर्तुना देवाः सत्येन
सह त्रयस्त्रिंशे विद्वांसो रेवतीरिन्द्रे हविः क्षत्रं वयश्चदधुस्तेभ्योभूम्यादि विद्या
गृहीत ॥ २८ ॥

भावाः—ये पूर्वोक्तान्प्रो वसूनेकादशा रुद्रान् द्वादशाऽऽदित्यान् विद्युतं
यज्ञं चेमान् त्रयस्त्रिंशद्दिव्यान् पर्दान् जानन्ति तेऽक्षयं सुखमाप्नुवन्ति ॥ २८ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (अमृताः) अपने स्वरूप से नित्य (स्तुताः) प्र-
शंसा के योग्य (शैशिरेण, ऋतुना) प्राप्त होने योग्य शिशिर ऋतु से (देवाः) दिव्य
गुण कर्म स्वभाव वाले (सत्येन) सत्य के साथ (त्रयस्त्रिंशे) तैंतीस वसु आदि के समुदा-
य में विद्वान् लोग (रेवतीः) धन युक्त शत्रुओं की सेनाओं को कूद के जाने वाली
प्रजाओं और (इन्द्रे) जीव में (हविः) देने लेने योग्य (क्षत्रम्) धन वा राज्य
और (वयः) वाञ्छित सुख को दधुः) धारण करें उन से पृथिवी आदिकी विद्याओं
का ग्रहण करो ॥ २८ ॥

भावार्थः—जो लोग पीछे कहे हुए आठवसु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य
विजुला और यज्ञ इन तैंतीस दिव्य पदार्थों को जानते हैं वे अक्षय सुख को प्राप्त
होते हैं ॥ २८ ॥

होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । अग्न्यश्वीन्द्रसरस्वत्याद्या

लिङ्गोक्ता देवताः । निचृदष्टिश्छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

होता यक्षत् सुमिधाग्निमिडस्पृदेऽ-
श्विनेन्द्रश्च सरस्वतीमजो धूमो न
गोधूमैः कुर्वलीर्भेषजं मधु शष्पैर्न तेज
इन्द्रियं पयः सोमः परिस्सुता घृतं म-
धु व्यन्तवाज्यस्य होतर्यज ॥ २९ ॥

होता । यक्षत् । समिधेति सम्ऽइधा । अग्निम् ।
 इडुः । पदे । अश्विना । इन्द्रम् । सरस्वतीम् । अजः ।
 धूम्रः । न । गोधूमैः । कुवलैः । भेषजम् । मधु । श-
 ष्पैः । न । तेजः । इन्द्रियम् । पयः । सोमः । परिस्त्रु-
 तेति परिऽस्त्रुता । घृतम् । मधु । व्यन्तु । आज्यस्य ।
 होतः । यज ॥ २६ ॥

पदार्थः—(होता) दाता (यक्षत् यजेत् संगच्छन् (समिधा) इन्द्र-
 धनादिसाधनैः (अग्निम्) पावकम् (इडस्पदे) पृथिव्यन्नस्थाने (अश्विना)
 सूर्याचन्द्रमसौ (इन्द्रम्) ऐश्वर्य्य जीवं वा (सरस्वतीम्) सुशिक्षितां वाचम्
 (अजः) प्राप्तव्यो मेघः (धूम्रः) धूम्रवर्णः (न) इव (गोधूमैः) (कुवलैः)
 कुत्सितं वलं यैस्तैर्वदरैः । अत्र कुशब्द इत्यस्माद्धातोर्ऽणादिकः कलन् प्रत्ययः ।
 (भेषजम्) भौषधम् (मधु) मधुगण्डकम् (शष्पैः) हिंसनैः (न) इव (तेजः)
 प्रागल्भ्यम् (इन्द्रियम्) धनम् (पयः) द्रुग्धमन्नं वा (सोमः) आपधिगणः
 (परिस्त्रुता) परितः सर्वतः क्षुना प्राप्तेन रसेन (घृतम्) आज्यम् (मधु) क्षौ-
 द्रम् व्यन्तु । प्राप्नुवन्तु (आज्यस्य) घृतम् । अत्र कर्मणि पठ्ठी (होतः)
 (यज) ॥ २६ ॥

अन्वयः—हे होतयथा होतेइस्पदे समिधाग्निमाश्विनेन्द्रं सरस्वतीमजो धू-
 म्रं न कश्चिज्जीवां गोधूमैः कुवलैर्भेषजं यक्षत्तथा शष्पैर्न यानि तेजो मन्विन्द्रि-
 यं पयः परिस्त्रुता स सोमो घृतं मधु व्यन्तु तैः सह वर्तमानमाज्यस्य यज ॥ २६ ॥

भावार्थः—अत्रोपमावाचकलु०—येऽस्य संसारस्य मध्ये साधनापसाधनैः
 पृथिव्यादिविद्यां जानन्ति ते सर्वे उत्तमान् पदार्थान् प्राप्नुवन्ति ॥ २६ ॥

पदार्थः—हे (होतः) यज्ञ करने हारे जन जैसे (होता) देने वाला (इड-स्पदे) पृथिवी और अन्न के स्थान में (समिधा) इन्धनादि साधनों से (अग्निम्) अग्नि को (अग्निना) सूर्य और चन्द्रमा (इन्द्रम्) ऐश्वर्य वा जीव और (सरस्वतीम्) मुशिक्षायुक्त वाणी को (अजः) प्राप्त होने योग्य (धूम्रः) धुमैले मेढे के न । समान कोई जीव (गोधूमैः) गेहूं और (कुवलैः) जिन से बल नष्ट हो उन बेरों से (भेषजम्) औषध को (यक्षत्) संगत करे वैसे (शष्पैः) हिंसाओं के (न) समान साधनों से जो (तेजः) प्रगल्भपन (मधु) मधुर जल (इन्द्रियम्) घन (पयः) दूध वा अन्न (परिक्षुता) सब ओर से प्राप्त हुए रस के साथ (सोमः) औषधियों का समूह (घृतम्) घृत (मधु) और सहत (व्यन्तु) प्राप्त हों उन के साथ (आज्यस्य) घी का (यज) होम कर ॥ २९ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में उपमा और वाचकलु०—जो लोग इस संसार में साधन और उपसाधनों से पृथिवी आदि की विद्या को जानते हैं वे सब उत्तम पदार्थों को प्राप्त होते हैं ॥ २९ ॥

होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । अश्व्यादयो लिङ्गोक्ता देवताः ।

भुरिगत्यष्टिश्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

होता यज्ञत्तन्नूनपात्सरस्वतीमविर्मेषो
न भेषजं पृथा मधुमता भरन्नश्विबने-
न्द्राय वीर्गुंबदरैरुपवाकाभिर्भेषजं तो-
वर्मभिः पयः सोमः परिक्षुता घृतं मधु
व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज ॥ ३० ॥

होतां । यक्षत् । तनूनपादिति तनूऽनपात् । सरस्व-
 तीम् । अविः । मेषः । न । भेषजम् । पथा । मधुमतेति
 मधुऽमता । भरन् । अश्विनां । इन्द्राय । वीर्यम् । वदरैः ।
 उपवाकाभिरित्युपऽवाकाभिः । भेषजम् । तोक्मभि-
 रिति तोक्मऽभिः । पयः । सोमः । परिस्नुतेति परिऽस्नु-
 तां । घृतम् । मधु । व्यन्तु । आज्यस्य । होतः ।
 यज ॥ ३० ॥

पदार्थः—(होता) आदाता (यक्षत्) यजेत (तनूनपान्) यस्नन्वा ऊनं
 पाति सः (सरस्वतीम्) बहुज्ञानवर्ती वाचम् (अविः) (मेषः) (न) इन
 (भेषजम्) औषधम् (पथा) मार्गेण (मधुमता) बहुदूकयुक्तेन (भरन्) ध-
 रन् (अश्विना) (इन्द्राय) ऐश्वर्याय (वीर्यम्) पराक्रमम् (वदरैः) वदर्याः
 फलैः (उपवाकाभिः) उपदेशक्रियाभिः (भेषजम्) (तोक्मभिः) अपत्यैः
 (पयः) जलम् (सोमः) औषधिगणः (परिस्नुता) परिः स्नुता प्राप्तेन (घृत-
 म्) (मधु) (व्यन्तु) (आज्यस्य) (होतः) हवनकर्त्तः (यज) ॥ ३० ॥

अन्वयः—हे होतर्यथा तनूनपाद्धोता सरस्वतीमविर्मेपो न मधुमता पथा
 भेषजं भरन्निन्द्रायाऽश्विना वीर्यं वदरैरुपवाकाभिर्भेषजं यक्षत् नथा यानि तांक्म
 भिः पयः परिस्नुता सह सोमो घृतं मधु च व्यन्तु तैस्सह वर्त्तमानस्त्वमाज्यस्य
 यज ॥ ३० ॥

भावार्थः—अत्रोपमावाचकलु०—ये संगन्तारो विद्यासुशिक्षासहितां
 वाचं प्राप्य पथ्याहारविहारैर्वीर्यं वर्द्धयित्वा पदार्थविज्ञानं प्राप्यैश्वर्यं वर्द्धयन्ति
 ते जगद्गुणका भवन्ति ॥ ३० ॥

पदार्थः— हे । होतः) हवनकर्त्ता जन जैसे (तनूनपात्) देह की ऊनता को पालने अर्थात् उस को किसी प्रकार पूरी करने और (होता) ग्रहण करने वाला जन (सरस्वतीम्) बहुत ज्ञान वाली वाणी को वा (अविः) भेड़ और (मेषः) बकरा के (न) समान (मधुमता । बहुत जलयुक्त (पथा) मार्ग से (भेषजम्) औषध को (भरन्) धारण करता हुआ (इन्द्राय) ऐश्वर्य के लिये (अश्विना) सूर्य चन्द्रमा और (वीर्यम्) पराक्रम को वा (बदरैः) बेर और (उपवाकाभिः) उपदेश रूप क्रियाओं से (भेषजम्) औषध को (यत्तत्) संगत करे वैसे जो (तोक्मभिः) सन्तानों के साथ (पयः) जल और (परिश्रुता) सब ओर से प्राप्त हुए रस के साथ (सोमः) औषधियों के समूह (घृतम्) घृत और (मधु । सहत (व्यन्तु) प्राप्त हों उनके साथ वर्त्तमान तू (आज्यस्य घी का (यज) हवन कर ॥ ३० ॥

भावार्थः— इस मंत्र में उपमा और वाचकलु०—जो संगति करने हारे जन विद्या और उत्तम शिक्षायुक्त वाणी को प्राप्त हो के पश्याहार विहारों से पराक्रम बढ़ा और पदार्थों के ज्ञान को प्राप्त होके ऐश्वर्य को बढ़ाते हैं वे जगत् के भूषक होते हैं ॥ ३० ॥

हांतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । अश्व्यादयो देवताः ।

अतिधृतिरछन्दः । पङ्कजः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को अगले मंत्र में ॥

होता' यक्षन्नराशंसं न नृग्नहं पति ५
सुरया भेषजं मेषः सरस्वती भिषग्रथो
न चन्द्रयश्विनोर्वपा इन्द्रस्य वीर्यं ब-
दरैरूपवाकाभिर्भेषजं तोक्मभिः पयः

सोमः परिस्सुता घृतं मधु व्यन्तवाज्यस्य
होतर्यज ॥ ३१ ॥

होता । यक्षत् । नराशंसम् । न । नग्नहुम् । पतिम् ।
सुरया । भेषजम् । मेषः । सरस्वती । भिषक् । रथः ।
न । चन्द्री । अश्विनोः । वपाः । इन्द्रस्य । वीर्यम् । व-
दरैः । उपवाकाभिरित्युपवाकाभिः । भेषजम् । तो-
क्मभिरिति तोक्मभिः । पयः । सोमः । परिस्सुतेति
परिस्सुता । घृतम् । मधु । व्यन्तु । आज्यस्य । होतः ।
यज ॥ ३१

पदार्थः—(होता) दाता (यक्षत्) यजेत् (नराशंसम्) यो नरैराशस्य-
ते स्तूयते तम् (न) इव (नग्नहुम्) यो नग्नान् दुष्टान् जुहोति कारागृहे प्राप्ति-
पति तम् । अत्र हुधातोर्वाहुलकादौणादिको दुः प्रत्ययः (पतिम्) स्वामिनम्
सुरया । उदकेन । सुरेत्युदकनाम० निघ्नं ० १ । १२ (भेषजम्) औषधम्
(मेषः) उपदेष्टा (सरस्वती विद्यासम्बन्धिनी वाक् (भिषक्) वैद्यः (रथः)
(न) इव (चन्द्री) चन्द्रं बहुविधं सुवर्णं विद्यते यस्य (अश्विनोः) द्यावा-
पृथिव्याः (वपाः) वपन्ति याभिः क्रियाभिस्ताः (इन्द्रस्य) दुष्टजनविदारकस्य
सकाशात् (वीर्यम्) वीर्येषु साधु (वदरैः) वदरफलोरेव (उपवाकाभिः)
उपगताभिर्वाग्भिः (भेषजम्) चिकित्सकम् (तोक्मभिः) अपत्यैः (पयः)
दुग्धम् (सोमः) (परिस्सुता) परितः स्सुता प्राप्तेन (घृतम्) (मधु) (व्य-
न्तु) (आज्यस्य) (होतः) (यज) ॥ ३१ ॥

अन्वयः— हे होतर्यथा होता नराशंसं न नग्नहुं पतिं सुरयासह वर्तमानं
भेषजमिन्द्रस्य वीर्यं यक्षत् मेषः सरस्वती भिषग्रथो न चन्द्रश्चिन्नोर्वपा वदरै-
रुपवाकाभिः सह भेषजं यक्षत्तथा यानि तोक्मभिः सह पयः परिस्सुता सह
सोमो घृतं मधु च व्यन्तु तैः सह वर्तमानस्त्वमाज्यस्य यज ॥ ३१ ॥

भावार्थः—अत्रोपमावाचकलु० ये निर्लज्जानदण्डयन्ति प्रशंमनीयान्
स्तुवन्ति जलेन सहौषधं सेवन्ते ते बलाऽऽरोग्ये प्राप्यैश्वर्यवन्तो जायन्ते ॥३१॥

पदार्थः—हे (होतः) हवनकर्त्ता जन जैसे (होता) देने वाला (नराशंसम्)
जो मनुष्यों से स्तुति किया जाय उस के (न) समान (नग्नहुम्) नग्न दुष्ट पुरुषों को
कारागृह में डालने वाले (पतिम्) स्वामि वा (सुर्या) जल के साथ (भेषजम्)
औषध को वा (इन्द्रस्यं) दुष्ट गण का विदारण करने हारे जन के वीर्यम्) शूरवीरों
में उत्तम बल को (यत्तत्) संगत करे तथा (भेषः) उपदेश करने वाला (सरस्वती)
विद्या संबन्धिनी वाणी (भिषक्) वैद्य और (रथः) रथ के (न) समान (चन्द्री)
बहुत सुवर्ण वाला जन (अश्विनोः) आकाश और पृथिवी के मध्य (वपाः) क्रियाओं
को वा (वदरैः) वेरों के समान (उपवाकाभिः) समीप प्राप्त हुई वाणियों के साथ
(भेषजम्) औषध को संगत करे जैसे जो (तोक्मभिः) सन्तानों के साथ
(पयः) दूध (परिक्षुता) सब ओर से प्राप्त हुए रस के साथ (सोमः) ओषधि-
गण (वृतम्) घी और (मधु) सहित (व्य तु) प्राप्त होवें उन के साथ वर्त्तमान तू
(आज्यस्य) घी का (यज) हवन कर ॥ ३१ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में उपमा और वाचकलु० - जो लोग लज्जाहीन पुरुषों को
दण्ड देते स्तुति करने योग्यों की स्तुति और जल के साथ औषध का सेवन करते हैं
वे बल और नीरोगता को पा के ऐश्वर्य वाले होते हैं ॥ ३१ ॥

होतेत्यस्य । स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । सरस्वत्यादयो देवताः ।

विराडतिधृतिश्छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

होता' यक्षदिडेडित आ जुह्वानः सर-

स्वतीमिन्द्रं बलेन वर्धयन् ऋषभेणागवैर्दि-
यमश्विनेन्द्राय भेषजं यवैः कर्कन्धुभिर्म-
धुलाजैर्न मासरं पयः सोमः परिश्रुता
घृतं मधु व्यन्तवाज्यस्य होतृ यज ॥३२॥

होता । यक्षत् । इडा । इडितः । आजुह्वानऽडत्याऽ-
जुह्वानः । सरस्वतीम् । इन्द्रम् । बलेन । वर्धयन् । ऋष-
भेणा । गवां । इन्द्रियम् । अश्विना । इन्द्राय । भेषजम् ।
यवैः । कर्कन्धुभिरिति कर्कन्धुऽभिः । मधु । लाजैः । न ।
मासरम् । पयः । सोमः । परिश्रुतेति परिऽश्रुता । घृतम् ।
मधु । व्यन्तु । आज्यस्य । होतः । यज ॥ ३२ ॥

पदार्थः--(होता) प्रशंसितुं योग्यः (यक्षत्) यजेत् (इडा) प्रशंसित-
या वाचा (इडितः) प्रशंसितः (आजुह्वानः) सत्कारेणाहूतः (सरस्वतीम्)
वाचम् (इन्द्रम्) ऐश्वर्यम् (बलेन) (वर्धयन्) (ऋषभेण) गन्तुं योग्येन
(गवां) इन्द्रियम्) धनम् (अश्विना) (इन्द्राय) ऐश्वर्याय (भेषजम्)
(यवैः) यवादिभिरन्नैः (कर्कन्धुभिः) ये कर्कं च दरक्रियां दधति तैः (मधु)
(लाजैः) प्रस्फुलितैरश्वैः (न) इव (मासरम्) ओदनम् (पयः) रसः

(सोमः) ओषधिमणः (परिष्णुता) सर्वतः प्राप्तेनरसेन (घृतम्) (मधु) (व्यन्तु) (आज्यस्य) (होतः) (यज) ॥ ३२ ॥

अन्वयः— हे होतर्यईडेडित आजुह्वानो होता बलेन सरस्वतीमिन्द्रमृषभेण गवेन्द्रियमश्विना यवैरिन्द्राय भेषजं वर्द्धयन् कर्कन्धुभिर्मधु लाजैर्न मासरं यक्षत्तथा यानि परिष्णुता सह सोमः पयो घृतं मधु व्यन्तु तैस्सह वर्त्तमानस्त्वमाज्यस्य यज ॥ ३२ ॥

भावार्थः—अत्रापमावाचकलु० -मनुष्या ब्रह्मचर्येण शरीरात्मबलं विव्रत्सेवया विद्यापुरुषार्थेनैश्वर्यं प्राप्य पथ्यौषधसेवनाभ्यां रोगान् हत्वारोग्यमाप्नुयुः ॥ ३२ ॥

पदार्थः— हे (होतः) हवन कर्त्ता जन जैसे (इडा स्तुति करने योग्य वाणी से (ईडितः) प्रशंसा युक्तं (आजुह्वानः) सत्कार से आह्वान किया हुआ होता) प्रशंसा करने योग्य मनुष्य (बलेन) बल से (सरस्वतीम्) वाणी और (इन्द्रम्) ऐश्वर्य को (ऋषभेण) चलने योग्य उत्तम (गवा) बैल से (इन्द्रियम्) धन तथा (अश्विना) आकाश और पृथिवी को (यवैः) यव आदि अन्नो से (इन्द्राय) ऐश्वर्य के लिये (भेषजम्) औषध को (वर्द्धयन्) बढ़ाता हुआ (कर्कन्धुभिः) वेर की क्रिया को धरण करने वानों से (मधु) मीठे (लजैः) प्रफुल्लित अन्नो के (न) समान (मासरम्) भात को (यक्षत्) संगत करे वैसे जो (परिष्णुता) सब ओर से प्राप्त होते हुए रस के साथ (सोमः) ओषधिसमूह (पयः) रस (घृतम्) घा (मधु) और सहत (व्यन्तु) प्राप्त होवें उन के साथ वर्त्तमान तू (आज्यस्य) धी का (यज) होम कर ॥ ३२

भावार्थः— इस मंत्र में उपमा और वाचकलु०—मनुष्य ब्रह्मचर्य से शरीर और आत्मा के बल को तथा विद्वानों की सेवा विद्या और पुरुषार्थ से ऐश्वर्य को प्राप्त हो पथ्य और औषध के सेवन से रोगों का विनाश कर नीरोगता को प्राप्त हों ॥ ३२ ॥

होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । अश्व्यादयो देवताः ।

निचृदष्टिश्छन्दः । मध्यमः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०

होता यश्चर्हिर्ऊर्णाम्रदा भिषङ्ना-
सतया भिषजाश्विनाश्व्वा शिशुमती भि-
षधेनुः सरस्वती भिषग्दुह इन्द्राय
भेषजं पयः सोमः परिस्सुता घृतं मधु
व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज ॥ ३३ ॥

होता । यज्ञत् । बर्हिः । ऊर्णाम्रदाऽइत्यूर्णांम्र
दाः । भिषक् । नासत्या । भिषजा । अश्विना । अश्व्वा ।
शिशुमतीति शिशुमती । भिषक् । धेनुः । तरस्वती ।
भिषक् । दुहे । इन्द्राय । भेषजम् । पयः । सोमः । परि-
स्सुतेति परिस्सुता । घृतम् । मधु । व्यन्तु । आज्य-
स्य । होतः । यज ॥ ३३ ॥

पदार्थः--- (होता) दाता (यज्ञत्) (बर्हिः) अन्तरिक्षम् (ऊर्णाम्रदाः)
य ऊर्णानाच्छादकानि मृद्नन्ति ते (भिषक्) वैद्यः (नासत्या) सत्यकर्त्ता
रौ (भिषजा) सदैव्यौ (अश्विना) वैद्यकविद्याव्यापिनौ (अश्व्वा) आशुगम-
नशीला वदवा (शिशुमती) प्रशस्ताः शिशवो विद्यन्ते यस्याः सा (भिषक्)
रोगनिवारका (धेनुः) दुग्धदात्री गौः (सरस्वती) सरो विज्ञानं विद्यते यस्यां
सा (भिषक्) वैद्यः (दुहे) दोहनाय (इन्द्राय) जीवाय (भेषजम्) उदकम् ।
भेषजापत्युदकनाम० निघं० १ । १२ (पयः) दुग्धम् (सोमः) ओषधिगणः
(परिस्सुता) (घृतम्) (मधु) (व्यन्तु) (आज्यस्य) (होतः) (यज) ॥ ३३ ॥

अन्वयः— हे होतर्यथा होतोर्णम्रदा भिषक् शिशुमत्यश्वा च दुहे बर्हिर्य-
त्तत् । नासत्याऽश्विना भिषजा यजेतां भिषग्धेनुः सरस्वती भिषगिन्द्राय यन्तत्तथा
यानि परिस्रुता भेषजं पयः सोमो घृतं मधु व्यन्तु तैः सह वर्त्तमानस्त्वमाज्यस्य
यज ॥ ३३ ॥

भावार्थः— अत्रवाच०—यदि मनुष्या विद्यासंगतिभ्यां सर्वेभ्यः पदार्थेभ्य
उपकारान् ग्रहणीयुस्तिर्हिवाय्वग्निवत्सर्वविद्यासुखानिव्याप्त्युः ॥ ३३ ॥

पदार्थः— हे (होतः) हवन करनेहारे जन जैसे (हाता) देने हारा (ऊर्ण-
म्रदाः) टांपने हारों को मर्दन करने वाले जन (भिषक्) वैद्य (शिशुमती) और प्र-
शंसित बालकों वाली (अश्वा) शीघ्र चलन वाली घोड़ी (दुहे) परिपूर्ण करने के लिये
(बर्हिः) अन्तरिक्ष को (यज्ञत्) संगत करें वा जैसे (नासत्या) सत्य व्यवहार के
करने हारे (अश्विना वैद्य विद्या में व्याप्त (भिषजा) उत्तम वैद्य मेल करें वा जैसे
(भिषक्) रोग मिटाने और (धेनुः) दुग्ध देने वाली गाय वा (सरस्वती) उत्तम
विज्ञान वाली वाणी (भिषक्) सामान्य वैद्य (इन्द्राय) जीव के लिये मेल करे जैसे
जो (परिस्रुता) प्राप्त हुए रस के साथ (भेषजम्) जल (पयः) दूध (सोमः) ओ-
पधिगण (घृतम्) घी (मधु) सहित (व्यन्तु) प्राप्त हों उन के साथ वर्त्तमान तू
(आज्यस्य) घी का (यज) हवन कर ॥ ३३ ॥

भावार्थः— इस मंत्र में वाचकलु०—जो मनुष्य विद्या और संगति से सब प-
दार्थों से उपकार ग्रहण करें तो वायु और अग्नि के समान सब विद्याओं के सुखों को
व्याप्त हों ॥ ३ ॥

होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । अश्व्यादयो देवताः ।

भुरिगतिधृतिश्चन्द्रः । षड्जः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

होता यज्ञदुरो दिशः कवृष्यो न
व्यर्चस्वतीरशिवभ्यां न दुरो दिश इन्द्रो

न रोदसी दुग्धे दुहे धेनुः सरस्व-
त्यश्विनेन्द्राय भेषजं शुक्रं न ज्योति-
रिन्द्रियं पयः सोमः परिस्सुता घृतं मधु
व्यन्त्वाज्यस्य होतृयज ॥ ३४ ॥

होता । यत्तत् । दुरः । दिशः । कवण्युः । न । व्य-
चस्वतीः । अश्विभ्यामित्यश्विभ्याम् । न । दुरः । दिशः ।
इन्द्रः । न । रोदसीऽइति रोदसी । दुग्धेऽइतिदुग्धे ।
दुहे । धेनुः । सरस्वती । अश्विना । इन्द्राय । भेषजम् ।
शुक्रम् । न । ज्योतिः । इन्द्रियम् । पयः । सोमः । परि-
स्सुतेति परिऽसुता । घृतम् । मधु । व्यन्तु । आज्यस्य ।
होतः । यज ॥ ३४ ॥

पादार्थः— (होता) आदाता (यत्तत्) (दुरः) द्वाराणि (दिशः)
(कवण्युः) सच्छिद्राः (न) इव (व्यचस्वतीः) (अश्विभ्याम्) इन्द्राग्निभ्याम्
(न) इव (दुरः) द्वाराणि (दिशः) (इन्द्रः) विद्युत् (न) इव (रोदसी)
द्यावापृथिव्यौ (दुग्धे) अत्र वाछन्दसीति केवलादपि कप् प्रत्ययः (दुहे) दो-
हनाय प्रपूरणाय (धेनुः) धेनुरिव (सरस्वती) विज्ञानवती वाक् (अश्विना)
सूर्याचन्द्रमसौ (इन्द्राय) जीवाय (भेषजम्) औषधम् (शुक्रम्) वीर्यकरमु-
दकम् । शुक्रमित्युदकनाम० निघ० १ । १२ । (न) इव (ज्योतिः) प्रकाश-
कम् (इन्द्रियम्) मनआदि (पयः) दुग्धम् (सोमः) औषधिगणः (परिस्सुता)
(घृतम्) (मधु) (व्यन्तु) (आज्यस्य) (होतः) दातः (यज) ॥ ३४ ॥

अन्वयः—हे होतर्यथा होता कवष्यो न दुरो व्यचस्वतीर्दिशोऽश्विभ्यां न दुरो दिश इन्द्रो न दुधे रोदसी धेनुः सरस्वतीन्द्रायाश्विना शुक्रं न भेषजं ज्योतिरिन्द्रियं दुहे यत्तथा यानि परिश्रुता पयः सोमो घृतं मधु व्यन्तु तैः सह वर्तमानस्त्वमाज्यस्य यज ॥ ३४ ॥

भावार्थः—अत्रोपमावाचकलु०—ये मनुष्याः सर्वदिग्द्वाराणि सर्वतुसुखकाराणि गृहाणि निर्मिमीरंस्ते पूर्णसुखं प्राप्नुयुः । नैतेषामभ्युदयिकसुखन्यूनता कदाचिज्जायेत ॥ ३४ ॥

पदार्थः—हे होतः) देने हारे जन जैसे (होता) लेने हारा (कवष्यः) द्विद्रसहित वस्तुओं के (न) समान (दुरः) द्वारों और (व्यचस्वतीः) व्याप्त होने वाली (दिशः) दिशाओं को वा (अश्विभ्याम्) इन्द्र और अग्नि से जैसे (न) वैसे (दुरः) द्वारों और (दिशः) दिशाओं को वा (इन्द्रः) विजुली के (न) समान (दुधे) परिपूर्णता करने वाले (रोदसी) आकाश और पृथिवी के और (धेनुः) गाय के समान (सरस्वती) विज्ञान वाली वाणी (इन्द्रायः) जीव के लिये (अश्विना) मूर्य और चन्द्रमा (शुक्रम्) वीर्य करने वाले जल के (न) समान (भेषजम्) औषध तथा (ज्योतिः) प्रकाश करने हारे (इन्द्रियम्) मन आदि को (दुहे) परिपूर्णता के लिये (यत्तत्) संगत करे वैसे जो (परिश्रुता) सब ओर से प्राप्त हुए रस के साथ (पयः) दूध (सोमः) ओषधियों का समूह (घृतम्) घी (मधु) और सहत (व्यन्तु) प्राप्त हों उन के साथ वर्तमान तू (आज्यस्य) घी का (यज) हवन किया कर ॥ ३४ ॥

भावार्थः—इस में उपमा और वाचकलु०—जो मनुष्य सब दिशाओं के द्वारों वाले सब ऋतुओं में सुखकारी घर बनावे वे पूर्णसुख को प्राप्त हों इन के सब प्रकार के उदय के सुख की न्यूनता कभी नहीं होवे ॥ ३४ ॥

होतेत्यस्यस्वस्त्याग्नेय ऋषिः । अश्व्यादयो देवताः ।

भुरिगतिधृतिश्छन्दः । पद्जः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

होता यक्षत्सुपेशसापोषे नक्तं दिवा-
श्विना समञ्जाते सरस्वत्या त्विषि-
मिन्द्रे नभेषजः श्येनो न रजसा हृ-
दा श्रिया न मासरं पयः सोमः परि-
स्रुता घृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य होत-
र्यज ॥ ३५ ॥

होता । यक्षत् । सुपेशसेति सुऽपेशसा । उषेऽइत्युषे ।
नक्तम् । दिवा । अश्विना । सम् । अञ्जातेऽइत्यं
ञ्जाते । सरस्वत्या । त्विषिम् । इन्द्रे । न । भेषजम्
श्येनः । न । रजसा । हृदा । श्रिया । न । मासरम् ।
पयः । सोमः । परिःस्रुतेतिऽपरिऽस्रुता । घृतम् । मधुं ।
व्यन्तुं । आज्यस्य । होतः । यज ॥ ३५ ॥

पदार्थः—(होता) आदाता (यक्षत्) यजेत् (सुपेशसा) सुखरूपे
स्त्रियौ (उषे) कामं दहन्त्यौ (नक्तम्) (दिवा) (अश्विना) व्याप्तिमन्तां
सूर्याचन्द्रमसौ (समञ्जाते) सम्यक् प्रकाशयतः (सरस्वत्या) विज्ञानयुक्तया वा-
चा (त्विषिम्) प्रदीप्तिम् (इन्द्रे) परमैश्वर्यवति प्राणिनि (न) इव (भेषजम्)
जलम् (श्येनः श्यायति विज्ञापयतीति श्येनो विद्वान् (न) इव (रज-
सा) लोकैः सह (हृदा] हृदयेन (श्रिया) लक्ष्म्या शोभया वा (न) इव

(मासरम्) ओदनम् । उपलक्षणमेतत् तेन सुसंस्कृतमन्नमात्रं गृह्यते (पयः)
सर्वौषधरसः (सोमः) सर्वौषधेगणः (परिश्रुता) सर्वतः प्राप्तेन रसेन (घृतम्)
उदकम् (मधु) क्षौद्रम् (व्यन्तु) (आज्यस्य) (होतः) (यज) ॥ ३५ ॥

अन्वयः--हे होतृयथा सुपेशसोषे नक्तं दिवाऽश्विना सरस्वत्येन्द्रे त्वि-
षिं भेषजं समञ्जाते न च रजसा सह श्येनो न होता श्रिया न हृदा मासरं
यज्ञत्तथा यानि पश्रुरता पयः सोमो घृतं मधु व्यन्तु तैः सह वर्तमानस्त्वमा
ज्यस्य यज ॥ ३५ ॥

भावार्थः--अत्रोपमवाचकलु०-हे मनुष्या यथाहर्निशं सूर्याचन्द्रमसौ
सर्वं प्रकाशयतो रूपयौवनसंपन्नाः पत्न्यः पतिं परिचरन्ति च यथा वा पाकवि-
द्याविद्विद्वान् पाककर्मोपदिशति तथा सर्वप्रकाशं सर्वपरिचरणं च कुरुत भोजन-
पदार्थोश्चात्तमतया निर्मिमीध्वम् ॥ ३५ ॥

पदार्थः--हे (होतः) देने हारे जन जैसे (सुपेशसा) सुन्दर स्वरूपवती (उषे)
काम का दाह करने वाली स्त्रियां (नक्तम्) रात्रि और (दिवा) दिन में (अश्विना)
व्याप्त होने वाले सूर्य और चन्द्रमा (सरस्वत्या) विज्ञान युक्त वाणी से (इन्द्रे) पर-
मैश्वर्यवान् प्राणी में (त्विषिम्) प्रदीप्ति और भेषजम्) जल को (समञ्जाते) अ-
च्छेः प्रकार प्रगट करते हैं उन के (न) समान और (रजसा) लोकों के साथ वर्तमान (श्येनः)
विशेष ज्ञान कराने वाले विद्वान् के (न) समान (होता) लेने हारा (श्रिया) लक्ष्मी
वा शोभा के (न) समान (हृदा) मन से (मासरम्) भात वा अच्छे २ सं-
स्कार किये हुए भोजन के पदार्थों को (यज्ञत्) संगत करे जैसे जो (परिश्रुता) सब
ओर से प्राप्त हुए रस के साथ (पयः) सब औषधि का रस (सोमः) सब औषधि
समूह (घृतम्) जल (मधु) सहत (व्यन्तु) प्राप्त होवें उन के साथ वर्तमान तू (आ-
ज्यस्य) घी का (यज) हवन कर ॥ ३५ ॥

भावार्थः--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलु०--हे मनुष्यो जैसे रातदिन
सूर्य और चन्द्रमा सब को प्रकाशित करते और सुन्दर रूपयौवनसम्पन्न स्वधर्मपत्नी

अपने पति की सेवा करती वा जैसे पाकविद्या जानने वाला विद्वान् पाक कर्म का उपदेश करता है वैसे सब का प्रकाश और सब कामों का सेवन करो और भांजन के पदार्थों को उत्तमता से बनाओ ॥ ३५ ॥

होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । अश्व्यादयो देवताः ।

निचृदष्टिश्छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

होता यक्षुद्दैव्या होतारा भिषजाश्वि-
नेन्द्रं न जागृवि दिवा नक्तं न भेषजैः ।
शूषं सरस्वती भिषक् सीसेन दुहऽइन्द्र-
द्रियं पयः सोमः परिऽस्रुता घृतं मधु व्य-
न्तवाज्यस्य होतर्यज ॥ ३६ ॥

होतां । यक्षुत् । दैव्यां । होतारा । भिषजां । अश्विनां ।
इन्द्रम् । न । जागृवि । दिवां । नक्तम् । न । भेषजैः ।
शूषम् । सरस्वती । भिषक् । सीसेन । दुहे । इन्द्रद्रियम् ।
पयः । सोमः । परिऽस्रुतेति परिऽस्रुता । घृतम् । मधु ।
व्यन्तुं । आज्यस्य । होतः । यज ॥ ३६ ॥

पदार्थः-- (होता) दाता (यक्षुत्) (दैव्या) देवेषु लब्धौ
(होतारा) आदातारौ (भिषजा) वैद्यवद्रोगापहारकौ (अश्विना)
आग्निवायू (इन्द्रम्) विद्युत् (न) इव (जागृवि) जागरूका

कायसाधनेऽप्रमत्ता । अत्र सुपां सुलुगिति सोर्लोपः (दिवा) (नक्तम्) (न)
 (भेषजैः , जलैः (शूपम्) बलम् । शूपमिति बलना० निवं० २ । ६ (सर
 स्वती) वैद्यकशास्त्रविन् प्रशस्तज्ञानवती-स्त्री । भिषक् , वैद्यः (सीसेन धनु-
 विशेषेण । दुहे) दुग्धे लट्प्रयोगः । लोपस्त० इतितलोपः (इन्द्रियम्) धनम्
 (पयः) (सोमः) (परिस्नुता) (घृतम्) (मधु) (व्यन्तु) (आज्यस्य)
 (होतः) (यज) ॥ ३६ ॥

अन्वयः--हे होतर्यथा होता दैव्या होतारा भिषजाश्विनेन्द्रं न यत्तत्
 दिवा नक्तं जागृवि सरस्वती भिषग् भेषजैः सीसेन शूषं न इन्द्रियं दुहे तथा यानि
 परिस्नुता पयः सोमो घृतं मधु व्यन्तु तैः सह वर्त्तमानस्त्वमाज्यस्य यज । ३६ ॥

भावार्थः--अत्रोपमावाचकलु०- हे विद्वांसो यथा सदैव्याः स्त्रियः कार्य्याणि
 साधयितुमहर्निशं प्रयतन्ते यथा वा वैद्या रोगान्निवार्य शरीरबलं वर्धयन्ति तथा
 वाचित्वा सर्वैरानन्दितव्यम् ॥ ३६ ॥

पदार्थः--हे (होतः) देने हारे जन जैसे (होता) लेनेहारा (दैव्या) दिव्य-
 गुण वालों में प्राप्त (होतारा) ग्रहण करने और (भिषजा) वैद्य के समान रोग मि-
 टाने वाले (अश्विना) अग्नि और वायु को (इन्द्रम्) विजुली के (न) समान
 (यत्तत्) संगतकरे वा (दिवा) दिन और (नक्तम्) राति में (जागृवि) जागती अर्थात्
 काम के सिद्ध करने में अतिचैतन्य (सरस्वती) वैद्यक शास्त्र जानने वाली उत्तम ज्ञान-
 वती स्त्री और (भिषक्) वैद्य (भेषजैः) जलों और (सीसेन) धनुष के विशेष व्य-
 वहार से (शूपम्) बल के (न) समान (इन्द्रियम्) धन को (दुहे) परिपूर्ण करते
 हैं जैसे जो (परिस्नुता) सब ओर से प्राप्त हुए रस के साथ पयः) दुग्ध (सोमः)
 ओषधीगण (घृतम्) घी (मधु) सहत (व्यन्तु) (प्राप्त होवें उन के साथ वर्त्तमान
 (आज्यस्य) घी का (यज) हवन कर ॥ ३६ ॥

भावार्थः--इस में उपमा और वाचकलु०- हे विद्वान् लोगो जैसे अच्छी वैद्यक
 विद्या पढ़ी हुई स्त्री काम सिद्ध करने को दिन रात उत्तम यत्न करती हैं वा जैसे वैद्य
 लोग रोगों को मिटा के शरीर का बल बढ़ाते हैं जैसे रह के सब को आनन्दयुक्त
 होना चाहिये ॥ ३६ ॥

होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । अश्व्यादयो देवताः ।
धृतिश्छन्दः । ऋषभः स्वरः ।

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

होता यक्षत्तिस्त्रो देवीर्न भेषजं त्रय-
सिध्वातवोऽपसो रू पभिन्द्रे हिरण्यय
मश्विनेडा न भारती वाचा सरस्वती मह
इन्द्राय दुहऽइन्द्रियं पयः सोमः परि-
स्रुता घृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य होत-
यज ॥ ३७ ॥

होता । यक्षत् । तिस्रः । देवीः । न । भेषजम् । त्रयः ।
त्रिधातवऽइति त्रिधातवः । अपसः । रूपम् । इन्द्रे ।
हिरण्ययम् । अश्विना । इडां । न । भारती । वाचा ।
सरस्वती । महः । इन्द्राय । दुहे । इन्द्रियम् । पयः ।
सोमः । परिस्त्रुतेति परिऽस्रुता । घृतम् । मधु । व्यन्तु ।
आज्यस्य । होतः । यज ॥ ३७ ॥

पदार्थः--(होता) विद्यादाता (यक्षत्) संगमयेत् (तिस्रः)
(देवीः) देदीप्यमाना नीतीः (न) इव (भेषजम्) औषधम्

(त्रयः) तद् अस्मद् युष्मद् तद् वाच्याः (त्रिधातवः) दधति सर्वान् विषयानिति धातवस्त्रयो धातवो येषान्ते जीवाः (अपसः) कर्मवन्तः । अत्र त्रिन्प्रत्ययस्य लुक् (रूपम्) चक्षुर्विषयम् (इन्द्रे) विद्युति (हिरण्ययम्) (अश्विना) सूर्यो-चन्द्रमसौ (इडा) स्तोतुमर्हा (न) इव (भारती) धारणावती प्रज्ञा (वाचा) विद्यामुशिक्षायुक्तवाण्या (सरस्वती) परमविदुषी स्त्री (महः) महत् (इन्द्राय) ऐश्वर्यवते (दुहे) प्रपूरयति (इन्द्रियम्) धनम् (पयः) रसः (सोमः) ओ-पधिगणः (परिस्रुता) सर्वतः माप्तेन (घृतम्) (मधु) (व्यन्तु) (आजस्य) (होतः) (यज) ॥ ३७ ॥

अन्वयः—हे होतर्यथा होता तिस्रो देवीर्न भेषजं यत्तद् यथाऽपसस्त्रिधात-वस्त्रयो हिरण्ययरूपमिन्द्रे यजेरन् । अश्विनेडा भारती न सरस्वती वाचेन्द्राय मह इन्द्रियं दुहे तथा यानि परिस्रुता पयस्सोमो घृतं मधु व्यन्तु तैः सह वर्त्मान-स्त्वमाज्यस्य यज ॥ ३७ ॥

भावार्थः—अत्रोपमावाचकलु०—हे मनुष्या यथाऽस्थिमज्जवीर्याणि शरीरे कर्मसाधनानि सन्ति यथाच सूर्यादयो वाणी च सर्वज्ञापकाः सन्ति तथा भूत्वा सृष्टिविद्यां प्राप्य श्रीमन्तो भवत ॥ ३७ ॥

पदार्थः—हे (होतः) विद्या देने वाले विद्वज्जन जैसे (होता) विद्या लेने वाला (तिस्रः) तीन (देवीः) देदीप्यमान नीतियों के (न) समान (भेषजम्) औषध को (यत्तद्) अच्छे प्रकार प्राप्त करे वा जैसे (अपसः) कर्मवान् (त्रिधातवः, त्रयः) सब विषयों को धारण करने वाले सत्व रजस्तम गुण जिन में विद्यमान वे तीन अर्थात् अस्मद् युष्मद् और तद्पदं वाच्य जीव (हिरण्ययम्) ज्योतिर्मय (रूपम्) नेत्र के विषय रूप को (इन्द्रे) विजुली में प्राप्त करें वा (अश्विना) सूर्य और चंद्रमा तथा (इडा) स्तुति करने योग्य (भारती) धारण वाली बुद्धि के (न) समान (सरस्वती) अत्यन्त विदुषी (वाचा) विद्या और मुशिक्षा युक्त वाणी से (इन्द्राय) ऐश्वर्यवान् के लिये (महः) अत्यन्त (इन्द्रियम्) धन की (दुहे) परिपूर्णाता करती

वैसे जो (परिष्कृता) सब ओर प्राप्त हुये रसके साथ (पयः) दूध (सोमः) श्रोपधि-
समूह (घृतम्) घी (मधु) सहित (व्यन्तु) प्राप्त हों उन के साथ वर्तमान तृ (आ-
ज्यस्य) घी का । यज । हवन कर ॥ ३७ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में उपमा और वाचकनु०—दे मनुष्यो जैसे हाड, मज्जा
और वीर्य शरीर में कार्य के साधन हैं वा जैसे सूर्य आदि और वाणी सब को जनाने
वाले हैं वैसे हो और सृष्टि की विद्या को प्राप्त हो के लक्ष्मी वाले होओ ॥ ३७ ॥

होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । अश्व्यादयो देवताः ।

भुरिक्कृतिश्छन्दः । निपादः स्वरः ।

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

होता यक्षत् सुरेतससृषभं नर्यापसं
त्वष्टारमिन्द्रमश्विना भिषजं न सर-
स्वतीमोजो न जूतिरिन्द्रियं वृको न
रभसो भिषग् यशः सुरया भेषजश्शु
श्रिया न मासरं पयः सोमः परिष्कृता
घतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य होत र्यज ॥ ३८ ॥

होता । यक्षत् । सुरेतसमिति सुरेतसम् । असृष-
भम् । नर्यापसमिति नर्यापसम् । त्वष्टारम् । इन्द्रम् ।
अश्विना । भिषजम् । न । सरस्वतीम् । ओजः । न ।
जूतिः । इन्द्रियम् । वृकः । न । रभसः । भिषक् । य-
शः । सुरया । भेषजम् । श्रिया । न । मासरम् । पयः ।

सोमः परिस्त्रुतेति परिस्त्रुता । घृतम् । मधु । व्यन्तु ।
आज्यस्य । होतः । यज ॥ ३८ ॥

पदार्थः--(होता) आदाता (यज्ञत्) प्राप्नुयात् (सुरेतसम्) सुष्टुवी-
र्यम् (ऋषभम्) वलीवर्दम् (नर्यापसम्) नृषुसाध्वपः कर्म यस्य तम् (त्वष्टारम्)
दुःखच्छेत्तारम् (इन्द्रम्) परमैश्वर्यवन्तम् (अश्विना) वायुविद्युतौ (भिषजम्)
वैधवरम् (न) इव (सरस्वतीम्) बहुविज्ञानयुक्तां वाचम् (ओजः) बलम्
(न) इव (जूतिः) वेगः (इन्द्रियम्) मनः (वृकः) वज्रः । शृक इति वज्रना०
निघं० २ । २० (न) (रभसः) वेगम् । द्वितीयार्थे प्रथमा (भिषक्) वैद्यः
यशः धनमन्नं वा (सुरया) जलेन (भेषजम्) ओपधम् (श्रिया) लक्ष्म्या (न)
इव (मासरम्) संस्कृतभोज्यमन्नम् (पयः) पातुं योग्यम् (सोमः) ऐश्वर्यम्
(परिस्त्रुता) सर्वतोभिगतेन पुरुषार्थेन (घृतम्) (मधु) (व्यन्तु) (आज्यस्य)
(होतः) (यज) ॥ ३८ ॥

अन्वयः--हे होतस्त्वं यथा होता सुरेतसमृषभं नर्यापसं त्वष्टारमिन्द्रमश्वि-
नाभिषजं न सरस्वतीमोजो न यज्ञद्विषग्वृको न जूतिरिन्द्रियं रभसो यशः सुरया
भेषजं श्रिया न क्रियया मासरं यज्ञत्तथा परिस्त्रुता पयः सोमो घृतं मधु च व्यन्तु
तैः सह वर्त्तमानंस्त्वमाज्यस्य यज ॥ ३८ ॥

भावार्थः--अत्रोपमावाचकलु०--यथा विद्वांसो ब्रह्मचर्येण धर्माचरणेन वि-
द्यया सत्सङ्गादिनाचाऽखिलं सुखं प्राप्नुवन्ति तथा मनुष्यैः पुरुषार्थेन लक्ष्मीः
प्राप्तव्या ॥ ३८ ॥

पदार्थः--हे (होतः) लेने हारे जैसे (होता) ग्रहण करने वाला (सुरेतसम्)
अच्छे पराक्रमी (ऋषभम्) वैल और (नर्यापसम्) मनुष्यों में अच्छे कर्म करने तथा
(त्वष्टारम्) दुःख काटने वाले (इन्द्रम्) परमैश्वर्ययुक्त जन को (अश्विना) वायु

और विजुली वा (भिषजम्) उत्तम वैद्य के (न) समान (सरस्वतीम्) बहुत विज्ञान युक्त वारुणा को (ओजः) बल के (न) समान (यक्षत्) प्राप्त करे (भिषक्) वैद्य (वृकः) वज्र के (न) समान (जूतिः) वेग इन्द्रियम् (मन) रभसः वेग (यशः) धन वा अन्न को (सुरया) जल से (भेषजम्) औषध को (श्रिया) धन के (न) समान क्रियासे (मासरम्) अच्छे पके हुए अन्न को प्राप्त करे जैसे (परिश्रुता) सब ओर से प्राप्त पुरुषार्थ से (पयः) पीने योग्य रस और (सोमः) ऐश्वर्य (घृतम्) घी और (मधु) सहित (व्यन्तु) प्राप्त होंगे उन के साथ वर्तमान तू (आज्यस्य) घी का (यन) हवन कर ॥ ३८ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में उपमावाचकलु०—जैसे विद्वान् लोग ब्रह्मचर्य, धर्म के आचरण, विद्या और सत्संगति आदि से सब सुख को प्राप्त होते हैं वैसे मनुष्यों को चाहिये कि पुरुषार्थ से लक्ष्मी को प्राप्त होंगे ॥ ३८ ॥

होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । अश्व्यादयो देवताः ।
निचृदत्यष्टिश्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥
फिर उसी वि० ॥

होता यक्षद्वनस्पतिः शमितारः शु-
तक्रतुं भीमं नमन्युः राजानं व्याघ्रं
नमसाश्विना भामः सरस्वती भिषगि-
न्द्राय दुहःइन्द्रियं पयः सोमः परिश्रु-
ता घृतं मध व्यन्तवाज्यस्य होत-
र्यज ॥ ३९ ॥

होता । यक्षत् । वनस्पतिम् । शमितारम् । शतक्र-
तुमिति शतः क्रतुम् । भीमम् । न । मन्युम् । राजानम् ।
व्याघ्रम् । नमसा । अश्विना । भामम् । सरस्वती ।
भिषक् । इन्द्राय । दुहे । इन्द्रियम् । पयः । सोमः ।
परिऽस्रुतेति परिऽस्रुता । घृतम् । मधु । व्यन्तु । आ-
ज्यस्य । होतः । यज ॥ ३६ ॥

पदार्थः—(होता) आदाता (यक्षत्) (वनस्पतिम्) किरणानां पा-
लकम् (शमितारम्) शान्तिप्रदम् (शतक्रतुम्) असंख्यप्रज्ञं बहुकर्माणं वा (भीमम्)
भयंकरम् (न) इव (मन्युम्) क्रोधम् (राजानम्) राजमानम् (व्याघ्रम्)
सिंहम् (नमसा) वज्रेण (अश्विना) सभासेनेशौ (भामम्) क्रोधम् (सरस्वती)
प्रशस्तविज्ञानवती (भिषक्) वैद्यः (इन्द्राय) धनाय (दुहे) प्रपूरयेत् (इन्द्रि-
यम्) धनम् (पयः) रसम् (सोमः) चन्द्रः (परिऽस्रुता) (घृतम्) (मधु) मधुरं
वस्तु (व्यन्तु) (आज्यस्य) प्राप्तुमर्हस्य (होतः) (यज) ॥ ३६ ॥

अन्वयः—हे होतर्यथा भिषग् घोता इन्द्राय वनस्पतिमिव शमितारं श-
तक्रतुं भीमं न मन्युं नमसा व्याघ्रं न राजानं यक्षत् सरस्वत्याश्विना भामं दुहे तथा
परिस्रुतेन्द्रियं पयः सोमो घृतं मधु व्यन्तुतैः सह वर्त्तमानस्त्वमाज्यस्य यज ॥ ३६ ॥

भावार्थः—अत्रोपमावाचकलु०—ये मनुष्या विद्यया बन्धि शान्त्या
विद्वांसं पुरुषार्थेन प्रज्ञां न्यायेन राज्यं च प्राप्यैश्वर्यं वर्द्धयन्ति ते ऐहिकपारमा-
र्थिके सुखे प्राप्नुवन्ति ॥ ३९ ॥

पदार्थः—हे (होतः) लेने हारे जैसे (भिषक्) वैद्य (होता) वा लेने हारा
(इन्द्राय) धन के लिये (वनस्पतिम्) किरणों को पालने और (शमितारम्) शान्ति
देने हारे (शतक्रतुम्) अनन्त बुद्धि वा बहुत कर्मयुक्त जन को (भीमम्) भय कारक

के (न) समान (मन्युम्) क्रोध को वा (नमसा) वज्र से (व्याघ्रम्) सिंह और (राजा-
नम्) देदीप्यमान राजा को (यत्तत्) प्राप्त करे वा (सरस्वती) उत्तम विज्ञान वाली
स्त्री और (अश्विना) सभा और सेनापति (भामम्) क्रोध को (दुहे) परिपूर्णा करे वैसे
(परिष्कृता) प्राप्त हुए पुरुषार्थ के साथ (इन्द्रियम्) धन (पयः) रस (सोमः) चन्द्र
(घृतम्) घी (मधु) मधुर वस्तु (व्यन्तु) प्राप्त हों उन के साथ वर्तमान तू (आ-
ज्यस्य) घी का (यज) हवन कर ॥ ३६ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में उपमावाचकलु० —जो मनुष्यलोग विद्या से अग्नि शा-
न्ति से विद्वान् पुरुषार्थ से बुद्धि और न्याय से राज्य को प्राप्त हो के ऐश्वर्य को बढ़ाते हैं
वे इस जन्म और परजन्म के सुख को प्राप्त होते हैं ॥ ३६ ॥

होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेयऋषिः । अश्व्यादयो देवताः । निचृत्यष्टयौ

छन्दसी । गान्धारः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

होता यक्षदग्निः स्वाहाज्यस्य स्तो-
कानां स्वाहा मेदसां पृथक् स्वाहा छा-
गमंश्विभ्यां स्वाहा मेषः सरस्वत्यै
स्वाहा ऽऋषभमिन्द्राय सिंहाय सह-
सऽइन्द्रियः स्वाहाग्निं न भेषजः स्वा-

हा सोममिन्द्रियं स्वाहेन्द्रं सुत्रामाणां
 सवितारं वरुणां भिषजां पतिं स्वाहा
 वनस्पतिं प्रियं पार्थो न भेषजं स्वाहा
 देवा आज्यपा जुषाणोऽग्निर्भेषजं
 पयः सोमः परिष्कृता घृतं मधुव्यन्त्वा-
 ज्यस्य होतर्यज ॥ ४० ॥

होता । यक्षत् । अग्निम् । स्वाहा । आज्यस्य ।
 स्तोत्रानाम् । स्वाहा । मेदसाम् । पृथक् । स्वाहा । छा-
 गम् । अश्विन्यामित्यश्विन्याम् । स्वाहा । मेपम् । सर-
 स्वत्यै । स्वाहा । ऋषभम् । इन्द्राय । सिंहाय । स-
 हसे । इन्द्रियम् । स्वाहा । अग्निम् । न । भेषजम् । स्वाहा ।
 सोमम् । इन्द्रियम् । स्वाहा । इन्द्रम् । सुत्रामाणामिति
 सुत्रामाणाम् । सवितारम् । वरुणाम् । भिषजाम् । प-
 तिम् । स्वाहा । वनस्पतिम् । प्रियम् । पार्थः । न । भेष-
 जम् । स्वाहा । देवाः । आज्यपाऽइत्याज्यपाः । जुषा-
 णाः । अग्निः । भेषजम् । पयः । सोमः । परिष्कृतेति-
 परिष्कृता । घृतम् । मधु । व्यन्तु । आज्यस्य । होतः ।
 यज ॥ ४० ॥

पदार्थः-(होता) आदाता (यजत्) यजेत् (अग्निम्) पावकम् (स्वाहा)
सुष्ठुक्रियया (आज्यस्य) प्राप्तुमर्हस्य (स्तोकानाम्) स्वल्पानाम् (स्वाहा)
सुष्टुरक्षणक्रियया (मेदसाम्) स्निग्धानाम् (पृथक्) (स्वाहा) उत्तमरीत्या
(छागम्) दुःखं छेत्तुमर्हम् (अश्विभ्याम्) राज्यस्वामि पशुपालाभ्याम् (स्वाहा)
(मेपम्) सेचनकर्तारम् (सरस्वत्यै) विज्ञानयुक्तार्थे वाचे (स्वाहा) परमोत्तमया
क्रियया (ऋषभम्) श्रेष्ठं पुरुषार्थम् (इन्द्राय) परमैश्वर्याय (सिंहाय) यो
हिनस्ति तस्मै (सहसे) बलाय (इन्द्रियम्) धनम् (स्वाहा) शोभनयावाचा
(अग्निम्) पावकम् (न) इव (भेषजम्) औषधम् (स्वाहा) उत्तमया क्रियया
(सोमम्) सोमलताद्योषधिगणम् । (इन्द्रियम्) मनः प्रभृतीन्द्रियमात्रम् स्वाहा
सुष्ठुशान्तिक्रियया विद्यया च (इन्द्रम्) सेनेशम् (सुत्रामाणम्) सुष्टुरक्तम्
(सवितारम्) ऐश्वर्यकारकम् (वरुणम्) श्रेष्ठम् (भिषजाम्) वैद्यानाम् (पतिम्)
पालकम् (स्वाहा) निदानादिविद्यया (वनस्पतिम्) वनानां पालकम् (प्रियम्)
कमनीयम् (पाथः) पालकमन्त्रम् (न) इव (भेषजम्) औषधम् (स्वाहा) सुष्ठु-
विद्यया (देवाः) विद्वांसः (आज्यपाः) य आज्यं विज्ञानं पातिरक्षन्ति ते (जु-
षाणः) सेवमानः (अग्निः) पावक इव प्रदीप्तः (भेषजम्) चिकित्सनीयम् (पयः)
उदकम् (सोमः) ओषधिगणः (परिच्छुता) (घृतम्) (मधु) (व्यन्तु) (आ-
ज्यस्य । (होतः) दातः (यज) ॥ ४० ॥

अन्वयः-हे होतर्यथा होताऽऽज्यस्य स्वाहा स्तोकानां मेदसांस्वाहाऽग्नि
पृथक्स्वाहाश्विभ्यां छागं सरस्वत्यै स्वाहा मेपमिन्द्राय स्वाहर्षभं सहसे सिंहाय
स्वाहेन्द्रियं स्वाहाग्निं न भेषजं सोममिन्द्रियं स्वाहा सुत्रामाणमिन्द्रं भिषजां पतिं
सवितारं वरुणं स्वाहा वनस्पतिं स्वाहा प्रियं पाथो न भेषजं यज्ञशयावाज्यपा
देवा भेषजं जुषाणोऽग्निश्च यजत् तथा यानि परिच्छुता पयः सोमो घृतं मधुव्यन्तु
तैः सह वर्तमानस्त्वमाज्यस्य यज ॥ ४० ॥

भावार्थः—आत्रोपमावाचकलु०—ये मनुष्या विद्याक्रियाकौशल्यत्नैर-
ग्न्यादिविद्यां विज्ञाय गवादीन् पशून् संपाल्य सर्वोपकारं कुर्वन्ति ते वैद्यवत्पञ्चा-
हुःस्वध्वंसका जायन्ते ॥ ४० ॥

पदार्थः—हे (होतः) देने हारे जन जैसे (होता) ग्रहण करने हारा (आ-
ज्यस्य) प्राप्त होने योग्य घी की (स्वाहा) उत्तम क्रिया से वा (स्तोकानाम्) स्वल्प
(मेदसाम्) स्निग्धपदार्थों की (स्वाहा) अच्छे प्रकार रक्षण क्रिया से (अग्निम्) अग्नि
को (पृथक्) भिन्न २ (स्वाहा) उत्तम रीति से (अश्विभ्याम्) राज्य के स्वामि और
पशु के पालन करने वालों से (द्यागम्) दुःख के छेदन करने को (सरस्यत्यै) वि-
ज्ञान युक्त बाणी के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया से (भेषजम्) सेवन करने हारे को
(इन्द्राय) परमैश्वर्य के लिये (स्वाहा) परमोत्तम क्रिया से (ऋषभम्) श्रेष्ठ पुरुषार्थ
को (सहसे) बल (सिंहाय) और जो शत्रुओं का हनन कर्ता उस के लिये (स्वाहा)
उत्तम बाणी से (इन्द्रियम्) धन को (स्वाहा) उत्तम क्रिया से (अग्निम्) पावक
के (न) समान (भेषजम्) औषध (सोमसोमतादि) औषधि समूह (इन्द्रियम् वा, मन
आदि इन्द्रियों को (स्वाहा) शान्ति आदि क्रिया और विद्या से (सुत्रामाणम्) अच्छे
प्रकार रक्षक (इन्द्रम्) सेनापति को (भियजाम्) वैधों के (पतिम्) पालन करने हारे
(सवितारम्) ऐश्वर्य के कर्ता (वरुणम्) श्रेष्ठ पुरुष को (स्वाहा) निदान आदि
विद्या से (वनस्पतिम्) वनों के पालन करने हारे को (स्वाहा) उत्तम विद्या से (प्रियम्)
प्रीति करने योग्य (पाथः) पालन करने वाले अन्न के (न) समान (भेषजम्)
उत्तम औषध को (यज्ञन्) संगत करे वा जैसे (आज्यपाः) विज्ञान के पालन करने
हारे (देवाः) विद्वान् लोग और (भेषजम्) चिकित्सा करने योग्य को (जुषाणः)
सेवन कर्ता हुआ (अग्निः) पावक के समान तेजस्वी जन संगत करें वैसे जो (परिश्रुता)
चांगों और से प्राप्त हुए रस के साथ (पयः) दूध (सोमः) औषधियों का समूह
(घृतम्) घी (मधु) सहित (व्यन्तु) प्राप्त हों उन के साथ वर्तमान नू. (आज्य-
स्य) घी का (यज) हवन क्रिया कर ॥ ४० ॥

भावार्थः—इस मंत्र में उपमा और वाचकलु०---जो मनुष्य विद्या क्रिया कुशल-
ता और प्रयत्न से अग्न्यादि विद्या को जान के गौ आदि पशुओं का अच्छे प्रकार पा-
लन करके सब के उपकार को करते हैं वे वैद्य के समान प्रजा के दुःख के नाशक होते हैं ॥४०॥

होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । विद्वांसो देवताः ।

आतिष्ठतिश्छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

होता यक्षदश्विनो ब्राह्मस्य वपाया
मेदसो जुषेता ० हविर्होत यज । होतां
यक्षत्सरस्वतीं मेषस्य वपाया मेदसो
जुषता ० हविर्होत यज । होता यक्षदि-
न्द्रमृषभस्य वपाया मेदसो जुषतांश्च-
हविर्होत यज ॥ ४२ ॥

होता । यजत् । अश्विनो । ब्राह्मस्य । वपायाः । मेदसः ।
जुषेताम् । हविः । होतः । यज । होता । यजत् । सरस्वतीम् ।
मेषस्य । वपायाः । मेदसः । जुषताम् । हविः । होतः । यज ।
होता । यजन् । इन्द्रम् । मृषभस्य । वपायाः । मेदसः । जुष-
ताम् । हविः । होतः यज ॥ ४१ ॥

पदार्थः--(होता) दाता (यजत्) (अश्विनो) पशुपालकृषीवलौ
(ब्राह्मस्य) अजादेः (वपायाः) वीजतन्तुसन्तानिकायाः क्रियायाः (मेदसः)
स्निग्धस्य (जुषेताम्) सेवेताम् (हविः) होतव्यम् (होतः) दातः (यज)

(होता) आदाता (यज्ञत्) (सरस्वतीम्) विज्ञानवतीं वाचम् (मेघस्य) अवेः
 (वपायाः) वीजवर्द्धिकायाः क्रियायाः (मेघसः) स्नेहयुक्तम्यपदार्थस्य (जुप-
 ताम्) सेवताम् (हविः) प्रहेप्तव्यं सुसंस्कृतमन्नादिकम् (होतः) (यज)
 (होता) (यज्ञत्) (इन्द्रम्) परमेश्वर्यकारकम् (ऋषभस्य) वृषभस्य (व-
 पायाः) वर्द्धिकापारीत्याः (मेघसः) स्नेहस्य (जुपताम्) सेवताम् (हविः)
 दातव्यम् (होतः) (यज) ॥ ४१ ॥

अन्वयः—हे होतस्त्वं यथा होता यज्ञदशिवनौ छागस्य वपाया मेघसो
 हविर्जुपताम् तथा यज । हे होतस्त्वं यथा होता मेघस्य वपाया मेघसो हवि
 सरस्वतीञ्च जुपतां यज्ञत्तथा यज । हे होतस्त्वं यथा होतर्षभस्य वपाया मेघसो
 हविरिन्द्रं च जुपतां यज्ञत्तथा यज ॥ ४१ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—ये यत्तुष्याः पशुसंख्यां बलं च वर्धयन्ति
 ते स्वयमपि बलिष्ठा जायन्ते । ये पशुजं दुग्धं तज्जमाज्यं च स्निग्धं सेवन्ते ते
 कोमलपकृतयो भवन्ति । ये कृषिकरणाधार्यतान्वृषभान्युञ्जन्ति ते धनधान्ययु-
 क्ता जायन्ते ॥ ४१ ॥

पदार्थः—हे (होतः) देने हारे तू जैसे (होता) और देने हारा (यज्ञत्)
 अनेक प्रकार के व्यवहारों की संगति करे (अश्विनौ) पशु पालने वा खेती करने वाले
 (छागस्य) बकरा गौ भैंस आदि पशु संबन्धी वा (वपायाः) बीज बोने वा सूत के
 कपड़े आदि बनाने और (मेघसः) चिकने पदार्थ के (हविः) लेने देने योग्य व्यवहार
 का (जुपताम्) सेवन करे जैसे (यज) व्यवहारों की संगति कर हे (होतः) देने
 हारे जन तू जैसे (होता) लेने हारा (मेघस्य) मेढा के (वपायाः) बीज को बढ़ाने
 वाली क्रिया और (मेघसः) चिकने पदार्थ संबन्धी (हविः) अग्नि आदि में छोड़ने
 योग्य संस्कार क्रिये हुए अन्न आदि पदार्थ और (सरस्वतीम्) विशेष ज्ञान वाली वाणी
 का (जुपताम्) सेवन करे (यज्ञत्) वा उक्त पदार्थों का यथायोग्य मेल करे जैसे
 (यज) सब पदार्थों का यथायोग्य मेल कर हे (होतः) देने हारे तू जैसे (होता)

लेने हारा (ऋषभस्य) बैल को (वपायाः) बढ़ने वाली रीति और (मेदसः) चि-
कने पदार्थ संबन्धी (हविः) देने योग्य पदार्थ और (इन्द्रम्) परमेश्वर्य करनेवाले
का (जुषताम्) सेवन करे वा यथायोग्य (यत्नत्) उक्त पदार्थों का मेल कर वैसे
(यज) यथा योग्य पदार्थों का मेल कर ॥४१॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—जो मनुष्य पशुओं की संख्या और
बल को बढ़ाते हैं वे आप भी बलवान् होते और जो पशुओं से उत्पन्न हुए दूध और
उस से उत्पन्न हुए घी का सेवन करते वे कोमल स्वभाव वाले होते हैं और जो खेती
करने आदि के लिये इन बैलों को युक्त करते हैं वे धनधान्ययुक्त होते हैं ॥ ४१ ॥

होतैत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । होत्रादयोदेवताः । पूर्वस्य त्रिपाद्गायत्री

छन्दः । सुरामाण इत्यस्यातिधृति रछन्दः । षड्जः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

होता यक्षदश्विनी सरस्वतीमिन्द्र सु-

त्रामाण मिमे सोमाः सुरामाणश्छागैर्न

मे षैर्नृषभैः सुताः शष्पैर्न तोक्मभिला-

जैर्महस्वन्तो मदा मासरेण परिष्कृताः

शुक्राः । पयस्वन्तोऽमृताः प्रस्थिता

वो मधुश्चुतस्तान्श्विना सरस्वतीन्द्रः

सुत्रामा वृत्रहा जुषन्तां सोम्यं मधु पि

बन्तु मदनन्तु व्यन्तु होतृ यज ॥ ४२ ॥

होता । यज्ञत् । अश्विनौ । सरस्वतीम् । इन्द्रम् । सुत्रामा

णमिति सुऽत्रामाणम् । इमे । सोमाः । सुरामाणः । छगैः । न ।

मेषैः । ऋषभैः । सुताः । शष्पैः । न । तोकर्मभिरिति तोकर्मऽभिः

लाजैः । महस्वन्तः । मदाः । मासरेण । परिष्कृताः । शुक्राः ।

पयस्वन्तः । अमृताः । प्रस्थिताऽइति प्रऽस्थिताः । वः । मधुश्चु-

तऽइति मधुश्चुतः । तान् । अश्विना । सरस्वती । इन्द्रः । सु-

त्रामा । वृत्रहा । जुषन्ताम् । सोम्यम् । मधु । पिबन्तु । मद-

न्तु । व्यन्तु । होतः । यज ॥ ४२ ॥

पदार्थः--(होता) दाता (यज्ञत्) यजेत् (अश्विनौ) अध्यापको-

पदेष्टारौ (सरस्वतीम्) विज्ञानवतीं वाचम् (इन्द्रम्) परमेश्वर्ययुक्तराजानम्

(सुत्रामाणम्) प्रजायाः सुष्ठुरक्षकम् (इमे) (सोमाः) ऐश्वर्यवन्तः सभासदः

(सुरामाणः) सुष्ठुदातारः (छगैः) (न) इव (मेषैः) (ऋषभैः) (सुताः)

अभिषेकक्रियाजाताः (शष्पैः) हिंसकैः । अत्रौणादिको बाहुलकात्कर्त्तरि यत्

(न) इव (तोक्मभिः) अपत्यैः (लाजैः) भर्जितैः (महस्वन्तः) महांसि पू-
जनानि सत्करणानि विद्यन्ते येषान्ते (मदाः) आनन्दाः (मासरेण) श्रोत्र-
नेन (परिष्कृताः) परितः शोभिताः, संपर्युषेभ्यः करोतौ भूषण इति सुट् (शुक्राः)
शुद्धाः (पयस्वन्तः) प्रशस्तजलदुग्धादियुक्ताः (अपृनाः) अमृतान्मैकरसाः (प्र-
स्थिताः) कृतप्रस्थानाः (वः) युष्मभ्यम् (मधुश्चुतः) मधुगादिगुणा विश्ल-
ष्यन्तो येभ्यः (तान) अश्विना सुसत्कर्ता पुरुषौ (सरस्वती) प्रशस्तविद्या
युक्ता स्त्री (इन्द्रः) सुत्रामा सुष्टुरक्षकः (वृत्रहा) मेघस्य हन्ता सूर्ये इव (जु-
षन्ताम्) सेवन्ताम् (सोम्यम्) सोमार्हम् (मधु) मधुररसम् (पिवन्तु) (मदन्तु)
आनन्दन्तु (व्यन्तु) व्याप्नुवन्तु (होतः) (यज) ॥ ४२ ॥

अन्वयः—हे होतर्यथा होताऽश्विनौ सरस्वती सुत्रामाणमिन्द्रं यत्तद्यत्मे
सुरामाणः सोमाः सुताश्छागैर्न मेपैर्ऋषभैः शर्षपैर्न तोक्मामितर्जिर्महस्वन्तोमदा-
मासरेण परिष्कृताः शुक्राः पयस्वन्तोऽमृता मधुश्चुतः प्रस्थिता यो निर्मितास्तान
यत्तद्यथाऽश्विना सरस्वती सुत्रामावृत्रहेन्द्रश्च सोम्यं मधु जुषन्तां पिवन्तु, मदन्तु
सकला विद्या व्यन्तु तथा यज ॥ ४२ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकत्वं—ये सृष्टिपदार्थविधां सत्यां वानं मुरक्षकं
राजानं च प्राप्य पशूनां पय आदिभिः पुष्यन्ति ते सुरसान् सुसंस्कृतान्नादीन्
सुपरीक्षितान् भोगान् युक्त्या भुक्त्वा रसान् पात्वी धर्मार्थकाममोक्षार्थं प्रयतन्ते
ते सदा सुखिनो भवन्ति ॥ ४२ ॥

पदार्थः—हे (होतः) लेने हारा जैसे (होता) देने वाला (अश्विनौ) पढाने और उपदेश करने वाले पुरुषो (सरस्वतीम्) तथा विज्ञान की भरी हुई वाणी और (सुत्रामाणम्) प्रजा जनों की अच्छी रक्षा करने हारे (इन्द्रम्) परम ऐश्वर्ययुक्त राजा को (यज्ञत्) प्राप्त हो वा (इमे) ये जो (सुरामाणः) अच्छे देने हारे (सोमाः) ऐश्वर्यवान् सभासद् (सुताः) जो कि अभिषेक पाये हुए हों वे (छगैः) विनाश करने योग्य पदार्थों वा बकरा आदि पशुओं (न) वैसे तथा (मधैः) देखने योग्य पदार्थ वा मधों (ऋषभैः) श्रष्ट पदार्थों वा बैलों और (शष्पैः) हिंसकों से जैसे (न) वैसे (तोक्मभिः) सन्तानों और (लाजैः) भुंजे अन्नों से (महस्वन्तः) जिन के सत्कार विद्यमान हों वे मनुष्य और (मदाः) आनन्द (मासरेण) पके हुए चाबलों के साथ (परिस्कृताः) शोभायमान (शुक्राः) शुद्ध (पयस्वन्तः) प्रशंसित जल और दूध से युक्त (अमृताः) जिनमें अमृत एक रस (मधुश्चुतः) जिन से मधुरादि गुण टपकते वा (प्रस्थिताः) एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हुए (वः) तुम्हारे लिये पदार्थ बनाए हैं (तान्) उनको प्राप्त होवे वा जैसे (अश्विना) सुन्दर सत्कार पाये हुए पुरुष (सरस्वती) प्रशंसित विद्या युक्त स्त्री (सुत्रामा) अच्छी रक्षा करने वाला (वृत्रहा) मेघ को छिन्न भिन्न करने वाले सूर्य के समान (इन्द्रः) परम ऐश्वर्यवान् सज्जन (सोम्यम्) शीतलता गुण के योग्य (मधु) मीठेपन का (जुषन्ताम्) सेवन करें (पिवन्तु) पीवें (मदन्तु) हारखें और समस्त विद्याओं को (व्यन्तु) व्याप्त हों वैसे तू (यज) सब पदार्थों की यथायोग्य संगति किया कर ॥ ४२ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—जो संसार के पदार्थों की विद्या सत्य वाणी और भली भाँति रक्षा करने हारे राजा को पा कर पशुओं के दूध आदि पदार्थों से पुष्ट होते हैं वे अच्छे रस युक्त अच्छे संस्कार किये हुए अन्न आदि पदार्थ जो सुपरीक्षित हों उन को युक्ति के साथ खा और रसों को पी धर्म अर्थ काम मोक्ष के निमित्त अच्छा यत्न करते हैं वे सदैव सुखी होते हैं ॥ ४२ ॥

होतेत्यस्यस्वस्त्याऽत्रेयश्चापिः । होत्रादयो देवताः ।

आद्यस्य याजुषी पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ।

उत्तरस्योत्कृतिश्छन्दः । पद्जः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

होता यक्षदशिवनौ छागस्य हविष
 आत्तामद्य मध्यतो मेदुद्धृतं पुरा
 द्वेषोभ्यः पुरा पौरुषेय्या गृभो घस्तां
 नूनं घासेऽञ्ज्राणां यवसप्रथमानां
 सुमत्क्षराणां शतरुद्रियाणामग्निष्वा-
 त्तानां पीवोपवसनानां पार्श्वतः श्रोणि-
 तः शितामृत उत्सादतोऽङ्गादङ्गा-
 दवत्तानां करत एवाशिवना जुषेता ह-
 विर्होतुर्यज ॥ ४३ ॥

होता । यक्षत् । अश्विनौ । छागस्य । हविषः । आत्ताम् ।
 अद्य । मध्यतः । मेदुः । उद्धृतमित्युत्सृष्टम् । पुरा । द्वेषोभ्यः
 इति द्वेषःऽभ्यः । पुरा पौरुषेय्याः । गृभः । घस्ताम् । नूनम् ।
 घासेऽञ्ज्राणां घासेऽञ्ज्राणाम् । यवसप्रथमानामिति यवसऽ
 प्रथमानाम् । सुमत्क्षराणामिति सुमत्क्षराणाम् । शतरुद्रियाणा-
 मिति शतरुद्रियाणाम् । अग्निष्वात्तानाम् । अग्निष्वात्तानामित्यं
 ग्निष्वात्तानाम् । पीवोपवसनात् । मिति पीवःऽउपवसनात् । पार्श्वतः ।

श्रोणितः । शितामतः । उत्सादत्तऽइत्युत्ऽसादतः । अङ्-
गादङ्गादित्यङ्गात्ऽअङ्गात् । अवत्तानाम् । करतः । एव । अ-
श्विना । जुपेताम् । हविः । होतः । यज ॥ ४३ ॥

पदार्थः—(होता) आदाता (यज्ञत्र) (अश्विनौ) अध्यापहोपदेश-
कां (छागस्य) (हविषः) आदातुमर्हस्य (आत्ताम्) (अद्य) (मध्यतः)
मध्यात् (मेदः) स्निग्धम् (उद्धृतम्) उत्कृष्टतया धृतम् (पुरा) (द्वेषोभ्यः)
द्वेषेभ्यः (पुरा) (पौरुषेय्याः) पुरुषाणां समूहे साध्यः (गृभः) ग्रेहीतुं
योग्यायाः (यस्ताम्) भक्षयताम् (नूनम्) निश्चितम् (घासेअजाणाम्)
भोजनेऽग्रे माप्तव्यानाम् (यवसप्रथमानाम्) यवसो यवान्नं प्रथमं येषां तेषाम्
(सुमत्कराणाम्) सुष्ठु मदां क्षरः संचलनं येषां तेषाम् (शतरुद्रियाणाम्)
शतं रुद्राः शतरुद्राः शतरुद्रा देवता येषां तेषाम् (अग्निष्वात्तानाम्) अग्निः
सुष्ट्वात्तो गृहीतो यैस्तेषाम् (पीवोपवसनानाम्) पीवास्मुपवसनान्याच्छादना-
नि येषां तेषाम् (पार्श्वतः) उभयतः (श्रोणितः) कटिप्रदेशात् (शितामतः)
शिवस्तीक्ष्ण आमोऽपरिपक्वं यस्मिस्तस्माद् (उत्सादतः) उत्सादनं कुर्वतः
(अङ्गादङ्गात्) प्रत्यङ्गात् (अवत्तानाम्) नञ्नीभूतानामुत्कृष्टानामङ्गा-
नाम् (करतः) कुर्याताम् (एव) (अश्विना) सदैवौ (जुपेताम्) (हविः)
अनुपहर्षम् (होतः) (यज) ॥ ४३ ॥

अन्वयः—हे होतर्थथा होताश्वितौ यज्ञतौ चाऽद्य छागस्य मध्यतो-
हविषो मेद उद्धृतमात्ता यथा वा पुरा द्वेषोभ्यो गृभः पौरुषेय्याः पुरा नूनं घ-

स्तां यथा वा यवसप्रथमानां घासेश्रज्जाणां सुमत्क्षराणां शतरुद्रियाणां पीवो-
पवसनानामग्निष्वात्तानांपार्श्वतः श्रोणितः शितामत उत्सादतोऽद्गादद्गादव-
सानामेवाश्विना करतो हविर्जुषेतां तथा त्वं यज ॥ ४१ ॥

भावार्थः—वे छागादीनां रक्षां विधाय तेषां दुग्धादिकं सुसंस्कृत्य भुक्त्वा
द्वेषादिषुक्तान् पुरुषान्निवार्य सुवैद्यानां सद्गुणं कृत्वा शोभनं भोजनाऽऽच्छादनं
कुर्वन्ति ते प्रत्यद्गाद्रोगान्निवार्य सुखिनो भवन्ति ॥ ४३ ॥

पदार्थः—हे (होतः) देने हारे जैसे (होता) लेने वाला (अश्विनौ)
पढ़ाने और उपदेश करने वालों को (यक्षत्) संगत करे और वे (अन्न) अन्न
(छागस्य) बकरा आदि पशुओं के (मध्यतः) बीच से (हविषः) लेने योग्य पदार्थ
का (मेदः) चिकनाभाग अर्थात् घी दूध आदि (उद्भूतम्) उद्धार किया हुआ
(आत्ताम्) लेवे वा जैसे (द्वेषोभ्यः) दुष्टों से (पुरा) प्रथम (गृभः) ग्रहण कर-
ने योग्य (पौरुषेय्याः) पुरुषों के समूह में उत्तम स्त्री के (पुरा) पहिले (नूनम्) नि-
श्चय करके (घस्ताम्) खावे वा जैसे (यवसप्रथमानाम्) जो जिन का पहिला अन्न
(घासेश्रज्जाणाम्) जो खाने में आगे पहुंचेन योग्य (सुमत्क्षराणाम्) जिन के उत्तम
आनन्दों का कंपनी आगमन (शतरुद्रियाणाम्) दुष्टों को रूलाने हारे सैकड़ों रुद्र जिन
के देवता (पीवोपवसनानम्) वा जिन के मोटे २ कपड़ों के ओढ़ने पहिरने (अग्निष्वा-
त्तानाम्) वा जिन्होंने भली भांति अग्निविद्या का ग्रहण किया हो इन सब प्राणियों
के (पार्श्वतः) पार्श्वभाग (श्रोणितः) कटिप्रदेश (शितामतः) तीक्ष्ण जिस में कच्चा
अन्न उसप्रदेश (उत्सादतः) उपाड़ते हुए अंग और (अद्गादद्गात्) प्रत्येक अंग
से व्यवहार वा (अवत्तानाम्) नमे हुए उत्तम अङ्गों (एव) ही के व्यवहार को
(अश्विना) अच्छे वैद्य (करतः) करें और (हविः) उक्त पदार्थों से खाने योग्य पदार्थ
का (जुषेताम्) सेवन करें वैसे (यज) सब पदार्थों वा व्यवहारों की संगति किया
कर ॥ ४३ ॥

भावार्थः— जो छेरी आदि पशुओं की रक्षा कर उनके दूध आदि का अच्छा
अच्छा संस्कार और भोजन कर वैरभावयुक्त पुरुषों को निवारण कर और अच्छे वैधों का संग
करके उत्तम खाना पहिरना करते हैं वे प्रत्येक अंग से रोगों को दूर कर सुखी होते हैं ॥ ४३ ॥

होतेत्यस्यस्वस्त्याग्नेय ऋषिः । विद्वांसो देवताः । पूर्वस्य

याजुषी त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः । हविषइत्युत्तरस्य

स्वरादुत्कृतिश्छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

होता यज्ञत् सरस्वतीं मेषस्य हविष
आवयद्व्य मध्यतो मेदऽउद्भूतं पुरा
द्वेषाभ्यः पुरा पौरुषेय्या गृभो घसन्नं
घासेऽअज्राणां यवसप्रथमानां सुम-
तक्षराणां शतरुद्रियाणामग्निष्वत्तानां
पीवोपवसन्नानां पाश्वरतः श्रौणितः शि-
तामृतऽउत्सादतोऽङ्गादङ्गादवत्तानां
करदेवः सरस्वती जुषतां हविर्हीत-
र्यज ॥ ४४

होता । यज्ञत् । सरस्वतीम् । मेषस्य । हविषः । आ । अव-
यत् । अथ । मध्यतः । मेदः । उ । तमित्युत्ऽभृतम् । पुरा ।

द्वेषोभ्यऽइति द्वेषःऽभ्यः। पुरा। पौरुपेय्याः। गृभः। घसत्।
 नुम्। घासेञ्ज्जाणामिति घासेऽञ्ज्जाणाम्। यवसप्रथमाना
 मिति यवसऽप्रथमानाम्। सुमत्क्षराणामिति सुमत्क्षराणाम्।
 शतरुद्रियाणामिति शतरुद्रियाणाम्। अग्निष्वत्तानामित्यग्नि
 ष्वत्तानाम्। पीवोपवसनानामिति पीवःऽउपवसनानाम्। पार्श्वतः।
 श्रोणितः। शितामतः। उत्सादत्ऽइत्थुत्ऽसादत्ः। अद्गादद्गा
 दित्यद्गात्ऽअद्गात्। अदत्तानम्। करत्। एवम्। सस्वती।
 जुषताम्। हविः। होतः। यज ॥ ४४ ॥

पदार्थः-- (होता) दाता (यत्तत्) (सरस्वतीम्) वाचम् (मेपस्य)
 उपदिष्टस्य (हविषः) दातुमर्हस्य (आ) (अवयत्) वेति प्राप्नोति (अय)
 (मध्यतः) मध्ये भवात् (मेदः) स्निग्धम् (उद्धृतम्) चक्षुनम् (पुरा)
 (द्वेषोभ्यः) शत्रुभ्यः (पुरा) (पौरुपेय्याः) पुरुषसम्बन्धिन्याः (गृभः)
 ग्रहीतुं योग्यायाः (घसत्) (नूनम्) निश्चितम् (घासेञ्ज्जाणाम्) भोजने
 कमनीयानाम् (यवसप्रथमानाम्) मिश्रितामिश्रिताद्यानाम् (सुमत्क्षराणाम्)
 श्रेष्ठानन्दवर्षकराणाम् (शतरुद्रियाणाम्) बहूनां मध्यविद्वदधिष्ठातृणाम् (अग्नि-
 ष्वत्तानाम्) सुसंगृहीताग्निविद्यानाम् (पीवोपवसनानाम्) स्पृलवत्प्रारिणाम्
 (पार्श्वतः) समीपात् (श्रोणितः) कटिप्रदेशात् (शितामतः) तीक्ष्णस्वभावात्
 (उत्सादत्) गात्रोत्सादनात् (अद्गादद्गात्) (अवसानाम्) गृहीतानाम्
 (करत्) कुर्यात् (एवम्) अष्टुना प्रकारेण (सरस्वती) विदुषी स्त्री (जुषताम्)
 (हविः) आदानव्यम् (होतः) आदातः (यज) ॥ ४४ ॥

अन्वयः—हे होतर्यथा होताऽद्य मेषस्य शितामतो हविषो मध्यतो यन्मेद उद्धृतं नत् सरस्वतीं चावयत् यत्तत् द्वेषोभ्यः पुरा गृभः पौरुषेय्याः पुरा नूनं घसद् घासेऽञ्जाणां यवसप्रथमानां सुमत्क्षराणां पीवोपवसनानामग्निष्वात्तानां शतरुद्रियाणां पार्श्वतः श्रोणित उत्सादतोऽङ्गादङ्गादवत्तानां सकाशाद्विद्यां करदेवमतत्सरस्वती जुषतां तथा त्वं च हविर्यज ॥ ४४ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—ये मनुष्याः सज्जनसंगेनदुष्टान् निवार्य युक्ताहारविहाराभ्यामारोग्यं प्राप्य धर्मं सेवन्ते ते कृतकृत्या जायन्ते ॥ ४४ ॥

पदार्थः—हे (होतः) लेने हारे जैसे (होता) देने वाला (अद्य) आज (मेषस्य) उपदेश को पाये हुए मनुष्य के (शितामतः) खरे स्वभाव से (हविषः) देने योग्य पदार्थ के (मध्यतः) बीच में प्रसिद्ध व्यवहार से जो (मेदः) चिकना पदार्थ (उद्धृतम्) उद्धार किया अर्थात् निकाला उस को (सरस्वतीम्) और वाणी को (आ, अवयत्) प्राप्त होता तथा (यत्तत्) सत्कार करता और (द्वेषोभ्यः) शत्रुओं से (पुरा) पहिले तथा (गृभः) ग्रहण करने योग्य (पौरुषेय्याः) पुरुष सम्बन्धिनी स्त्री के (पुरा) प्रथम (नूनम्) निश्चय से (घसत्) खावे वा (घासेऽञ्जाणाम्) जो भोजन करने में सुन्दर (यवसप्रथमानाम्) मिले न मिले हुए आदि (सुमत्क्षराणाम्) श्रेष्ठ आनन्द की वर्षा कराने और (पीवोपवसनानाम्) मोटे कपड़े पहनने वाले तथा (अग्निष्वात्तानाम्) अग्निविद्या को भली भाँति ग्रहण किये हुए और (शतरुद्रियाणाम्) बहुतों के बीच विद्वानों का अभिप्राय रखने हारों के (पार्श्वतः) समीप और (श्रोणितः) कटि भाग से (उत्सादतः) शरीर से जो त्याग उस से वा (अङ्गादङ्गात्) अङ्ग अङ्ग से (अवत्तानाम्) ग्रहण किये हुए व्यवहारों की विद्या को (करत्) ग्रहण करे (एवम्) ऐसे (सरस्वती) पाण्डिता स्त्री उस का (जुषताम्) सेवन करे वैसे तू भी (हविः) ग्रहण करने योग्य व्यवहार की (यज) संगति किया कर ॥ ४४ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—जो मनुष्य सज्जनों के संग से दुष्टों को निवारण कर युक्त आहार विहारों से आरोग्यपन को पाकर धर्म का सेवन करते वे कृतकृत्य होते हैं ॥४४॥

होतेत्यस्यस्वस्त्यात्रेयऋषिः । यजमानत्विजो देवताः ।

पूर्वस्य भुरिक् प्राजापत्योष्णिक् । आवयदित्युत्तरस्य ।

भुरिगभिकृतिश्छदः । ऋपभः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

होतां यक्षुदिन्द्रमृषभस्य हविष आव-
यद्व्य मध्यतो मेद उद्भृतं पुरा द्वेषो-
भ्यः पुरा पौरुषेय्या गृभो घसन्नङ्-
घासेऽर्ज्जाणां यवसप्रथमाना ५ सुम-
त्क्षराणां शतरुद्रियाणामग्निष्वात्ता-
नाम्पीवोपवसनानां पार्श्वतः श्रीणितः
शितामतऽ उत्सादतोऽङ्गादङ्गाद्व-
त्तानाङ्करदेवमिन्द्रो जुषतां हविर्हो-
तर्यज ॥ ४५ ॥

होतां । यक्षुत् । इन्द्रम् । ऋषभस्य । हविषः । आ । आवय-
त् । अय । मध्यतः । मेदः । उद्भृतमित्युत्सृतम् । पुरा । द्वेषोभ्य-
ऽइति द्वेषःऽभ्यः । पुरा । पौरुषेय्याः । गृभः । घसत् । नुनम् ।
घासेऽर्ज्जाणाम् । यवसप्रथमानामिति यवसऽप्रथमानाम् ।
सुमत्क्षराणामितिसुमत्क्षराणाम् । शतरुद्रियाणामिति शत-
ऽरुद्रियाणाम् । अग्निष्वात्तानामिति

ऽअग्निऽस्वात्तानाम् । पीवोपवसनानामिति पीवःऽउपवसनानाम् ।
 पार्श्वतः । श्रोणितः । शितामतः । उत्सादतऽइत्युत्ऽसादतः ।
 अङ्गादङ्गादित्यङ्गात्ऽ अङ्गात् । अवत्तानाम् । करत् । एवम् ।
 इन्द्रः । जुषताम् । हविः । होतः । यज ॥ ४५ ॥

पदार्थः—(होता) आदाता (यत्त) सत्कुर्यात् (इन्द्रम्) परमैश्वर्यम्
 (अपभस्य) उत्तमस्य (हविषः) आदातुमर्हस्य (आ) (अवयत्) व्याप्नु-
 यात् (अद्य) (मध्यतः) मध्येभवात् (मेदः) स्निग्धम् (उद्भूतम्) उत्कृष्टतया
 पोषितम् (पुरा) पुरस्तात् (द्वेषोभ्यः) विरोधिभ्यः (पुरा) (पौरुषेय्याः)
 पुरुषसम्बन्धिन्या विद्यायाः (गृभः) ग्रहीतुं योग्यायाः (घसत्) अद्यात् (नूनम्)
 (घासेअङ्गाणाम्) (यवसप्रयमानाम्) यवसस्य विस्तारकाणाम् (सुमत्तरा-
 णाम्) सुष्ठु प्रमादनाशकानाम् (शतरुद्रियाणाम्) शतानां रुद्राणां दुष्टरोद-
 कानाम् (अग्निष्वात्तानाम्) अग्निना जाठराग्निना सुष्ठुगृहीतानाम् (पीवो-
 पवसनानाम्) स्थूलदृढाऽच्छादनानाम् (पार्श्वतः) इतस्ततोऽङ्गात् (श्रोणितः)
 क्रमशः (शितामतः) तीक्ष्णत्वेनोच्चिन्नरोगात् (उत्सादतः) त्यागमात्रात् (अ-
 ङ्गादङ्गात्) प्रत्यङ्गात् (अवत्तानाम्) उदारचेतसाम् (करत्) कुर्यात् (ए-
 वम्) (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् राजा (जुषताम्) सेवताम् (हविः) रोगनाशकं
 वस्तु (होतः) (यज) ॥४५ ॥

अन्वयः—इ होतयथा होता घासेअङ्गाणां यवसप्रयमानां सुमत्तरा-
 णामग्निष्वात्तानां पीवोपवसनानां शतरुद्रियाणामवत्तानां पार्श्वतः श्रोणितः शि-

तामत्उत्सादतोऽङ्गादङ्गाद्विरिन्द्रं च करिदिन्द्रो जुपतां यथाऽद्यर्पभस्य हविषो
मध्यतो मेद उद्भृतमावयत् द्वेषोभ्यः पुरा गृभः पौरुषेय्याः पुरा नूनयत्तदेवं य-
सत् तथा त्वं यज ॥ ४५ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—ये मनुष्या विदुषां संगेन दुष्टान्निवार्य
श्रेष्ठान् सत्कृत्य ग्रहीतव्यं गृहीत्वाऽन्यान् ग्राहयित्वा सर्वानुभयन्ति ते पूज्या
जायन्ते ॥ ४५ ॥

पदार्थः—हे (होतः) देने हारे जैसे (होता) लेने हारा पुरुष (पासेभ्रज्जगाम्)
भोजन करने में प्राप्त होने (यवसप्रथमानाम्) जौ आदि अन्न वा मिले न मिले
हुए पदार्थों को विस्तार करने और (सुमत्क्षराणाम्) भली भांति प्रनाद का विनाश
करने वाले (अग्निष्वात्ताम्) जाठराग्नि अर्थात् पेट में भीतर रहने वाली आग से अ-
न्न ग्रहण किये हुए (पीवोपवसनानाम्) मोटे पोड़े उड़ाने ओढ़ने (शतरुद्रियाणाम्)
और सैकड़ों दुष्टों को रूलाने हारे (अवतानाम्) उदार चित्त विद्वानों के (पार्श्वतः)
और पास के अंग वा (श्रोणितः) क्रम से वा (शितामतः) तीक्ष्णता के साथ जिस से
रोग छिन्न भिन्न हो गया हो उस अंग वा (उत्सादतः) त्यागमात्र वा (अङ्गादङ्गान्)
प्रत्येक अंग से (हविः) रोग विनाश करने हारी वस्तु और (इन्द्रम्) परमैश्वर्य को
सिद्ध (करत्) करे और (इन्द्रः) परम ऐश्वर्य वाला राजा उस का (जुपताम्) से-
वन करे तथा वह राजा जैसे (अद्य) आज (ऋषभस्य) उत्तम (हविषः) लेने
योग्य पदार्थ के (मध्यतः) बीच में उत्पन्न हुआ (मेदः) चिकना पदार्थ (उद्भृतम्)
जो कि उत्तमता से पुष्ट किया गया अर्थात् सम्हाला गया हो उस को (आ, अवयत्)
व्याप्त हो सब ओर से प्राप्त हो (द्वेषोभ्यः) वैरियों से (पुरा) प्रथम (गृभः) ग्र-
हण करने योग्य (पौरुषेय्याः) पुरुष सम्बन्धिनी विद्या के सम्बन्ध से (पुरा) पहिले (नू-
नम्) निश्चय के साथ (यत्तत्) सत्कार करे वा (एवम्) इस प्रकार (घसत्) भो-
जन करे वैसे तूं (यज) सब व्यवहारों की संगति किया कर ॥ ४५ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु—जो मनुष्य विद्वानों के संग से दुष्टों को निवारण तथा श्रेष्ठ उत्तम जनों का सत्कार कर लेने योग्य पदार्थ को ले कर और दूसरों को ग्रहण करा सब की उन्नति करते हैं वे सत्कार करने योग्य होते हैं ॥४५॥

होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेयऋषिः । अश्व्यादयो देवताः ।

भुरिगभिकृतीळ्दसी । ऋषभः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ।

फिर उसी वि० ।

होता यक्षुद्रुनस्पतिमभि हि पिष्टतमया
रभिष्टया रशुनयाधित । यत्राश्विनोपच्छाग-
स्य हविषः प्रिया धामानि यत्र सरस्वत्या
मे षस्य हविषः प्रिया धामानि यत्रेन्द्रस्यऽ-
ऋषभस्य हविषः प्रिया धामानि यत्राऽग्नेः
प्रिया धामानि यत्र सोमस्य प्रिया धामानि
यत्रेन्द्रस्य सुत्राम्णाः प्रिया धामानि यत्र
सवितुः प्रिया धामानि यत्र वरुणस्य प्रि-
या धामानि यत्र वनस्पतेः प्रिया पार्था ७-

सि यत्र देवानामाज्यपानां प्रिया धामानि
 यत्राग्नेर्होतुः प्रिया धामानि तत्रैतान्प्र-
 स्तुत्यैवोपस्तुत्यैवोपावस्रक्षद्रभीयस इव
 कृत्वी करदेवदेवो वनस्पतिर्जुषता
 हविर्होतुर्यज ॥ ४६ ॥

होता । यज्ञत् । वनस्पतिम् । अभि । हि । पिष्टतमयेति पिष्टतमया ।
 रभिष्ठया । स्नानया । अर्धित । यत्र । अश्विनोः । द्वागस्य । हविषः ।
 प्रिया । धामानि । यत्र । सरस्वत्याः । मेषस्य । हविषः । प्रिया । धामानि
 यत्र । इन्द्रस्य । ऋभस्य । हविषः । प्रिया । धामानि । यत्र । अग्नेः ।
 प्रिया । धामानि । यत्र । सोमस्य । प्रिया । धामानि । यत्र । इन्द्रस्य ।
 सुत्राम्णा इति सुत्राम्णाः । प्रिया । धामानि । यत्र । सवितुः । प्रिया ।
 धामानि । यत्र । बरुणस्य । प्रिया । धामानि । यत्र । वनस्पतेः ।
 प्रिया । पार्थाश्वि । यत्र । देवानाम् । आज्यपानामित्याज्यपानाम् ।
 प्रिया । धामानि । यत्र । अग्नेः । होतुः । प्रिया । धामानि । तत्र । एतान् ।
 प्रस्तुत्येवेति प्रस्तुत्ये इव । उपस्तुत्येवेत्युपस्तुत्ये इव । उपावस्र-
 क्षदित्युपस्तुत्ये इव । रभीयस इवेति रभीयसः इव । कृत्वी ।
 करत् । एवम् । देवः । वनस्पतिः । जुषताम् । हविः । होतः । यज ।

पदार्थः—(होता) आदात्तं (यज्ञत्) (वनस्पतिम्) वटादिकम् (अ-
भि) (हि) क्लि (पिष्टमया) (रभिष्टया) (रशनया) रश्मिना (अधिन)
दध्यात् (यत्र) (अश्विनोः) सूर्य्यचन्द्रमताः (छागस्य) छेदकस्य (हविषः)
दातुमर्हस्य (प्रिया) धामानि (यत्र) (इन्द्रस्य) ऐश्वर्ययुक्तस्य (अ-
पभस्य) प्राप्तुं योग्यस्य (हविषः) दातुं योग्यस्य (प्रिया) (धामानि) (य-
त्र) (अग्नेः) पात्रकस्य (प्रिया) (धामानि) (यत्र) (सोमस्य) ओषधि-
गणस्य (प्रिया) (धामानि) (यत्र) इन्द्रस्य ऐश्वर्ययुक्तस्य (सुत्राम्णः)
सुपुरक्तकस्य (प्रिया) (धामानि) (यत्र) (सवितुः) प्रेरकस्य (प्रिया)
(धामानि) (यत्र) (बरुणस्य) श्रेष्ठस्य (प्रिया) (धामानि) (यत्र) व-
नस्पतेः) वटादेः (प्रिया) (पाथांसि) अन्नानि (यत्र) (देवानाम्) पृथि-
व्यादीनां दिव्यानाम् (आज्यपानाम्) गत्यापालकानाम् (प्रिया) (धामानि)
(यत्र) (अग्नेः) विद्यया प्रकाशमानस्य (होतुः) दातुः (प्रिया) (धामानि) (तत्र)
(एतान्) (प्रस्तुत्येव) प्रकरणेन संश्लाघ्येव (उपस्तुत्येव) समीपेन स्तुत्येव
(उपावस्रत्) उपावस्रजेत् (रभीयसइव) अतिशयेनारब्धस्येव (कृत्वी) कृत्वा
(करत्) कुर्यात् (एवम्) (देवः) दिव्यगुणः (वनस्पतिः) रश्मिपालकोऽ-
ग्निः (जुपताम्) सेवताम् (हविः) संस्कृतमन्नादिकम् (होतः) (यज) ॥६६॥

अन्वयः—हे होतर्यथा होता पिष्टमया रभिष्टया रशनया यत्राश्वि-
नोश्छागस्य हविषः प्रिया धामानि यत्र सरस्वत्या मेषस्य हविषः प्रिया धामानि
यत्रेन्द्रस्यर्पभस्य हविषः प्रिया धामानि यत्राग्निः प्रिया धामानि यत्र सोमस्य
प्रिया धामानि यत्र सुत्राम्ण इन्द्रस्य प्रिया धामानि यत्र सवितुः प्रिया धामानि
यत्र बरुणस्य प्रिया धामानि यत्र वनस्पतेः प्रिया पाथांसि यत्राज्यपानां देवानां प्रि-

या धामानि यत्र होतुरग्नेः प्रिया धामानि सन्ति तत्रैतान्प्रस्तुत्येवोपस्तुत्येवोपान-
स्रत्तद्रभीयसइव कृत्वा कार्येषूपयुञ्जीतैवं करग्रथा वनस्पतिर्देवो हविर्जुर्पतां हि
वनस्पतिमभियत्तदधित तथा त्वं यज ॥ ४६ ॥

भावार्थः—अत्रोपमावाचकलु०—यदि मनुष्या ईश्वरेण सृष्टानां पदा-
र्थानां गुणकर्मस्वभावान् विदित्वैतान् कार्यसिद्धये प्रयुञ्जीरँस्तर्हि स्वेष्टानि सु-
खानि लभेरन् ॥ ४६ ॥

पदार्थः—हे (होतः) देने हारे जैसे (होता) लेने हारा सत्पुरुष (पिष्टतम-
या) अतिपिसी हुई (रभिष्ठया) अत्यन्त शीघ्रता से घटने वाली वा जिस का बहुत
प्रकार से प्रारम्भ होता है उस वस्तु और (रशनया) रश्मि के साथ (यत्र) जहां
(अश्विनोः) सूर्य और चन्द्रमा के सम्बन्ध से पालित (छागस्य) घास को छेदने
खाने हारे बकरा आदि पशु और (हविषः) देने योग्य पदार्थ सम्बन्धी (प्रिया) मनो-
हर (धामानि) उत्पन्न होने ठहरने की जगह और नाम वा (यत्र) जहां (सरस्वत्याः)
नदी (मेषस्य) मेढ़ा और (हविषः) ग्रहण करने पदार्थ सम्बन्धी (प्रिया) मनोहर
(धामानि) जन्म स्थान और नाम वा (यत्र) जहां (इन्द्रस्य) ऐश्वर्ययुक्त जन के
(ऋषभस्य) प्राप्त होने और (हविषः) देने योग्य पदार्थ के (प्रिया) प्यारे मन के
हरने वाले (धामानि) जन्म स्थान और नाम वा (यत्र) जहां (अग्नेः) प्रसिद्ध और
विजुलारूप अग्नि के (प्रिया) मनोहर (धामानि) जन्म स्थान और नाम वा (यत्र)
जहां (सोमस्य) औषधियों के (प्रिया) मनोहर (धामानि) जन्म स्थान और नाम वा
(यत्र) जहां (सुत्राम्णः) भली भाँति रक्षा करने वाले (इन्द्रस्य) ऐश्वर्ययुक्त उ-
त्तम पुरुष के (प्रिया) मनोहर (धामानि) जन्म स्थान और नाम वा (यत्र) जहां (स-
वितुः) सब को प्रेरणा देने हारे पवन के (प्रिया) मनोहर (धामानि) उत्पन्न होने
ठहरने की जगह और नाम वा (यत्र) जहां (वरुणस्य) श्रेष्ठ पदार्थ के

(प्रिया) मनोहर (धामानि) जन्म स्थान और नाम वा (यत्र) जहां (वनस्पतेः) वट आदि वृक्षों के (प्रिया) उत्तम (पाथांसि) अन्न अर्थात् उन के पीने के जल वा (यत्र) जहां (आज्यपानाम्) गति अर्थात् अपनी कक्षा में घूमने से जीवों के पालने वाले (देवानाम्) पृथिवी आदि दिव्य लोकों का (प्रिया) उत्तम (धामानि) उत्पन्न होना उनके ठहरने की जगह और नाम वा (यत्र) जहां (होतुः) उत्तम सुख देने और (अग्नेः) विद्या से प्रकाशमान होने हारे अग्नि के (प्रिया) मनोहर (धामानि) जन्म स्थान और नाम हैं (तत्र) वहां (एतान्) इन उक्त पदार्थों की (प्रस्तुत्येव) प्रकरण से अर्थात् समय से चाहना सी कर और (उपस्तुत्येव) उनकी समीप प्रशंसा सी करके (उपावलक्षत्) उनको गुण कर्म स्वभाव से यथायोग्य कामों में उपाजन करे अर्थात् उक्त पदार्थों का संचय करे (रभीयसइव) बहुत प्रकार से अतीव आरम्भ के समान (कृत्वी) करके फायरों के उपयोग में लावे (एवम्) और इस प्रकार (करत्) उनका व्यवहार करे वा जैसे (वनस्पतिः) सूर्य आदि लोकों की किरणों की पालना करने हारा और (देवः) दिव्यगुणयुक्त अग्नि (हविः) संस्कार किये अर्थात् उत्तमता से बनाये हुए पदार्थ का (जुषताम्) सेवन करे और (हि) निश्चय से (वनस्पतिम्) वट आदि वृक्षों को (अभि, यक्षत्) सब ओर से पहुंचे अर्थात् विजुली रूप से प्राप्त हो और (अघित) उनका धारण करे वैसे तू (यज) सब व्यवहारों की संगति किया कर ॥ ४६ ॥

भावार्थः— इस मंत्र में वाचकलु०— जो मनुष्य ईश्वर ने उत्पन्न किये हुए पदार्थों के गुण कर्म और स्वभावों को जान कर इन को कार्य की सिद्धि के लिये भली भांति युक्त करें तो वे अपने चाहे हुए सुखों को प्राप्त हों ॥ ४६ ॥

होतेत्यस्य स्वस्त्रात्रेयऋषिः । अश्व्यादयोदेवताः । पूर्वस्य भुरिगा-
कृतिरयाडित्युत्तरस्याऽऽकृतिश्छन्दः । पंचमः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है ॥

**होता यद्गुग्निः सिवष्टकृतमयाडुग्नि-
रुषिवनोपक्षागस्य हविषः प्रिया धामा-**

न्ययाट् सरस्वत्या मेषस्य हविषः
 प्रिया धामान्ययाडिन्द्रस्य ऋषभस्य
 हविषःप्रिया धामान्ययाङ्गनेःप्रिया
 धामान्ययाट् सोमस्य प्रिया धामान्य-
 याडिन्द्रस्य सुत्राणाः प्रिया धामान्य-
 याट् सवितुः प्रिया धामान्ययाङ्वरु-
 णस्य प्रिया धामान्ययाङ्वनस्पतैःप्रिया
 पाथास्यदाड देवानामाज्यपाना प्रिया
 धामानि यक्षदग्नेर्होतुः प्रिया धामा-
 नि यक्षत्स्वं महिमान्मायजता मेज्या
 ऽइषः कृणोतु सोऽअध्वरा जातवेदा
 जषता हविर्होतु र्यज ॥ ४७ ॥

होता । यज्ञत् । अग्निम् । स्विष्टकृतमितिस्विष्टऽकृतम् ।
 अयाट् । अग्निः । अश्विनोः । छागस्य । हविषः । प्रिया ।
 धामानि । अयाट् । सरस्वत्याः । मेषस्य । हविषः । प्रिया ।
 धामानि । अयाट् । इन्द्रस्य । ऋषभस्य । हविषः । प्रिया ।
 धामानि । अयाट् । अग्नेः । प्रिया । धामानि । अयाट् । अग्नेः ।
 प्रिया । धामानि । अयाट् । सोमस्य । प्रिया । धामानि । अयाट् ।

इन्द्रस्य । सुत्राम्णाऽइति सुत्राम्णाः । प्रिया । धामानि । अयाट् ।
 सवितुः । प्रिया । धामानि ॥ अयाट् । वरुणस्य । प्रिया ।
 धामानि । अयाट् । वनस्पतेः । प्रिया । पाथांसि ।
 अयाट् । देवानाम् । आज्यपानामित्याज्यऽपानाम् । प्रिया ।
 धामानि । यक्षत्र । अग्नेः । होतुः । प्रिया । धामानि । यक्षत्र ।
 स्वम् । महिमानम् । आ । यजताम् । एज्याऽइ-
 त्याऽइज्याः । इषः । कुशोतु । सः । अध्वरा । जातवेदाऽइति
 जातवेदाः । जुपताम् । हविः । होतः । यज ॥ ४७ ॥

पदार्थः--(होता) आदाता (यक्षत्र) संगच्छेत (अग्निम्) पावक-
 म् (स्विष्टकृतम्) स्विष्टेन कृतं स्विष्टकृतम् (अयाट्) यजेत् (अग्निः) पा
 वकः (अश्विनोः) वायुविद्युतोः (छागस्य) (हविषः) आदातुमर्हस्य (प्रिया)
 (धामानि) (अयाट्) यजेत् (सरस्वत्याः) वाण्याः (मेघस्य) (हविषः)
 आदातुमर्हस्य (प्रिया) (धामानि) (अयाट्) यजेत् (इन्द्रस्य) परमैश्वर्य-
 युक्तस्य (ऋषभस्य) उत्कृष्टगुणकर्मस्वभावस्य राज्ञः (हविषः)
 ग्रहीतुमर्हस्य (प्रिया) (धामानि) (अयाट्) (अग्नेः) विद्युतः
 (प्रिया) (धामानि) (अयाट्) (सोमस्य) ऐश्वर्यस्य (प्रिया) (धामानि)
 (अयाट्) (इन्द्रस्य) सेनेशस्य (सुत्राम्णाः) सुष्ठुरक्षकस्य (प्रिया) (धामा-
 नि) (अयाट्) (सवितुः) (प्रिया) (धामानि) (अयाट्) (वरुणस्य) सर्वो-
 त्कृष्टस्य जलस्य वा (प्रिया) (धामानि) (अयाट्) (वनस्पतेः) वटादेः
 (प्रिया) तर्पकाणि (पाथांसि) फलादीनि (अयाट्) (देवानाम्) त्रिदुषाम्
 (आज्यपानाम्) ज्ञातव्यरक्षकाणां रसानां वा (प्रिया) (धामानि) (यक्ष-

त्) यजेत् (अग्नेः) प्रकाशकस्य सूर्यस्य (होतुः) आदातुः (प्रिया) (धामानि) (यत्तत्) (स्वम्) स्वर्कायम् (महिमानम्) महत्त्वम् (आ) समन्तात् (यजताम्) गृह्णातु (एज्याः) समन्तात् दण्डं सङ्गन्तुं योग्याः क्रिया (इषः) इच्छाः (कृणोतु) करोतु (सः) (अध्वरा) अहिंसनीयान् यजान् (जातवेदाः) प्राप्तप्रज्ञः (जुषताम्) सेवताम् (हविः) संगन्तव्यं वस्तु (होतः) (यज) ॥ ४७ ॥

अन्वयः—हे होयर्थया होता स्विष्टकृतमग्निं यत्तद्यथाग्निरभिनोश्चागस्य हविषः प्रिया धामान्ययाद् सरस्वत्या मेपस्य हविषः प्रिया धामान्ययाडिन्द्रस्यर्षभस्य हविषः प्रिया धामान्ययाडग्नेः प्रिया धामान्ययाद् सोमस्य प्रिया धामान्ययाद् सुत्राम्ण इन्द्रस्य प्रिया धामान्ययाद् सवितुः प्रिया धामान्ययाद् वरुणस्य प्रिया धामान्ययाद् वनस्पतेः प्रिया पाथांस्ययाडाज्यपानां देवानां प्रिया धामानि यत्तत् होतुरग्नेः प्रिया धामानि यत्तत् स्वं महिमानमायजतां यथा जातवेदा य एज्या इषः कृणोतु सोध्वरा हविश्च जुपतां तथा त्वं यज ॥ ४७ ॥

भावार्थः—अत्रवाचकलु०—ये स्वेष्टसाधकाग्न्यादीन्सृष्टिस्थान् पदार्थान् सम्याग्निज्ञाय प्रियाणि सुखान्याप्नुवन्ति ते स्वं महिमानं प्रथन्ते ॥ ४७ ॥

पदार्थः—हे (होतः) देने हारे जैसे (होता) लेने हारा (स्विष्टकृतम्) भली भाँति चाहे हुए पदार्थ से प्रसिद्ध किये (अग्निम्) अग्नि को (यत्तत्) प्राप्त और (अयाद्) उस की प्रशंसा करे वा जैसे (अग्निः) प्रसिद्ध आग (अश्विनोः) पवन विजुली (छागस्य) बकराआदि पशु (हविषः) और

लेने योग्य पदार्थ के (प्रिया) मनोहर (धामानि) जन्म स्थान और नामकी (अयाद्) प्राप्त हो वा (सरस्वत्याः) वाणी (मेषस्य) सीचने वा दूसरे के जीतने की इच्छा करने वाले प्राणी (हविषः) और ग्रहण करने योग्य पदार्थ के (प्रिया) प्यारे मनोहर (धामानि) जन्म स्थान और नामकी (अयाद्) प्रशंसा करे वा (इन्द्रस्य) परमैश्वर्य्ययुक्त (ऋषभस्य) उत्तम गुण कर्म और स्वभाव वाले राजा और (हविषः) ग्रहण करने योग्य पदार्थ के (प्रिया) मनोहर (धामानि) जन्म स्थान और नामकी (अयाद्) प्रशंसा करे वा (अग्नेः) विजुली रूप अग्नि के (प्रिया) मनोहर (धामानि) जन्म स्थान और नाम की (अयाद्) प्रशंसा करे वा (सोमस्य) ऐश्वर्य्य के (प्रिया) मनोहर (धामानि) जन्म स्थान और नाम की (अयाद्) प्रशंसा करे वा (सुत्राम्णः) भली भाँति रक्षा करने वाले (इन्द्रस्य) सेनापति के (प्रिया) मनोहर (धामानि) जन्म स्थान और नामकी (अयाद्) प्रशंसा करे वा (सवितुः) समस्त ऐश्वर्य्य के उत्पन्न करने हारे उत्तम पदार्थज्ञान के (प्रिया) मनोहर (धामानि) जन्म स्थान और नामकी (अयाद्) प्रशंसा करे वा (वरुणस्य) सब से उत्तम जन और जल के (प्रिया) मनोहर (धामानि) जन्म स्थान और नामकी (अयाद्) प्रशंसा करे वा (वनस्पतेः) वट आदि वृक्षों के (प्रिया) तृप्ति कराने वाले (पाषांसि) फलों को (अयाद्) प्राप्त हो वा (आय्यपानाम्) जानने योग्य पदार्थ की रक्षा करने और रस पीने वाले (देवानाम्) विद्वानों के (प्रिया) प्यारे मनोहर (धामानि) जन्म स्थान और नाम का (यज्ञत्) मिलाना वा सराहना करे वा (होतुः) जलादिक ग्रहण करने और (अग्नेः) प्रकाश करने वाले सूर्य्य के (प्रिया) मनोहर (धामानि) जन्म स्थान और नामकी (यज्ञत्) प्रशंसा करे (स्वम्) अपने (महिमानम्) बड़प्पन का (आ, यजताम्) ग्रहण करे वा जैसे (जातवेदाः) उत्तम बुद्धि को प्राप्त हुआ जो पुरुष (एज्याः) अच्छे प्रकार संग योग्य उत्तम क्रियाओं और (इयः) चाहनाओं को (कृणोतु) करे (संः) वह (अध्वरा) न छेड़ने न विनाश करने योग्य यज्ञों का और (हविः) संग करने योग्य पदार्थ का (जुपताम्) सेवन करे जैसे तू (यज) सब व्यवहारों की संगति किया कर ॥४७॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—जो मनुष्य अपने चाहे हुए को सिद्ध करने वाले अग्नि आदि संसारस्थ पदार्थों को अच्छे प्रकार जानकर प्यारे मन से चाहे हुए मुखों को प्राप्त होते हैं वे अपने बड़प्पन का विस्तार करते हैं ॥ ४७ ॥

देवं बर्हिरित्यस्यस्वस्त्यात्रेय ऋषिः । सरस्वत्याद्यां देवताः ।

त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः

अथ विद्वांसः कथं वर्तेरन्नित्याह ॥

अथ विद्वान् कैसे अपना वर्त्तव वर्त्ते इम रि० ॥

देवं बर्हिः सरस्वती सुदेवमिन्द्रे अश्विना ।
तेजो न चक्षुरक्ष्योर्बर्हिषा दधुरिन्द्रियं वसुवने
वसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥ ४८ ॥

देवम् । बर्हिः । सरस्वती । सुदेवमिति सुष्टेवम् । इन्द्रे । अश्वि-
ना । तेजः । न । चक्षुः । अक्षयोः । बर्हिषा । दधुः । इन्द्रियम् । वसुवन-
इति वसुवने । वसुधेयस्येति वसुधेयस्य । व्यन्तु । यज ॥ ४८ ॥

पदार्थः—(देवम्) दिव्यम् (बर्हिः) अन्तरिक्षम् (सरस्वती) प्रशस्त-
विज्ञानयुक्ता स्त्री (सुदेवम्) शोभनं विद्वांसम् (इन्द्रे) परमेश्वर्ये (अश्विना)
अध्यापकोपदेशकौ (तेजः) (न) इव (चक्षुः) नेत्रम् (अक्षयोः) अक्षणोः
(बर्हिषा) अन्तरिक्षेण (दधुः) (इन्द्रियम्) धनम् (वसुवने) धनप्राप्त्याय
(वसुधेयस्य) वसु धेयं यस्मिस्तस्य (व्यन्तु) ग्राप्तवन्तु (यज) यजते ॥४८॥

अन्वयः—हे विद्वान् यथा सरस्वतीन्द्रे देवं सुदेवं बर्हिःश्विना चक्षुस्तेजो न यज यथा च विद्वांसो वसुधेयस्य वसुवनेऽर्च्योर्बर्हिषेन्द्रियं दधुर्व्यन्तु च तथैतत् त्वं धेहि प्राप्नुहि च ॥ ४८ ॥

भावार्थः—अत्रोपमावाचकलु०—हे मनुष्या यथा विदुषी ब्रह्मचारिणी कुमारी स्वार्थं दृष्टं पतिं प्राप्यानन्दति तथा विद्यासृष्टिपदार्थबोधं प्राप्य भवद्विरप्यानन्दितव्यम् ॥ ४८

पदार्थः—हे विद्वान् जैसे (सरस्वती) प्रशंसित विज्ञानयुक्त स्त्री (इन्द्रे) परमैश्वर्य के निमित्त (देवम्) दिव्य (सुदेवम्) सुन्दर विद्वान् पति की (बर्हिः) अन्तरिक्ष (अश्विना) पढ़ाने और उपदेश करने वाले तथा (चक्षुः) आंख के (तेजः) तेज के (न) समान (यज) प्रशंसा वा संगति करती है और जैसे विद्वान् जज्ञ (वसुधेयस्य) जिस में धन धारण करने योग्य हो उस व्यवहार सम्बन्धी (वसुवने) धन की प्राप्ति कराने के लिये (अर्च्योः) आंशों के (बर्हिषा) अन्तरिक्ष अवकाश से अर्थात् दृष्टि से देख के (इन्द्रियम्) उक्त धन को (दधुः) धारण करते और (व्यन्तु) प्राप्त होते हैं वैसे इसको तू धारण कर और प्राप्त हो ॥ ४८ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में उपमा और वाचकलु०—हे मनुष्यो जैसे विदुषी ब्रह्मचारिणी कुमारी कन्या अपने लिये मनोहर पति को पा कर आनन्द करती हैं वैसे विद्या और संसार के पदार्थ का बोध पाकर तुम लोगों को भी आनन्दित होना चाहिये ॥ ४८ ॥

देवीद्वार इत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । अश्व्यादयो देवताः ।

ब्राह्म्युष्णिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

पुनर्विद्वदुपदेशः कीदृशो भवतीत्याह ॥

फिर विद्वानों का उपदेश कैसा होता है यह वि० ॥

दे॒वीद्वारोऽश्वि॒वर्ना भिष॒जेन्द्रे सर॒-
स्वती । प्रा॒णं न वि॒ष्टुं न॒सि द्वा॒रो दधु॒-
रिन्द्रि॒यं वसु॒वने वसु॒धेयस्य व्यन्तु॒ यज
॥ ४८ ॥

देवीः । द्वारः । अश्विना । भिषजा । इन्द्रे । सरस्वती ।

प्राणम् । न । वीर्यम् । नसि । द्वारः । दधुः । इन्द्रियम् । वसुव-

नइति' वसुऽवने । वसुधेयस्येति वसुऽधेयस्य । व्यन्तु । यज ॥ ४९ ॥

पदार्थः—(देवीः) देदीप्यमानाः (द्वारः) प्रवेशनिर्गमार्थानि द्वाराणि
(अश्विना) वायुसूर्यौ (भिषजा) वैद्यौ (इन्द्रे) ऐश्वर्य्यं (सरस्वती)
विज्ञानवती स्त्री (प्राणम्) जीवनहेतुम् (न) इव (वीर्यम्) (नसि) नासिका-
काम् (द्वारः) (दधुः) (इन्द्रियम्) धनम् (वसुवने) धनेसवनाय (व-
सुधेयस्य) धनकोशस्य (व्यन्तु) (यज) ॥ ४९ ॥

अन्वयः—हे विद्वन् यथाश्विना सरस्वती भिषजेन्द्रे देवीद्वारः प्राप्नुव-
तो नसि प्राणं न वीर्यं द्वारश्च दधुर्वसुवने वसुधेयस्यैन्द्रियं विद्वांसो व्यन्तु
तथा त्वं यज ॥ ४९ ॥

भावार्थः—अत्रोपमावाचकलु०—यथा सूर्याचन्द्रप्रकाशो द्वारेभ्यो गृहं
प्रविश्यान्तः प्रकाशते तथा विद्वद्गुपदेशः श्रोत्रान्प्रविश्यं स्वान्ते प्रकाशते । एवं ये
दिद्यया प्रयतन्ते ते श्रीमन्तो जायन्ते ॥ ४९ ॥

पदार्थः—हे विद्वान् जैसे (अश्विना) पवन और सूर्य्य वा (सरस्वती)
विशेष ज्ञान वाली स्त्री और (भिषजा) वैद्य (इन्द्रे) ऐश्वर्य्य के निमित्त (देवीः)
अतीव दीपते अर्थात् चकमकाते हुए (द्वारः) पैठने और निकलने के अर्थ वने हुए
द्वारों को प्राप्त होते हुए प्राणियों की (नसि) नासिका में (प्राणम्) जो श्वास आ-
ती उस के (न) समान (वीर्यम्) बल और (द्वारः) द्वारों अर्थात् शरीर के प्रसिद्ध

नव त्रिदों को (दधुः) धारण करें (वसुवने) वा धन का सेवन करने के लिये (वसु-
धेयस्य) धनकोश के (इन्द्रियम्) धन को विद्वान् जन (व्यन्तु) प्राप्त हों वैसे तू
(यज) सब व्यवहारों की संगति किया कर ॥ ४६ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में उपमा और वाचकलु०—जैसे सूर्य और चन्द्रमा
का प्रकाश द्वारों से घर को पैठ घर के भीतर प्रकाश करता है वैसे विद्वानों का उपदे-
श कानों में प्रविष्ट होकर भीतर मन में प्रकाश करता है । ऐसे जो विद्या के साथ अ-
च्छा यत्न करते हैं वे धनवान् होते हैं ॥ ४६ ॥

देवीउपासावित्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । अरव्यादयो देव-
ताः । त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनर्मनुष्याः कथं वर्त्तरन्नित्याह ॥

फिर मनुष्य कैसे वर्त्तें यह वि० ॥

दे॒वीऽउ॒षासा॒व॒श्विना॒ सु॒त्रामे॒न्द्रे॒ सं-
र॑स्वती । बलं॒ न वाच॑मा॒स्युऽउ॒षाभ्यां
द॒धुरिन्द्रि॒यं व॑सुवने॒ वसु॑धेयस्य व्यन्तु
यज॑ ॥ ५० ॥

देवीऽइति देवी । उषासौ । उपसावित्युषसौ । अश्विना ।
सुत्रामेति सुत्रामा । इन्द्रे । सरस्वती । बलम् । न । वाचम् ।
आस्ये । उषाभ्याम् । दधुः । इन्द्रियम् । वसुवनऽइति वसुवने ।
वसुधेयस्येति वसुधेयस्य । व्यन्तु । यज ॥ ५० ॥

पदार्थः--(देवीः) देदीप्यमाने (उषासौ) सायंप्रातः सन्धिनेले । अत्रा-
न्येषामप्रीत्युपधादीर्घः (अश्विना) सूर्याचन्द्रमसौ (सुत्रामा) सुष्टुरसकौ (इ-
न्द्रे) परमेश्वर्ये (सरस्वती) विज्ञाननिमित्ता स्त्री (बलम्) (न) इव (वा-

चग्) (आस्ये) मुखे (उपाभ्याम्) उभयत्रेलाभ्याम् । अत्र छान्दसो वर्णलोपो वेति सलोपः (दधुः) दध्युः (इन्द्रियम्) धनम् (वसुवने) धनसेविने (वसुधेयस्य) धनाधारस्य (व्यन्तु) (यज) ॥ ५० ॥

अन्वयः--हे विद्वान् यथा देवी उपासौ सुत्रामा सरस्वत्याश्विना वसुवने वसुधेयस्येन्द्रे वलं नास्ये वाचमुपाभ्यामिन्द्रियं च दधुः सर्वान् व्यन्तु च तथा त्वं यज ॥ ५० ॥

भावार्थः--अत्र वाचकलु०--ये पुरुषार्थिनो मनुष्याः सूर्यचन्द्रसन्ध्यावन्धियमेन प्रयतन्ते सन्धिवेलायां शयनाऽलस्यादिकं विहायेश्वरस्य ध्यानं कुर्वन्ति ते पुष्कलां श्रियं प्राप्नुवन्ति ॥ ५० ॥

पदार्थः हे विद्वान् जैसे (देवीः) निरन्तर प्रकार से को प्राप्त (उपासौ) सायंकाल और प्रातः काल की संधि वेला वा (सुत्रामा) भली भांति रक्षा करने वाले (सरस्वती) विशेष ज्ञान की हेतु स्त्री (अश्विना) सूर्य और चन्द्रमा (वसुवने) धन की सेवा करने वाले के लिये (वसुधेयस्य) जिस में धन धरा जाय उस व्यवहार सम्बन्धी (इन्द्रे) उत्तम ऐश्वर्य में (न) जैसे (वलम्) वल को जैसे (आस्ये) मुख में (वाचम्) वाणी को वा (उपाभ्याम्) सायंकाल और प्रातःकाल की वेला से (इन्द्रियम्) धन को (दधुः) धारण करें और सब को (व्यन्तु) प्राप्त हों जैसे तू (यज) सब व्यवहारों की संगति किया कर ॥ ५० ॥

भावार्थः--इस मंत्र में वाचकलु०--जो पुरुषार्थी मनुष्य सूर्य चन्द्रमा सायंकाल और प्रातःकाल की वेला के समान नियम के साथ उत्तम २ यत्न करते हैं तथा सायंकाल और प्रातःकाल की वेला में सोने और आलस्य आदि को छोड़ ईश्वर का ध्यान करते हैं वे बहुत धन को पाते हैं ॥ ५० ॥

देवी जोष्ट्री इत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । अश्व्यादयो देवताः ।

त्रिष्णुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनर्मनुष्याः कीदृशा भवन्तीत्याह ॥

फिर मनुष्य कैसे होते हैं यह वि० ॥

दे॒वी जो॒ष्ट्री सर॑स्वत्य॒श्विनेन्द्र॑मवर्धयन् ।

श्रो॒त्रं न कर्ण॑यो॒र्यशो॑ जो॒ष्ट्रीभ्यां॑ दधु॒रि-

न्द्रि॒यं वसु॑वने॒ वसु॑धेय॒स्य व्यन्तु॑ यज

॥ ५१ ॥

दे॒वीऽइति॑ दे॒वी । जो॒ष्ट्रीऽइति॑ जो॒ष्ट्री । सर॑स्वती । अ॒श्विना॑ ।
इन्द्र॑म् । अ॒वर्ध॑यन् । श्रो॒त्रम् । न । कर्ण॑योः । यशः॑ । जो॒ष्ट्रीभ्याम् ।
दधुः॑ । इन्द्रि॒यम् । वसु॑वन॒इति॑ वसु॑वने॒ । वसु॑धेय॒स्येति॑ वसु॑धेय॒स्य ।
व्यन्तु॑ । यज ॥ ५१ ॥

पदार्थः— (देवी) ऽकाशदात्री (जोष्ट्री) सेवनीया (सरस्वती) विज्ञा-
ननिमित्ता (अश्विना) वायुविद्युतौ (इन्द्रम्) सूर्यम् (अवर्धयन्) वर्धयन्ति
(श्रोत्रम्) येन शृणोति तत् (न) इव (कर्णयोः) श्रोत्रयोः (यशः) कीर्तिम्
(जोष्ट्रीभ्याम्) सेविकाभ्यां वेलाभ्याम् (दधुः) दधाति (इन्द्रियम्) धनम्
(वसुवने) धनेसविने (वसुधेयस्य) धनकोशस्य (व्यन्तु) (यज) ॥ ५१ ॥

अन्वयः—हे विद्वन् यथा देवी जोष्ट्री सरस्वत्यश्विनेन्द्रमवर्धयन् मनुष्या
वा जोष्ट्रीभ्यां कर्णयोर्यशः श्रोत्रं न दधुर्वसुधेयस्य वसुवन इन्द्रियं व्यन्तु तथा स्वं
यज ॥ ५१ ॥

भावार्थः— अत्रोपमावाचकलुः—ये सूर्यकारणानि विदन्ति ते यशस्वि-
नो भूत्वा श्रीमन्तो भवन्ति ॥ ५१ ॥

पदार्थः—हे विद्वान् जैसे (देवी) प्रकाश देने वाली (जोष्टी) सेवने योग्य
(सरस्वती) विशेष ज्ञान की निमित्त सायंकाल और प्रातःकाल की बेला तथा (अ-
श्विना) पवन और विजुलीरूप अग्नि (इन्द्रम्) सूर्य को (अवर्धयन्) बढ़ाने
अर्थात् उन्नति देते हैं वा मनुष्य (जोष्टीभ्याम्) संसार को सेवन करती हुई उक्त
प्रातःकाल और सायंकाल की बेलाओं से (कर्णयोः) कानों में (यशः) कीर्ति को
(श्रोत्रम्) जिस से वचन को सुनता है उस कान के ही (न) समान (दधुः) धारण
करते हैं वा (वसुधेयस्य) जिस में धन धरा जाय उस कोश सम्बन्धी (वसुधेन)
धन को सेवन करने वाले के लिये (इन्द्रियम्) धन को (व्यन्तु) विशेषता में
प्राप्त होते हैं वैसे तू (यज्ञ) सब व्यवहारों की संगति किया कर ॥५१॥

भावार्थः— इस मंत्र में उपमा और वाचकलुः—जो सूर्य के कारणों को जान
ते हैं वे यशस्वी होकर धनवान् कान्तिमान् शोभायमान होते हैं ॥ ५१ ॥

देवी इत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । अश्व्यादयो देवताः ।

त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनर्मनुष्यैः कथं वर्त्तितव्यमित्याह ॥

फिर मनुष्यों को कैसे अपना वर्त्ताव वर्त्तना चाहिये इस वि० ॥

दे॒वी ऊ॒र्जाहृ॑ती दु॒र्घे सु॒दु॒घेन्द्रे॑ सर॒-
स्वत्य॑श्विना॒ भिष॑जावतः । शु॒क्रं न ज्यो॑-
तिस्त॑नयो॒ राहृ॑ती धत्त इन्द्रि॒यम् व॑-
सु॒वने॑ वसु॒धेय॑स्य व्यन्तु॒ यज ॥ ५२ ॥

दे॒वी इति॑ दे॒वी । ऊ॒र्जाहृ॑तीऽइत्यूर्जाऽऽप्राहुती । दु॒र्घे इति॑
दु॒घे । सु॒दु॒घेति॑ सु॒दु॒घो । इन्द्रे॑ । सर॑स्वती । अ॒श्विना॑ ।

भिषजा । अवतः । शुक्रम् । ज्योतिः । स्तनयोः । आहुती इत्याऽ-
हुती । धत्त । इन्द्रियम् । वसुवन इति वसुऽवने । वसुधेयस्येति वसुऽ
धेयस्य । व्यन्तु । यज ॥ ५२ ॥

पदार्थः— (देवी) कमनीये (ऊर्जाहुती) अन्नस्याहुती (दुग्धे) म्रपूर
के प्रातःसायंवेले (सुदुग्धा) म्रपूरकौ (इन्द्रे) परमैश्वर्ये (सरस्वती) विशेष-
ज्ञानवती (अश्विना) अध्यापकोपदेशकौ (भिषजा) सदैद्यौ (अवतः) रक्षतः
(शुक्रम्) शुद्धं जलम् (न) इव (ज्योतिः) प्रकाशम् (स्तनयोः) (आहुती
आदातव्ये (धत्त) धरत (इन्द्रियम्) धनम् (वसुवने) धनसेविने (वसुधेय-
स्य) धनाधारस्य संसारस्य मध्ये (व्यन्तु) (यज) ॥ ५२ ॥

अन्वयः— हे विठांसो यूयं यथा देवी दुग्धे इन्द्र ऊर्जाहुती सरस्वती सुदुग्धा
भिषजाऽश्विना च शुक्रं न ज्योतिरवतस्तथा स्तनयोराहुती धत्त वसुधेयस्य
वसुवन इन्द्रियं धत्त येनैतानि सर्वे व्यन्तु हे गुणग्राहिन् तथा त्वं यज ॥ ५२ ॥

भावार्थः— अत्रोपपावाचकत्वं—यथा सदैद्याः स्वानि परेषां च
शरीराणि रक्षयित्वा वर्द्धयन्ति तथा सर्वैर्धनं रक्षयित्वा वर्द्धनीयं येनाऽस्मि-
न्संसारेऽतुलं सुखं भूयात् ॥ ५२ ॥

पदार्थः— हे विद्वानो तुमलोग जैसे (देवी) मनोहर (दुग्धे) उत्तमता
पूरण करने वाली प्रातः सायं वेला वा (इन्द्रे) परम ऐश्वर्य के निमित्त (ऊर्जाहुती)
अन्न की आहुती (सरस्वती) विशेषज्ञान कराने वाली स्त्री वा (सुदुग्धा) सुख पूरण
करने वाले (भिषजा) अच्छे वैद्य (अश्विना) वा पढ़ाने और उपदेश करने वाले विद्वान्
(शुक्रम्) शुद्ध जल के (न) समान (ज्योतिः) प्रकाश की (अवतः) रक्षा करते हैं
वैसे (स्तनयोः) शरीर में स्तनों की जो (आहुती) ग्रहण करके योग्य क्रिया हैं

उन को (घत्त) धारण करो और (वसुधेयम्य) जिस में धन धरा हुआ उस संसार के बीच (वसुवने) धन के सेवन करने वाले के लिये (इन्द्रियम्) धन का धारण करो जिस से उन उक्त पदार्थों को साधारण सब मनुष्य (व्यन्तु) प्राप्त हो हे गुणों के ग्रहण करने हारे जन वैसे तू सब व्यवहारों की (यज) संगति किया कर ॥ ५२ ॥

भावार्थः— इसमंत्र में उपमा और वाचकलु०—जैसे अच्छे वैद्य अपने और दूसरों के शरीरों की रक्षा करके वृद्धि करते कराते हैं वैसे सब को चाहिये कि धन की रक्षा करके उस की वृद्धि करें जिस से इस संसार में अतुल सुख हो ॥ ५२ ॥

देवा देवानामित्यत्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । अश्व्यादयो
देवताः । अतिजगतीच्छन्दः । निपादः स्वरः ॥

पुनर्मनुष्यैः कथं वर्त्तितव्यमित्याह ॥

फिर मनुष्यों को कैसे वर्त्तना चाहिये इस वि० ॥

दे॒वा दे॒वानां भि॒षजा हो॒तार॑विन्द्र॑म॒
श्वि॒वना । व॒षट्कारैः॑ सर॑स्वती त्विषिं
न हृ॒दये॑म॒ति ५ होतृ॑भ्यां दधुरिन्द्रियं
वसु॑वने वसु॑धेयस्य व्यन्तु यज ॥ ५३ ॥

दे॒वा । दे॒वाना॑म् । भि॒षजा । हो॒तारै॑ । इन्द्र॑म् । श्वि॒वना ।
व॒षट्कारै॑रिति वषट्कारैः । सर॑स्वती । त्विषि॑म् । न । हृ॒दये॑ ।
म॒तिम् । होतृ॑भ्यामिति होतृ॑भ्याम् । दधुः । इन्द्रि॑यम् । वसु॑वने इति
वसु॑वने । वसु॑धेयस्येति वसु॑धेयस्य । व्यन्तु । यज ॥ ५३ ॥

पदार्थः— (देवा) वैद्यविद्यया प्रकाशमानौ (देवानाम्) सुखदानृणां विदुषां (भिषजा) चिकित्सकां (होतारौ) मुखस्य दातारौ (इन्द्रम्) परमैश्वर्यम् (अश्विना) विद्याव्यापिनौ (वषट्कारैः) श्रेष्ठैः कर्माभिः (सरस्वती) प्रशस्तविद्यासुशिक्षा-युक्ता वाङ्मती (त्विषिम्) प्रकाशम् (न) इव (हृदये) अन्तःकरणे (मतिम्) (होतृभ्याम्) दातृभ्याम् (दधुः) (इन्द्रियम्) शुद्धं मनः (वसुवने) धनसंनिभा-जकाय (वसुधेयस्य) कौशस्य (व्यन्तु) (यज) ॥ ५३ ॥

अन्वयः— हे विद्वांसो भयन्तो यथा देवानां होतारो देवा भिषजाऽश्विना वषट्-कारैरिन्द्रं दध्यातां सरस्वती त्विषिं न हृदये मतिं दध्यात्तथा होतृभ्यां सद्देता वसुधे-यस्य वसुवनं इन्द्रियं दधुर्व्यन्तु च हे मनुष्य तथा त्वमपि यज ॥ ५३ ॥

भावार्थः— अत्रोपमावाचकत्वं ० — यथा विद्वत्सु विद्वांसौ सद्देवौ सत्क्रियया सर्वानरोगीकृत्य श्रीमतः सम्पादयतो यथा वा विदुषां वाग्विद्यार्थिनां स्यान्ते प्रज्ञामुन्नयति तथाऽन्यैर्विद्याधने संचयनीये ॥ ५३ ॥

पदार्थः— हे विद्वानो आप लोग जैसे (देवानाम्) सुख देने हारे विद्वानों के बीच (होतारौ) शरीर के सुख देने वाले (देवा) वैद्य विद्या से प्रकाशमान (भिषजा) वैद्यजन (अश्विना) विद्या में रमते हुए (वषट्कारैः) श्रेष्ठ कामों से (इन्द्रम्) परमै-श्वर्य को धारण करें (सरस्वती) प्रशस्त विद्या और अच्छी शिक्षायुक्त वाणी वाली स्त्री (त्विषिम्) प्रकाश के (न) समान (हृदये) अन्तःकरण में (मतिम्) बुद्धि को धारण करे जैसे (होतृभ्याम्) देने वालों के साथ उक्त सद्देव और वाणी युक्त स्त्री को वा (वसुधेयस्य) कौश के (वसुवने) धन को वांटने वाले के लिये (इन्द्रियम्) शुद्धमन को (दधुः) धारण करें और (व्यन्तु) प्राप्त हों हे जन जैसे तू भी (यज) सब व्यवहारों की संगति किया कर ॥ ५३ ॥

भावार्थः— इस मंत्र में उपमा और वाचकलु०—जैसे विद्वानों में विद्वान् अच्छे वैद्य श्रेष्ठ क्रिया से सब को नीरोग कर कान्तिमान् धनयान् करते हैं वा जैसे विद्वानों की वाणी विद्यार्थियों के मन में उत्तम ज्ञान की उन्नति करती है वैसे साधारण मनुष्यों को विद्या और धन इकट्ठे करने चाहिये ॥ ५३ ॥

देवीरित्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । अश्व्यादयो-
देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनर्जननीजनकाः स्वसन्तानान्कीदृशान् कुर्युरित्याह ॥

फिर माता पिता अपने सन्तानों को कैसे करें इस वि० ॥

दे॒वीस्ति॒स्रस्ति॒स्रो दे॒वीर्श्वि॒वने॒डा
सर॑स्वती । शू॒षं न म॒ध्ये नाभ्या॑मि-
न्द्रा॒य द॒धुरि॑न्द्र॒यं वसु॑वने वसु॒धेय॑स्य
व्यन्तु॑ यज ॥ ५४ ॥

दे॒वीः । ति॒स्रः । ति॒स्रः । दे॒वीः । अ॒श्विना॑ । इ॒डा । सर॑स्वती ।
शू॒षम् । न । म॒ध्ये । नाभ्या॑म् । इन्द्रा॒य । द॒धुः । इन्द्रि॒यम् ।
वसु॑वन॒इति॑ वसु॒ऽवने॑ । वसु॒धेय॑स्येति॑ वसु॒ऽधेय॑स्य । व्यन्तु॑ ।
यज ॥ ५४ ॥

पदार्थः—(देवीः) देदीप्यमानाः (तिस्रः) त्रित्वसंख्याकाः (तिस्रः) (देवीः)
विद्यया प्रकाशिताः (अश्विना) अध्यापकोपदेशकौ (इडा) स्ताविका (सरस्वती)
प्रशस्ताविद्या युक्ता (शूषम्) वलं सुखं वा (न) इव (मध्ये) (नाभ्याम्) तुन्दे

(इन्द्राय) जीवाय (दधुः) दधुः (इन्द्रियम्) अन्तःकरणम् (वसुवने)
धनेच्छुकाय (वसुधेयस्य) धेयानि वसूनि यस्मिस्तस्य जगतः (व्यन्तु)
(यज) ॥ ५४ ॥

अन्वयः—हे विद्यार्थिन् यथा तिस्रोर्देवीर्वसुधेयस्य मध्ये वसुवन इन्द्राय तिस्रो देवीर्दधुर्ययाश्विनेडा सरस्वती च नाभ्यां शूषन्नेन्द्रियं दधुर्यथैत एतानि व्यन्तु तथा त्वं यज ॥ ५४ ॥

भावांशः—अत्रोपमावाचकत्वं—यथा जनन्यध्यापिकोपदेशी च तिस्रो विदुष्यः कुमारीर्विदुषीः कृत्वा सुखयन्ति तथा जनकाध्यापकोपदेशारः कुमारान् विद्यार्थिनो विपरिचरः कृत्वा सुसभ्यान् कुर्युः ॥ ५४ ॥

पदार्थः—हे विद्यार्थी जैसे (तिस्रः) माता पढ़ाने और उपदेश करने वाली ये तीन (देवीः) निरन्तर विद्या से दीपती हुई स्त्री (वसुधेयस्य) जिस में धन धरने योग्य हैं उस संसार के (मध्ये) बीच (वसुवने) उत्तम धन चाहने वाले (इन्द्राय) जीव के लिये (तिस्रः) उत्तम मध्यम निकृष्ट तीन (देवीः) विद्या से प्रकाश को प्राप्त हुई कन्याओं को (दधुः) धारण करें वा (अश्विना) पढ़ाने और उपदेश करने हारे मनुष्य (इडा) स्तुति करने हारी स्त्री और (सरस्वती) प्रशंसित विज्ञानयुक्त स्त्री (नाभ्याम्) तोंदी में (शूषम्) बल वा सुख के (न) समान (इन्द्रियम्) मन को धारण करें वा जैसे ये सब उक्त पदार्थों को (व्यन्तु) प्राप्त हों वैसे तू (यज) सब व्यवहारों की संगति क्रिया कर ॥ ५४ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में उपमा और वाचकत्वं—जैसे माता पढ़ाने और उपदेश करने हारी ये तीन परिडता स्त्री कुमारियों को परिडता कर उनको सुखी करती हैं वैसे पिता पढ़ाने और उपदेश करने वाले विद्वान् कुमार विद्यार्थियों को विद्वान् कर उन्हें अच्छे सभ्य करें ॥ ५४ ॥

देव इन्द्र इत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । अश्व्यादयो देवताः ।

स्वराद् शकरी छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

दे॒व इन्द्रो॑ न॒राशंसः॑ स॒त्रिव॒रूथ॒स्रस्व-
स॒स्वत्या॑श्विभ्यामीयते॒ रथः॑ । रेतो॑ न
रू॒पम॒मृतं॑ ज॒नित्र॒मिन्द्रा॑य त्व॒ष्टा दध॑त्-
दिन्द्रि॒याणि॑ वसुवने॑ वसुधेय॒स्य व्यन्तु॑
यज॑ ॥ ५५ ॥

देवः । इन्द्रः । नराशंसः । त्रिवरूथऽइति त्रिवरूथः ।
सरस्वत्या । अश्विभ्यामित्यश्विभ्याम् । ईयते । रथः । रेतः ।
न । रूपम् । अमृतम् । जनित्रम् । इन्द्राय । त्वष्टा । दधत् ।
इन्द्रियाणि । वसुवनइति वसुवनैः । वसुधेयस्येति । वसुधे-
यस्य । व्यन्तु । यज ॥ ५५ ॥

पदार्थः— (देवः) विद्वान् (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् (नराशंसः)
ये नरानाशंसन्ति तान् (त्रिवरूथः) त्रिषु भूम्यधोन्तरिक्षेषु वरूथानि गृहाणि
यस्य सः (सरस्वत्या) सुशिक्षितया वाचा (अश्विभ्याम्) अग्निवायुभ्याम्
(ईयते) गम्यते (रथः) यानम् (रेतः) वीर्यम् (न) इव (रूपम्) आकृ-
तिम् (अमृतम्) जलम् (जनित्रम्) जनकम् (इन्द्राय) जीवाय
(त्वष्टा) दुःस्वविच्छेदकः (दधत्) दध्यात् (इन्द्रियाणि) श्रोत्रादीनि

(वसुवने) धनसेविने (वसुधेयस्य) संसारस्य (व्यन्तु) (यज ॥ ५५ ॥

अन्वयः—हे विद्वन् यथा त्रिवरूथं इन्द्रो देवः सरस्वत्या नराशंसोऽ-
शिवभ्यां रथ ईयते इव सन्मार्गे गमयति यथा वा जनित्रममृतं रेतो न रूपं वसुधे-
यस्य वसुवन इन्द्रायेन्द्रियाणि त्वष्टा दधत्यैतत्पतानि व्यन्तुं तथा त्वं यज ॥५५॥

भावार्थः—अत्रोपमावाचकलु०—हे मनुष्या यदि यूयं धर्म्येण व्यवहा-
रेण श्रियं संचिनुषान तर्हि जलाग्निभ्यां चालितो रथ इव सद्यः सर्वाणि
सुखानि प्राप्सुयात ॥ ५५ ॥

पदार्थः—हे विद्वान् जैसे (त्रिवरूथः) तीन अर्थात् भूमि भूमि के नीचे और
अन्तरिक्ष में जिस के घर हैं वह (इन्द्रः) परमैश्वर्यवान् (देवः) विद्वान् (सरस्वत्या)
अच्छी शिक्षा की हुई चाणी से (नराशंसः) जो मनुष्यों को भलिभांति शिक्षा देते हैं
उन को (अश्विन्याम्) आग और पवन से जैसे (रथः) रमणीय रथ (ईयते) प-
हुँचाया जाता जैसे अच्छे मार्ग में पहुँचाता है वा जैसे (त्वष्टा) दुःख का विनाश करने
द्वारा (जनित्रम्) उत्तम सुख उत्पन्न करने द्वारे (अमृतम्) जल और (रेतः) वीर्य
के (न) समान (रूपम्) रूप को तथा (वसुधेयस्य) संसार के बीच (वसुवने) धन
की सेवा करने वाले (इन्द्राय) जीव के लिये (इन्द्रियाणि) कान आंख आदि इन्द्रि-
यों को (दधत्) धारण करे वा जैसे उक्त पदार्थों को ये सब (व्यन्तु) प्राप्त हों जैसे
नू (यज) सब व्यवहारों की संगति किया कर ॥ ५५ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में उपमा और वाचकलु०—हे मनुष्यों यदि तुम लोग धर्म-
सम्यग्धी व्यवहार से धन को इकट्ठा करो तो जल और आग से चलाये हुए रथ के
मगान शीघ्र सब सुखों को प्राप्त होओ ॥ ५५ ॥

देवो देवैरित्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । अश्व्यादयां देवताः ।

निचृदत्यष्टिश्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनर्मनुष्याः कथं वर्त्तन्तित्याह ॥

फिर मनुष्य कैसे वर्त्ते यह वि० ॥

दे॒वो दे॒वैर्व॒नस्पति॑र्हिर॒ण्यवर्णो॑ऽअ-
श्वि॒भ्या ५ सर॑स्वत्या सु॒पिप्प॒ल इ-
न्द्रा॒य प॒च्यते॒ मधु॑ । अ॒जो न॒ जूति-
ऋ॒षभो॑ न भा॒सं व॒नस्पति॑र्नो॒ दध॑दि-
न्द्रि॒याणि॑ वसु॒वने॑ वसु॒धेय॑स्य व्यन्तु
य॒ज ॥ ५६ ॥

दे॒वः । दे॒वैः । व॒नस्पतिः॑ । हिर॑ण्यवर्णोऽइति॑ हिर॑ण्यऽवर्णः ।
अ॒श्विभ्या॑मित्यश्वि॒भ्याम् । सर॑स्वत्या । सु॒पिप्प॒लइति॑सु॒पिप्प॒लः ।
इन्द्रा॒य । प॒च्यते॒ । मधु॑ । अ॒जः । न । जूतिः॑ । ऋ॒षभः॑ । न ।
भा॒सम् । व॒नस्पतिः॑ । नः॑ । दध॑त् । इन्द्रि॒याणि॑ । वसु॒वने॑इति॑ व-
सु॒वने॑ । वसु॒धेय॑स्योति॑ वसु॒धेय॑स्य । व्यन्तु॑ । य॒ज ॥ ५६ ॥

पदार्थः—(देवः) द्योतमानः (देवैः) प्रकाशकैः (वनस्पतिः) र-
श्मिपालकः (हिरण्यवर्णः) तेजःस्वरूपः (अश्विभ्याम्) जलाग्निभ्याम् (स-
रस्वत्या) गतिमत्या नीत्या (सुपिप्पलः) शोभनानि पिप्पलानि फलानि यस्य
सः (इन्द्राय) जीवाय (पच्यते, (मधु) मधुरं फलम् (अजः) जलम् (न) इव (जूतिः) वेगः

(ऋषभः) बलिष्ठः (न) इव (भामम्) क्रोधम् (वनस्पतिः) वटादिः (नः)
अस्पश्यम् (दधत्) दधाति (इन्द्रियाणि) धनानि (वसुवने) धनच्छुकाय
(वसुधेयस्य) सर्वपदार्थाधारस्य संसारस्य (व्यन्तु) (यज) ॥ ५६ ॥

अन्वयः— हे विद्वान् यथाऽश्विन्यां देवैः सह देवो हिरण्यपर्णो वनस्प
तिः सरस्वत्या सुषिपल इन्द्राय मध्विव पच्यते जूतिरोजो न भाममृषभो न व-
नस्पतिर्वसुधेयस्य नो वसुवन इन्द्रियाणि दधत्यैतानेतानि व्यन्तु तथा त्वं
यज ॥ ५६ ॥

भावार्थः—अत्रोपमावाचकलु०—हे मनुष्या भवन्तो यथा सूर्यो वृष्ट्या न-
दी स्वजलेन च वृत्तान् संरक्ष्य मधुराणि फलानि जनयति तथा सर्वार्थं सर्वे व-
स्तु जनयन्तु यथा च धार्मिकां राजा दुष्टाय क्रुध्यति तथा दुष्टान् प्रत्यप्रीतिं कृ-
त्वा श्रेष्ठेषु प्रेम धरन्तु ॥ ५६ ॥

पदार्थः—हे विद्वान् जैसे (अश्विन्याम्) जल और बिजुली रूप आग से (देवैः)
प्रकारा करनेवाले गुणोंके साथ (देवः) प्रकाशमान् (हिरण्यपर्णः) तेजस्वरूप
(वनस्पतिः) किरणों की रक्षा करने वाला सूर्यलोक वा (सरस्वत्या) बढ़ती हुई नी-
ति के साथ (सुषिपलः) सुन्दर फलों वाला पीपल आदि वृक्ष (इन्द्राय) प्राणी के
लिये (गधु) मीठा फल जैसे (पच्यते) पके वैसे पकता और सिद्ध होता वा (जूतिः)
वंग (अजः) जल को (न) जैसे (भामम् तथा क्रोध को (ऋषभः) बलवान्
प्राणी के (न) समान (वनस्पतिः) वट वृक्ष आदि (वसुधेयस्य) सब के आधार
संसार के बीच (नः) हम लोगों के लिये (वसुवने) वा धन चाहने वाले के लिये (इ-
न्द्रियाणि) धनों को (दधत्) धारण कर रहा है जैसे इन सब उक्त पदार्थों को ये स-
ब (व्यन्तु) व्याप्त हों वैसे तू सब व्यवहारों की (यज) संगति किया कर ॥ ५६ ॥

भावार्थः— इस मंत्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार है—हे मनुष्यो तुम
जैसे सूर्य-धर्या से और नदी अपने जल से वृक्षों की भली भाँति रक्षा कर सब ओर से मी-

ठे २ फलों को उत्पन्न कराती है वैसे सब के अर्थ सब वस्तु उत्पन्न करो और जैसे धार्मिक राजा दुष्ट पर क्रोध करता वैसे दुष्टों के प्रति अनीति कर अच्छे उतम जनों में भ्रम को धारण करो ॥ ५६ ॥

देवं बर्हिस्त्वित्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । अश्व्यादयो देवताः ।

अतिशकरीछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

दे॒वं ब॒र्हिर्वा॒रि॒तीनामध्व॒रे स्ती॒र्णाम् ।
 अ॒श्विभ्या॒मू॒र्णाम॒दाः सर॑स्वत्या स्यो॒न-
 मिन्द्र॑ ते॒ सदः॑ । ई॒शायै॑ म॒न्युः राजा॑-
 नं ब॒र्हिषा॑ दधु॒रिन्द्रि॒यं वसु॑वने॒ वसु॑धे-
 यस्य॑ व्य॒न्तु॒ यज॑ ॥ ५७ ॥

दे॒वम् । ब॒र्हिः । वा॒रि॒तीनाम् । अ॒ध्व॒रे । स्ती॒र्णाम् । अ॒श्वि-
 भ्या॒मित्य॒श्विऽभ्याम् । ऊ॒र्णाम॒दाऽइत्यू॒र्णाम॒दाः । सर॑स्वत्या । स्यो॒-
 नम् । इन्द्र॑ । ते॒ । सदः॑ । ई॒शायै॑ । म॒न्युम् । राजा॑नम् । ब॒र्हि-
 षा॑ । दधुः । इन्द्रि॒यम् । वसु॑व॒नइति॑ वसु॒ऽवने॑ । वसु॑धे॒यस्येति॑
 वसु॑धे॒यस्य॑ । व्य॒न्तु॒ । यज॑ ॥ ५७ ॥

पदार्थः—(देवम्)दिव्यम्(बर्हिः)अन्तरिक्षम्(वारितीनाम्)वारिणि जले इतिर्गति-
 र्येषां तेषाम् (अध्वरे) अर्हिसनीये यज्ञे (स्तीर्णम्) आच्छादकम् (अश्विभ्याम्) वायु-

विद्युद्भ्याम् (ऊर्णमृदाः) य ऊर्णराच्छादकैर्पृच्छन्ते ते (सरस्वत्या) उत्तमवाण्या
(स्योनम्) सुखम् (इन्द्र) इन्द्रियस्वामिन् जीव (ते) तव (सदः) सीदन्ति
यास्मिस्तत्(ईशायै) यैश्वर्यं प्राप्नोति तस्यै (मन्युम्) मननम् (राजानम्) राजमानम्
(बर्हिषा) अन्तरिक्षेण (दधुः) (इन्द्रियम्) धनम् (वसुवने) पृथिव्यादिसेवकाय
(वसुधेयस्य) पृथिव्याद्याधारस्य (व्यन्तु) (यज) ॥ ५७ ॥

अन्वयः—हे इन्द्र यस्य ते सरस्वत्या सह स्योनं सदोऽस्ति यथोर्णमृदा
अश्विभ्यामध्वरे वारितीनां स्तीर्णं देवं बर्हिरीशायै मन्युं राजानमिव बर्हिषा वसु-
धेयस्य वसुवन इन्द्रियं दधुरेतानि व्यन्तु तथा त्वं यज ॥ ५७ ॥

भावार्थः—अत्रोपमावाचकुल०--यदि मनुष्या आकाशवदत्तोभा आनन्दमृदा
एकान्तप्रासादा अभङ्गाज्ञाः पुरुषार्थिनोऽभविष्यँस्तर्ह्यस्य संसारस्य मध्ये
श्रीमन्तः कुतो नाभविष्यन् ? ॥ ५७ ॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) अपने इन्द्रिय के स्वामी जीव जिस (ते) तेरा (सरस्वत्या)
उत्तम वाणी के साथ (स्योनम्) सुख और (सदः) जिस में बैठते वह नाव आदि यान
हैं और जैसे (ऊर्णमृदाः) ढांपने वाले पदार्थों से शिल्प की वस्तुओं को मीजते हुए
विद्वान् जन (अश्विभ्याम्) पवन और विजुन्ती से (अध्वरे) न विनाश करने योग्य
शिल्प यज्ञ में (वारितीनाम्) जिन की जल में चाल है उन पदार्थों के (स्तीर्णम्) ढांपने
वाले (देवम्) दिव्य (बर्हिः) अन्तरिक्ष को वा (ईशायै) जिस क्रिया से ऐश्वर्य
को मनुष्य प्राप्त होता उस के लिये (मन्युम्) विचार अर्थात् सब पदार्थों के गुण दोष
और उन की क्रिया सोचने को (राजानम्) प्रकाशमान राजाके समान वा (बर्हिषा)
अन्तरिक्ष से (वसुधेयस्य) पृथिवी आदि आधार के बीच (वसुवने) पृथिवी आदि लोकों
की सेवा करने हारे जीव के लिये (इन्द्रियम्) धन को (दधुः) धारण करें और इन को
(व्यन्तु) प्राप्त हों जैसे तू सब पदार्थों की (यज) संगति क्रिया कर ॥ ५७ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलु०—यदि मनुष्य आकाश के समान निष्कम्प निडर आनन्द देने हो एकान्तस्थानयुक्त और जिन की आज्ञा भंग न हो ऐसे पुरुषार्थी हों इस संसार के बीच धनवान् क्यों न हों ? ॥ ५७ ॥

देवोऽग्निरित्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । अश्व्यादयो देवताः ।

आद्यस्याऽत्यष्टिश्छन्दः । गान्धारः स्वरः । स्विष्टोऽ-

अग्निरित्युत्तरस्य निचृत्त्रिष्टुच्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०

दे॒वोऽ॒ग्निः॑ स्वि॒ष्ट॒कृ॒दे॒वान्य॑स्र॒द्य-
था॒यथ॑ हो॒ता रा॒विन्द्र॑म॒श्वि॒ना वा॒चा वा-
चं॑ सर॒स्वती॑म॒ग्निः सोमः॑ स्वि॒ष्ट॒कृ॒तिस्वि-
ष्ट॒ इन्द्रः॑ सु॒त्रा॒मा स॒वि॒ता वरु॑णोभि-
ष॒गि॒ष्टो दे॒वो व॒नस्प॑तिः स्वि॒ष्टा दे॒वा
आ॒ज्य॒षाः स्वि॒ष्टोऽ॒ग्निर्ग॒निना॑ हो॒ता
हो॒त्रे स्वि॒ष्ट॒कृ॒द्य॒शो न द॑र्धदि॒न्द्रि॒यमू-
र्ज॑म॒र्षचि॑तिः स्व॒धां व॑सुव॒ने वसु॑धेय॒स्य
व्य॒न्तु य॑ज ॥ ५८ ॥

दे॒वः । अ॒ग्निः । स्वि॒ष्ट॒कृ॒दि॒ति स्वि॒ष्ट॒कृ॒त् । दे॒वान् । य॒-
ज्ञ॒त् । य॒था॒य॒थमि॑ति यथाऽय॒थम् । हो॒ता॒रौ । इन्द्र॑म् । अ॒श्वि-
ना॑ । वा॒चा । वा॒चम् । सर॑स्वतीम् । अ॒ग्निम् । सो॒मम् । स्वि॒ष्ट॒कृ॒-

दितिं स्विष्टऋत् । स्विष्टऋति सुऋष्टः । इन्द्रः । सुतामेतिसुऋ-
 तामां । सविता । वरुणः । भिषक् । इष्टः । देवः । वनस्पतिः ।
 स्विष्टाऋति सुऋष्टाः । देवाः । आज्यपाऋत्याज्यऋपाः । स्विष्टऋ-
 ऋति सुऋष्टः । अग्निः । अग्निना । होता । होत्रे । स्विष्टऋ-
 ऋति स्विष्टऋत् । यशः । न । दधत् । इन्द्रियम् । ऊर्जम् ।
 अपचितिमित्यपऋतिम् । स्वधाम् । वसुवमऋति वसुऋवेन ।
 वसुधेयस्येति वसुऋधेयस्य । व्यन्तु । यज ॥ ५८ ॥

पदार्थः— (देवः) दिव्यः (अग्निः) पात्रकः (स्विष्टऋत्) यः
 शोभनमिष्टं करोति सः (देवान्) दिव्यगुणकर्मस्वभावान् पृथिव्यादीन् (यज्ञत्)
 यजेत् संगच्छेत (यथायथाम्) यथायोग्यम् (होतारौ) आदातारौ (इन्द्रम्)
 सूर्यम् (अग्निना) वायुविद्युतौ (वाचा) वाण्या (वाचम्) वाणीम्
 (सरस्वतीम्) विज्ञानयुक्ताम् (अग्निम्) पात्रकम् (सोमम्) चन्द्रम् (स्विष्टऋत्)
 सुष्टुसुखकारी (स्विष्टः) शोभनश्चासाविष्टश्च सः (इन्द्रः) परमैश्वर्ययुक्तो
 राजा (सुतामा) सुष्टुपालकः (सविता) सूर्यः (वरुणः) जलसमुदायः
 (भिषक्) रोगविनाशकः (इष्टः) संगन्तुमर्हः (देवः) दिव्यस्वभावः (वन-
 स्पतिः) पिप्पलादिः (स्विष्टाः) शोभनमिष्टं येभ्यस्ते (देवाः) दिव्यस्वरूपाः
 (आज्यपाः) य आज्यं पातुमर्हं रसं पिवन्ति ते (स्विष्टः) शोभनमिष्टं
 यस्मात्सः (अग्निः) बन्धिः (अग्निना) विद्युता (होता) दाता (होत्रे)
 दात्रे (स्विष्टऋत्) शोभनेष्टकारी (यशः) कीर्तिकरं धनम् (न) इव

(दधत्) धरेत् (इन्द्रियम्) इन्द्रस्य लिङ्गं श्रोत्रादि (ऊर्जम्) बलम्
 (अपचितिम्) सत्कृतिम् (स्वधाम्) अन्नम् (वसुवने) ऐश्वर्यसेवकाय
 (वसुधेयस्य) संसारस्थ (व्यन्तु) (यज) ॥ ५८ ॥

अन्वयः— हे विद्वन् यथा वसुधेयस्य वसुवने स्विष्टकृद्देवोऽग्निर्देवान्
 यथायथं यत्नद्यथा होतारावश्विनेन्द्रं वाचा सरस्वतीं वाचमग्निं सोमं च यथायथं
 गमयतो यथा स्विष्टकृत्स्विष्टः सुत्रामेन्द्रः सविता वरुणो भिषगिष्टो देवो वनस्प-
 तिः स्विष्टा आज्यपा देवा अग्निना स्विष्टा होता स्विष्टकृद्दग्निहोत्रे यशो
 नेन्द्रियमूर्जमपचितिं स्वधां यथायथं दधत्यथैतानेतानि व्यन्तु तथा यथायथं यज ॥५८॥

भावार्थः—अत्रोपमावाचकलु०—ये मनुष्या ईश्वरनिर्मितानेतन्मन्त्रो-
 क्तयज्ञादीन्पदार्थान् विद्ययोपयोगाय दधति ते स्विष्टानि सुखानि लभन्ते ॥५८॥

पदार्थः—हे विद्वान् जैसे (वसुधेयस्य) संसार के बीच में (वसुवने)
 ऐश्वर्य को सेवने वाले सज्जन मनुष्य के लिये (स्विष्टकृत्) सुन्दर चाहे हुए सुख का
 करने हारा (देवः) दिव्य सुन्दर (अग्निः) आग (देवान्) उत्तम गुण कर्म स्वभा-
 वों वाले पृथिवी आदि को (यथायथम्) यथायोग्य (यत्नत्) प्राप्त हो वा जैसे
 (होतारा) पदार्थों के ग्रहण करने हारे (अश्विना) पवन और विजुलीरूप अग्नि (इ-
 न्द्रम्) सूर्य (वाचा) वाणी से (सरस्वतीम्) विशेष ज्ञानयुक्त (वाचम्) वाणी से
 (अग्निम्) अग्नि (सोमम्) और चन्द्रमा को यथायोग्य चलाते हैं वा जैसे (स्विष्ट-
 कृत्) अच्छे सुख का करने वाला (स्विष्टः) सुन्दर और सब का चाहा हुआ (सुत्रामा)
 भलीभांति पालने हारा (इन्द्रः) परमैश्वर्ययुक्त राजा (सविता) सूर्य (वरुणः) जल का
 समुदाय (भिषक्) रोगों का विनाश करने हारा वैद्य (इष्टः) संग करने योग्य

(देवः) दिव्यस्वभाव वाला (वनस्पतिः) पीपल आदि (स्विष्टाः) सुंदर चाहा हुआ मुख जिन से हो वे (आज्यपाः) पीने योग्य रस को पीने हारे (देवाः) दिव्य स्वरूप विद्वान् (अग्निना) विनुली के साथ (स्विष्टः) (होता) देने वाला कि जिस से सुन्दर चाहा हुआ काम हो (स्विष्टकृत्) तथा उत्तम चाहे हुए काम को करने वाला (अग्निः) अग्नि (होत्रे) देने वाले के लिये (यशः) कीर्ति करने हारे धन के(न) समान (इन्द्रियम्) जीव के चिन्ह कान आदि इन्द्रियां (ऊर्जम्) बल (अपचितिम्) सत्कार और (स्वधाम्) अन्न को (दधत्) प्रत्येक को धारण करे वा जैसे उन उक्त पदार्थों को ये सब (व्यन्तु) प्राप्त हों वैसे तू (यज) सब व्यवहारों की संगति कियाकर ॥५८॥

भावार्थः--इस मंत्र में उपमा और याचकलु०- जो मनुष्य ईश्वरके बनाये हुए इस मंत्र में कहे यज्ञ आदि पदार्थों को विद्या से उपयोग के लिये धारण करते हैं वे सुन्दर चाहे हुए सुखों को पाते हैं ॥ ५८ ॥

अग्निमद्येत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । अग्न्यादयो

देवताः । धृतिश्छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

अग्निमद्य होतारमवृणीतायं यज-
मानः पचन् पक्तीः पचन्पुरोडाशान्ब-
धनन्प्रिवभ्यां छागुं सरस्वत्यै मे षमि-
न्द्रायऽऋषभथु सुन्वन्प्रिवभ्यां सरस्व-
त्याऽइन्द्राय सत्राम्णो सुरासोमान् ॥५९॥

अग्निम् । अद्य । होतारम् । अवृणीत । अयम् । यजमानः । पचन् । पक्तीः । पचन् । पुरोडाशान् । बध्नन् । अश्विभ्यामित्यश्विभ्याम् । द्वागम् । सरस्वत्यै । मेषम् । इन्द्राय । ऋषभम् । सुन्वन् । अश्विभ्यामित्यश्विभ्याम् । सरस्वत्यै । इन्द्राय । सुत्राम्णऽइति सुत्राम्णे । सुरासोमानिति सुरासोमान् ॥ ५९ ॥

पदार्थः—(अग्निम्) पाकम् (अद्य) इदानीम् (होतारम्) सुखानां दातारम् (अवृणीत) वृणोति (अयम्) (यजमानः) (पचन्) (पक्तीः) (पचन्) (पुरोडाशान्) पाकविशेषान् (बध्नन्) बध्नन्ति (अश्विभ्याम्) क्षाणापानाभ्याम् (द्वागम्) (सरस्वत्यै) विज्ञानयुक्तार्थे वाचे (मेषम्) अश्विम् (इन्द्राय) परमैश्वर्याय (ऋषभम्) वृषभम् (सुन्वन्) सुनुयुः (अश्विभ्याम्) (सरस्वत्यै) (इन्द्राय) राज्ञे (सुत्राम्णे) (सुरासोमान्) सुरयारसेन युक्तान् सोमान् पदार्थान् ॥ ५९ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यथाऽयं पक्तीः पचन् पुरोडाशान् पचन् यजमानो होतारमग्निमवृणीत यथाऽश्विभ्यां द्वागं सरस्वत्यै मेषमिन्द्रायर्षभं बध्नन्नाश्विभ्यां सरस्वत्यै सुत्राम्ण इन्द्राय सुरासोमान्सुन्वन्तथा यूयमद्य कुरुत ॥ ५९ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—हे मनुष्या यथा संगन्तारो वैद्या अपानार्थं द्वागदुग्धं वाग्दुग्धार्थमविषयैश्वर्यायगोःपयो रोगनिवारणायौषधिरसांश्चसंपाद्य सुसंस्कृतान्यन्नानि भुक्त्वा बलवन्तो भूत्वा दुष्टान् शत्रून् बध्नन्ति ते परमैश्वर्यं लभन्ते ॥ ५९ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (अयम्) यह (पक्तीः) पचाने के प्रकारों को (पचन्) पचाता अर्थात् सिद्ध करता और (पुरोडाशान्) यज्ञ आदि कर्म में प्रसिद्ध पाकों को (पचन्) पचाता हुआ (यजमानः) यज्ञ करने हारा

(होतारम्) सुखों के देने वाले (अग्निम्) आग को (अवृणीत) स्वीकार वा जैसे (अश्विभ्याम्) प्राण और अपान के लिये (छागम्) छेरी (सरस्वत्यै) विशेष ज्ञान-युक्त वाणी के लिये (मेघम्) भेड़ और (इन्द्राय) परम ऐश्वर्य के लिये (ऋषभम्) बैल को (बध्नन्) बांधते हुए वा (अश्विभ्याम्) प्राण, अपान (सरस्वत्यै) विशेष ज्ञान युक्त वाणी और (सुत्राम्णे) भली भांति रक्षा करने हारे (इन्द्राय) राजा के लिये (सुरासोमान्) उत्तम रस युक्त पदार्थों का (सुन्वन्) सार निकालते हैं वैसे तुम (अद्य) आज करो ॥ ५६ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०— हे मनुष्यो जैसे पदार्थों को मिलाने हारे वैद्य अपान के लिये छेरी का दूध वाणी बढने के लिये भेड़ का दूध ऐश्वर्य के बढने के लिये बैल रोग निवारण के लिये औषधियों के रसों को इकट्ठा और अच्छे संस्कार किये हुए अन्नों का भोजन कर उससे बलवान् हो कर दुष्ट शत्रुओं को बांधते हैं वैसे वे परम ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं ॥ ५६ ॥

सूपस्था इत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । लिङ्गोक्ता देवताः ।

धृतिश्छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

पुनर्मनुष्यैः किं कृत्वा किं कर्त्तव्यमित्याह ॥

फिर मनुष्यों को क्या करके क्या करना चाहिये इसवि० ॥

सूपस्था ऋद्य देवो वनस्पतिरभव-
दश्विभ्यां छागेन सरस्वत्यै मे षेणेन्द्रा-
य ऽ ऋषभेणासंस्तान् भेदस्तः प्रति
पचतागृभीषतावीवधन्त पुरोडाशै र-
पुरश्विना सरस्वतीन्द्रः सुत्रामा सुरा-
सोमान् ॥ ६० ॥

सूपस्थाऽइति सुऽउपस्थाः । अद्य । देवः । वनस्पतिः । अभवत् । अश्विभ्यामित्यश्विऽभ्याम् । छागेन । सरस्वत्यै । मेषेण । इन्द्राय । ऋषभेण । अक्षन् । तान् । मेदस्तः । प्रति । पचता । अगृभीषत । अवीवृधन्त । पुरोडाशैः । अपुः । अश्विना । सरस्वती । इन्द्रः । सुत्रामेति सुऽत्रामा । सुरासोमानिति सुराऽसोमान् ॥ ६० ॥

पदार्थः—(सूपस्थाः) ये सुमूपतिष्ठन्ति ते (अद्य) (देवः) दिव्यगुणः (वनस्पतिः) वटादिः (अभवत्) भवेत् (अश्विभ्याम्) प्राणापानाभ्याम् (छागेन) दुःखछेदकेन (सरस्वत्यै) वाचे (मेषेण) (इन्द्राय) (ऋषभेण) (अक्षन्) भुञ्जीरन् (तान्) (मेदस्तः) मेदशः स्निग्धान् (प्रति) (पचता) पचतानि पक्तव्यानि । अत्रौणादिकोऽतच् (अगृभीषत) गृह्णन्तु (अवीवृधन्त) वर्धन्ताम् (पुरोडाशैः) संस्कृतान्नविशेषैः (अपुः) पिबन्तु (अश्विना) प्राणाऽपानौ (सरस्वती) प्रशस्ता वाक् (इन्द्रः) परमैश्वर्यो राजा (सुत्रामा) सुष्ठुरक्षकः (सुरासोमान्) ये सुरयाऽभिषवेन सूयन्ते तान् ॥ ६० ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यथाऽद्य सूपस्था देवो वनस्पतिरिव येन येनाश्विभ्यां छागेन सरस्वत्यै मेषेणोन्द्राय ऋषभेणाक्षस्तान् मेदस्तः प्रतिपचतागृभीषत पुरोडाशैरवीवृधन्ताश्विना सरस्वती सुत्रामेन्द्रः सुरासोमानपुस्तथा भवानभवद्भवेत् ॥६०॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—ये मनुष्याश्छागादिदुग्धादिभिः प्राणाऽपानरक्षणाय स्निग्धान् पक्वान् पदार्थान् भुक्त्वोत्तमान् रसान् पीत्वा वर्धन्ते ते सुसुखं लभन्ते ॥ ६० ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (अद्य) आज (सूपस्थाः) भली भांति समीप स्थिर होने वाले और (देवः) दिव्य गुण वाता पुरुष (वनस्पतिः) वट वृक्ष आदि के समान जिस २ (अश्विभ्याम्) प्राण और अपान के लिये (छोगेन) दुःख विनाश करने वाले छेरी आदि पशु से (सरस्वत्यै) वाणी के लिये (मेषेण) मेढ़ा से (इन्द्राय) परम ऐश्वर्य्य के लिये (ऋषभेण) बैल से (अक्षन्) भोग करें [उपयोगलें]; (तान्) उन (मेदस्तः) सुन्दर चिकने पशुओं के (प्रति) प्रति (पचता) पचाने योग्य वस्तुओं का (अगृभीषत) ग्रहण करे (पुरोडाशैः) प्रथम उत्तम संस्कार किये हुए विशेष अन्नों से (अवीवृधन्त) वृद्धि को प्राप्त हों (अभिना) प्राण अपान (सरस्वती) प्रशंसित वाणी (सुत्रामा) भली भांति रक्षा करनेहारा (इन्द्रः) परम ऐश्वर्य्यवान् राजा (सुरासोमान्) जो अरक खींचने से उत्पन्न हों उन औषधि रसों को (अपुः) पीवें वैसे आप (अभवत्) होओ ॥ ६० ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकतु०—जो मनुष्य छेरी आदि पशुओं के दूध आदि से प्राण, अपान की रक्षा के लिये चिकने और पके हुए पदार्थों का भोजन कर उत्तम रसों को पीके वृद्धि को पाते हैं वे अच्छे सुख को प्राप्त होते हैं ॥ ६० ॥

त्वामद्यैत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । लिङ्गोक्ता देवताः ।

भुरिग् विकृतिश्छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

पुनर्मनुष्याः कथं वर्त्तन्तित्याह ॥

फिर मनुष्य कैसे अपना वर्तव वर्ते इस वि० ॥

त्वामद्यऽऋषऽ आर्षेयऽ ऋषीणां
नपादवृणीतायं यजमानो बहुभ्यऽ आ-
सङ्गतेभ्यऽ एष मे देवेषु वसु वार्या
यह्यत्ऽइति ता या देवा देव दाना-

न्यदुस्तान्यस्माऽत्रा च शास्स्वाचगुर-
स्वेषितश्च होतरसि भद्रवाच्याय प्रेषि-
तो मानुषः सूक्तवाकाय सूक्ता ब्रूहि ॥६१॥

त्वाम् । अद्य । ऋपे । आर्षेय । ऋपीणाम् । नपात् । अ-
वृणीत । अयम् । यजमानः । बहुभ्यऽइति बहुभ्यः । आ ।
सङ्गतेभ्यऽइति समुङ्गतेभ्यः । एपः । मे । देवेषु । वसु । वारि ।
आ । यक्ष्यते । इति । ता । या । देवाः । देव । दानानि । अदुः ।
तानि । अस्मै । आ । च । शास्स्व । आ । च । गुरस्व । इ-
षितः । च । होतः । अति । भद्रवाच्यायेति भद्रऽवाच्याय ।
प्रेषितऽइति प्रऽइषितः । मानुषः । सूक्तवाकायेति सूक्तऽवाकाय ।
सूक्तेति सुऽउक्ता । ब्रूहि ॥ ६१ ॥

पदार्थः— (त्वाम्) (अद्य) (ऋपे) मंत्रार्थन्निष् (आर्षेय) ऋषिपु-
साधुस्तत्संबुद्धौ । अत्र छान्दसोढक् (ऋपीणाम्) मंत्रार्थविदाम् (नपात्) अप-
त्यम् (अवृणीत) वृणोतु (अयम्) (यजमानः) यज्ञकर्त्ता (बहुभ्यः) (आ)
(संगतेभ्यः) (योगेभ्यः) (एपः) (मे) मम (देवेषु) विद्वत्सु (वसु)
धनम् (वारि) जलम् (आ) (यक्ष्यते) (इति) (ता) तानि (या) यानि
(देवाः) विद्वांसः (देव) विद्वन् (दानानि दातव्यानि (अदुः) ददति
(तानि) (अस्मै) (आ) (च) (शास्स्व) शिक्ता (आ) (च) (गुरस्व) उद्यमस्व

(इषितः) इष्टः (च) (होतः) (असि) भव (भद्रवाच्याय) भद्रं वाच्यं य-
स्मै तस्मै (प्रेषितः) प्रेरितः (मानुषः) मनुष्यः (सूक्तवाकाय) सूक्तानि वा-
केषु यस्य तस्मै (सूक्ता) सुष्ठुवक्तव्यानि (ब्रूहि) ॥ ६१ ॥

अन्वयः—हे ऋषे अर्पेय ऋषीणां नपाद्यजमानोऽयमद्य बहुभ्यः संगतेभ्य-
स्त्वामावृणीतैष देवेषु मे वसु वारि चावृणीत । हे देव य आयक्ष्यते देवा या या-
नि दानान्यदुस्तानिचास्मै आशास्व प्रेषितः सन्नागुरस्व च हे होतरिषितो मा-
नुषो भद्रवाच्याय सूक्तवाकाय सूक्ता ब्रूहीति ता प्राप्तवाश्चासि ॥ ६१ ॥

भावार्थः—ये मनुष्या बहूनां विदुषां सकाशाद्विद्वांसं वृत्वा वेदादिविद्या
अधीत्य महर्षयो भवेयुस्तेन्यानध्यापयितुं शक्नुयुः । ये च दातार उद्यमिनः स्युस्ते
विद्यां वृत्वा अविदुषामुपरि दयां कृत्वा विद्याग्रहणाय रोषेण संताड्यैतान्सुस-
भ्यान्कुर्युस्तेऽत्र सत्कर्तव्याः स्युरिति ॥ ६१ ॥

अत्र बरुणाग्निविद्द्राजप्रजाशिल्पवाग्ग्रहाश्वृतुहोत्रादिगुणवर्णनादेतदध्या-
योक्तार्यस्यपूर्वाध्यायोक्तार्थेन सह संगतोरस्तीति वेद्यम् ॥

पदार्थः—हे (ऋषे) मंत्रों के अर्थ जानने वाले वा हे (अर्पेय) मंत्रार्थ
जानने वालों में श्रेष्ठ पुरुष (ऋषीणाम्) मंत्रों के अर्थ जानने वालों के (नपात्)
सन्ताम (यजमानः) यज्ञ करने वाला (अयम्) यह (अद्य) आज (बहुभ्यः)
बहुत (संगतेभ्यः) योग्य पुरुषों से (त्वाम्) तुम्हको (आ, अवृणीत) स्वीकार करे
(एषः) यह (देवेषु) विद्वानों में (मे) मेरे (वसु) धन (च) और (वारि)
जल को स्वीकार करे हे (देव) विद्वान् जो (आयक्ष्यते) सत्र ओर से संगत किया जा-
ता (च) और (देवाः) विद्वान् जन (या) जिन (दानानि) देने योग्य पदार्थों
को (अदुः) देते हैं (तानि) उन सभों को (अस्मै) इस यज्ञ करने वाले के लिये
(आ, शास्व) अच्छे प्रकार कहो और (प्रेषितः) पढाया हुआ तू (आ, गुरस्व) अ-
च्छे प्रकार उद्यम कर (च) और हे (होतः) देने हारे (इषितः) सब का चाहा
हुआ (मानुषः) तू (भद्रवाच्याय (जित) के लिये अच्छा कहना होता और

(सूक्ताकाय) जिस के वचनों में अच्छे कथन अच्छे व्याख्यान हैं उस भद्र पुरुष के लिये (सूक्ता) अच्छी बोल चाल (ब्रूहि) बोलो (इति) इस कारण कि उक्त प्रकार से (ता) उन उत्तम पदार्थों को पाये हुए (असि) होते हो ॥ ६१ ॥

भावार्थः—जो मनुष्य बहुत विद्वानों से अति उत्तम विद्वान् को स्वीकार कर वेदादि शास्त्रों की विद्या को पढ़ कर महर्षि हों वे दूसरों को पढ़ा सकें और जो देने वाले उद्यमी हों वे विद्या को स्वीकार कर जो अविद्वान् हैं उन पर दया कर विद्या ग्रहण के लिये रोष से उन मूर्खों को ताड़ना दें और उन्हें अच्छे सभ्य करें वे इस संसार में सत्कार करने योग्य हैं ॥ ६१ ॥

इस अध्याय में बरुण अग्नि विद्वान् राजा प्रजा शिल्प अर्थात् कारागरी वागी घर अश्विन शब्द के अर्थ ऋतु और होता आदि पदार्थों के गुणों का वर्णन होने से इस अध्याय में कहे अर्थ का पिछले अध्याय में कहे अर्थ के साथ मेल है यह जानना चाहिये।

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां श्रीमन्महाविदुषां

विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण श्रीमत्पर-

महंसपरिव्राजकाचार्येण श्रीमद्दयानन्द-

सरस्वतीस्वामिना विरचिते संस्कृ-

तार्थभाषाभ्यां विभूषितयजु-

वेदभाष्य एकविंशोऽध्यायः

समाप्तमगात् ॥

॥अथ द्वाविंशोऽध्याय आरभ्यते ॥

ओम् विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव
यद्भद्रं तन्न आसुव ॥ १ ॥

तेजोसीत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । सविता देवता ।

निचृत्पङ्क्तिश्छन्दः । पंचमः स्वरः ॥

तत्रादावाप्नो विद्वान् कथां वर्त्ततेत्याह ॥

अब वाईसेवें अध्याय का आरम्भ किया जाता है उस के प्रथम मंत्र में आप्त सकलशास्त्रों का जानने वाला विद्वान् कैसे अपना वर्त्तव वर्त्ते इस वि० ॥

तेजोसि शुक्रममृतमायुष्पाऽ आयुर्म
पाहि । देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्वि-
नोर्बाहुभ्यांपूष्णो हस्ताभ्यामाददे ॥१ ॥

तेजः । असि । शुक्रम् । अमृतम् । आयुष्पाः । आयुःपाऽइ-
त्यायुःऽपाः । आयुः । मे । पाहि । देवस्य । त्वा । सवितुः ।
प्रसवऽइति प्रऽसवे । अश्विनोः । बाहुभ्यामिति बाहुऽभ्याम् ।
पूष्णः । हस्ताभ्याम् । आ । ददे ॥ १ ॥

पदार्थः—(तेजः) प्रकाशः (असि) (शुक्रम्) वीर्यम् (अमृतम्) स्वस्वरूपेण नाशरहितम् (आयुष्पाः) यः आयुः पाति सः (आयुः) जीवनम् (मे) मम (पाहि) (देवस्य) सर्वप्रकाशकस्य (त्वा) त्वाम् (सवितुः) सकलजगदुत्पादकस्य (प्रसवे) प्रसूयन्ते प्राणिनो यस्मिन् संसारे तस्मिन् (अश्विनोः) वायुविद्युतोः (बाहुभ्याम्) (पूष्णः) पुष्टिकर्तुः सूर्यस्य (हस्ताभ्याम्) (आ) (ददे) गृह्णामि ॥ १ ॥

अन्वयः—हे विद्वन्नहं देवस्य सवितुर्जगदीश्वरस्य प्रसवेऽश्विनोर्धारणा-
कर्षणाभ्यामिव बाहुभ्यां पूष्णः किरणैरिव हस्ताभ्यां यन्त्वाददे यस्त्वममृतं
शुक्रं तेज इवायुष्पा असि स त्वं स्वं दीर्घायुः कृत्वा मे ममाऽऽयुः
पाहि ॥ १ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०— यथा शरीरस्था विद्युच्छरीरं रक्षति
यथा बाह्वौ सूर्यवायू जीवनहेतूस्तस्तथेश्वररचितेऽस्मिन् जगति आप्तो विद्वान्
भवतीति सर्वैर्वेद्यम् ॥ १ ॥

पदार्थः—हे विद्वान् मैं (देवस्य) सब के प्रकाश करने (सवितुः) और समस्त
जगत् के उत्पन्न करने हारे जगदीश्वर के (प्रसवे) उत्पन्न किये जिस में कि प्राणी आदि
उत्पन्न होते उस संसार में (अश्विनोः) पवन और विजुलीरूप आग के धारण और
खँचने आदि गुणों के समान (बाहुभ्याम्) भुजाओं और (पूष्णः) पुष्टि करने
वाले सूर्य की किरणों के समान (हस्ताभ्याम्) हाथों से जिस (त्वा) तुम्हें (आ,
ददे) ग्रहण करता हूँ वा जो तू (अमृतम्) स्व स्वरूप से विनाश रहित (शुक्रम्)
वीर्य और (तेजः) प्रकाश के समान जो (आयुष्पाः) आयुर्दा की रक्षा करने
वाला (असि) है सो तू अपनी दीर्घ आयुर्दा कर के (मे) मेरी (आयुः) आयु
की (पाहि) रक्षा कर ॥ १ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकुल०—जैसे शरीर में रहने वाली विजुली शरीर की रक्षा करती वा जैसे बाहरले सूर्य और पवन जीवन के हेतु हैं वैसे ईश्वर के वनाए इस जगत् में आस अर्थात् सकल शास्त्र का जानने वाला विद्वान् होता है यह सब को जानना चाहिये ॥ १ ॥

इमामित्यस्य यज्ञपुरुषऋषिः । विद्वांसो देवताः ।

निचृत्त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनर्मनुष्यैरायुः कथं वर्तितव्यमित्याह ॥

फिर मनुष्यों को आयुर्दा कैसे बर्तनी चाहिये इस वि० ॥

**इमामग्भान् रशनासृतस्य पूर्वा-
ऽआयुषि विदथेषु कव्या । सा नोऽ-
ऽस्मिन्सुतऽआवभूवऽऋतस्य साम-
न्तसरमारपन्ती ॥ २**

इमाम् । अग्भान् । रशनाम् । ऋतस्य । पूर्वे । आयुषि ।
विदथेषु । कव्या । सा । नः । अस्मिन् । सुते । आ । वभूव ।
ऋतस्य । सामन् । सरम् । आरपन्तीत्याऽरपन्ती ॥ २ ॥

पदार्थः—(इमाम्) (अग्भान्) गृह्णीयुः (रशनाम्) व्यापिकां रज्जामिव (ऋतस्य) सत्यस्य कारणस्य (पूर्वे) पूर्वस्मिन् (आयुषि) प्राणधारणे (विदथेषु) यज्ञादिषु (कव्या) कवयः । अत्र सुपां सु० इति विभक्तेर्द्व्यादेशः (सा) (नः) अस्माकम् (अस्मिन्) (सुते) उत्पन्ने जगति (आ) (वभूव) भवति (ऋतस्य) सत्यस्य कारणस्य (सामन्) सामन्यन्ते कर्मणि (सरम्) प्राप्तव्यम् (आरपन्ती) व्यक्तशब्दं वदन्ती ॥ २ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या या ऋतस्य सरमारपन्त्याबभूव यामिमामृतस्य रशनां विदथेषु पूर्वं आयुषि कव्या अगृभ्णान् साऽस्मिन् सुते नः सामन्नाव-
भूव ॥ २ ॥

भावार्थः—यथा रशनया वद्धाः प्राणिन इतस्ततः पलायितुं न श-
क्नुवन्ति तथा युक्त्या धृतमायुरकाले न पलायते ॥ २ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (ऋतस्य) सत्य कारण के (सरम्) पाने यो-
ग्य शब्द को (आरपन्ती) अच्छेप्रकार प्रगट बोलती हुई (आ, वभूव) भली भांति
विख्यात होती वा जिस (इमाम्) इस को (ऋतस्य) सत्यकारण की (रशनाम्)
व्याप्त होने वाली डोर के समान (विदथेषु) यज्ञादि कों में (पूर्वं) पहिली (आयु-
षि) प्राण धारण करने हारी आयुर्दा के निमित्त (कव्या) कवि मेधावी जन (अ-
गृभ्णान्) ग्रहण करें (सा) वह बुद्धि (अस्मिन्) इस (सुते) उत्पन्न हुए जगत्
में (नः) हमलोगों के (सामन्) अन्त के काम में प्रसिद्ध होती अर्थात् कार्य को
समाप्ति पर्यन्त पहुँचाती है ॥ २ ॥

भावार्थः—जैसे डोर से बंधे हुए प्राणी इधर उधर भाग नहीं जा सकते
वैसे युक्ति के साथ धारण की हुई आयु ठीक समय के बिना नहीं भागजाती ॥ २ ॥

अभिधा इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । अग्निर्देवता ।

भुरिगनुष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनर्विद्वान् कीदृशो भवतीत्याह ॥

फिर विद्वान् कैसा हो इस वि० ॥

अभिधा असि भुवनमसि युन्तासि
धर्ता । स त्वमग्नि वैश्वानरः सप्रथ-
सङ्गच्छु स्वाहाकृतः ॥ ३ ॥

अभिधाऽइत्याभिधाः । असि । भुवनम् । असि । यन्ता ।
असि । धर्ता । सः । त्वम् । अग्निम् । वैश्वानरम् । सप्रथस-
मितिसप्रथसम् । गच्छ । स्वाहाकृतऽइति स्वाहाकृतः ॥ ३ ॥

पदार्थः—(अभिधाः) योऽभिधाति सः (असि) (भुवनम्) उदकम् ।
भुवनमित्युदकना० निघं० १ । १२ (असि) (यन्ता) नियन्ता (असि) (ध-
र्ता) सकलव्यवहारधारकः (सः) (त्वम्) (अग्निम्) पायकम् (वैश्वानरम्)
विश्वेषु वस्तुषु नायकम् (सप्रथसम्) प्रख्यातत्वेन सह वर्तमानम् (गच्छ) (स्वा-
हाकृतः) सत्यक्रियया निष्पन्नः ॥ ३ ॥

अन्वयः—हे विद्वन् यस्त्वं भुवनमिवास्याभिधा असि यन्तासि स स्वा-
हाकृतो धर्ता त्वं सप्रथसं वैश्वानरमग्निं गच्छ जानीहि ॥ ३ ॥

भावार्थः—यथा सर्वेषां प्राण्यप्राणिनां जीवनमूलं जलमग्निश्चास्ति त-
था विद्वांसं सर्वे जानीयुः ॥ ३ ॥

पदार्थः—हे विद्वान् जो तू (भुवनम्) जल के समान शीतल (असि) है
(अभिधाः) कहने वाला (असि) है वा (यन्ता) नियम करने हारा (असि) है
(सः) वह (स्वाहाकृतः) सत्य क्रिया से सिद्ध हुआ (धर्ता) सब व्यवहारों का धा-
रण करने हारा (त्वम्) तू (सप्रथसम्) विख्याति के साथ वर्तमान (वैश्वानरम्) स-
मस्त पदार्थों में नायक (अग्निम्) अग्नि को (गच्छ) जान ॥ ३ ॥

भावार्थः—जैसे सब प्राणी और अप्राणियों के जीने का मूल कारण जल और
अग्नि है वैसे विद्वान् को सब लोग जानें ॥ ३ ॥

स्वगेत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । विश्वे देवा देवताः ।

जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

स्व॒गा त्वा॑ दे॒वेभ्यः॑ प्र॒जाप॑तये ब्र-
ह्म॒न्नश्व॑वं भ॒न्त्स्यामि॑ दे॒वेभ्यः॑ प्र॒जाप॑त-
ये॒ तेन॑ राध्यासम् । तं ब॑धान दे॒वेभ्यः॑
प्र॒जाप॑तये॒ तेन॑ राध्नुहि ॥ ४ ॥

स्व॒गेति॑ स्व॒ऽगा । त्वा॑ । दे॒वेभ्यः॑ । प्र॒जाप॑तय॒इति॑ प्रजाऽप॑तये ।
ब्रह्म॑न् । अश्व॑म् । भ॒न्त्स्यामि॑ । दे॒वेभ्यः॑ । प्र॒जाप॑तय॒ऽइति॑
प्र॒जाऽप॑तये । तेन॑ । रा॒ध्या॒सम् । तम् । व॒धान॑ । दे॒वेभ्यः॑ । प्र॒-
जाप॑तय॒ऽइति॑ प्र॒जाऽप॑तये । तेन॑ । रा॒ध्नुहि॑ ॥ ४ ॥

पदार्थः—(स्वगा) स्वयं गच्छतीति स्वगास्तं स्वयंगामिनम् । अत्र वि-
भक्तेर्दादेशः (त्वा) त्वाम् (देवेभ्यः) विद्भ्यः (प्रजापतये) प्रजायाः पा-
लकाय (ब्रह्मन्) विद्यया वृद्ध (अश्वम्) महान्तम् (भन्त्स्यामि) वद्धं करि-
ष्यामि (देवेभ्यः) दिव्यगुणोभ्यः (प्रजापतये) प्रजापालकाय गृहस्थाय (तेन)
(राध्यासम्) सम्यक्सिद्धो भवेयम् (तम्) (वधान) (देवेभ्यः) दिव्यगुणक-
र्मस्वभावेभ्यः (प्रजापतये) प्रजापालकाय (तेन) (राध्नुहि) सम्यक् सिद्धो
भव ॥ ४ ॥

अन्वयः—हे ब्रह्मन्नहं त्वा स्वगा करोमि देवेभ्यः प्रजापतयेऽश्वं भन्त्स्या-
मि तेन देवेभ्यः प्रजापतये राध्यासं तं त्वं वधान तेन देवेभ्यः प्रजापतये राध्नुहि
॥ ४ ॥

भावार्थः—सर्वैर्मनुष्यैर्विद्यां सुशिक्षाब्रह्मचर्यसत्सङ्गैः शरीरात्मनोर्मह-
द्वलं संपाद्य दिव्यान् गुणान् गृहीत्वा विद्मद्भ्यः सुखं दत्त्वा स्वस्य परेषां च वृ-
द्धिः कार्या ॥ ४ ॥

पदार्थः—हे (ब्रह्मन्) विद्या से वृद्धि को प्राप्त मैं (त्वा) तुम्हें (स्वगा)
आप जाने वाला करता हूँ (देवेभ्यः) विद्वानों और (प्रजापतये) संतानों की रक्षा
करने हारं गृहस्थ के लिये (अश्वम्) बड़े सर्वव्यापी उत्तम गुण को (भवन्त्यामि)
बांधूंगा (तेन) उस से (देवेभ्यः) दिव्य गुणों और (प्रजापतये) संतानों को पालने हारे
गृहस्थ के लिये (राध्यासम्) अच्छे प्रकार सिद्ध होऊँ (तम्) उसको तू (वधान)
बांध (तेन) उस से (देवेभ्यः) दिव्य गुण कर्म और स्वभाव वालों तथा (प्रजापये)
प्रजा पालने वाले के लिये (राधुहि) अच्छे प्रकार सिद्ध होओ ॥ ४ ॥

भावार्थः—सब मनुष्यों को चाहिये कि विद्या अच्छी शिक्षा ब्रह्मचर्य और अच्छे
संग से शरीर और आत्मा के अत्यन्त बल को सिद्ध दिव्य गुणों को ग्रहण और विद्वानों
के लिये सुख दे कर अपनी और पराई वृद्धि करें ॥ ४ ॥

प्रजापतय इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । इन्द्रादयो-
देवताः । अतिधृतिश्छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

पुनर्मनुष्याः कान् वर्द्धयेयुरित्याह ॥

फिर मनुष्य किन को बढ़ावें इस वि० ॥

प्रजापतये त्वा जुष्टं प्रोक्षामि रूद्रा-
ग्निभ्यां त्वा जुष्टं प्रोक्षामि वायवे त्वा
जुष्टं प्रोक्षामि विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो-
जुष्टं प्रोक्षामि सर्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो

जुष्टं प्रोक्षामि । योऽऽर्चन्तं जिघांसति तमभ्यर्षीनि वरुणः पुरो मर्त्तः परः श्वा ॥ ५ ॥

पूजापतयेऽइति पूजाऽपतये । त्वा । जुष्टम् । प्र । उक्तामि ।
 इन्द्राग्निभ्यामितिन्द्राग्निऽभ्याम् । त्वा । जुष्टम् । प्र । उक्तामि ।
 वायवे । त्वा । जुष्टम् । प्र । उक्तामि । विश्वेभ्यः । त्वा । देवेभ्यः ।
 जुष्टम् । प्र । उक्तामि । सर्वेभ्यः । त्वा । देवेभ्यः । जुष्टम् । प्र ।
 उक्तामि । अर्चन्तम् । जिघांसति । तम् । अभि । अमीति ।
 वरुणः । परः । मर्त्तः । परः । श्वा ॥ ५ ॥

पदार्थः--(प्रजापतये) प्रजापालकाय (त्वा) त्वाम् (जुष्टम्) मीतम्
 (प्रोक्षामि) प्रकृतयाऽधिषिञ्चामि (इन्द्राग्निभ्याम्) जीवाग्निभ्याम् (त्वा)
 (जुष्टम्) (प्रोक्तामि) (वायवे) पवनाय (त्वा) (जुष्टम्) (प्रोक्तामि) (वि-
 श्वेभ्यः) अखिलेभ्यः (त्वा) त्वाम् (देवेभ्यः) विद्वद्भ्यः (जुष्टम्) (प्रो-
 क्तामि) (सर्वेभ्यः) समग्रेभ्यः (त्वा) (देवेभ्यः) दिव्येभ्यः पृथिव्यादिपदा-
 र्थेभ्यः (जुष्टम्) (प्रोक्तामि) (यः) (अर्चन्तम्) शीघ्रगामिनमश्वम् (जिघां-
 सति) हन्तुमिच्छति (तम्) (अभि) अमीति) प्राप्नोति (वरुणः) श्रेष्ठः
 (परः) उत्कृष्टः (मर्त्तः) मनुष्यः (परः) (श्वा) कुकुरः ॥ ५ ॥

अन्वयः—हे विद्वन् यः परो वरुणो मर्त्तोऽर्चन्तं जिघांसति तमभ्यर्षीनि
 यः परः श्वेव वर्त्तते यस्त निवारयति तं प्रजापतये जुष्टं त्वा प्रोक्तामीन्द्राग्निभ्यां जु-
 ष्टं त्वा प्रोक्तामि वायवे त्वा जुष्टं प्रोक्तामि विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टं त्वा प्रोक्तामि
 सर्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टं त्वा प्रोक्तामि ॥ ५ ॥

भावार्थः—ये मनुष्या उत्तमान् पशून् हिंसितुमिच्छेयुस्ते सिंहवद्वन्तव्याः य एतान् रक्षितुं यतेरस्ते सर्वरक्षणायधिकर्त्तव्याः ॥ ५ ॥

पदार्थः—हे विद्वान् (यः) जो (परः) उत्तम और (वरुणः) श्रेष्ठ (मर्त्तः) मनुष्य (अर्वन्तम्) शीघ्रचलने हारे घोड़े को (जिघांसति) ताड़ना देने वा चलाने की इच्छा करता है (तम्) उस को (अभि, अमीति) सब ओर से प्राप्त होता है और जो (परः) अन्य मनुष्य (श्वा) कुत्ते के समान वर्त्तमान अर्थात् दुष्कर्मी है उस को जो रोकता है उस (प्रजापतये) प्रजा की पालना करने वाले के लिये (जुष्टम्) प्रीति किये हुए (त्वा) तुझ को (प्रोक्षामि) अच्छे प्रकार सींचता हूं (इन्द्राग्निभ्याम्) जीव और अग्नि के लिये (जुष्टम्) प्रीति किये हुए (त्वा) तुझ को (प्रोक्षामि) अच्छे प्रकार सींचता हूं (वायवे) पवन के लिये (जुष्टम्) प्रीति किये हुए (त्वा) तुझ को (प्रोक्षामि) अच्छे प्रकार सींचता हूं (विश्वेभ्यः) समस्त (देवेभ्यः) विद्वानों के लिये (जुष्टम्) प्रीति किये हुए (त्वा) तुझ को (प्रोक्षामि) अच्छे प्रकार सींचता हूं (सर्वेभ्यः) समस्त (देवेभ्यः) दिव्य पृथिवी आदि पदार्थों के लिये (जुष्टम्) प्रीति किये हुए (त्वा) तुझ को (प्रोक्षामि) अच्छे प्रकार सींचता हूं ॥ ५ ॥

भावार्थः—जो मनुष्य उत्तम पशुओं के मारने की इच्छा करते हैं वे सिंह के समान मारने चाहियें और जो इन पशुओं की रक्षा करने को अच्छा यत्न करते हैं वे सब की रक्षा करने के लिये अधिकार देनेयोग्य हैं ॥ ५ ॥

अग्नय इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । अग्न्यादयो देवताः ।

भुरिगतिजगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥

पुनर्मनुष्याः कथं वर्त्तन्वित्याह ॥

फिर मनुष्य कैसे अपना वर्त्ताव वर्त्त इस वि० ॥

अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहापां

मोदाय॒ स्वाहा॑ सवि॒त्रे स्वाहा॑ वा॒यवे॒
 स्वाहा॑ वि॒ष्णवे॒ स्वाहेन्द्रा॑य॒ स्वाहा॑
 बृह॒स्पतये॒ स्वाहा॑ मि॒त्राय॒ स्वाहा॑ वरु॒-
 णाय॒ स्वाहा॑ ॥ ६ ॥

अ॒ग्नये॑ । स्वाहा॑ । सोमा॑य । स्वाहा॑ । अ॒पाम् । मोदा॑य । स्वाहा॑ । स॒वित्रे॑ ।
 स्वाहा॑ । वा॒यवे॑ । स्वाहा॑ । वि॒ष्णवे॑ । स्वाहा॑ । इन्द्रा॑य । स्वाहा॑ । बृह॒स्पतये॑ ।
 स्वाहा॑ । मि॒त्राय॑ । स्वाहा॑ । वरु॒णाय॑ । स्वाहा॑ ॥ ६ ॥

पदार्थः— (अ॒ग्नये) पात्रकाय (स्वाहा) श्रेष्ठया क्रियया (सोमाय)
 औषधिगणशोधनाय (स्वाहा) (अपाम्) जलानाम् (मोदाय) आनन्दाय
 (स्वाहा) सुखप्राप्तिका क्रिया (सवित्रे) सूर्याय (स्वाहा (वायवे) (स्वाहा)
 (विष्णवे) व्यापकाय विद्युद्रूपाय (स्वाहा) (इन्द्राय) जीनाय (स्वाहा)
 (बृहस्पतये) बृहतां पालकाय (स्वाहा) (मित्राय) सख्ये (स्वाहा)
 सत्क्रिया (वरुणाय) श्रेष्ठाय (स्वाहा) उत्तमा क्रिया ॥ ६ ॥

अन्वयः— यदि मनुष्या अ॒ग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहाऽर्पा मोदाय स्वाहा
 सवित्रे स्वाहा वायवे स्वाहा विष्णवे स्वाहेन्द्राय स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय
 वरुणाय स्वाहा क्रियेरंस्तर्हि किं किं सुखं न प्राप्येत ॥ ६ ॥

भावार्थः— हे मनुष्या यद्ग्नौ संस्कृतं घृतादिकं हविर्हूयते
 तदोषधिजलं सूर्यतेजो वायुविद्युतौ च संशोध्यैश्वर्यवर्द्धनप्राणापानप्रजारक्षण-
 श्रेष्ठसत्कारनिमित्तं जायेत किञ्चिदपि द्रव्यं स्वरूपतो नष्टं न भवति

किन्तु अवस्थान्तरं प्राप्य सर्वत्रैव परिणतं जायते अतएव सु-
गन्धमिष्टपुष्टिरोगनाशकगुणैर्युक्तानि द्रव्याण्यग्नौ प्रक्षिप्यौ-
षध्यादिशुद्धिद्वारा जगदारोग्यं सम्पादनीयम् ॥ ६ ॥

पदार्थः—यदि मनुष्य (अग्नये) अग्नि के लिये (स्वाहा) श्रेष्ठ
क्रिया वा (सोमय) ओषधियों के शोधने के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया-
वा (अपाम्) जलों के सम्बन्ध से जो (मोदाय) आनन्द होता है उस के
लिये (स्वाहा) सुख पहुंचाने वाली क्रिया वा (सवित्रे) सूर्यमण्डल के अ-
र्थ (स्वाहा) उत्तम क्रिया वा (वायवे) पवन के लिये (स्वाहा) उत्तम
क्रिया (विष्णवे) विजुलीरूप आग में (स्वाहा) उत्तम क्रिया (इन्द्राय) जीव
के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (बृहस्पतये) बड़ों की पालना करने वाले के
लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (मित्राय) मित्र के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया
(वरुणाय) श्रेष्ठ के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया करें तो कौनर सुख न मिले ? ॥६॥

भावार्थः—हे मनुष्यो जो आग में उत्तमता से सिद्ध क्रिया हुआ घी आ-
दि हवि होमा जाता है वह ओषधि जल सूर्य के तेज वायु और विजुली को
अच्छे प्रकार शुद्ध कर ऐश्वर्य को बढ़ाने प्राण अपान और प्रजा की रक्षा
रूप श्रेष्ठों के सत्कार का निमित्त होता है कोई द्रव्यस्वरूप से नष्ट नहीं होता
किन्तु अवस्थान्तर को पा के सर्वत्र ही परिणाम को प्राप्त होता है इसी से सु-
गन्ध मीठापन पुष्टि देने और रोगविनाश करने हारे गुणों से युक्त पदार्थ आ-
ग में छोड़ कर ओषधि आदि पदार्थों की शुद्धि के द्वारा संसार का नीरोगप-
न सिद्ध करना चाहिये ॥ ६ ॥

हिकारायेत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । प्राणादयो देवताः ।

अत्यष्टिश्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनर्मनुष्यैर्जगत् कथं शोधनीयमित्याह ॥

फिर मनुष्यों को जगत् कैसे शुद्ध करना चाहिये इस वि० ॥

हिङ्काराय स्वाहा हिंक्ताय स्वा-
हा क्रन्दते स्वाहा ऽवक्रन्दाय स्वाहा
प्रोथते स्वाहा प्रप्रोथाय स्वाहा गन्धा-

यस्वाहाघ्रातायस्वाहा निविष्टायस्वा-
 होर्पविष्टायस्वाहा सन्दितायस्वा-
 हा बल्गतेस्वाहाऽऽसीनायस्वाहा
 शर्यानायस्वाहास्वर्पतेस्वाहा जा-
 ग्रतेस्वाहा कूर्जतेस्वाहा प्रबुद्धाय
 स्वाहा विजृम्भमाणायस्वाहा विच-
 तायस्वाहा संहानायस्वाहोर्प
 स्थितायस्वाहाऽयनायस्वाहा प्रा-
 यणायस्वाहा ॥ ७ ॥

हिंकारायैति हिम्ऽकाराय । स्वाहा । हिंकृतायेति
 हिम्ऽकृताय । स्वाहा । क्रन्दते । स्वाहा । अवक्रन्दा-
 येत्यवऽक्रन्दाय । स्वाहा । प्रोथते । स्वाहा । प्रप्रोथाये-
 ति प्रऽप्रोथाय । स्वाहा । गुन्धाय । स्वाहा । घ्राताय ।
 स्वाहा । निविष्टायेति निऽविष्टाय । स्वाहा । उप-
 विष्टायेत्युपऽविष्टाय । स्वाहा । सन्दितायेति सम्ऽदि-
 ताय । स्वाहा । बल्गते । स्वाहा । आसीनाय । स्वा-
 हा । शर्यानाय । स्वाहा । स्वर्पते । स्वाहा । जाग्रते ।
 स्वाहा । कूर्जते । स्वाहा । प्रबुद्धायेति प्रऽबुद्धाय ।
 स्वाहा । विजृम्भमाणायैति विऽजृम्भमाणाय । स्वाहा ।
 विचृतायेति विऽचृताय । स्वाहा । संहानायेति सम्-
 हानाय । स्वाहा । उपास्थितायेत्युपऽस्थिताय । स्वा-
 हा । आयनायेत्याऽअयनाय । स्वाहा । प्रायणाय ।
 प्रायनायेति प्रऽअयनाय । स्वाहा ॥ ७ ॥

पदार्थः—(हिंकाराय) यो हिं करो तितस्मै (स्वाहा) (हिं-
कृताय) हिं कृतं येन तस्मै (स्वाहा) (क्रन्दते) आह्वानं
रोदनं वा कुर्वते (स्वाहा) (अवक्रन्दाय) नीचैः कृताह्वानाय
(स्वाहा) (प्रोथते) पर्याप्ताय (स्वाहा) (प्रप्रोथाय) अत्यन्तं
पर्याप्ताय (स्वाहा) (गन्धाय) (स्वाहा) (घ्राताय)
योऽघ्रायि तस्मै (स्वाहा) (निविष्टाय) योनिविशतं तस्मै (स्वा-
हा) (उपविष्टाय) य उपविशति तस्मै (स्वाहा) (संदिताय) यः
सम्यग्दीयते खण्डयते तस्मै (स्वाहा) (बल्लगते) गच्छते (स्वा-
हा) (आसीनाय) स्थिताय (स्वाहा) (शयानाय) शीते तस्मै
(स्वाहा) स्वपते प्राप्तसुषुप्त्रये (स्वाहा) (जाग्रते) (स्वाहा)
(कूजते) अप्रकटशब्दोच्चारकाय (स्वाहा) (प्रबुद्धाय)
प्रकृष्टज्ञानवते (स्वाहा) (विजृम्भमाणाय) विशेषेणांगविना-
मकाय (स्वाहा) (विचृताय) ग्रन्थकाय (स्वाहा) (संहानाय)
संहन्यते यस्मिंस्तस्मै (स्वाहा) (उपस्थिताय) प्राप्तसमी-
पत्वाय (स्वाहा) (आयनाय) समन्ताद्विज्ञानाय (स्वाहा)
(प्रायणाय) (स्वाहा) ॥ ७ ॥

अन्वयः—यैर्मनुष्यैर्हिंकाराय स्वाहा हिंकृताय स्वाहा
क्रन्दते स्वाहाऽवक्रन्दाय स्वाहा प्रोथते स्वाहा प्रप्रोथाय स्वाहा
गन्धाय स्वाहा घ्राताय स्वाहा निविष्टाय स्वाहा उपविष्टाय स्वाहा
संदिताय स्वाहा बल्लगते स्वाहाऽसीनाय स्वाहा शयानाय
स्वाहा स्वपते स्वाहा जाग्रते स्वाहा कूजते स्वाहा प्रबुद्धाय
स्वाहा विजृम्भमाणाय स्वाहा विचृताय स्वाहा संहानाय
स्वाहा उपस्थिताय स्वाहाऽयनाय स्वाहा प्रायणाय स्वाहा
क्रियन्ते तैर्दुःखानि वियोज्य सुखानि लभ्यन्ते ॥ ७ ॥

भावार्थः— मनुष्यैरग्निहोत्रादियज्ञे यावद्धूयते ता-
वत्सर्वं प्राणिनां सुखकारकं भवति ॥ ७ ॥

पदार्थः— जिन मनुष्यों ने (हिंकाराय) जो हिं ऐसा शब्द करता उस के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (हिंक्रुताय) जिसने हिं शब्द किया उसके लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (क्रन्दते) बुलाने वारोते हुए के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (अवक्रन्दाय) नीचे होकर बुलाने वाले के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (प्रोथते) सब कर्मों में परिपूर्ण के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (प्रमोथाय) अत्यन्त पूर्ण के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (गन्धाय) सुगन्धित के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (धाताय) जो सूँघा गया उसके लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (निविष्टाय) जो निरंतर प्रवेश करता बैठता है उसके लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (उपविष्टाय) जो बैठता उसके लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (संदिताय) जो भलीभांति दिया जाता उसके लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (वल्गते) जाते हुए के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (आसीनाय) बैठे हुए के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (शयानाय) सोने हुए के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (स्वपते) नींद जिसको प्राप्त हुई उसके लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (जाग्रते) जागते हुए के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (कूजते) कूजते हुए के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (प्रबुद्धाय) उत्तम ज्ञान वाले के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (विजृम्भमाणाय) अच्छे प्रकार जंभाई लेने के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (विचृताय) विशेष रचना करने वाले के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (संहानाय) जिससे संधान पदार्थों का समूह किया जाता उसके लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (उपास्थिताय) समीपस्थित हुए के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (आयनाय) अच्छे प्रकार विशेष ज्ञानके लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया तथा (प्रायणाय) पहुंचाने हारे के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया की उन मनुष्यों को दुःख छूट के सुख प्राप्त होते हैं । ७ ॥

भावार्थः— मनुष्यों से अग्निहोत्र आदि यज्ञ में जितना होम किया जाता है उतना सब प्राणियों के लिये सुख करने वाला होता है ॥ ७ ॥

यते स्वाहेत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । प्रयत्नवन्तो जीवादयो
देवताः । निचृदतिधृतिश्छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

यते स्वाहा धावते स्वाहोद्द्रावाय स्वा-
होद्द्रुताय स्वाहा शूकाराय स्वाहा
शूकताय स्वाहा निषण्णाय स्वाहो-
त्थिताय स्वाहा जवाय स्वाहाबला-
य स्वाहा विवर्त्तमानाय स्वाहा विवृ-
त्ताय स्वाहा विधून्वानाय स्वाहा
विधूताय स्वाहा शुश्रूषमाणाय स्वाहा
शृण्वते स्वाहेक्षमाणाय स्वाहेक्षिताय
स्वाहा वीक्षिताय स्वाहा निमेषाय
स्वाहा यदति तस्मै स्वाहा यत्
पिबति तस्मै स्वाहा यन्मूत्रं करोति
तस्मै स्वाहा कुर्वते स्वाहा कृताय
स्वाहा ॥ ८ ॥

यते । स्वाहा । धावते । स्वाहा । उद्द्रावायेत्युत् ऽद्रावाय
स्वाहा । उद्द्रुतोयत्युत् ऽद्रुताय । स्वाहा । शूकाराय ।
स्वाहा । शूकताय । स्वाहा । निषण्णाय । निःसन्ना-
येति निःसन्नय । स्वाहा । उत्थिताय । स्वाहा ।
जवाय । स्वाहा । बलाय । स्वाहा । विवर्त्तमानायेति

विवर्त्तमानाय । स्वाहा । विवृत्तायेति विवृत्ताय ।
 स्वाहा । विधून्वानायेति विधून्वानाय । स्वाहा । वि-
 धूतायेति विधूताय । स्वाहा । शुश्रूषमाणाय । स्वाहा ।
 शृण्वते । स्वाहा । ईक्षमाणाय । स्वाहा । ईक्षिताय ।
 स्वाहा । वीक्षितायेति वीक्षिताय । स्वाहा । निमेष-
 षायेति निमेषाय । स्वाहा । यत् । अत्ति । तस्मै ।
 स्वाहा । यत् । पिबति । तस्मै । स्वाहा । यत् । मूर्त्रम् ।
 करोति । तस्मै । स्वाहा । कुर्वते । स्वाहा । कृताय ।
 स्वाहा ॥ ८ ॥

पदार्थः—(यते) प्रयतमानाय (स्वाहा)
 सत्क्रिया (धावते) (स्वाहा) (उद्गावाय) ऊर्ध्वगताय
 द्रवीभूताय (स्वाहा) (उद्द्रुताय) उत्कर्षगताय
 (स्वाहा) (शूकाराय) क्षिप्रकारिणे (स्वाहा) (शूकृता-
 य) क्षिप्रकृताय (स्वाहा) (निषण्णाय) निश्रयेन स्थि-
 ताय (स्वाहा) (उत्थिताय) कृतोत्थानाय (स्वाहा)
 (जवाय वेगाय) (स्वाहा) (बलाय) (स्वाहा) (विवर्त्तमानाय)
 विशेषेण वर्त्तमानाय (स्वाहा) (विवृत्ताय) विविधतया
 कृतवर्त्तमानाय (स्वाहा) (विधून्वानाय) यो विविधं धुनोति
 तस्मै (स्वाहा) (विधूताय) येन विविधं धूतं कथितं तस्मै
 (स्वाहा) (शुश्रूषमाणाय) श्रोतुमिच्छते (स्वाहा) (शृण्वते)
 यः शृणोति तस्मै (स्वाहा) (ईक्षमाणाय) दर्शकाय (स्वाहा)
 (ईक्षिताय) अन्येन दृष्टाय (स्वाहा) (वीक्षिताय) विशेषेण
 कृतदर्शनाय (स्वाहा) (निमेषाय) (स्वाहा) (यत्) (अत्ति)
 भक्षयति (तस्मै) (स्वाहा) (यत्) (पिबति) (तस्मै) (स्वाहा)

(यत्) (मूत्रम्) (करोति) (तस्मै) (स्वाहा) (कुर्वते) (स्वाहा)
(कृताय) (स्वाहा) ॥ ८ ॥

अन्वयः—ये मनुष्या यते स्वाहा धावते स्वाहोद्द्रा-
वाय स्वाहोद् द्रुताय स्वाहा शूकाराय स्वाहा शूकृताय
स्वाहा निषण्णाय स्वाहोत्थिताय स्वाहा जघाय स्वाहा
बलाय स्वाहा विवर्तमानाय स्वाहा विवृत्ताय स्वाहा विधू-
न्वानाय स्वाहा विधूताय स्वाहा शुश्रूषमाणाय स्वाहा शृ-
ण्वते स्वाहेक्षमाणाय स्वाहेक्षिताय स्वाहा वीक्षिताय स्वा-
हा निमेषाय स्वाहा यदत्ति तस्मै स्वाहा यत् पिबति तस्मै
स्वाहा यन्मूत्रं करोति तस्मै स्वाहा कुर्वते स्वाहा कृताय
स्वाहा कुर्वन्ति ते सर्वाणि सुखानि लभन्ते ॥ ८ ॥

भावार्थः—ये प्रयत्नधावनादीनां साधकानि सुग-
न्ध्यादिहोमप्रभृतीनि च कर्माणि कुर्वन्ति ते सर्वाणीष्टानि
वस्तूनि प्राप्नुवन्ति ॥८ ॥

पदार्थः— जो मनुष्य (यते) अच्छा यत्न करते हुए के लिये (स्वा-
हा) उत्तम क्रिया (धावते) दौड़ते हुए के लिये (स्वाहा) श्रेष्ठ क्रिया (उ-
द्द्रावाय) ऊपर को गये हुए गीले पदार्थ के लिये (स्वाहा) सुन्दर क्रिया
(उद्द्रुताय) उत्कर्ष को प्राप्त हुए के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (शूका-
राय) शीघ्रता करने वाले के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (शूकृताय) शीघ्र
क्रिये हुए के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (निषण्णाय) निश्चय से बैठे हुए
के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (उत्थिताय) उठे हुए के लिये (स्वाहा) उ-
त्तम क्रिया (जघाय) वेग के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (बलाय) बलके
लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (विवर्तमानाय) विशेष रीति से वर्तमान होते
हुए के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (विवृत्ताय) विशेष-रीति से वर्तव

किये हुए के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (विधून्वानाय) जो पदार्थ विधुनतौह
 उस के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (विधूताय) जिस ने नानाप्रकार से वि-
 धूना उस के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (शुश्रूपमाणाय) सुना चाहते हुए
 के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (शृण्वते) सुनेते के लिये (स्वाहा) उत्तम
 क्रिया (ईक्षमाणाय) देखते हुए के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (ईक्षिताय)
 और से देखे हुए के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (वीक्षिताय) भली भांति
 देखे हुए के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (निमेषाय) आंखों के पलक उठने
 बैठने के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (यत्) जो (अस्ति) खाता है (तस्मै)
 उस के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (यत्) जो (पिबति) पीता है (तस्मै) उस के
 लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (यत्) जो (मूत्रम्) मूत्र (करोति) करता है
 (तस्मै) उस के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (कुर्वते) करने वाले के लिये
 (स्वाहा) उत्तम क्रिया तथा (कृताय) किये हुए के लिये (स्वाहा) उत्तम
 क्रिया करते हैं वे सब सुखों को प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥

भावार्थः— जो अच्छे यत्न और दौड़ने आदि क्रियाओं को सिद्ध क-
 रने वाले काम तथा सुगन्धि आदि वस्तुओं के होम आदि कामों को करते हैं
 वे समस्त सुख और चाहे हुए पदार्थों को प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥

तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्रऋषिः । सविता देवता ।

निचृद्गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

अथेश्वरविषयमाह ॥

अथ ईश्वर के वि० ॥

तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीम-
 हि धियो यो नः प्रचोदयात् ॥ ९ ॥

तत् । सवितुः । वरेण्यम् । भर्गः । देवस्य । धीमहि ।
 धियः । यः । नः । प्रचोदयादिति प्रचोदयात् ॥ ९ ॥

पदार्थः—(तत्)(सवितुः)सकलजगदुत्पादकस्य(वरेण्यम्)वरे-
 ण्यम्वर्त्तुमर्हमत्युत्तमम्(भर्गः)सर्वदोषप्रदाहकतंजोमयंशुद्धम्

(देवस्य) स्वप्रकाशस्वरूपस्य सर्वैः कमनीयस्य सर्वसुख-
पदस्य (धीमहि) - धीमहि (धियः) पूजाः (यः)
परमात्मा (नः) अस्माकम् (प्रचोदयात्) ॥ ९ ॥

अन्वयः— हे मनुष्याः सवितुर्देवस्य यद्वरेण्यं भर्गो-

वयं धीमहि तदेव यूयं धरत यो नः सर्वेषां धियः प्रचो-
दयात् सोन्तर्यामी सर्वैरुपासनीयः ॥ ९ ॥

भावार्थः— सर्वैर्मनुष्यैः सच्चिदानन्दस्वरूपं नित्यशुद्ध

बुद्धमुक्तस्वभावं सर्वान्तर्यामिणं परमात्मानं विहायैतस्यस्था-
नेऽन्यस्य कस्यचित्पदार्थस्योपासनास्थापनं कदाचिन्नैव
कार्यं कस्मैप्रयोजनाययोऽस्माभिरुपासितः सन्नस्माकं
बुद्धीरधर्माचरणान्निवर्त्य धर्माचरणे प्रयेत् । येनशुद्धाः-
सन्तो वयं तं परमात्मानं प्राप्यैहिकपारमार्थिके सुखे
भुञ्जीमहीत्यस्मै ॥ ९ ॥

पदार्थः— हे मनुष्यो (सवितुः) समस्त संसार उत्पन्न करनेहो (देवस्य)
आपसे आपही प्रकाश रूप सब के चाहने योग्य समस्त सुखों के देने हारे पर-
मेश्वर के जिस (वरेण्यम्) स्वीकार करने योग्य अति उत्तम (भर्गः) समस्त
दोषों के दाह करने तेजोमय शुद्धस्वरूप को हम लोग (धीमहि) धारण
करते हैं (तत्) उसको तुमलोग धारण करो (यः) जो (नः) हम सब
लोगोंकी (धियः) बुद्धियों को (प्रचोदयात्) प्रेरें अर्थात् उनको अच्छे
कामों में लगावे वह अन्तर्यामी परमात्मा सबके उपासना करने के योग्य है ॥९॥

भावार्थः— सब मनुष्यों को चाहिये कि सच्चिदानन्दस्वरूप नित्यशुद्ध बुद्धि
मुक्तस्वभाव सबके अन्तर्यामी परमात्मा को छोड़के उसकी जगह में अन्य किसी
पदार्थ की उपासना का स्थापन कभी न करें किस प्रयोजन के लिये कि जो
हम लोगों ने उपासना किया हुआ परमात्मा हमारी बुद्धियों को अधर्म के आ-
चरण से छुड़ाके धर्म के आचरण में प्रवृत्त करे जिसे शुद्ध हुए हमलोग उस
परमात्मा को प्राप्त होकर इस लोक और परलोक के सुखों को भोगें इस प्रयो-
जन के लिये ॥ ९ ॥

हिरण्यपाणीत्यस्य मेधातिथिर्ऋषिः । सविता देवता ।

गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

स्फिर उसी वि० ॥

हिरण्यपाणिमूतये सवितारमुपहू-

ये । सचेत्ता देवता पदम् ॥ १० ॥

हिरण्यपाणिमिति हिरण्यपाणिम् । ऊतये । सविता-
रम् । उप । हूये । सः । चेत्ता । देवता । पदम् ॥ १० ॥

पदार्थः— (हिरण्यपाणिम्) हिरण्यानि सूर्यादीनि
तेजांसि पाणौ स्तवने यस्य तम् (ऊतये) रक्षणादाय
(सवितारम्) सकलैश्वर्यप्रापकम् (उप) (हू-
ये) ध्यानयोगेनाहूये (सः) (चेत्ता) सम्यग्ज्ञानस्वरूप-
त्वेन सत्याऽसत्यज्ञापकः (देवता) उपासनीय इष्टदेव एव (प-
दम्) प्राप्तुमर्हम् ॥ १० ॥

अन्वयः— हे मनुष्या यमहमूतये हिरण्यपाणिं पदं
सवितारमुपहूये सचेत्ता देवतास्तीति यूयं विजानीत ॥ १० ॥

भावार्थः— मनुष्यैरितः पूर्वमन्त्रार्थस्य विवरणं-
वेदितव्यम् । चेतनस्वरूपस्य परमात्मन उपासनां विहाय-
कस्याप्यन्यस्य जडस्योपासना कदापि नैव कार्या नहि जड-
मुपासितं सद्गुणिलाभकारकं रक्षकं च भवति तस्माच्चेत-
नैः सर्वैर्जीवैश्चेतनो जगदीश्वर एवोपासनीयो नेतरो जड-
त्वादिगुणयुक्तः पदार्थः ॥ १० ॥

पदार्थः--हे मनुष्यो मैं जिस (ऊत्तये) रक्षा आदि के लिये (हि-
रण्यपाणिम्) जिस की स्तुति करने में सूर्य-आदि तेज हैं (पदम्) उस पाने
योग्य (सवितारम् (समस्त ऐन्द्रवर्य की प्राप्ति कराने वाले जगदीश्वर को
(उपह्वये) ध्यान के योग से बुलाता हूँ (सः) वह (चेत्ता) अच्छे ज्ञान
स्वरूप होने से सत्य और मिथ्या का जनाने वाला (देवता) उपासना करने
योग्य इष्ट देव ही है यह तुम संक जानो ॥ १० ॥

भावार्थः--मनुष्यों को योग्य है कि इस मंत्र से ले के पूर्वोक्त मंत्र गाय-
त्री जो कि गुरुमंत्र है उसी के अर्थ का तात्पर्य है ऐसा जानें । चेतन स्वरूप
परमात्मा की उपासना को छोड़ किसी अन्य जड़ की उपासना कभी न करें
क्योंकि उपासना अर्थात् सेवा किया हुआ जड़ पदार्थ हानि लाभ कारक और
रक्षा करने हारा नहीं होता इस से चित्तवान् समस्त जीवों को चेतन स्वरूप
जगदीश्वर ही की उपासना करनी योग्य है अन्य जड़ता आदि गुण युक्त पदा
र्थ उपास्य नहीं ॥ १० ॥

देवस्येत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । सविता देवता ।

गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

देवस्य चेततो महीमप्रसवितुर्हवाम-
हे । समतिः सत्यराधसम् ॥ ११ ॥

देवस्य । चेततः । महीम् । प्र । सवितुः । हवामहे ।
सुमतिमिति सुमतिम् । सत्यराधसमिति सत्यराधसम्-
॥ ११ ॥

पदार्थः--(देवस्य) स्तोतुमर्हस्य (चेततः) चे-
तनस्वरूपस्य (महीम्) महतीम् (प्र) (सवितुः) सर्व-
संसारोत्पादकस्य (हवामहे) आदद्याम (सुमतिम्)
शोभनां पूजाम् (सत्यराधसम्) सत्यं राधनोत्तियया-
ताम् ॥ ११ ॥

अन्वयः--हे मनुष्या यथा वयं सविश्चेततो देव-
स्येश्वरस्योपासनां कृत्वा महीं सत्यराधसं सुमतिं प्रहवा-
महे तथैतमुपास्यैतां यूयं प्राप्नुत ॥ ११ ॥

भावार्थः--हैं मनुष्या येन चेतनस्वरूपेण जगदी-
श्वरेणालिखं जगदुत्पादितं तस्यैवाराधनेन सत्यविद्यायु-
क्तां पूजां यूयं प्राप्तुं शक्नुथ नेतरस्यजडस्याराधनेन ॥११॥

पदार्थः--हे मनुष्यो जैसे हम लोग (सवितुः) समस्त संसार के उत्प-
न्न करने हारे (चेततः) चेतनस्वरूप (देवस्य) स्तुति करने योग्य ईश्वर की
उपासना कर (महीम्) बड़ी (सत्यराधसम्) जिस से जीव सत्य को सिद्ध
करता है उस (सुमतिम्) सुन्दर बुद्धि को (प्र, हवामहे) ग्रहण करते हैं वै-
से उस परमेश्वर की उपासना कर उस बुद्धि को तुम लोग प्राप्त होओ ॥११॥

भावार्थः--हे मनुष्यो जिस चेतनस्वरूप जगदीश्वर ने समस्त संसार को
उत्पन्न किया है उस की आराधना उपासना से सत्यविद्यायुक्त उत्तम बुद्धि-
को तुम लोग प्राप्त हो सकते हो किन्तु इतर जड़ पदार्थ की आराधनासे क-
भी नहीं ॥ ११ ॥

सुष्टुतिमित्यस्य पूजापतिर्ऋषिः । सविता देवता ।

गायत्री च्छन्दः । षड्ज स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह

फिर उसी वि० ॥

सुष्टुति ० सुमतीवृधौ राति ० स-
वितु रीमहे । प्रदे वायं मतीविदे ॥ १२ ॥

सुष्टुतिम् सुस्तुतिमिति सुस्तुतिम् । सुमतीवृधः । सुम-
तिवृधः इति सुमतिवृधः । रातिम् । सवितुः । ईमहे । प्र ।
देवायं मतीविदे । मति विदुः इति मतिविदे ॥ १२ ॥

पदार्थः--(सुष्टुतिम्), शोभनां स्तुतिम् (सुमती-
वृधः) यः सुमतिं वर्द्धयति तस्य । अत्र संहितायां दीर्घः
(रातिम्) दानम् (सवितुः) सर्वोत्पादकस्य (ईमहे)
याचामहे (प्र) (देवाय) विद्यां कामयमानाय (मती-
विदे) यो मतिं ज्ञानं विन्दति तस्मै अत्र । संहितायामि-
ति दीर्घः ॥ १२ ॥

अन्वयः--हे मनुष्या यथा वयं सुमतीवृधः सवितुरी-
श्वरस्यसुष्टुतिं कृत्वैतस्मान्मतीविदे देवाय रातिं प्रेमहे तथै-
तामस्माद्भूयमपियाचध्वम् ॥ १२ ॥

भावार्थः-- अत्र वाचकलु०—यदाऽपरमेश्वरस्य
प्रार्थना कार्या तदा २ स्वार्था परार्था वा सर्वशास्त्रविज्ञान-
युक्ता प्रज्ञैव याचनीया यस्यां प्राप्तयां जीवाः सर्वाणि सुख-
साधनानि प्राप्नुवन्ति ॥ १२ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे हम लोग (सुमतीवृधः) जो उत्तम मति को
बढ़ाता (सवितुः) सब को उत्पन्न करता उस ईश्वर की (सुष्टुतिम्) सुन्दर
स्तुति कर इस से (मतीविदे) जो ज्ञान को प्राप्त होता है उस (देवाय)
विद्या आदि गुणों की कामना करने वाले मनुष्य के लिये (रातिम्) देने को
(प्रेमहे) भली भांति मांगते हैं वैसे इस देने की क्रिया को इस ईश्वर से तुम
लोग भी मांगो ॥ १२ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—जब २ परमेश्वर की प्रार्थना करने
योग्य हो तब २ अपने लिये वा और के लिये समस्त शास्त्र के विज्ञान से युक्त
उत्तम बुद्धि ही मांगनी चाहिये जिस के पाने पर समस्त सुखों के साधनों को
जीव प्राप्त होते हैं ॥

रातिमित्यस्य पूजापतिर्ऋषिः । सविता देवता ।

निचृद्गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी दि० ॥

**राति० सत्पतिं महे सवितारमुप-
ह्वये । आसु वंदे देववीतये ॥ १३ ॥**

रातिम् । सत्पतिमिति सत्पतिम् । महे । सवितारम् ।
उप । ह्वये । आसवमित्यासवम् । देववीतयइति
देव वीतये ॥ १३ ॥

पदार्थः--(रातिम्) दातारम् (सत्पतिम्) सतां
जीवानां पदार्थानां वा पालकम् (महे) महत्यै (सवि-
तारम्) सकलजगदुत्पादकम् (उप) (ह्वये) उपस्तुराम्
(आसवम्) समन्तादैश्वर्ययुक्तम् (देववीतये) दिव्यानां
गुणानां विदुषां वा प्राप्तये ॥ १३ ॥

अन्वयः--हे मनुष्या यथाऽहं महे देववीतये राति
मासवं सत्पतिं सवितारमुपह्वये तथा यूयमप्येनं पशंसत ॥ १३ ॥

भावार्थः--अत्र वाचकलु०--यदि मनुष्या धर्मार्थ
कामसिद्धिकामथेरस्तर्हि परमात्मानमेवोपास्य तदाऽऽज्ञा-
यां वर्त्तरन् ॥ १३ ॥

पदार्थः--हे मनुष्यो जैसे मैं (महे) बड़ी (देववीतये) दिव्यगुण और
विद्वानों की प्राप्ति के लिये (रातिम्) देने हारे (आसवम्) सब ओर से ऐश्व-
र्ययुक्त (सत्पतिम्) सत्य वा नित्य विद्यमान जीव वा पदार्थों की पालना करने
और (सवितारम्) समस्त संसार को उत्पन्न करने हारे जगदीश्वर की (उपह्वये)
ध्यान योग से समीप में स्तुति करूं वैसे तुम भी इस की प्रशंसा करो ॥ १३ ॥

भावार्थः--- इस मंत्र में वाचकलु०—यदि मनुष्य धर्म अर्थ और काम की सिद्धि को चाहे तो परमात्मा की ही उपासना कर उस ईश्वर की आज्ञा में बने ॥ १३ ॥

देवस्येत्यस्य पूजापतिर्ऋषिः । सयिता देवता पिपीलिका-
मध्यानिषुद्गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०

**देवस्य सवितुर्मतिमासवं विश्वदे-
व्यम् । धिया भगं मनामहे ॥ १४ ॥**

देवस्य । सवितुः । मतिम् । आसवमित्याऽसवम् ।
विश्वदेव्यमिति विश्वेऽदेव्यम् । धिया । भगम् । मना-
महे ॥ १४ ॥

पदार्थः--- (देवस्य) सकलसुखप्रदातुः (सवितुः)
सकलैश्वर्यप्रदातुः (मतिम्) पूजाम् (आसवम्) सकलै-
श्वर्य हेतुम् (विश्वदेव्यम्) विश्वेभ्यो देवेभ्यो हितम्
(धिया) प्रज्ञया (भगम्) उत्तमैश्वर्यम् (मनामहे)
याचामहे ॥ १४ ॥

अन्वयः--- हे मनुष्या यथा वयं सवितुर्देवस्य परमा-
त्मनः सकाशांमतिमासवं च प्राप्य तथा धिया सर्व विश्व
देव्यं भगं मनामहे तथा यूवमपि कुरुत ॥ १४ ॥

भावार्थः--- अत्र वाचकलु०—सर्वमनुष्यैः परमेश्वरो-
पासनाया पूजां प्राप्यैतया पूर्णमैश्वर्यं विधाय सर्वप्राणि
हितं संसाधनीयम् ॥ १४ ॥

पदार्थः— हे मनुष्या जैसे हम लोग (सवितुः) सकल ऐश्वर्य
और (देवस्य) समस्त सुख देनेहारे परमात्मा के निकट से (मतिम्) बुद्धि

और (आसवम्)-समस्त ऐश्वर्य के हेतु को प्राप्त होकर उस (धिया) बुद्धि से समस्त (विश्वदेव्यम्) सब विद्वानों के लिये हितदेने हारे (भगम्) उत्तम ऐश्वर्य को (मनामहे) मांगते हैं वैसे तुम लोग भी मांगो ॥ १४ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—सब मनुष्यों को चाहिये कि परमेश्वरकी उपासना से उत्तम बुद्धि को पाके उस से पूर्ण ऐश्वर्य का विधान कर सब प्राणियों के हित को सम्यक् सिद्ध करें ॥ १४ ॥

अग्निमित्यस्य सुतम्भर ऋषिः । निचृद्गायत्री-

छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

अथ यज्ञकर्मविषयमाह ॥

अथ यज्ञकर्म वि० ॥

अग्निं स्तोमेन बोधय समिधानोऽम-
मर्त्यम् । हव्या देवेषु नोदधत् ॥ १५ ॥

अग्निम् । स्तोमेन । बोधय । समिधानऽ इति
समऽइधानः । अमर्त्यम् । हव्या । देवेषु । नः । दधत्
॥ १५ ॥

पदार्थः—(अग्निम्) पावकम् (स्तोमेन) इन्ध-
नसमूहेन (बोधय) (समिधानः) पूदीप्यमानः (अम-
र्त्यम्) कारणरूपेण मरणधर्मरहितम् (हव्या) आदातुं
दातुमर्हाणि (देवेषु) दिव्येषु वाग्वादिषु (नः) अस्मभ्यम्
(दधत्) दधाति ॥ १५ ॥

अन्वयः—हे विद्वन् यः समिधानोऽग्निं देवेषु हव्या
नो दधत् तममर्त्यमग्निं स्तोमेन बोधय पूदीपय ॥ १५ ॥

भावार्थः—यदाग्नौ समिधाः प्रक्षिप्य सुगन्ध्यादि
द्रव्यं जुहुयुस्तर्ह्यं तद्वाग्वादिषु विस्तार्य सर्वान् प्राणिनः
सुखयति ॥ १५ ॥

पदार्थः—हे विद्वान् जो (समिधानः) भली भांति दीपता हुआ अग्नि (देवेषु) दिव्य वायु आदि पदार्थों में (हव्या) लेने देने योग्य पदार्थों को (नः) हमारे लिये (दधत्) धारण करता है उस (अमर्त्यम्) कारणरूप अर्थात् परमाणुभाव से विनाश होने के धर्म से रहित (अग्निम्) आग को (स्तोमेन) इन्धनसमूह से (बोधय) चिताओं अर्थात् अच्छे प्रकार जलाओ ॥ १५ ॥

भावार्थः—यदि अग्नि में समिधा छोड़ दिव्य २ सुगन्धित पदार्थ को हों तो यह अग्नि उस पदार्थ को वायु आदि में फैलाके सब प्राणियों को सुखी करता है ॥ १५ ॥

स हव्यवाडित्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । अग्निर्देवता ।

निचृद् गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

पुनरग्निः कीदृशोऽस्तीत्याह ॥

फिर अग्नि कैसा है इस वि० ॥

स हव्यवाडमर्त्य उशिग्दू तश्चनोहितः ।

अग्निर्धिया समृश्वति ॥ १६ ॥

सः । हव्यवाडिति । हव्यवाट् । अमर्त्यः । उशिक् ।

दूतः । चनोहितगति चनःऽहितः । अग्निः । धिया । सम् ।

ऋश्वति ॥ १६ ॥

पदार्थः—सः (हव्यवाट्) यो हव्यं वहतिदेशान्तरं प्रापयति सः (अमर्त्यः) मृत्युधर्मरहितः (उशिक्) कान्तिमान् (दूतः) दूत इव वर्त्तमानः (चनोहितः) यश्चनोसि अन्नानि हिनोति प्रापयति सः (अग्निः) पावकः (धिया) कर्मणा (सम्) (ऋश्वति) प्राप्नोति ॥ १६ ॥

अन्वयः—हेमनुष्या योऽमर्त्यो हव्यवाहुशिग्दूतश्च-
नोहितोऽग्निरस्ति स धिया सम्पृण्वति ॥ १६ ॥

भावार्थः—यथा कथार्थं प्रेषितो दूतः कार्यसाध-
को भवति तथा सम्प्रयोजितोऽग्निः सुखकार्यसिद्धिकरो
भवति ॥ १६ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (अमर्त्यः) मृत्युधर्म से रहित (हव्यवाद्)
होमे हुए पदार्थ को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाता (उशिक्) प्रकाशमान
(दूतः) दूत के समान वर्तमान (चनोहितः) और जो अर्घ्यों की प्राप्ति कराने
वाला (अग्निः) अग्नि है (सः) वह (धिया) कर्म अर्थात् उस के उपयोगी
शिल्प आदि काम से (सम्, ऋएवति) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है ॥ १६ ॥

भावार्थः—जैसे काम के लिये भेजा हुआ दूत करने योग्य काम को सिद्ध
करने हारा होता है वैसे अच्छे प्रकार युक्त किया हुआ अग्नि सुखसंबन्धी
कार्य की सिद्ध करने हारा होता है ॥ १६ ॥

अग्निं दूतमित्यस्य विश्वरूप ऋषिः । अग्निर्देवता ।

निचृद्गायत्री छन्दः । पङ्कजः स्वरः ॥

अथाग्निगुणा उच्यन्ते ॥

अब अग्नि के गुणों के वि० ॥

अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुप
ब्रुवे । देवाँ ॥ आसादयादिह ॥ १७ ॥

अग्निम् । दूतम् । पुरः । दधे । हव्यवाहमिति हव्य-
वाहम् । उप । ब्रुवे । देवान् । आ । सादयात् ।
दिह ॥ १७ ॥

पदार्थः—(अग्निम्) वह्निम् (दूतम्) दूतवत् कार्यसाध-
कम् (पुरः) अग्रतः (दधे) धरामि (हव्यवाहम्) यो हव्यानि
अत्तु मर्हाणि वहति प्रापयति तम् (उप) (ब्रुवे) उपदिशा-
मि (देवान्) दिव्यान् भोगान् (आ) समन्तात् (सादयात्)
सादयेत् प्रापयेत् (इह) अस्मिन् संसारे ॥ १७ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या य इह देवानासादयात्तं हव्यावाहं
दूतमग्निं पुरोदधे युष्मान् प्रत्युपब्रुवेयूयमप्येवं कुरुतेति ॥ १७ ॥

भावार्थः—हे मनुष्या यथाऽग्निर्दिव्यसुखप्रदोऽस्ति
तथा धाम्नादयोऽपि वर्तन्त इति वेदम् ॥ १७ ॥

पदार्थः— हे मनुष्यो जो (इह) इस संसार में (देवान्) दिव्य भोगों
को (आ, सादयात्) प्राप्त करावे उस (हव्यावाहम्) भोजन करने योग्य
पदार्थों की प्राप्ति कराने और (दूतम्) दूत के समान कार्यसिद्धि करनेहारे
(अग्निम्) अग्नि को (पुरः) आगे (दधे) धरता हूँ और तुम लोगों के
प्रति (उप, ब्रुवे) उपदेश करता हूँ कि तुम लोग भी ऐसे ही किया करो ॥ १७ ॥

भावार्थः— हे मनुष्यो जैसे अग्नि दिव्य सुखों का देने वाला है वैसे पवन
आदि भी पदार्थ सुख देने में प्रवर्तमान हैं यह जानना चाहिये ॥ १७ ॥

अजीजन इत्यस्यारुणत्रसदस्यूऋषी । धवमानो देवता ।

पिपीलिकामध्या विराडनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनः सूर्य रूपोऽग्निः कीदृश इत्याह ॥

किं सूर्य रूप अग्नि कैसा है इस वि० ॥

अजीजनी हि पवसान सूर्यं वि-

धारे शक्मना पर्यः । गोजीरया र-

हमाणाः पुरन्धया ॥ १८ ॥

अजीजनः । हि । पवमान् । सूर्यम् । विधारऽइति
विऽधारे । शकमना । पयः । गोजीरयेति गोऽजीरया ।
रंहमाणाः । पुरन्ध्येति पुरम्ऽध्या ॥ १८ ॥

पदार्थः--(अजीजनः) जनयति (हि) खलु (पवमान)
पवित्रकारक (सूर्यम्) सवितृमण्डलम् (विधारे) धारया
मि (शकमना)कर्मणा । शकमेति कर्मनाम निघं० २।१ (पयः)
उदकम् (गोजीरया) गवांजीरया जीवनक्रियया (रंहमाणः)
गच्छन् (पुरन्ध्या) यया पुरं दधाति तथा ॥ १८ ॥

अन्वयः-- हे पवमानाग्निवत्पवित्र जन योऽग्निः पु-
रन्ध्यारंहमाणः सूर्यमजीजनस्तं शकमना गोजीरया पय-
श्चाऽहं विधारे हि ॥ १८ ॥

भावार्थः-- यदि विद्युत्सूर्यस्य कारणं न स्यात्तर्हि सू-
र्योत्पत्तिः कथं स्याद्यदि सूर्यो न स्यात्तर्हि भूगोलघृतिवृ-
ष्ट्या गवादिपशुजीवनं च कथं स्यात् ॥ १८ ॥

पदार्थः— हे (पवमान) पवित्र करनेहारे अग्नि के समान पवित्रजन तू
जो अग्नि (पुरन्ध्या) जिस क्रिया से नगरी को धारण करता उससे (रंहमा-
णाः) जाता हुआ (सूर्यम्) सूर्य को (अजीजनः) प्रगठ करता उसको और
(शकमना) कर्म वा (गोजीरया) गौ आदि पशुओं की जीवन क्रिया से
(पयः) जलको मैं (विधारे) विशेष करके धारण करता (हि) ही हूँ ॥ १८ ॥

भावार्थः— जो विजुली सूर्य का कारण न होती तो सूर्य की उत्पत्ति
कैसे होती जो सूर्य न हो तो भूगोल का धारण और वर्षा से गो आदि पशुओं-
का जीवन कैसे हो? ॥ १८ ॥

विभूरित्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । अग्निर्देवता ।

भुरिग्विकृतिश्छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

पुनरुतमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

विभूर्मात्रा प्रभूः पित्रा प्रवोऽसि ह-
योस्यत्योऽसि मयोस्यवोऽसि सप्तिर-
सि वाज्यसि वर्षासि नूमणा असि ।
ययुर्नामासि शिशुर्नामास्यादित्यानां
पत्यान्विहि । देवा आशापाला एतं
देवेभ्योऽश्वं मेधाय प्रोक्षितं रक्षता ।
इहरन्तिरिहरमतामिह धृतिरिह स्व-
धृतिः स्वाहा ॥ १८ ॥

विभूरिति विऽभूः । मात्रा । प्रभूरिति प्रऽभूः । पित्रा ।
अश्वः । असि । हयः । असि । अत्यः । असि । मयः ।
असि । अर्वा । असि । सप्तिः । असि । वाजी । असि ।
वृषा । असि । नूमणाः । नूमनाऽइति नृऽमनाः । असि ।
ययुः । नाम । असि । शिशुः । नाम । असि । आदि-
त्यानाम् । पत्यां । अनु । इहि । देवाः । आशापाला-
ऽइत्याशाऽपालाः । एतम् । देवेभ्यः । अश्वम् । मेधा-
य । प्रोक्षितमिति प्रऽउक्षितम् । रक्षत । इह । रन्तिः ।
इह । स्मताम् । इह । धृतिः । इह । स्वधृतिरिति स्वऽ
धृतिः । स्वाहा ॥ १८ ॥

पदार्थः--(विभूः) व्यापकः (मात्रा) जननीव-
 द्वर्त्तमानया पृथिव्या (प्रभूः) समर्थः (पित्रा) वायु
 ना (अश्वः) योश्नुते व्याप्नोति भार्गान्सः (असि)
 अस्ति । अत्र सर्वत्रः व्यत्ययः (हयः) हय इव शीघ्रगा-
 मी (असि) (अत्यः) योऽति सततं गच्छति सः (अ-
 सि) (मयः) सुखकारी (अर्वा) यः सर्वानृच्छति
 सः (असि) (सप्तिः) मूर्त्तद्रव्यसम्बन्धी (असि) (वा
 जी) वेगवान् (असि) (वृषा) वृष्टिकर्त्ता (असि)
 (नृमणाः) यो नृषु नेतृषु पदार्थेषु मन इव सद्वोगामी
 (असि) (ययुः) यो याति सः (नाम) अभ्यसनीयः
 (असि) (शिशुः) यः श्यति तनूकरोति सः (नाम)
 वाग् । नामेति षड्नाम० निघं० १।११ (असि) (आदि
 त्यानाम्) मासानाम् (पत्वा) योऽधः पतति सः (अ
 नु) (इहि) एति (देवाः) विद्वांसः (आशापालाः)
 य आशा दिशः पालयन्ति (एतम्) षन्दिहम् (देवेभ्यः)
 दिव्यभोगेभ्यः (अश्वम्) व्याप्तिशीलम् (मेधाय) संग
 माय बुद्धिप्रापणाय दुष्टहिंसनाय वा (प्रोक्षितम्) जलेन
 सिक्तम् (रक्षत) (इह) (रन्तिः) रमणम् (इह) (रम
 ताम्) क्रीडतु (इह) (धृतिः) धैर्यम् (इह) (स्वधृ
 तिः) स्वेषां धारणम् (स्वाहा) सत्यया क्रियया ॥१६ ॥

अन्वयः—हे आशापाला देवा ययु यो मात्रा वि

भू पित्रा प्रभूरश्वोऽसिहयोऽस्ययोऽसिमयोऽस्यर्वाऽसि स
 प्तिरसि वाज्यसि वृषाऽसि नृमणा असि ययुर्नामाऽसि
 शिशुर्नामास्यादित्यानां पत्वाऽन्विहि एतमश्वं स्वाहा

देवेभ्यो मेधाय प्रोक्षितं रक्षत येनेह रन्तिरिह रमतामिह
धृतिरिह स्वधृतिः स्यात् ॥ १६ ॥

भावार्थः—ये मनुष्याः पृथिव्यादिषु व्यापकं सर्व-
भ्यो वेगवद्भ्योऽतिशयेन वेगवन्तं वह्निं गुणकर्मस्वभा-
वतो विजानन्ति ते सुखेनेह क्रीडन्ति ॥ १६ ॥

पदार्थः— हे (आशापालाः) दिशाओं के पालने वाले (देवाः) वि-
द्वानो तुम जो लोग (मात्रा) माता के समान वर्तमान पृथिवी से (विभूः)
व्यापक (पित्रा) पिता रूप पवन से (प्रभूः) समर्थ और (अश्वः) मार्गों-
को व्याप्त होने वाला (असि) है (हयः) घोड़े के समान शीघ्र चलने वाला
(असि) है (अत्यः) जो निरन्तर जाने वाला (असि) है (मयः) सुख
का करने वाला (असि) है (अर्वा) जो सब को प्राप्त होने हारा (असि)
है (सप्तितः) मूर्तिमान् पदार्थों का संबन्ध करने वाला (असि) है (वाजी)
वेगवान् (असि) है (वृषा) वर्षा का करने वाला (असि) है (नृमणाः)
सब प्रकार के व्यवहारों को प्राप्त कराने हारे पदार्थों में मन के समान शीघ्र-
जाने वाला (असि) है (ययुः) जो प्राप्ति कराता वा जाता ऐसे (नाम)
नाम वाला (असि) है जो (शिशुः) व्यवहार के योग्य विषयों को सूक्ष्म
करती ऐसी (नाम) उत्तम वाणी (असि) है जो (आदित्यानाम्) महीनों
के (पत्वा) नीचे गिरता (अन्विहि) अन्वित अर्थात् मिलता है (एतम्)
इस (अश्वम्) व्याप्त होने वाले अग्नि को (स्वाहा) सत्यक्रिया से (देवेभ्यः)
दिव्यभोगों के लिये तथा (मेधाय) अच्छे गुणों के मिलाने बुद्धि की प्राप्ति
करने वा दुष्टों को मारने के लिये (प्रोक्षितम्) जल से सींचा हुआ (रक्षत)
रक्षो जिससे (इह) इस संसार में (रन्तिः) रमण अर्थात् उत्तम सुख में
रमना हो (इह) यहां (रमताम्) क्रीडा करें तथा (इह) यहां (धृतिः)
सामान्य धारणा और (इह) यहां (स्वधृतिः) अपने पदार्थों की धारणा हो ॥ १६ ॥

भावार्थः—जो मनुष्य पृथिवी आदि लोकों में व्याप्त और समस्त
वेग वाले पदार्थों में अतीव वेगवान् अग्नि को गुण कर्म और स्वभाव से जान-
ते हैं वे इस संसार में सुख से रमते हैं ॥ १६ ॥

कायेत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । प्रजापत्यादपो देवताः ।
 आदस्य विराडतिधृतिः । उत्तरस्य निचृदतिधृ-
 तिश्छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

अथ कस्मै प्रयोजनाय होमः कर्त्तव्यइत्याह ॥

अब किस प्रयोजन के लिये होम करना चाहिये इस वि० ॥

काय॒ स्वाहा॑ कस्मै॒ स्वाहा॑ कत॒म-
 स्मै॒ स्वाहा॑ स्वाहा॒धिमा॑धी॒ताय॒ स्वाहा॑
 मनः॑ प्र॒जाप॑तये॒ स्वाहा॑ चि॒त्तं वि॒ज्ञाता॑
 यादि॑त्यै॒ स्वाहा॑दि॒त्यै म॒ह्यै स्वाहा॑दि॒
 त्यै सु॒मृ॒डीका॑र्यै॒ स्वाहा॑सर॑स्व॒त्यै स्वाहा॑
 सर॑स्व॒त्यै पा॒व॒का॑र्यै॒ स्वाहा॑ सर॑स्व॒त्यै
 बृ॒ह॒त्यै स्वाहा॑ पू॒ष्णे स्वाहा॑ पू॒ष्णे
 प्र॒प॒थ्या॑य॒ स्वाहा॑ पू॒ष्णे न॒रन्धि॑षाय॒
 स्वाहा॑त्व॒ष्ट्रे स्वाहा॑त्व॒ष्ट्रे तुरी॑पाय॒ स्वाहा॑
 त्व॒ष्ट्रे पु॒रु॒रूपा॑य॒ स्वाहा॑ वि॒ष्णावे॒
 स्वाहा॑ वि॒ष्णावे॒ निभू॑य॒पाय॒ स्वाहा॑
 वि॒ष्णावे॒ शि॒पि॒वि॒ष्ट्राय॒ स्वाहा॑ ॥ २० ॥

काय॑ । स्वाहा॑ । कस्मै॑ । स्वाहा॑ । कत॑मस्मै॑ । स्वाहा॑ ।
 स्वाहा॑ । आ॒धि॒मित्या॑ऽधिम् । आ॒धी॒त्ताये॑त्याऽधी॒ताय॑ ।

स्वाहा । मनः । प्रजापतयऽइति प्रजाऽपतये । स्वाहा ।
 चित्तम् । विज्ञातायेति विज्ञाताया अदित्यै । स्वाहा ।
 अदित्यै । मह्यै । स्वाहा । अदित्यै । सुमृडीकायाऽइति
 सुऽमृडीकायै । स्वाहा । सरस्वत्यै । स्वाहा । सरस्वत्यै ।
 पावकायै । स्वाहा । सरस्वत्यै । बृहत्यै । स्वाहा । पूषणो
 स्वाहा । पूषणो । प्रपथ्यायेति प्रऽपथ्याय । स्वाहा । पू-
 षणो । नरन्धिषाय । स्वाहा । त्वष्ट्रे । स्वाहा । त्वष्ट्रे ।
 तुरीपाय । स्वाहा । त्वष्ट्रे । पुरुरूपायेति पुरुऽरूपाय ।
 स्वाहा । विष्णावे । स्वाहा । विष्णावे । निभूयपायेति
 निभूयऽपाय । स्वाहा । विष्णावे । शिपिविष्टायेति शि-
 पिऽविष्टाय । स्वाहा ॥ २० ॥

पदार्थः— (काय)सुखसाधकायविदुषे (स्वाहा)सत्या
 क्रिया(कर्मै)सुखस्वरूपाय(स्वाहा) (कतमर्मै)बहूनां मध्ये
 वर्त्तमानाय(स्वाहा) (स्वाहा) (आधिम्)यः समन्ताद्घाति
 तम्(आधीताय)समन्ताद्विद्यावृद्धये(स्वाहा)(मनः)(प्रजाप-
 तये)(स्वाहा)सत्याक्रिया(चित्तम्)स्मृतिसाधकम्(विज्ञाताय)
 (अदित्यै)पृथिव्यै । अदितिरिति पृथिवीना० निघं० १।१।
 (स्वाहा) (अदित्यै)नाशरहितायै (मह्यै)महत्यैवाचे(स्वाहा)
 (अदित्यै)जनन्यै (सुमृडीकायै) सुष्ठुसुखकारिकायै (स्वाहा
 (सरस्वत्यै)नदी(स्वाहा)(सरस्वत्यै)विद्यायुक्तायै वाचे(पाव-
 कायै)पवित्रकर्त्र्यै(स्वाहा)(सरस्वत्यै)विदुषां वाचे(बृहत्यै)

महत्स्यै(स्वाहा)(पूष्णे)पुष्टिकर्त्रे(स्वाहा)(पूष्णे)पुष्टाय(प्रपथ्या-
 य)प्रकर्षेण पथ्यकरणाय(स्वाहा(पूष्णे)पीपकाय(नरन्धिपा-
 य)यो नरान् दिधेष्ट्यु पदिशति तस्मै(स्वाहा)(त्वष्ट्रे)प्रकाशा-
 य । त्विषइतोऽत्वम् । उणादौ पा० २।६५ अनेनायंसिद्धः
 (स्वाहा)त्वष्ट्रे)विद्याप्रकाशकाय(तुरीपाय)नौकानां पालका
 य(स्वाहा)त्वष्ट्रे)प्रकाशकाय(पुरूपाय)बहुरूपाय (स्वाहा)
 (विष्णवे)व्यापकाय(स्वाहा) (निभूयपाय,यो नितरां रक्षितो
 भूत्वाऽन्यान् पालयति तस्मै(स्वाहा)(विष्णवे) (पिपिविष्टाय)
 शिपिष्वाक्रोशत्सु प्राणिषु व्याप्त्या प्रविष्टाय(स्वाहा) ॥२७॥

अन्वयः—यैर्मनुष्यैः काय स्वाहा कस्मै स्वाहाकतमस्मै
 स्वाहाऽऽधिं प्राप्य स्वाहाऽऽधीताय स्वाहा प्रजापतये मनः
 स्वाहा विज्ञाताय चित्तमदित्यै स्वाहा मह्याऽअदित्यै स्वाहा
 सुडीकाया अदित्यै स्वाहा सरस्वत्यै स्वाहा पावकायै सर-
 स्वत्यै स्वाहा बृहत्यै सरस्वत्यै स्वाहा पूष्णे स्वाहा प्रपथ्याय
 पूष्णे स्वाहा नरन्धिषाय पूष्णे स्वाहा त्वष्ट्रे स्वाहा तुरी
 पायत्वाटे स्वाहा पुरूपाय त्वष्ट्रे स्वाहा विष्णवे स्वा-
 हा निभूयपाय विष्णवे स्वाहा शिपिविष्टाय विष्णवे स्वा-
 हा कृतास्ते कथं न सुखिनः स्युः ॥ २० ॥

भावार्थः—ये विद्वत्सुखाऽध्ययनान्तःकरणविज्ञान-
 वाग्वात्वादि शुद्धये यज्ञक्रिया कुर्वन्ति ते सुखिनो भवन्ति
 ॥ २० ॥

पदार्थः—जिन मनुष्यों ने (काय) सुख साधने वाले के लिये (स्वाहा)
 सत्यक्रिया (कस्मै) मुख स्वरूप के लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया (कतमस्मै
 बहुतां में जो वर्तमान उस के लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया (आधिम्) जो

अच्छे प्रकार पदार्थों को धारण करना उस को प्राप्त हो कर (स्वाहा) सत्य क्रिया (आर्थाताय) सब ओर से विद्या वृद्धि के लिये (स्वाहा) सत्याक्रिया (प्रजापतये) प्रजाजनों की पालना करने हारे के लिये (मनः) मन की (स्वाहा) सत्याक्रिया (विज्ञाताय) विशेष जाने हुए के लिये (वित्तम्) स्पृति सिद्ध कराने अर्थात् चेत दिलाने हारा चैतन्य मन (अदित्यै) पृथिवी के लिये (स्वाहा) सत्याक्रिया (भव्यै) बड़ी (अदित्यै) विनाश रहित वाणी के लिये (स्वाहा) सत्याक्रिया (सुमृडीकायै) अच्छा सुख करने हारी (अदित्यै) माता के लिये (स्वाहा) सत्याक्रिया (सरस्वत्यै) नदी के लिये (स्वाहा) सत्याक्रिया (पावकायै) पवित्र करने वाली (सरस्वत्यै) विद्यायुक्त वाणी के लिये (स्वाहा) सत्याक्रिया (बृहत्यै) बड़ी (सरस्वत्यै) विद्वानों की वाणी के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (पूष्णे) पुष्टि करने वाले के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (प्रपथ्याय) उत्तमता से आराम के योग्य भोजन करने तथा (पूष्णे) पुष्टि के लिये (स्वाहा) सत्याक्रिया (नरन्धिपाय) जो मनुष्यों को उपदेश देता है उस (पूष्णे) पुष्टि करने हारे के लिये (स्वाहा) सत्याक्रिया (त्वष्ट्रे) प्रकाश करने वाले के लिये (स्वाहा) सत्याक्रिया (तुरीपाय) नौकाओं के पालने (त्वष्ट्रे) और विद्या प्रकाश करने हारे के लिये (स्वाहा) सत्याक्रिया (पुरुषाय) बहुत रूप और (त्वष्ट्रे) प्रकाश करने वाले के लिये (स्वाहा) सत्याक्रिया (विष्णवे) व्याप्त होने वाले के लिये (स्वाहा) सत्याक्रिया (निभूयपाय) निरंतर आप रक्षित हो औरों की पालना करने हारे (विष्णवे) सर्वव्यापक के लिये (स्वाहा) सत्याक्रिया तथा (शिपिविष्टाय) वचन कहते हुए चैतन्य प्राणियों में व्याप्ति से प्रवेश हुए (विष्णवे) व्यापक ईश्वर के लिये (स्वाहा) सत्याक्रिया किई वे कैसे न सुखी हों ॥ २० ॥

भावार्थः—जो विद्वानों के सुख, पढ़ने, अन्तःकरण के विशेष ज्ञान तथा वाणी और पवन आदि पदार्थों की शुद्धि के लिये यज्ञ क्रियाओं को करते हैं वे सुखी होते हैं ॥ २० ॥

विश्वोदेवस्येत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । विद्वान् देवता ।

आर्ष्यनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनर्मनुष्यैः किं कर्तव्यमित्याह ॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस वि० ॥

विश्वो देवस्य नेतुर्मर्तो वुरीत सख्य-
म् । विश्वो राये ऽइषुध्यति द्युम्नं वृणीत
पुष्यसे स्वाहा ॥ २१ ॥

विश्वः । देवस्य । नेतुः । मर्तः । वुरीत । सख्यम् । वि-
श्वः । राये । इषुध्यति । द्युम्नम् । वृणीत । पुष्यसे ।
स्वाहा ॥ २१ ॥

पदार्थः—(विश्वः) सर्वः (देवस्य) विदुषः (नेतुः)
नायकस्य (मर्तः) मनुष्यः (वुरीत) वृणुयात् । अत्र व्य-
त्ययेनात्मनेपदं बहुलं छन्दसीति शपो लुक् लिङ्प्रयोगो
ऽयम् (सख्यम्) मित्रत्वम् (विश्वः) (राये) धनाय
(इषुध्यति) याचते शरान् धरति वा (द्युम्नम्) धनं
यशो वा (वृणीत) (पुष्यसे) पुष्टये (स्वाहा) ॥ २१ ॥

अन्वयः—यथा विश्वोमर्तो नेतुर्देवस्य सख्यं वुरीत
यथावाविश्वो मर्त्यो राये इषुध्यति तथा स्वाहा पुष्यसे
द्युम्नं वृणीत ॥ २१ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—सर्वे मनुष्या विद्विः सह
सुहृदो भूत्वा विद्यां यशश्च गृहीत्वा श्रीमन्तोभूत्वा सुप-
थ्येन पुष्टाः सन्तु ॥ २१ ॥

पदार्थः—जैसे (विश्वः) समस्त (मर्तः) मनुष्य (नेतुः) नायक अर्थात्
सब व्यवहारों की प्राप्ति कराने वाले (देवस्य) विद्वान् की (सख्यम्) मित्रता
को (वुरीत) स्वीकार कर वा जैसे (विश्वः) समस्त मनुष्य (राये) धन के

लिये (इषुध्यति) पाचना करता अर्थात् मंगनी मांगता वा वाणों को अपने २
धनुष् पर धारता है वैसे (स्वाहा) सत्य किया वा सत्य वाणी से (पुष्यसे)
पुष्टि के लिये (द्युम्नम्) धन और यश को (वृणीत) स्वीकार करे ॥ २१ ॥

भावार्थः—इस मंत्रमें वाचकलु०—सत्र मनुष्य विद्वानों के साथ मित्र-
हो कर विद्या और यश का ग्रहण कर धन और कान्तिमान् होकर उत्तम यो-
ग्य आहार वा अच्छे मार्ग से पुष्ट हों ॥ २१ ॥

आब्रह्मन्नित्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः लिंगोक्ता देवताः ।

स्वराडुत्कृतिश्छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

पुनर्मनुष्यैः किमेषुव्यमित्याह ॥

फिर मनुष्यों को किस की इच्छा करनी चाहिये इस वि०

आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जा
यतामा राष्ट्रे राजन्युः शूर इषुष्योऽति
व्याधी महारथो जायतां दोग्ध्री धेनु-
र्वाढानड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्यौषा
जिष्णू रथे ष्ठाः स भेयो युवास्य यजमा-
नस्य वीरो जायतां निक्रामे निक्रामे नः
पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ऽ ओषधयः
पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम् ॥२२॥

आ । ब्रह्मन् । ब्राह्मणः । ब्रह्मवर्चसीति ब्रह्मवर्चसी ।

जायताम् । आ राष्ट्रे । राजन्युः । शूरः । इषुष्यः । अति-
व्याधीत्यतिऽव्याधी । महारथऽइति महारथः । जायता-

म् । दोग्धी । धेनुः । वोढा । अनड्वान् । आशुः । सप्तिः ।
 पुरन्धिरिति पुरम्ऽधिः । योषा । जिष्णाः । रथेष्ठाः । रथे-
 स्थाऽइति रथेऽस्थाः । सभेयः । युवा । आ । अस्य । यज
 मानस्य । वीरः । जायताम् । निक्रामे निकामऽइति नि-
 क्रामेऽनिकामे । नः । पर्जन्यः वर्षतु । फलवत्यऽइति फ-
 लवत्यः । नः । ओषधयः । पच्यन्ताम् । योगक्षेम इति
 योगऽक्षेमः । नः । कल्पताम् ॥ २२ ॥

पदार्थः--(आ) समन्तात् (ब्रह्मन्) विद्यादिना
 सर्वेभ्यो महन् परमात्मन् (ब्रह्मणः) वेदेश्वरवित् (ब्रह्म-
 वर्चासी) वेदविद्याप्रदीप्तः (जायताम्) उत्पद्यताम् (आ)
 (राष्ट्रे) राज्ये (राजन्यः) राजपुत्रः (शूरः) निर्भयः
 (इषव्यः) इषुषु साधुः (अतिव्याधी) अतिशयेन व्य-
 ङ्ङुं शत्रूँस्ताडयितुं शीलं यस्य सः (महारथः) महान्तो
 रथाः वीरा वा यस्य सः (जायताम्) (दोग्धी) प्रपूरिका
 (धेनुः) गौः (वोढा) वाहकः (अनड्वान्) वृषभः
 (आशुः) शीघ्रगामी (सप्तिः) अश्वः (पुरन्धिः) या
 पुरून् बहून् दधाति सा (योषा) (जिष्णुः) जयशीलः
 (रथेष्ठाः) यो रथे तिष्ठति सः (सभेयः) सभायां साधुः
 (युवा) प्राप्तयौवनः (आ) (अस्य) (यजमानस्य)
 यो यजते देवान् विदुषः सत्करोति संगच्छते सुखानि द-
 दाति वा तस्य (वीरः) विज्ञानवान् शत्रूणां प्रक्षेप्रा (जा-
 यताम्) (निक्रामेनिकामे) निश्चिते प्रत्येककामनायाम्
 (नः) अस्माकम् (पर्जन्यः) मेघः (वर्षतु) (फलव-
 त्यः) बहूत्तमफलाः (नः) (अस्मभ्यम्) ओषधयः य-

वादयः (पच्यन्ताम्) परिपक्वा भवन्तु (योगक्षेमः)
अप्राप्तस्य प्राप्तिलक्षणी योगस्तस्य रक्षणं क्षेमः (नः)
अस्मभ्यम् (कल्पताम्) समर्थो भवतु ॥ २२ ॥

अन्वयः—हे ब्रह्मन् यथा नो राष्ट्रे ब्रह्मवर्चसी ब्राह्मण आजायतामिपव्योऽतिव्याधी महारथः शूरो राजन्य आजायतां दोग्धी धेनुर्वोढाऽनड्वानाशुः सप्तिः पुरन्ध्रियोपा रथेष्ठा जिष्णुः सभियो युवाऽऽजायतामस्य यजमानस्य राष्ट्रे वीरो जायतां नो निकामेनिकामे पर्जन्यो वर्षत्वोपधयः फलवत्यो नः पच्यन्तां नो योगक्षेमः कल्पताम् तथा विधेहि ॥ २२ ॥

भावार्थः— अत्र वाचकलु०—विद्वद्विरीश्वरपार्थनया सहेवमनुष्टेयं यतः पूर्णं विद्याः शूरवीरा मनुष्याः स्त्रियश्च सुखपदाः पशवः सभ्या मनुष्या इष्टा वृष्टिर्मधुरफलयुक्ता अभ्नोपधयो भवन्तु कामश्च पूर्णः स्यादिति ॥ २२ ॥

पदार्थः— हे (ब्रह्मन्) विद्यादिगुणों करके सब से बड़े परमेश्वर जैसे हमारे (राष्ट्रे) राज्यमें (ब्रह्मवर्चसी) वेदविद्या से प्रकाश को प्राप्त (ब्राह्मणः) वेद और ईश्वर को अच्छा जानने वाला ब्राह्मण (आ, जायताम्) सब प्रकार से उत्पन्न हो (इषव्यः) वाण चलाने में उत्तम गुणवान् (अतिव्याधी) अतीव शत्रुओं को व्यधने अर्थात् ताड़ना देने का स्वभाव रखने वाला (महारथः) कि जिसके बड़े रथ और अत्यन्त बली वीर हैं ऐसा (शूरः) निर्भय (राजन्यः) राजपुत्र (आ, जायताम्) सब प्रकार से उत्पन्न हो (दोग्धी) कामना वा कूप से पूर्ण करने वाली (धेनुः) वाणी वा गौ (वोढा) भार लेजाने में समर्थ (अनड्वान्) बड़ा बलवान् बैल (आशुः) शीघ्र चलने द्वारा (सप्तिः) घोड़ा (पुरन्धिः) जो बहुत व्यवहारों को धारण करती है वह (योपा) स्त्री (रथेष्ठाः) तथा रथ पर स्थिर होने और (जिष्णुः)

शत्रुओं को जीतने वाला (सभेयः) सभा में उत्तम सभ्य (युवा) ज्वान पुरुष (आ, जायताम्) उत्पन्न हो (अस्य, यजमानस्य) जो यह विद्वानों का सत्कार करता वा सुखों की संगति करता वा सुखों को देता है इस राजा के राज्य में (वीरः) विशेष ज्ञानवान् शत्रुओं को हटाने वाला पुरुष उत्पन्न हो (नः) हमलोगों के (निकामे निकामे) निचय युक्त काम में अर्थात् जिस काम के लिये प्रयत्न करें उस काम में (पर्जन्यः) मेघ (वर्षतु) वर्ष (ओषधयः) ओषधि (फलवत्यः) बहुत उत्तम फलवाली (नः) हमारे लिये (पच्यन्ताम्) पके (नः) हमारा (योगक्षेमः) अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति लखाने वाले योग की रक्षा अर्थात् हमारे निर्वाह के योग्य पदार्थों की प्राप्ति (कल्पताम्) समर्थ हो वैसा विधान करो अर्थात् वैसे व्यवहार को प्रगट कराइये ॥ २२ ॥

भावार्थः— इस मंत्र में वाचकलु०—विद्वानों को ईश्वर की प्रार्थना सहित ऐसा अनुष्ठान करना चाहिये कि जिससे पूर्णविद्या वाले शूरवीर मनुष्य तथा वैसे ही गुण वाली स्त्री, सुख देनेहारे पशु सभ्य मनुष्य चांही हुई वर्षा मिठे फलों से युक्त अन्न और ओषधि हों तथा कामना पूर्ण हो ॥ २२ ॥

प्राणायेत्यस्य पूजापतिर्ऋषिः । प्राणादयो देवताः ॥

स्वराडनुष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनः किमर्थो होमो विधेय इत्याह ॥

फिर किस लिये होम का विधान करना चाहिये इस वि० ॥

**प्राणाय स्वाहाऽपानाय स्वाहा व्या-
नाय स्वाहा चक्षुषे स्वाहा श्रोत्राय
स्वाहा वाचे स्वाहा मनसे स्वाहा ॥२३॥**

प्राणाय । स्वाहा । अपानाय । स्वाहा । व्यानायति ।
विऽश्रानाय । स्वाहा । चक्षुषे । स्वाहा । श्रोत्राय ।
स्वाहा । वाचे । स्वाहा । मनसे । स्वाहा ॥ २३ ॥

पदार्थः—(प्राणाय) य आभ्यन्तराद्बहिनिःसरति तस्मै (स्वाहा) योगयुक्ता क्रिया (अपानाय) यो बहिर्देशादाभ्यन्तरं गच्छति तस्मै (स्वाहा) (व्यानाय) यो विविधेष्वङ्गेष्वनिति व्याप्नोति तस्मै (स्वाहा) वैद्यक-विद्या युक्ता वाक् (चक्षुषे) चष्टे पश्यति येन तस्मै (स्वाहा) प्रत्यक्षप्रमाणयुक्ता वाणी (श्रोत्राय) शृणोति येन तस्मै (स्वाहा) आप्तोपदेशयुक्ता गीः (वाचे) वक्ति यथा तस्यै (स्वाहा) सत्यभाषणादियुक्ता भारती (मनसे) मनननिमित्ताय सकल्पविकल्पारमने (स्वाहा) विचारयुक्ता वाणी ॥ २३ ॥

अन्वयः— यैर्मनुष्यैः प्राणाय स्वाहाऽपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा चक्षुषे स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा वाचे स्वाहा मनसे स्वाहा च प्रयुज्यते ते विद्वांसो जायन्ते ॥ २३ ॥

भावार्थः— ये मनुष्या यज्ञेन शोधितानि जलोपधिवा-खन्नपत्रपुष्पफलरसकंदादीन्यश्नन्ति तेऽरोगा भूत्वा प्रज्ञा बलारोग्यायुष्मन्तो जायन्ते ॥ २३ ॥

पदार्थः—जिन मनुष्यों ने (प्राणाय) जो पवन भीतर से बाहर निकलता है उस के लिये (स्वाहा) योगविद्या युक्त क्रिया (अपानाय) जो बाहर से भीतर को जाता है उस पवन के लिये (स्वाहा) वैद्यकविद्या युक्त-क्रिया (व्यानाय) जो विविध प्रकार के अङ्गों में व्याप्त होता है उस पवन के लिये (स्वाहा) वैद्यक विद्या युक्त वाणी (चक्षुषे) जिस से प्राणी देखता है उस नेत्र इन्द्रिय के लिये (स्वाहा) प्रत्यक्ष प्रमाण युक्त वाणी (श्रोत्राय) जि-स से सुनता है उस कर्णन्द्रिय के लिये (स्वाहा) शास्त्र विद्वान् के उपदेश युक्त वाणी (वाचे) जिस से बोलता है उस वाणी के लिये (स्वाहा) सत्य-भाषण आदि व्यवहारों से युक्त बोल चाल तथा (मनसे) विचार का निमि-

त्त संकल्प और विकल्पवान् मन के लिये (स्वाहा) विचार से भरी हुई वाणी प्रयोग की जाती अर्थात् भली भांति उच्चारण की जाती है वे विद्वान् होते हैं ॥ २३ ॥

भावार्थः—जो मनुष्य यज्ञ से शुद्ध किये जल, औषधि, पवन, अन्न, पत्र, पुष्प, फल, रस, कन्द अर्थात् अरवी, आलू, कसेरू, रतालू और शकरकन्द आदि पदार्थों का भोजन करते हैं वे नीरोग हो कर बुद्धि, बल, आरोग्यपन और आयुर्दा वाले होते हैं ॥ २३ ॥

प्राच्यै दिश इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । दिशो देवताः ।

निचृद्भृतिधृतिश्छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

पुनः किमर्थो होमः कर्त्तव्य इत्याह ॥

फिर किस लिये होम करना चाहिये इस वि० ॥

प्राच्यै दिशे स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वा-
हा दक्षिणायै दिशे स्वाहार्वाच्यै दि-
शे स्वाहाप्रतीच्यै दिशे स्वाहार्वाच्यै-
दिशे स्वहोदीच्यै दिशे स्वाहार्वाच्यै
दिशे स्वाहोर्ध्वायै दिशे स्वाहार्वाच्यै-
दिशे स्वाहावाच्यै दिशे स्वाहार्वाच्यै
दिशे स्वाहा ॥ २४ ॥

प्राच्यै । दिशे । स्वाहा । अर्वाच्यै । दिशे । स्वाहा ।
दक्षिणायै । दिशे । स्वाहा । अर्वाच्यै । दिशे । स्वा-
हा । प्रतीच्यै । दिशे । स्वाहा । अर्वाच्यै । दिशे । स्वा-
हा । उदीच्यै । दिशे । स्वाहा । अर्वाच्यै । दिशे । स्वाहा ।
ऊर्ध्वायै । दिशे । स्वाहा । अर्वाच्यै । दिशे । स्वाहा ।
अवाच्यै । दिशे । स्वाहा । अर्वाच्यै । दिशे । स्वाहा ॥ २४ ॥

पदार्थः—(प्राच्यै)या प्राञ्चति प्रथमादित्यसंयोगात् तस्यै (दिशे) (स्वाहा) ज्योतिःशास्त्र विद्यायुक्ता वाक् (अर्वाच्यै)यार्वागधोऽञ्चतितस्यै (दिशे)(स्वाहा)(दक्षिणा-यै)या पूर्वमुखस्य पुरुषस्य दक्षिणबाहुसन्निधौ वर्त्तते तस्यै (दिशे) (स्वाहा) (अर्वाच्यै) अधस्ताद्वर्त्तमानायै (दिशे) (स्वाहा)(प्रतीच्यै)या प्रत्यक् अञ्चतिपूर्वमुखस्थितपुरुषस्य पृष्ठभागा तस्मै (दिशे) (स्वाहाअर्वाच्यै)(दिशे)(स्वाहा) (उदीच्यै)योदक् पूर्वाभिमुखस्य जनस्य वामभागमञ्चति तस्यै (दिशे) (स्वाहा) (अर्वाच्यै)(दिशे)(स्वाहा) (ऊर्ध्वायै) ऊर्ध्व वर्त्तमानायै(दिशे)(स्वाहा) (अर्वाच्यै)या अवविरुद्ध-मञ्चति तस्यै उपदिशे(दिशे) (स्वाहा) (अर्वाच्यै)(दिशे) (स्वाहा)(अर्वाच्यै)(दिशे)(स्वाहा) ॥ २४ ॥

अन्वयः—---यैर्वद्विः प्राच्यै दिशे स्वाहाऽर्वाच्यै दिशे स्वाहा दक्षिणायै दिशे स्वाहाऽर्वाच्यै दिशे स्वाहा प्रतीच्यै दिशे स्वाहाऽर्वाच्यै दिशे वाहोदीच्यै दिशे स्वाहाऽर्वाच्यै दिशे स्वाहोर्ध्वायै दिशे स्वाहाऽर्वाच्यै दिशे स्वाहाऽर्वाच्यै दिशे स्वाहाऽर्वाच्यै दिशे स्वाहा च विधी-यतेते सर्वतः कुशालिनो भवन्ति ॥ २४ ॥

भावार्थः—हे मनुष्याश्चतस्रो मुख्या दिशः सन्ति तथा चतस्रः उपदिशोऽपि वर्त्तन्त एवमूर्ध्वाऽर्वाची च दिशौ वर्त्तते ता मिलित्वा दश जायन्त इति वेद्यम् । अनवस्थि-ता इमा विभ्यश्च सन्ति यत्र स्वयं स्थितो भवेत् तद्दृ-शमारभ्य सर्वासां कल्पना भवतीति विजानीत ॥ २४ ॥

पदार्थः— जिन विद्वानों ने (अर्वाच्यै) जो प्रथम प्राप्त होती अर्थात् प्रथम सूर्यमंडल का संयोग करती उस (दिशे) दिशा के लिये (स्वाहा) ज्योतिःशास्त्रविद्यायुक्त वाणी (अर्वाच्यै) जो नीचे से सूर्यमंडल को प्राप्त अर्थात् जब विषुवती रेखा से उत्तर का सूर्य नीचे २ गिरता है उस नीचे की (दिशे) दिशा के लिये (स्वाहा) ज्योतिःशास्त्रयुक्त वाणी (दक्षिणायै) जो पूर्वपुख वाले पुरुष के दाहिनी बांह के निकट है उस दक्षिण (दिशे) दिशा के लिये (स्वाहा) उक्त वाणी जो (अर्वाच्यै) निम्न है उस (दिशे) दिशा के लिये (स्वाहा) उक्त वाणी (प्रतीच्यै) जो सूर्यमंडल के प्रति मुख अर्थात् लोटने के समय में प्राप्त और पूर्वपुख वाले पुरुष के पीठ पीछे होती उस पश्चिम (दिशे) दिशा के लिये (स्वाहा) ज्योतिःशास्त्र युक्त वाणी (अर्वाच्यै) पश्चिम के नीचे जो (दिशे) दिशा है उस के लिये (स्वाहा) ज्योतिःशास्त्र युक्त वाणी (उदीच्यै) जो पूर्वाभिमुख पुरुष के वामभाग को प्राप्त होती उस उत्तम (दिशे) दिशा के लिये (स्वाहा) ज्योतिःशास्त्रयुक्त-वाणी (अर्वाच्यै) पृथिवी गोल में जो उत्तर दिशा के तले दिशा है उस (दिशे) दिशा के लिये (स्वाहा) ज्योतिःशास्त्रयुक्त वाणी (ऊर्ध्वायै) जो ऊपर को वर्तमान है उस (दिशे) दिशा के लिये (स्वाहा) ज्योतिःशास्त्रयुक्त वाणी (अर्वाच्यै) जो विरुद्ध प्राप्त होती ऊपर वाली दिशा के नीचे अर्थात् कभी पूर्व गिनी जाती कभी उत्तर कभी दक्षिण कभी पश्चिम मानी जाती है उस (दिशे) दिशा के लिये (स्वाहा) ज्योतिःशास्त्रयुक्त वाणी और (अर्वाच्यै) जो सब से नीचे वर्तमान उस (दिशे) दिशा के लिये (स्वाहा) ज्योतिःशास्त्रविचार युक्त वाणी तथा (अर्वाच्यै) पृथिवी गोल में जो उक्त प्रत्येक कोण दिशाओं के तले की दिशा है उस (दिशे) दिशा के लिये (स्वाहा) ज्योतिःशास्त्रविद्या युक्त वाणी विधान किई वे सब और कुशली अर्थात् आनन्दी होते हैं ॥ २४ ॥

भावार्थः— हे मनुष्यो चार मुख्य दिशा और चार उपदिशा अर्थात् कोण दिशा भी वर्तमान हैं ऐसे ऊपर और नीचे की दिशा भी वर्तमान हैं वे मिल कर सब दश होती हैं यह जानना चाहिये और एकक्रम से निश्चय-

नहीं की हुई तथा अपनी २ कल्पना में समर्थ भी हैं उन को उन २ के अर्थ में समर्थ न करने की यह रीति है कि जहाँ मनुष्य आप स्थित हो उस देश को ले-के सब की कल्पना होती है इस को जानों ॥ २४ ॥

अद्भ्य इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । जलादयो-
देवताः । अष्टिशृङ्गन्दः । मध्यमः स्वरः ।

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिरउसी वि० ॥

अद्भ्यः स्वाहा वाभ्यः स्वाहा
काय स्वहा तिष्ठन्तीभ्यः स्वाहा स्व-
न्तीभ्यः स्वाहा स्यन्दमानाभ्यः स्वा-
हा कूप्याभ्यः स्वाहा सूद्याभ्यः स्वा-
हा धार्याभ्यः स्वाहा ऋगाभ्यः स्वाहा स-
मुद्राय स्वाहा सरिराय स्वाहा ॥ २५ ॥

अद्भ्यः इत्यत्भ्यः । स्वाहा । वाभ्यः इति वा-
भ्यः । स्वाहा । उदकाय । स्वाहा । तिष्ठन्तीभ्यः । स्वा-
हा । स्वन्तीभ्यः । स्वाहा । स्यन्दमानाभ्यः । स्वाहा ।
कूप्याभ्यः । स्वाहा । सूद्याभ्यः । स्वाहा । धार्याभ्यः
। स्वाहा । ऋगाभ्यः । स्वाहा । समुद्राय । स्वाहा । स-
रिराय । स्वाहा ॥ २५ ॥

पदार्थः- (अद्भ्यः) जलेभ्यः (स्वाहा) शुद्धिकारिका-
क्रिया (वाभ्यः) वरणीयेभ्यः (स्वाहा) (उदकाय)
आर्द्राकारकाय (स्वाहा) (तिष्ठन्तीभ्यः) स्थिराभ्यः (स्वा-
हा) (स्वन्तीभ्यः) सदोगामिनीभ्यः (स्वाहा) (स्य-

न्दमानाभ्यः) प्रस्रुताभ्यः (स्वाहा) (कूप्याभ्यः) कूपे-
षु भवाभ्यः (स्वाहा) (सूद्याभ्यः) सुष्टुक्लेदिकाभ्यः
(स्वाहा) (धार्याभ्यः) धत्तुयोग्याभ्यः (स्वाहा) (अ-
र्णवाय) बहून्यर्णासि विदचन्ते यस्मिँस्तस्मै (स्वाहा) (स-
मुद्राय) समुद्रवन्त्यापो यस्मिँस्तस्मै (स्वाहा) (सरिराय)
कमनीयाय (स्वाहा) ॥ २५ ॥

अन्वयः—यैर्मनुष्यैर्गङ्गाषु सुगन्ध्यादिद्रव्यहवनायाऽ-
द्भ्यः स्वाहा वार्ष्यः स्वाहोदकाय स्वाहा तिष्ठन्तीभ्यः स्वा-
हा स्यन्दमानाभ्यः स्वाहा कूप्याभ्यः स्वाहा धार्याभ्यः स्वा-
हाऽर्णवाय स्वाहा सरिराय स्वाहा च विधीयते ते सर्वेषां
सुखप्रदा जायन्ते ॥ २५ ॥

भावार्थः—ये मनुष्या अग्नौ सुगन्ध्यादिद्रव्यणि जु-
ह्युस्ते जलादिशुद्धिकारका भूत्वा पुण्यात्मानो जायन्ते ज-
लशुद्धयैव सर्वेषां शुद्धिर्भवतीति वेद्यम् ॥ २५ ॥

पदार्थः—जिन मनुष्यों ने यज्ञ कर्मों में सुगन्धि आदि पदार्थ होमने के
लिये (अद्भ्यः) सामान्य जलों के लिये (स्वाहा) उन को शुद्ध करने की
क्रिया (वार्ष्यः) स्वीकार करने योग्य अति उत्तम जलों के लिये (स्वाहा)
उन को शुद्ध करने की क्रिया (उदकाय) पदार्थों को गीले करने वा सूर्य की
किरणों से ऊपर को जाते हुए जलके लिये (स्वाहा) उन को शुद्ध करने वा-
ली क्रिया (तिष्ठन्तीभ्यः) बहते हुए जलों के लिये (स्वाहा) उक्त क्रिया
(स्रवन्तीभ्यः) शीघ्र बहते हुए जलों के लिये (स्वाहा) उक्त क्रिया (स्य-
न्दमानाभ्यः) धीरे २ चलते जलों के लिये (स्वाहा) उक्त क्रिया (कूप्या-
भ्यः) कुएं में हुए जलों के लिये (स्वाहा) उक्त क्रिया (सूद्याभ्यः) भली-
भाँति भिगोने हारे अर्थात् वर्षा आदि से जो भिगोते हैं उन जलों के लिये
(स्वाहा) उन के शुद्ध करने की क्रिया (धार्याभ्यः) धारण करने योग्य जो जल
हैं उन के लिये (स्वाहा) उक्त क्रिया (अर्णवाय) जिस में बहुत जल है

उस बड़े नद के लिये (स्वाहा) उक्त क्रिया (समुद्राय) जिस में अच्छे प्रकार नद महानद नदीमहानदी भील भरना आदि के जल जा मिलते हैं उस सागर वा महासागरके लिये (स्वाहा) शुद्ध करनेवाली क्रिया और (सरिराय) अति सुन्दर मनोहर जल के लिये (स्वाहा) उसकी रक्षा करनेवाली क्रिया विधान किई है वे सबको सुख देने हारे होते हैं ॥ २५ ॥

भावार्थः— जो मनुष्य आग में सुगन्धि आदि पदार्थों को होमें वे जल आदि पदार्थों की शुद्धि करनेहारे हो पुण्यात्मा होते हैं और जलकी शुद्धि से ही सब पदार्थों की शुद्धि होती है यह जानना चाहिये ॥ २५ ॥

वातायेत्यस्य पूजापतिऋषिः । वातादयो देवताः ।

विराडभिकृतिश्छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

वाताय॒ स्वाहा॑ धू॒माय॒ स्वाहा॑ आ॒
य॒ स्वाहा॑ मे॒ घाय॒ स्वाहा॑ वि॒द्योत॑मा॒
नाय॒ स्वाहा॑ स्त॒नय॑ते॒ स्वहा॑ऽव॒स्फू॒
र्ज॑ते॒ स्वाहा॑ व॒र्षते॒ स्वाहा॑ऽव॒वर्ष॑ते॒
स्वाहा॑ग्रं व॒र्षते॒ स्वाहा॑ शीघ्रं व॒र्षते॒
स्वाहा॑द्गृह्ण॒ते स्वाहा॑द्गृही॒ताय॒ स्वा॒
हा॑ प्रु॒ष्णते॒ स्वाहा॑शी॒काय॒ते स्वाहा॑ प्रु॒
ष्वाभ्यः॒ स्वाहा॑ ह्रादु॒नीभ्यः॒ स्वाहा॑ नी॒
हाराय॒ स्वाहा॑ ॥ २६ ॥

वाताय । स्वाहा । धूमाय । स्वाहा । अभ्राय । स्वाहा ।
मेघाय । स्वाहा । विद्योतमानायेति विद्योतमानाय ।
स्वाहा । स्तनयते । स्वाहा । अवस्फूर्जते इत्यवस्फूर्जते ।

स्वाहा । वर्षते । स्वाहा । अववर्षते ऽइत्यववर्षते । स्वाहा ।
 उग्रम् । वर्षते । स्वाहा । शीघ्रम् । वर्षते । स्वाहा । उद-
 गृहणात् ऽइत्युत् ऽगृहणाते । स्वाहा । उद्गृहीतायेत्युत्-
 ऽगृहीताय । स्वाहा । पुष्पाते । स्वाहा । शीकायते ।
 स्वाहा । पुष्पाभ्यः । स्वाहा । ह्यादुनीभ्यः । स्वाहा ।
 नीहाराय । स्वाहा ॥ २६ ॥

पदार्थः— (वाताय) यो वसति तस्मै (स्वाहा) (धूमाय)

(स्वाहा) (अभ्राय) मेघनिमित्ताय (स्वाहा) (मेघाय)
 यो मेहति सिञ्चति तस्मै (स्वाहा) (विद्योतमानाय) विद्युतः
 प्रवर्त्तकाय (स्वाहा) (स्तनयते) दिव्यं शब्दं कुर्वते (स्वाहा)
 (अवरूपूर्जते) अधोवज्रवद् घातं कुर्वते (स्वाहा) (वर्षते) यो
 वर्षति तस्मै (स्वाहा) (अववर्षते) (स्वाहा) (उग्रम्) तीव्रम्
 (वर्षते) (स्वाहा) (शीघ्रम्) तूर्णम् (वर्षते) (स्वाहा) (उदगृह्णाते)
 य उर्ध्वगृह्णाति तस्मै (स्वाहा) (उद्गृहीताय) उर्ध्वं गृहीतं
 जलं येन तस्मै (स्वाहा) (पुष्पाते) पुष्टिं पूरयते (स्वाहा) (शी-
 कायते) यः शीकं सेचनं करोति तस्मै (स्वाहा) (पुष्पाभ्यः)
 पूर्णाभ्यः (ह्यादुनीभ्यः) अव्यक्तं शब्दं कुर्वतीभ्यः (स्वाहा)
 (नीहाराय) कुहकाय (स्वाहा) ॥ २६ ॥

अन्वयः— यैर्मनुष्यैर्वाताय स्वाहा धूमाय स्वाहा ऽभ्राय

स्वाहा मेघाय स्वाहा विद्योतमानाय स्वाहा स्तनयते स्वाहा
 ऽवरूपूर्जते स्वाहा वर्षते स्वाहा ऽववर्षते स्वाहा उग्रं वर्षते
 स्वाहा शीघ्रं वर्षते स्वाहा उदगृह्णाते स्वाहा उद्गृहीताय स्वाहा
 पुष्पाते स्वाहा शीकायते स्वाहा पुष्पाभ्यः स्वाहा ह्यादुनीभ्यः
 स्वाहा नीहाराय स्वाहा च प्रयुज्यते ते प्राणप्रिया जायन्तं २६

भावार्थः--ये यथाविध्यग्निहोत्रादीन् कुर्वन्ति ते वा-
च्वादिशोधका भूत्वा सर्वेषां हितकरा भवन्ति ॥ २६ ॥

पदार्थः—जिन मनुष्यों ने (वाताय) जो वहता है उस पवन के लिये (स्वाहा) उस को शुद्ध करने वाली यज्ञ क्रिया (धूमाय) धूम के लिये (स्वाहा) यज्ञ क्रिया (अभ्राय) मेघ के कारण के लिये (स्वाहा) यज्ञ क्रिया (मेघाय) मेघ के लिये (स्वाहा) यज्ञ क्रिया (विद्योत्तमानाय) विजुली से प्रवृत्त हुए सवन बदल के लिये (स्वाहा) यज्ञ क्रिया (स्तनयते) उसम शब्द करती हुई विजुली के लिये (स्वाहा) यज्ञ क्रिया (अवस्फूर्जते) एक दूसरे के घिसने से वज्र के समान नीचे का चोट करते हुए विद्युत् के लिये (स्वाहा) शुद्ध करने वाली यज्ञ क्रिया (वर्पते) जो बदल वर्पता है उस के लिये (स्वाहा) यज्ञ क्रिया (अववर्पते) पिलावट से तले ऊपर हुए बदलों में जो नीचे वाला है उस बदलके लिये (स्वाहा) यज्ञ क्रिया (उग्रम्) अति तीक्ष्णता से (वर्पते) वर्पते हुए बदल के लिये (स्वाहा) यज्ञ क्रिया (शीघ्रम्) शीघ्र लपट झपट से (वर्पते) वर्पते हुए बदल के लिये (स्वाहा) उक्त क्रिया (उद्गृह्णते) ऊपर से ऊपर बदलों के ग्रहण करने वाले बदल के लिये (स्वाहा) उक्त क्रिया (उद्गृहीताय) जिसने ऊपर से ऊपर जल ग्रहण किया उस बदल के लिये (स्वाहा) शुद्ध करने वाली यज्ञ क्रिया (पुष्णते) पुष्टि करते हुए मेघ के लिये (स्वाहा) यज्ञ क्रिया (शीक्रायते) जो सींचता अर्थात् ठहर २ के वर्पता उस मेघ के लिये (स्वाहा) यज्ञ क्रिया (प्रुष्वाभ्यः) जो पूर्ण घन घोर बर्षा करते हैं उन मेघों के अवयवों के लिये (स्वाहा) यज्ञ क्रिया (ष्हादु-नीभ्यः) अव्यक्त गड़ गड़ शब्द करते हुए बदलों के लिये (स्वाहा) शुद्ध करने वाली यज्ञ क्रिया और (नीहाराय) कुहर के लिये (स्वाहा) उस की शुद्धि करने वाली यज्ञ क्रिया की है वे मंसार के प्राण पियारे होते हैं ॥ २६ ॥

भावार्थः—जो मनुष्य यथाविधि अग्निहोत्र आदि यज्ञों को करते हैं वे पवन आदि पदार्थों के शोधने होकर सब का हित करने वाले होते हैं ॥ २६ ॥

अग्नयेस्वाहेत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । अग्न्यादयो

देवताः । जगतीच्छन्दः । निषादः स्वरः ॥

पुनस्तमेव त्रिषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहेन्द्राय
स्वाहा पृथिव्यै स्वाहाऽन्तरिक्षाय
स्वाहा दिवे स्वाहा दिग्भ्यः स्वाहाऽऽ-
शाभ्यः स्वाहोऽर्वाच्यै दिशे स्वाहाऽर्वा-
च्यै दिशे स्वाहा ॥ २७ ॥

अग्नये । स्वाहा । सोमाय । स्वाहा । इन्द्राय ।

स्वाहा । पृथिव्यै । स्वाहा । अन्तरिक्षाय । स्वाहा ।

दिवे । स्वाहा । दिग्भ्यऽइति दिक्ऽभ्यः । स्वाहा ।

आशाभ्यः । स्वाहा । उर्व्यै । दिशे । स्वाहा । अर्वाच्यै ।

दिशे । स्वाहा ॥ २७ ॥

पदार्थः--(अग्नये) जाठराग्नये (स्वाहा) (सो-
माय) उत्तमाय रसाय (स्वाहा) (इन्द्राय) जीवाय वि-
द्युते परमैश्वर्याय वा (स्वाहा) (पृथिव्यै) (स्वाहा) (अ-
न्तरिक्षाय) आकाशाय (स्वाहा) (दिवे) प्रकाशाय
(स्वाहा) (दिग्भ्यः) (स्वाहा) (आशाभ्यः) व्यापिकाभ्यः
(स्वाहा) (उर्व्यै) बहुरूपायै (दिशे) (स्वाहा) (अर्वाच्यै)
निम्नायै (दिशे) (स्वाहा) ॥ २७ ॥

अन्वयः--मनुष्यैराग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहेन्द्राय
स्वाहा पृथिव्यै स्वाहाऽन्तरिक्षाय स्वाहा दिवे स्वाहादिग्भ्यः

स्वाहाऽऽशाभ्यः स्वाहोर्व्यै दिशो स्वाहाऽर्वाच्यै दिशो स्वाहा
चाऽवश्यं विधेयाः ॥ २७ ॥

भावार्थः—ये मनुष्या अग्निद्वारा ओषध्यादिषु सुग-
न्ध्यादिद्रव्यं विस्तारयेयुस्ते जगद्धितकराः स्युः ॥ २७ ॥

पदार्थः—मनुष्यों को (अग्नये) जाठराग्नि अर्थात् पेट के भीतर अन्न प-
चाने वाली आग के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (सोमाय) उत्तम रस के
लिये (स्वाहा) सुन्दर क्रिया (इन्द्राय) जीव विजुली और परम ऐश्वर्य के
लिये (स्वाहा) उक्त क्रिया (पृथिव्यै) पृथिवी के लिये (स्वाहा) उत्तम
क्रिया (अन्तरिक्षाय) आकाश के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (दिवे) प्र-
काश के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (दिग्भ्यः) पूर्वादि दिशाओं के लिये
(स्वाहा) उत्तम क्रिया (आशाभ्यः) एक दूसरी में जो व्याप्त हो रही अर्थात्
ईशान आदि कोण दिशाओं के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (उर्व्यै) समय
को पाकर अनेक रूप दिखाने वाली अर्थात् वर्षा गर्मी शरदी के समय के
रूप की अलग २ प्रतीति कराने वाली (दिशे) दिशा के लिये (स्वाहा)
उत्तमक्रिया और (अर्वाच्यै) नीचे की (दिशे) दिशा के लिये (स्वाहा)
उत्तम क्रिया अवश्य विधान करनी चाहिये ॥ २७ ॥

भावार्थः—जो मनुष्य अग्नि के द्वारा अर्थात् आग में होम कर ओषधी
आदि पदार्थों में सुगन्धि आदि पदार्थ का विस्तार करें वे जगत् के हित करने
वाले हों ॥ २७ ॥

नक्षत्रेभ्य इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । नक्षत्रादयो देवताः ।

भुरिगृष्टी छन्दसी । मध्यमः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

नक्षत्रेभ्यः स्वाहा नक्षत्रियेभ्यः स्वा-
हाऽहोरात्रेभ्यः स्वाहाऽर्द्धमासेभ्यः स्वाहा
मासेभ्यः स्वाहाऽऋतुभ्यः स्वाहार्त्तुवेभ्यः

स्वाहा सँव्वत्सराय स्वाहा द्यावापृथि-
 वीभ्या ० स्वाहा चन्द्राय स्वाहा सूर्या-
 य स्वाहा रश्मिभ्यः स्वाहा वसुभ्यः
 स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा दित्येभ्यः स्वा-
 हा मरुद्भ्यः स्वाहा विष्वेभ्यो दे-
 वेभ्यः स्वाहा मूलेभ्यः स्वाहा शाखा-
 भ्यः स्वाहा वनस्पतिभ्यः स्वाहा पु-
 ष्पेभ्यः स्वाहा फलेभ्यः स्वाहा ओषधी-
 भ्यः स्वाहा ॥ २८ ॥

नक्षत्रेभ्यः । स्वाहा । नक्षत्रियेभ्यः । स्वाहा । अहो-
 रात्रेभ्यः । स्वाहा । अर्धमासेभ्यऽइत्यर्धमासेभ्यः ।
 स्वाहा । मासेभ्यः । स्वाहा । ऋतुभ्यऽइत्यृतुभ्यः ।
 स्वाहा । आर्त्तवेभ्यः । स्वाहा । सँव्वत्सराय । स्वाहा ।
 द्यावापृथिवीभ्याम् । स्वाहा । चन्द्राय । स्वाहा । सूर्या-
 य । स्वाहा । रश्मिभ्यऽइति रश्मिभ्यः । स्वाहा । वसु-
 भ्यऽइति वसुभ्यः । स्वाहा । रुद्रेभ्यः । स्वाहा । आदि-
 त्येभ्यः । स्वाहा । मरुद्भ्यऽइति मरुद्भ्यः । स्वाहा ।
 विष्वेभ्यः । देवेभ्यः । स्वाहा । मूलेभ्यः । स्वाहा । शा-
 खाभ्यः । स्वाहा । वनस्पतिभ्यऽइति वनस्पतिभ्यः ।
 स्वाहा । पुष्पेभ्यः । स्वाहा । फलेभ्यः । स्वाहा । ओष-
 धीभ्यः । स्वाहा ॥ २८ ॥

पदार्थः—(नक्षत्रेभ्यः)अक्षीणेभ्यः(स्वाहा)(नक्षत्रियेभ्यः)
 नक्षत्राणां समूहेभ्यः(स्वाहा)(अहोरात्रेभ्यः) अहर्निशेभ्यः
 (स्वाहा) (अर्द्धमासेभ्यः) (स्वाहा)(मासेभ्यः)(स्वाहा)(मासे-
 भ्यः)(स्वाहा) (ऋतुभ्यः) (स्वाहा) (आर्त्तवेभ्यः)ऋतुजातेभ्यः
 (स्वाहा) (संवत्सरायं) (स्वाहा) (द्वावापृथिवीभ्याम्)
 भूमिप्रकाशाभ्याम् (स्वाहा) (चन्द्राय) (स्वाहा)
 (सूर्याय) (स्वाहा) (रश्मिभ्यः) किरणेभ्यः (स्वाहा)
 (वसुभ्यः) पृथिव्यादिभ्यः (स्वाहा) (रुद्रेभ्यः) प्राण-
 जीवेभ्यः (स्वाहा) (आदित्येभ्यः) अविनाशिभ्यः का-
 लवायवेभ्यः (स्वाहा) (मरुद्भ्यः) (स्वाहा) (विश्वेभ्यः)
 सर्वेभ्यः (देवेभ्यः) दिव्यगुणेभ्यः (स्वाहा) (मूलेभ्यः)
 (स्वाहा) (शाखाभ्यः) (स्वाहा) (वनस्पतिभ्यः)
 (स्वाहा) (पुष्पेभ्यः) (स्वाहा) (फलेभ्यः) (स्वाहा)
 (ओषधिभ्यः) (स्वाहा) ॥ २८ ॥

अन्वयः—मनुष्यैर्नक्षत्रेभ्यःस्वाहा नक्षत्रियेभ्यःस्वाहा
 अहोरात्रेभ्यःस्वाहाऽऽर्द्धमासेभ्यःस्वाहा मासेभ्यःस्वाहर्तु-
 भ्यःस्वाहाऽऽर्त्तवेभ्यःस्वाहा संवत्सराय स्वाहा द्वावापृ-
 थिवीभ्यां स्वाहा चन्द्राय स्वाहा सूर्याय स्वाहा रश्मिभ्यः
 स्वाहा वसुभ्यः स्वाहारुद्रेभ्यःस्वाहाऽऽदित्येभ्यःस्वाहा म-
 रुद्भ्यःस्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यःस्वाहा मूलेभ्यःस्वाहा
 शाखाभ्यःस्वाहा वनस्पतिभ्यःस्वाहा पुष्पेभ्यःस्वाहा फले
 भ्यःस्वाहौषधीभ्यःस्वाहा चावश्यमनुष्ठेयाः ॥ २८ ॥

भावार्थः—मनुष्या नित्यं सुगन्ध्यादिद्रव्यमग्नौ प्रक्षि-
प्य तद्वायुरग्निद्वारा वनस्पत्यौषधिमूलशाखापुष्पफ-
लादिषु प्रवेश्यसर्वेषां पदार्थानां शुद्धिं कृत्वाऽऽरोग्यं सम्पा-
दयन्तु ॥ २८ ॥

पदार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि (मन्त्रत्रेभ्यः) जो पदार्थ कभी नष्ट नहीं होते उन के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया (नक्षत्रत्रियेभ्यः) उक्त पदार्थों के समूहों के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञ क्रिया (अहोरात्रेभ्यः) दिन राति के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञ क्रिया (अर्द्धमासेभ्यः) शुक्र कृष्ण पक्ष अर्थात् पखवाड़ों के लिये (स्वाहा) उक्त क्रिया (मासेभ्यः) महीनों के लिये (स्वाहा) उक्त क्रिया (ऋतुभ्यः) वसंत आदि छः ऋतुओं के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञ क्रिया (आर्त्तवेभ्यः) ऋतुओं में उत्पन्न हुए ऋतु २ के पदार्थों के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञ क्रिया (संवत्तराय) वर्षों के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञ क्रिया (द्यावापृथिवीभ्याम्) प्रकाश और भूमि के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञ क्रिया (चन्द्राय) चन्द्रलोक के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञ क्रिया (सूर्याय) सूर्य लोक के लिये (स्वाहा) यज्ञ क्रिया (रश्मिभ्यः) सूर्य आदि की किरणों के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञ क्रिया (वसुभ्यः) पृथिवी आदि लोकों के लिये (स्वाहा) उक्त क्रिया (रुद्रेभ्यः) दश प्राणों के लिये (स्वाहा) यज्ञक्रिया (आदित्येभ्यः) काल के अवयव जो अविनाशी हैं उन के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (मरुद्भ्यः) पवनों के लिये (स्वाहा) उन के अनुकूल क्रिया (विश्वेभ्यः) समस्त (देवेभ्यः) दिव्य गुणों के लिये (स्वाहा) सुन्दर क्रिया (मूलेभ्यः) सबों की जड़ों के लिये (स्वाहा) तदनु कूल क्रिया (शाखाभ्यः) शाखाओं के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (पुष्पेभ्यः) फूलों के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (फलेभ्यः) फलों के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया और (ओषधिभ्यः) ओषधियों के लिये (स्वाहा) नित्य उत्तम क्रिया अवश्य करनी चाहिये ॥ २८ ॥

भावार्थः—मनुष्य नित्य सुगन्ध्यादिपदार्थों को अग्नि में छोड़ अर्थात् हवन कर पवन और सूर्य की किरणों द्वारा वनस्पति, ओषधि, मूल, शाखा, पुष्प और फलादिकों में प्रवेश करा के सब पदार्थों की शुद्धि कर आरोग्यता की सिद्धि करें ॥ २८ ॥

पृथिव्या इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । लिङ्गोक्ता देवताः ।

निचृदत्यष्टिच्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

पृथिव्यै स्वाहा अन्तरिक्षाय स्वाहा

दिवे स्वाहा सूर्याय स्वाहा चन्द्राय

स्वाहा नक्षत्रेभ्यः स्वाहाऽद्भ्यः स्वाहौष-

धीभ्यः स्वाहा वनस्पतिभ्यः स्वाहा

परिप्लवेभ्यः स्वाहा चराचरेभ्यः स्वा-

हा सरीसृपेभ्यः स्वाहा ॥ २८ ॥

पृथिव्यै । स्वाहा । अन्तरिक्षाय । स्वाहा । दिवे ।

स्वाहा । सूर्याय । स्वाहा । चन्द्राय । स्वाहा । नक्ष-

त्रेभ्यः । स्वाहा । अद्भ्यः इत्यतःऽद्भ्यः । स्वाहा । औष-

धीभ्यः । स्वाहा । वनस्पतिभ्यः इति वनस्पतिभ्यः ।

स्वाहा । परिप्लवेभ्यः इति परिप्लवेभ्यः । स्वाहा । चरा-

चरेभ्यः स्वाहा । सरीसृपेभ्यः स्वाहा ॥ २८ ॥

पदार्थः—(पृथिव्यै) विस्तृतायै धरिण्यै (स्वाहा)

उत्तमयज्ञक्रिया (अन्तरिक्षाय) आकाशाय (स्वाहा)

उक्ता क्रिया (दिवे) विद्युतः शुद्धये (स्वाहा) यज्ञक्रिया

(सूर्याय) आदित्यमण्डलाय (स्वाहा) तदनुरूपा क्रि-

या (चन्द्राय) चन्द्रमण्डलाय (स्वाहा) उत्तमक्रिया

(नक्षत्रेभ्यः) तारकेभ्यः (स्वाहा) (अद्भ्यः) (स्वाहा)
 (ओषधीभ्यः) (स्वाहा) (वनस्पतिभ्यः) (स्वाहा) (परि-
 प्लवेभ्यः) तारकेभ्यः (स्वाहा) (चराचरेभ्यः) स्थावरजंगमे-
 भ्यः (स्वाहा) (सरीसृपेभ्यः) सर्पादिभ्यः (स्वाहा) ॥ २६ ॥

अन्वयः—यदि मनुष्याः पृथिव्यै स्वाहाऽन्तरिक्षाय
 स्वाहा दिवे स्वाहा सूर्याय स्वाहा चन्द्राय स्वाहा नक्षत्रे-
 भ्यः स्वाहाऽद्भ्यः स्वाहा ओषधीभ्यः स्वाहा वनस्पतिभ्यः स्वाहा
 परिप्लवेभ्यः स्वाहा चराचरेभ्यः स्वाहा सरीसृपेभ्यः स्वाहा
 प्रयुञ्जीरँस्तर्हि सर्वंशुद्धं कर्तुं प्रभवेयुः ॥ २६ ॥

भावार्थः—ये सुगन्ध्यादि द्रव्यं पृथिव्यादिप्वग्निद्वारा
 विस्तार्य वायुजलद्वारा ओषधीषु प्रवेश्य सर्वं संशो-
 ध्याऽऽरोग्यं सम्पादयन्तित आयुर्वर्द्धका भवन्ति ॥ २६ ॥

पदार्थः—जो मनुष्य (पृथिव्यै) विथरी हुई इस पृथिवी के लिये
 (स्वाहा) उत्तम यज्ञ क्रिया (अन्तरिक्षाय) अवकाश अर्थात् पदार्थों के बीच
 की पॉल के लिये (स्वाहा) उक्त क्रिया (दिवे) विजुलों की शुद्धि के लिये
 (स्वाहा) यज्ञ क्रिया (सूर्याय) सूर्यमंडल की उत्तमता के लिये (स्वाहा)
 उत्तम यज्ञ क्रिया (चन्द्राय) चन्द्रमण्डल के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया
 (नक्षत्रेभ्यः) अश्विनी आदि नक्षत्रलोको की उत्तमता के लिये (स्वाहा)
 उत्तम यज्ञ क्रिया (अद्भ्यः) जलों के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञ क्रिया
 (ओषधीभ्यः) ओषधीयों के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञ क्रिया (वनस्पतिभ्यः)
 वट वृक्ष आदि के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञ क्रिया (परिप्लवेभ्यः) जो सब
 ओर से आते जाते उन तारागणों के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञ क्रिया (च-
 राचरेभ्यः) स्थावर जङ्गम जीवों और जड पदार्थों के लिये (स्वाहा) उत्तम
 यज्ञ क्रिया तथा (सरीसृपेभ्यः) जो रिंमते हैं उन सर्पआदि जीवों के लिये स्वाहा)
 उत्तम यज्ञ क्रिया को अच्छे प्रकार युक्त करें तो वे सब की शुद्धि करने को स-
 मर्थ हों ॥ २९ ॥

भावार्थः—जो सुगन्धित आदि पदार्थ को पृथिवी आदि पदार्थों में अग्नि के द्वारा विस्तार के अर्थात् फैला के पवन और जल के द्वारा ओषधि आदि पदार्थों में प्रवेश करा सब को अच्छे प्रकार शुद्ध कर आरोग्यपन को सिद्ध कराते हैं वे आयुर्दा के बढ़ाने वाले होते हैं ॥ २९ ॥

असवइत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । वस्वादयो देवताः ।

कृतिश्छन्दः । निषादः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

असवे॒ स्वाहा॒ वसवे॒ स्वाहा॒ विभुवे॒
स्वाहा॒ विवस्वते॒ स्वाहा॒ गणा॒श्रिये॒स्वा-
हा॒ ग॒णा॒प॒तये॒ स्वाहा॑ऽभि॒भुवे॒ स्वाहा॑धि-
पतये॒ स्वाहा॑ शूषाय॒ स्वाहा॑ स॒स॒-
र्पाय॒ स्वाहा॑ चन्द्राय॒ स्वाहा॑ ज्योतिषे॒
स्वाहा॑ मलि॒म्लु॒चाय॒ स्वाहा॑ दिवा॒ प॒-
तये॒ स्वाहा॑ ॥ ३० ॥

असवे । स्वाहा । वसवे । स्वाहा । विभुवऽइति वि-
भुवे । स्वाहा । विवस्वते । स्वाहा । गणाश्रियेऽइति ग-
णाश्रिये । स्वाहा । गणापतयेऽइति गणापतये । स्वा-
हा । अभिभुवऽइत्यभिभुवे । स्वाहा । अधिपतयेऽइत्य-
धिपतये । स्वाहा । शूषाय । स्वाहा । ससर्पायेति
ससर्पाय । स्वाहा । चन्द्राय । स्वाहा । ज्योतिषे । स्वाहा ।
मलिम्लुचाय । स्वाहा । दिवा । पतये । स्वाहा ॥ ३० ॥

पदार्थः--(असवे) प्राणाय (स्वाहा) (वसवे)
 योऽस्मिन् शरीरे वसति तस्मै जीवाय (स्वाहा) विभुवे)
 व्यापकाय वायवे (स्वाहा) (विवस्वते) सूर्याय (स्वा-
 हा) (गणश्रिये) या गणानां समूहानां श्रीः शोभातस्यै
 विद्युते (स्वाहा) (गणपतये) समूहानां पालकाय वा-
 यवे (स्वाहा) (अभिभुवे) अभिमुखं भावुकाय (स्वा-
 हा) (अधिपतये) सर्वस्वामिने राज्ञे (स्वाहा) (शूपाय)
 बलाय सैन्याय (स्वाहा) (संसर्पाय) यः सम्यक् सर्पति
 गच्छति तस्मै (स्वाहा) (चन्द्राय) सुवर्णाय । चन्द्रमि-
 ति हिरण्यनाम० निघं० ११२ (स्वाहा) (ज्योतिषे)
 प्रदीपनाय (स्वाहा) (मलिम्लुचाय) स्तेनाय । मलिम-
 लुच इति स्तेननाम० निघं० ३१४ (स्वाहा) (दिवाप-
 तये) दिनस्य पालकाय सूर्याय (स्वाहा) ॥ ३० ॥

अन्वयः--हे मनुष्या यूयमसवे स्वाहा वसवे स्वा-
 हा विभुवे स्वाहा विवस्वते स्वाहा गणश्रिये स्वाहा गण-
 पतये स्वाहा अभिभुवे स्वाहाऽधिपतये स्वाहा शूपाय स्वा-
 हा संसर्पाय स्वाहा चन्द्राय स्वाहा ज्योतिषे स्वाहा म-
 लिम्लुचाय स्वाहा दिवापतये स्वाहा च प्रयुङ्ध्वम् ॥३०॥

भावार्थः--मनुष्यैः प्राणादिशुद्धयेऽग्नौ पुष्टिकरादि
 द्रव्यं होतव्यम् ॥ ३० ॥

पदार्थः--हे मनुष्यो तुम (असवे) प्राणों के लिये (स्वाहा) उत्तम
 यज्ञक्रिया (वसवे) जो इस शरीर में वसता है उस जीव के लिये (स्वाहा)
 उत्तम यज्ञ क्रिया (विभुवे) व्याप्त होने वाले पवन के लिये (स्वाहा) उत्तम
 यज्ञ क्रिया (विवस्वते) सूर्य के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञ क्रिया (गणश्रिये)
 जो पदार्थों के लिये समूहों की शोभा विजुली है उसके लिये (स्वाहा) उत्तम

यज्ञ क्रिया (गणपतये) पदार्थों के समूहों को पालने हारे पवन के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञ क्रिया (अभिभुवे) सन्मुख होनेवाले के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञ क्रिया (अधिपतये) सब के स्वामी राजा के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (शूपाय) बल और तीक्ष्णता के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया (संसर्पाय) जो भली भांति करके रिंगे उस चीव के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया (चन्द्राय) सुवर्ण के लिये (स्वाहा) उक्तक्रिया (ज्योतिषे) ज्योतिः अर्थात् सूर्य चन्द्र और तारामणों के प्रकाश के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया (मलिम्लुचाय) चोर के लिये (स्वाहा) उस के प्रबन्ध करने की क्रिया तथा (दिवा,पतये) दिन के पालने हारे सूर्य के लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया को अच्छे प्रकार युक्त करो ॥ ३० ॥

भावार्थ :—मनुष्यों को चाहिये कि प्राण आदि भी शुद्धि के लिये आग में पुष्टि करने वाले आदि पदार्थ का होम करें ॥ ३० ॥

मध्वे स्वाहित्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । मासा देवताः ।

भुविगत्यष्टिश्छन्दः । गान्धारुः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

मध्वे स्वाहा माधवाय स्वाहा शु-
क्राय स्वाहा शुचये स्वाहा नभसे स्वा-
हा नभस्याय स्वाहा षाय स्वाहोर्जाय
स्वाहा सहसे स्वाहा सहस्याय स्वा
हा तपसे स्वाहा तपस्याय स्वाहा
हसप्रतद्ये स्वाहा ॥ ३१ ॥

मध्वे । स्वाहा । माधवाय । स्वाहा । शुक्राय ।
स्वाहा । शुचये । स्वाहा । नभसे । स्वाहा । नभस्याय ।

स्वाहा । इषाय । स्वाहा । ऊर्जाय । स्वाहा । सहसे ।
स्वाहा । सहस्याय । स्वाहा । तपसे । स्वाहा । तप-
स्याय । स्वाहा । अंहसः । पतये । स्वाहा ॥ ३१ ॥

पदार्थः—(मधवे) मधुरादिगुणोत्पादकाय चैत्राय-
(स्वाहा) माधवाय (वैशाखाय (स्वाहा ; (शुक्राय)
शुद्धिकराय ज्यैष्ठ्याय (स्वाहा) (शुचये) पीवन्नकरायाऽऽ-
षाढाय (स्वाहा) (नभसे) जलवर्षकाय श्रावणाय
(स्वाहा) (नभस्याय) नभसि भवाय भाद्राय (स्वाहा)
(इषाय) अन्नोत्पादकायाऽऽश्विनाय (स्वाहा) (ऊ-
र्जाय) बलान्नोत्पादकाय कार्तिकाय (स्वाहा) (सहसे)
बलप्रदाय मार्गशीर्षाय (स्वाहा) (सहस्याय) सहसि सा-
धवे पौषाय (स्वाहा) (तपसे) तपउत्पादकाय माघाय
(स्वाहा) (तपस्याय) तपसि साधये फाल्गुनाय
(स्वाहा) (अंहसः) शिलष्टस्य (पतये) पालकाय (स्वा-
हा) ॥ ३१ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या भवन्तो मधवे स्वाहा माध-
वाय स्वाहा शुक्राय स्वाहा शुचये स्वाहा नभसे स्वाहा
नभस्याय स्वाहेषाय स्वाहोर्जाय स्वाहा सहसे स्वाहा
सहस्याय स्वाहा तपसे स्वाहा तपस्याय स्वाहांऽहसस्पतये
स्वाहा चानुतिष्ठन्तु ॥ ३१ ॥

भावार्थः—ये प्रतिदिनमग्निहोत्रादियज्ञं युक्ताहार
विहारं च कुर्वन्ति तेऽरोगा भूत्वा दीर्घायुषो भवन्ति ॥३१ ॥

पदार्थः— हे मनुष्यो आपलोग (मधवे) मीठेपन आदि को उत्पन्न
करने हारे चैत्र के लिये (स्वाहा) यज्ञ क्रिया (माधवाय) मधुरपन में उत्तम वैशाख

के लिये (स्वाहा) यज्ञ क्रिया (शुक्राय) जल आदि को पवन के योग से निर्मल करने हारे ज्येष्ठ के लिये (स्वाहा) यज्ञ क्रिया (शुचये) वर्षा के योग से भूमि आदि को पवित्र करने वाले आषाढ़ के लिये (स्वाहा) यज्ञ क्रिया (नभसे) भली भांति सघन घन बदलों की घन घोर सुनवाने वाले श्रावण के लिये (स्वाहा) यज्ञ क्रिया (नभस्याय) आकाश में वर्षा से प्रसिद्ध होने हारे भादों के लिये (स्वाहा) यज्ञ क्रिया (इषाय) अन्न को उत्पन्न कराने वाले क्वार के लिये (स्वाहा) यज्ञक्रिया (ऊर्जाय) बल और अन्न को उत्पन्न कराने वा बलयुक्त अन्न अर्थात् कुआर में फूले हुए वाजरा आदि अन्न को पकाने पुष्ट करने हारे कार्तिक के लिये (स्वाहा) यज्ञक्रिया (सहसे) बल देने वाले अगहन के लिये (स्वाहा) यज्ञक्रिया (सहस्याय) बल देने में उत्तम पौष के लिये (स्वाहा) यज्ञक्रिया (तपसे) ऋतु बदलने से धीरे २ शीत की निवृत्ति और जीवों के शरीरों में गरमी की प्रवृत्ति कराने वाले माघ के लिये (स्वाहा) यज्ञक्रिया (तपस्याय) जीवों के शरीरों में गरमी की प्रवृत्ति कराने में उत्तम फाल्गुन मास के लिये (स्वाहा) यज्ञक्रिया और (अहसः) महीनों में मिले हुए मलमास के (पतये) पालने वाले के लिये (स्वाहा) यज्ञक्रिया का अनुष्ठान करो ॥ ३१ ॥

भावार्थः— जो मनुष्य प्रतिदिन अग्नि होत्र आदि यज्ञ और अपनी प्रकृति के योग्य आहार और विहार आदि को करते हैं वे नीरोग होकर बहुत जीने वाले होते हैं ॥ ३१ ॥

वाजायेत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । वाजादयो देवताः ।

अत्यष्टिशृण्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी विषय को अगलेमंत्र में कहते हैं ॥

वाजाय_ स्वाहा_ प्रसुवाय_ स्वाहा_ पि-
जाय_ स्वाहा_ क्रतवे_ स्वाहा_ स्वः_ स्वाहा
सुधने_ स्वाहा_ व्यश्नुविने_ स्वाहान्त्या-

य स्वाहान्त्याय भौवनाय स्वाहा
भुवनस्य पतये स्वाहाधिपतये स्वाहा
प्रजापतये स्वाहा ॥ ३२ ॥

वाजाय । स्वाहा । प्रसवायेति प्रसवाय । स्वाहा ।
अपिजाय । स्वाहा । क्रतवे । स्वाहा । स्वरिति स्वः ।
स्वाहा । मूर्ध्ने । स्वाहा । व्यश्नुविने इति विऽअश्नुविने ।
स्वाहा । आन्त्याय । स्वाहा । आन्त्याय । भौवनाय ।
स्वाहा । भुवनस्य पतये । स्वाहा । अधिपतय इत्यधिपतये ।
स्वाहा । प्रजापतय इति प्रजापतये । स्वाहा ॥ ३२ ॥

पदार्थः— (वाजाय) अन्नाय (स्वाहा)
(प्रसवाय) उत्पादकाय (स्वाहा) (अपिजाय) उत्प-
न्नाय (स्वाहा) (क्रतवे) प्रज्ञायै कर्मणे वा (स्वाहा)
(स्वः) सुखाय (स्वाहा) (मूर्ध्ने) मस्तकशुद्धये स्वाहा)
(व्यश्नु विने) व्यापिने वीर्याय (स्वाहा) (आन्त्याय)
(स्वाहा) (आन्त्याय) अन्ते भवाय (भौवनाय) भुवने भवा-
य (स्वाहा) (भुवनस्य, पतये) सर्वजगत्स्वामिने (स्वाहा)
(अधिपतये) सर्वाधिष्ठात्रे (स्वाहा) (प्रजापतये) सर्वप्रजा
पालकाय (स्वाहा) ॥ ३२ ॥

अन्वयः— भो सनुष्यां यूयं वाजाय स्वाहा
प्रसवाय स्वाहाऽपिजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा स्वः स्वाहा
मूर्ध्ने स्वाहा व्यश्नु विने स्वाहाऽऽन्त्याय स्वाहाऽऽन्त्याय
भौवनाय स्वाहा भुवनस्य पतये स्वाहाऽधिपतये स्वाहा
प्रजापतये स्वाहा च सदा प्रयुञ्जीध्वम् ॥ ३२ ॥

भावार्थः—ये मनुष्या अन्नापत्यगृहप्रज्ञामूर्धादिशोधनेन सुखवर्द्धनाय सत्यां क्रियां कुर्वन्ति ते परमात्मानमुपास्य प्रजाऽधिपतयो भवन्ति ॥ ३२ ॥

पदार्थः— हे मनुष्यो तुम (वाजाय) अन्न के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (प्रसवाय) पदार्थों की उत्पत्ति करने के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (अपिजाय) घर के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (क्रतवे) बुद्धि वा कर्म के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (स्वः) अत्यन्त सुख के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (मूर्द्धने) शिर की शुद्धि होने के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (व्यश्नुविने) व्याप्त होने वाले बीज के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (आन्त्याय) व्यवहारों के अन्त में होने वाले व्यवहार के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया अन्त में होने वाले (भौवनाय) जो संसार में प्रसिद्ध होता उसके लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (भुवनस्य) संसार की (पतये) पालना करने वाले स्वामी के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (अधिपतये) सबके अधिष्ठाता अर्थात् सब पर जो एक शिक्षा देता है उसके लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया तथा (प्रजापतये) सब प्रजाजनों की पालना करने वाले के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया को सब कभी भली भाँति युक्त करो ॥ ३२ ॥

भावार्थः— जो मनुष्य अन्न, संतान, घर, बुद्धि और शिर, आदि के शोधन से सुख बढ़ाने के लिये सक्रिया को करते हैं वे परमात्मा की उपासना करके प्रजा के अधिक पालना करने वाले होते हैं ॥ ३२ ॥

आयुर्यज्ञेनेत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । आयुरादयो देवताः ।

प्रकृतिश्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

मनुष्यैः स्वकीयं सर्वं स्वं कस्यानुष्ठानाय समर्पणीयमित्याह ॥

मनुष्यों को अपना सर्वस्व अर्थात् सब पदार्थ समूह किस के अनुष्ठानके लिये भली भाँति अर्पण करना चाहिये इस वि० ॥

आयु र्यज्ञेन कल्पतां स्वाहा प्रा-
णो यज्ञेन कल्पतां स्वाहाऽपानो य-
ज्ञेन कल्पतां स्वाहा व्यानो यज्ञेन

कल्पतांश्चुस्वाहादानो यज्ञेन कल्पतांश्चु-
 स्वाहा समानो यज्ञेन कल्पतांश्चु
 स्वाहा चक्षुर्यज्ञेन कल्पतांश्चुस्वाहा
 श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतांश्चुस्वाहा वाग्य-
 ज्ञेन कल्पतांश्चुस्वाहा मनो यज्ञेन
 कल्पतांश्चुस्वाहाऽऽत्मा यज्ञेन कल्प-
 तांश्चुस्वाहा ब्रह्मा यज्ञेन कल्पांश्चु-
 स्वाहा ज्योतिर्यज्ञेन कल्पतांश्चुस्वा-
 हा स्वर्यज्ञेन कल्पतांश्चु स्वाहा पुष्टं
 यज्ञेन कल्पतांश्चुस्वाहा यज्ञो यज्ञे-
 न कल्पतांश्चुस्वाहा ॥ ३३ ॥

आयुः । यज्ञेन । कल्पताम् । स्वाहा । प्राणाः । यज्ञे-
 न । कल्पताम् । स्वाहा । अपानऽइत्यपऽआनः । यज्ञे-
 न । कल्पताम् । स्वाहा । व्यानऽइति विऽआनः । य-
 ज्ञेन । कल्पताम् । स्वाहा । उदानऽइत्युत्ऽआनः । य-
 ज्ञेन । कल्पताम् । स्वाहा । समानऽइति समऽआनः ।
 यज्ञेन । कल्पताम् । स्वाहा । चक्षुः । यज्ञेन । कल्पताम् ।
 स्वाहा । श्रोत्रम् । यज्ञेन । कल्पताम् । स्वाहा । वाग् ।
 यज्ञेन । कल्पताम् । स्वाहा । मनः । यज्ञेन । कल्पताम् । स्वाहा ।
 आत्मा यज्ञेन । कल्पताम् । स्वाहा । ब्रह्मा । यज्ञेन । कल्पताम् ।
 स्वाहा । ज्योतिः । यज्ञेन । कल्पताम् । स्वाहा । स्वरितिस्वः ।

यज्ञेन । कल्पताम् । स्वाहा । पृष्ठम् । यज्ञेन । कल्पताम् ।
स्वाहा । यज्ञः । यज्ञेन । कल्पताम् । स्वाहा ॥ ३३ ॥

पदार्थः—(आयुः) एति जीवनं येन तत् (यज्ञेन)
परमेश्वरस्य विदुषां च सत्करणेन संगतैः कर्मणा विद्या-
दिदानेन सह (कल्पताम्) समर्पयतु (स्वाहा) सत्क्रि-
यया (प्राणः) जीवनमूलो वायुः (यज्ञेन) योगाभ्या-
सादिना (कल्पताम्) (स्वाहा) (अपानः) अपानयति
दुःखं येन सः (यज्ञेन) (कल्पताम्) (स्वाहा) (व्या-
नः) सर्वसंधिषु व्याप्रश्रेष्ठानिमित्तः (यज्ञेन) (कल्पताम्)
(स्वाहा), (उदानः) उदानिति बलयति येन सः(यज्ञेन)
(कल्पताम्) (स्वाहा) (समानः) समानयति रसं
येन सः (यज्ञेन) (कल्पताम्) (स्वाहा) (चक्षुः)
नेत्रम् (यज्ञेन) (कल्पताम्) (स्वाहा) (श्रोत्रम्)
ज्ञानेन्द्रियाणामुपलक्षणम् (यज्ञेन) (कल्पताम्) (स्वा-
हा) (वाक्) कर्मेन्द्रियाणामुपलक्षणम् (यज्ञेन) (क-
ल्पताम्) (स्वाहा) (मनः) अन्तःकरणम् (यज्ञेन)
(कल्पताम्) (स्वाहा) (आत्मा) जीवः (यज्ञेन)
(कल्पताम्) (स्वाहा) (ब्रह्मा) चतुर्वेदवित् (यज्ञेन)
(कल्पताम्) (स्वाहा) (ज्योतिः) ज्ञानप्रकाशः (य-
ज्ञेन) (कल्पताम्) (स्वाहा) (स्वः) सुखम् (यज्ञेन)
(कल्पताम्) (स्वाहा) (पृष्ठम्) प्रश्नं शिष्टं च(यज्ञेन)
(कल्पताम्) (स्वाहा) (यज्ञः) व्यापकः परमेश्वरः ।
यज्ञो वै विष्णुः, इति शतपथे (यज्ञेन) परमात्मना (क-
ल्पताम्) (स्वाहा) ॥ ३३ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या युष्माभिरेवमेपितव्यमस्माकमा-
 युः स्वाहा यज्ञेन सह कल्पतां प्राणः स्वाहा यज्ञेन सह क-
 ल्पतामपानः स्वाहा यज्ञेन सह कल्पतां व्यानः स्वाहा यज्ञेन
 सह कल्पतामुदानः स्वाहा यज्ञेन सह कल्पतां समानस्वाहा
 यज्ञेन सह कल्पतां चक्षुः स्वाहा यज्ञेन सह कल्पतां श्रो-
 त्रं स्वाहा यज्ञेन सह कल्पतां वाक्स्वाहा यज्ञेन सह कल्प-
 तां मनः स्वाहा यज्ञेन साकं कल्पतामात्मा स्वाहा यज्ञेन सह
 कल्पतां ब्रह्मा स्वाहा यज्ञेन सह कल्पतां ज्योतिस्स्वाहा यज्ञेन
 सह कल्पतां स्वः स्वाहा यज्ञेन सह कल्पतां पृष्ठं स्वाहा
 यज्ञेन सह कल्पतां यज्ञः स्वाहा यज्ञेन सह कल्पतामिति ॥३३॥

भावार्थः—मनुष्यैर्यावज्जीवनं शरीरं प्राणा अन्तःक-
 रणमिन्द्रियाणि सर्वोत्तमा सामग्री च यज्ञाय विधेया येन
 निष्पापाः कृतकृत्या भूत्वा परमात्मानं प्राप्स्येहाऽमुत्र सुख-
 माम्नुयुः ॥ ३३ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो तुम को ऐसी इच्छा करना चाहिये कि हमारी
 (आयुः) आयु कि जिस से हम जीते हैं वह (स्वाहा) अच्छी क्रिया से (य-
 ज्ञेन) परमेश्वर और विद्वानों के सत्कार से मिले हुए कर्म और विश्वा आदि देने
 के साथ (कल्पताम्) समर्पित हो (प्राणः) जीवाने का मूल मुख्य कारण प-
 वन (स्वाहा) अच्छी क्रिया और (यज्ञेन) योगाभ्यास आदि के साथ (कल्प-
 ताम्) समर्पित हो (अपानः) जिस से दुःख को दूर करता है वह पवन (स्वा-
 हा) उत्तम क्रिया से (यज्ञेन) श्रेष्ठ काम के साथ (कल्पताम्) समर्पित हो
 (व्यानः) सब संधियों में व्याप्त अर्थात् शरीर को चलाने कर्म कराने आदि
 का जो निमित्त है वह पवन (स्वाहा) अच्छी क्रिया से (यज्ञेन) उत्तम काम
 के साथ (कल्पताम्) समर्पित हो (उदानः) जिस से बली होता है वह प-
 वन (स्वाहा) अच्छी क्रिया से (यज्ञेन) उत्तम कर्म के साथ (कल्पताम्)
 समर्पित हो (समानः) जिस से अंगर में अन्न पहुंचाया जाता है वह पवन

(स्वाहा) उत्तम क्रिया से (यज्ञेन) यज्ञ के साथ (कल्पताम्) समर्पित हो (चक्षुः) नेत्र (स्वाहा) उत्तम क्रिया से (यज्ञेन) सत्कर्म के साथ (कल्पताम्) समर्पित हो (श्रोत्रम्) कान् आदि इन्द्रियां जो कि पदार्थों का ज्ञान कराती हैं (स्वाहा) अक्षरी क्रिया से (यज्ञेन) सत्कर्म के साथ (कल्पताम्) समर्पित हों (वाक्) वाणी आदि कर्मेन्द्रियां (स्वाहा) उत्तम क्रिया से (यज्ञेन) अच्छे काम के साथ (कल्पताम्) समर्पित हों (मनः) मन अर्थात् अन्तःकरण (स्वाहा) उत्तम क्रिया से (यज्ञेन) सत्कर्म के साथ (कल्पताम्) समर्पित हो (आत्मा) जीव (स्वाहा) उत्तम क्रिया से (यज्ञेन) सत्कर्म के साथ (कल्पताम्) समर्पित हो (ब्रह्मा) चार वेदों के जानने वाला (स्वाहा) उत्तम क्रिया से (यज्ञेन) यज्ञादि सत्कर्म के साथ (कल्पताम्) समर्थ हो (ज्योतिः) ज्ञान का प्रकाश (स्वाहा) उत्तम क्रिया से (यज्ञेन) यज्ञ के साथ (कल्पताम्) समर्पित हो (स्वः) सुख (स्वाहा) उत्तम क्रिया से (यज्ञेन) यज्ञ के साथ (कल्पताम्) समर्पित हो (पृष्ठम्) पूछना वा जो बचा हुआ पदार्थ हो वह (स्वाहा) उत्तम क्रिया से (यज्ञेन) यज्ञ के साथ (कल्पताम्) समर्पित हो (यज्ञः) यज्ञ अर्थात् व्यापक परमात्मा (स्वाहा) उत्तम क्रिया से (यज्ञेन) अपने साथ (कल्पताम्) समर्पित हो ॥ ३३ ॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि जितना अपना जीवन शरीर प्राण, अन्तःकरण, दशो इन्द्रियां, और सब से उत्तम सामग्री हो उस को यज्ञ के लिये समर्पित करें जिस से पापरहित कृतकृत्य होके परमात्मा को प्राप्त हो कर इस जन्म और द्वितीय जन्म में सुख को प्राप्त हों ॥ ३३ ॥

एकस्माद्इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । यज्ञो देवता ।

भुरिगुष्णिक् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनः किमर्थो यज्ञोऽनुष्ठातव्य इत्याह ॥

फिर किस के अर्थ यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिये इस वि० ॥

एकस्मै स्वाहा द्वाभ्यां स्वाहा श्रु-
ताय स्वाहैकशताय स्वाहा युष्ट्यै
स्वाहा स्वर्गाय स्वाहा ॥ ३४ ॥

एकस्मै । स्वाहा । द्वाभ्याम् । स्वाहा । शताय । स्वाहा ।
 एकशतायेत्येकशताय । स्वाहा । व्युष्ट्याऽऽति वि-
 उष्ट्यै । स्वाहा । स्वर्गायेति स्वर्गाय । स्वाहा ॥३४॥

पदार्थः—(एकस्मै) अद्वितीयाय परमात्मने (स्वा-
 हा) सत्या क्रिया (द्वाभ्याम्) कार्यकारणाभ्याम् (स्वाहा)
 (शताय) असंख्याताय पदार्थाय (स्वाहा) (एकशताय)
 एकाधिकीय शताय (स्वाहा) (व्युष्ट्यै) प्रदीप्तायै दा-
 हक्रियायै (स्वाहा) (स्वर्गाय) सुखगमकाय पुरुषार्थाय
 (स्वाहा) ॥ ३४ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या युष्माभिरेकस्मै स्वाहा द्वाभ्यां
 स्वाहा शताय स्वाहैकशताय स्वाहा व्युष्ट्यै स्वाहा स्व-
 र्गाय स्वाहा च संप्रयोज्या ॥ ३४ ॥

भावार्थः—मनुष्यैर्भक्तिविशेषेणाऽद्वितीय ईश्वरः प्रेम-
 पुरुषार्थाभ्यामसंख्याता जीवाश्च प्रसन्नाः कार्थ्या येनाऽभ्यु-
 दयिकनैःश्रैयसिके सुखे प्राप्येतामिति ॥ ३४ ॥

अत्रायुर्वृद्ध्यग्नियज्ञगायत्र्यर्थसर्वपदार्थशोधनविधाना-
 दिवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वाध्यायोक्तार्थे न सह संगतिर्वेदाः ॥

पदार्थ—हे मनुष्यो तुम लोगों को—(एकस्मै) एक अद्वितीय परमा-
 त्मा के लिये (स्वाहा) सत्य क्रिया (द्वाभ्याम्) दो अर्थात् कार्य और कार-
 ण के लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया (शताय) अनेक पदार्थों के लिये (स्वाहा)
 उत्तम क्रिया (एकशताय) एक सौ एक व्यवहार वा पदार्थों के लिये (स्वाहा)
 उत्तम क्रिया (व्युष्ट्यै) प्रकाशित हुई पदार्थों को जलाने की क्रिया के लिये
 (स्वाहा) उत्तम क्रिया और (स्वर्गाय) सुख को प्राप्त होने के लिये (स्वाहा)
 उत्तम क्रिया भली भाँति युक्त करनी चाहिये ॥ ३४ ॥

भावार्थः— मनुष्यों को चाहिये कि विशेष भक्ति से जिसके समान दूसरा नहीं वह ईश्वर तथा प्रीति और पुरुषार्थ से असंख्य जीवों को प्रसन्न करें जिस से संसार का सुख और मोक्ष सुख प्राप्त होवे ॥ ३४ ॥

इस अध्याय में आयु, वृद्धि, अग्नि के गुण कर्म, यज्ञ, गायत्री मंत्र का अर्थ और सत्र पदार्थों के शोधने के विधान आदि का वर्णन होने से इस अध्याय के अर्थ की पिछिले अध्याय के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां श्रीमन्महाविदुषां

विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण श्रीमत्परमहंस

परिव्राजकाचार्येण श्रीमद्वयानन्दसर-

स्वतीस्वामिना विरचिते सं-

स्कृतार्यभाषाभ्यांविभू-

षितं यजुर्वेदभाष्ये

द्वाविंशोऽध्यायः

समाप्तः॥२२॥

अथ त्रयोविंशोऽध्यायारम्भः ॥

—०—:—०—

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परांसुव ।

यद्भद्रं तन्नत्रासुव ॥ १ ॥

हिरण्यगर्भेत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । परमेश्वरो

देवता । त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अथेश्वरः किं करोतीत्याह ॥

अब तेईसवें अध्याय का आरम्भ है उस के प्रथम
मंत्र में ईश्वर क्या करता है इस वि० ॥

हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य
जातः पतिरेक आसीत् । स दाधार
पृथिवीं द्यामतेसां कस्मै देवाय हविषा
विधेम ॥ १ ॥

हिरण्यगर्भः इति हिरण्यगर्भः । सम् । अवर्त्तत ।
अग्रे । भूतस्य । जातः । पतिः । एकः । आसीत् ।
सः । दाधार । पृथिवीम् । द्याम् । उत । इमाम् । कस्मै ।
देवाय । हविषा । विधेम ॥ १ ॥

पदार्थः—(हिरण्यगर्भः) हिरण्यानि सूर्यादीनि
ज्योतींषि गर्भं यस्य कारणरूपस्य सः (सम्)
सम्यक् (अवर्त्तत) (अग्रे) सृष्टेः प्राक् (भूत-
स्य) उत्पन्नस्य कार्यरूपस्य (जातः) प्रादुर्भूतः

(पतिः) स्वामी (एकः) असहायोऽद्वितीयेश्वरः (आसीत्) (सः) (दाधार) धृतवान् धरति धरिष्यति वा । अत्र तुजादीनामित्यभ्यांसदैर्घ्यम् (पृथिवीम्) विस्तीर्णा भूमिम् (द्याम्) सूर्यादिकां सृष्टिम् (उत्) (इमाम्) प्रत्यक्षात् (कस्मै) सुखस्वरूपाय (देवाय) सर्वसुखप्रदात्रे परमात्मने (हविषा) आत्मादिसर्वस्वदानेन (विधेम) परिचरेम सेवेमहि । विधेमेति परि चरणकर्मा० निघं० ३।४ ॥ १ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यो भूतस्य जगतोऽग्रे हिरण्यगर्भः समवर्त्तताऽस्य सर्वस्यैको जातः पतिरासीत्स इमां पृथिवीमुत् द्यां दाधार तस्मै कस्मै देवाय यथा वयं हविषा विधेम तथा यूयमपि विधत्त ॥ १ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—यदा सृष्टिः प्रलयं गत्वा प्रकृतिस्था भवति पुनरुत्पद्यते तस्या अग्रे य एकः परमात्मा जाग्रन् सन्भवति तदानीं सर्वे जीवा मूर्च्छिता इव भवन्ति स कल्पान्ते प्रकाशरहितां पृथिव्यादिरूपां प्रकाशसहितां सूर्यादिलोकप्रभृतिं सृष्टिं विधाय धृत्वा सर्वेषां कर्मानुकूलतया जन्मानिदत्वा सर्वेषां निर्वाहाय सर्वान्पदार्थान् विधत्ते स एव सर्वैरूपासनीयो देवोऽस्तीति वेदम् ॥ १ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (भूतस्य) उत्पन्न कार्यरूप जगत् के (अग्रे) पहिले (हिरण्यगर्भः) सूर्य चन्द्र तारे आदि ज्योतिर्गर्भरूप जिस के भीतर हैं वह सूर्य आदि कारणरूप पदार्थों में गर्भ के समान व्यापक स्तुति करने योग्य (समवर्त्तत) अच्छे प्रकार वर्त्तमान और इस सब जगत् का (एकः) एक ही (जातः) प्रसिद्ध (पतिः) पालना करने हारा (आसीत्) होता है (सः)

वह (इमाम्) इस (पृथिवीम्) विस्तारयुक्त पृथिवी (उत) और (ग्राम्) सूर्य आदि लोकों को रच के इन को (दाधार) तीनों काल में धारण करता है उस (कस्मै) सुखस्वरूप (देवाय) सुख देने हारे परमात्मा के लिये जैसे हमलोग (हविषा) सर्वस्वदान करके उस की (विधेम) परिचर्या संवत् करे वैसे तुम भी क्रिया करो ॥ १ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—जब सृष्टि प्रलय को प्राप्त हो कर प्रकृति में स्थिर होती है और फिर उत्पन्न होती है उस का आगे जो एक जागता हुआ परमात्मा वर्तमान रहता है तब सब जीव मूर्खा सी पाये हुए होते हैं वह कल्प के अन्त में प्रकाश रहित पृथिवी आदि सृष्टि तथा प्रकाश सहित सूर्य आदि लोकों की सृष्टि का विधान धारण और सब जीवों के कर्मों के अनुकूल जन्म दे कर सब के निर्वाह के लिये सब पदार्थों का विधान करता है वही सब को उपासना करने योग्य देव है यह जानना चाहिये ॥ १ ॥

उपयामगृहीत इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । परमेश्वरो
देवता । निचृदाकृतिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

उपयामगृहीतोऽसि प्रजापतये त्वा
जुष्टं गृह्णाम्येष ते योनिः सूर्यस्ते म-
हिमा यस्तेऽहन्त्संवत्सरे महिमा स-
म्बभूव यस्ते वायावन्तरिक्षे महिमा
सम्बभूव यस्ते दिवि सूर्य महिमा
सम्बभूव तस्मै ते महिम्न प्रजापतये
स्वाहा देवेभ्यः ॥ २ ॥

उपयामगृहीतऽहृत्युपयामऽगृहीतः । असि । प्रजापतयऽहृति प्र-
जाऽपतये । त्वा । जुष्टम् । गृह्णामि । एषः । ते । योनिः । सूर्यः ।
ते । महिमा । यः । ते । अहन् । संवत्सरे । महिमा । सम्बभूवेति-
सम्बभूव । यः । ते । वायौ । अन्तरिक्षे । महिमा । सम्बभूवेति ।
सम्बभूव । यः । ते । दिवि । सूर्ये । महिमा । सम्बभूवेति सम्-
बभूव । तस्मै । ते । महिम्ने । प्रजापतयऽहृति प्रजाऽपतये । स्वा-
हा । देवेभ्यः ॥ २

पदार्थः--(उपयामगृहीतः) यो यामैर्यमसम्बन्धिभिः कर्भभिरुपसमीपे गृ-
हीतः साक्षात्कृतः (असि) प्रजापालकायराज्ञे (त्वा) त्वाम् (जुष्टम्)
श्रीतं सेवितं वा (गृह्णामि) (एषः) (ते) तव (योनिः) जगत्कारणं प्रकृतिः
(सूर्यः) सवितृमण्डलम् (ते) तव (महिमा) माहात्म्यम् (यः) (ते) तव
(अहन्) दिने (संवत्सरे) वर्षे (महिमा) (सम्बभूव) सम्भूतोऽस्ति (यः)
(ते) (वायौ) (अन्तरिक्षे) (महिमा) (सम्बभूव) (यः) (ते) (दिवि)
त्रिशुति सूर्यप्रकाशे वा (सूर्ये) (महिमा) (सम्बभूव) (तस्मै) (ते) तुभ्यम्
(महिम्ने) महतो भावाय (प्रजापतये) प्रजापालकाय (स्वाहा) सक्रिया-
युक्ता प्रज्ञा (देवेभ्यः) विद्महे ॥ २ ॥

अन्वयः—हे भगवन् जगदीश्वर यस्त्वमुपयामगृहीतोऽसि तं जुष्टं त्वा
प्रजापतयेऽहं गृह्णामि यस्य ते वर्षे योनिरस्ति यस्ते सूर्यो महिमा यस्तेऽहन् सं-

वत्सरे महिमा सम्बभूव यस्ते वायावन्तरिक्षे महिमा सम्बभूव यस्ते दिवि सूर्ये
महिमा सम्बभूव तस्मै महिम्ने प्रजापतये ते देवेभ्यश्च स्वाहा सर्वैः संग्राह्या ॥२॥

भावार्थः—हे मनुष्या यस्य परमेश्वरस्येदं सर्वं जगन्महिमानं प्रकाशयति
तस्योपासनां विहायान्यस्य कस्य चित्तस्य स्थाने चोपासना नैव कार्या यः क-
श्चिद्भूयात्परमेश्वरस्य सत्त्वे किं प्रमाणमिति तं प्रति यदिदं जगद्वर्तते तत्सर्वं पर-
मेश्वरं प्रमाणपतीत्युत्तरं देयम् ॥ २ ॥

पदार्थः— हे भगवन् जगदीश्वर जो आप (उपयामगृहीतः) उस जो योगा-
भ्यास सम्बन्धी काम हैं उन से समीप में साक्षात् क्रिये अर्थात् हृदयाकाश में प्रगट
क्रिये हुए (असि) हैं उन (जुष्टम्) सेवा क्रिये हुए वा प्रसन्न क्रिये (त्वा) आप
को (प्रजापतये) प्रजापालन करने हारे राजा की रक्षा के लिये मैं (गृह्णामि) ग्रहण
करता हूँ जिन (ते) आप की (एषः) यह (योनिः) प्रकृति जगत् का कारण है
जो (ते) आप का (सूर्यः) सूर्यमण्डल (महिमा) बड़ाई रूप तथा (यः) जो (ते)
आप की (अहन्) दिन और (संवत्सरे) वर्ष में नियम बंधनद्वारा (महिमा) बड़ाई
(सम्बभूव) संभावित है (यः) जो (ते) आप की (वायौ) पवन और (अन्तरिक्षे)
अन्तरिक्ष में (महिमा) बड़ाई (सम्बभूव) प्रसिद्ध है तथा (यः) जो (ते) आप
की (दिवि) विजुली अर्थात् सूर्य आदि के प्रकाश और (सूर्ये) सूर्य में (महिमा) बड़ाई
(सम्बभूव) प्रत्यक्ष है (तस्मै) उस (महिम्ने, प्रजापतये) प्रजापालन रूप बड़ाई वाले (ते)
आप के लिये और (देवेभ्यः) विद्वानों के लिये (स्वाहा) उत्तम विद्यायुक्त बुद्धि सब
को ग्रहण करनी चाहिये ॥ २ ॥

भावार्थः—हे मनुष्यो जिस परमेश्वर के महिमा को यह सब जगत् प्रकाश करता
है उस परमेश्वर की उपासना को छोड़ और किसी की उपासना उस के स्थान में नहीं

करनी चाहिये और जो कोई कहे कि परमेश्वर के होने में क्या प्रमाण है उस के प्रति जो यह जगत् वर्तमान है सो सब परमेश्वर का प्रमाण कराता है यह उत्तर देना चाहिये ॥ २ ॥

यः प्राणत इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । परमेश्वरो
देवता । त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकऽइद्राजा ज-
गतो बभूव । य ईशेऽस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै
देवाय हविषा विधेम ॥ ३ ॥

यः । प्राणतः । निमिषतऽइति निमिषतः । महित्वेति महि-
त्वा । एकः । इत् । राजा । जगतः । बभूव । यः । ईशे । अस्य ।
द्विपदऽइतिद्विपदः । चतुष्पदः । चतुःपद इति चतुःपदः । कस्मै ।
देवाय । हविषा । विधेम ॥ ३ ॥

पदार्थः— (यः) परमात्मा (प्राणतः) प्राणिनः (निमिषतः) नेत्रा-
दिना चेषां कुर्वतः (महित्वा) स्वमहिम्ना (एकः) अद्वितीयोऽसहायः (इत्)
एव (राजा) अधिष्ठाता (जगतः) संसारस्य (बभूव) (यः) (ईशे) ई-
ष्टे (अस्य) (द्विपदः) मनुष्यादेः (चतुष्पदः) गवादेः (कस्मै) आनन्दरूपाय
(देवाय) कर्तव्याय (हविषा) भक्तिविशेषेण (विधेम) परिचरेम ॥ ३ ॥

अन्वयः— हे मनुष्या यथा वयं य एक इन्महित्वा निमिषतः प्राणतो
द्विपदश्चतुष्पदोऽस्य जगतो राजा बभूव योऽस्येश तस्मै कस्मै देवाय हविषा वि-
धेम तथाऽस्य भक्तिविशेषो भवद्विधेयः ॥ ३ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—हे मनुष्या य एक एव सर्वस्य जगतो महाराजाधिराजोऽग्विलजगन्निर्मातासकलैश्वर्ययुक्तो महात्मा न्यायाधीशोऽस्ति तस्यै-
वोपासनेन धर्मार्थकाममोक्षफलानि प्राप्य सर्वे भवन्तः सन्तुष्यन्तु ॥ १ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे हम लोग (यः) जो (एकः) एक (इत्) ही (म-
हित्वा) अपनी महिमा से (निमित्तः) नेत्र आदि से चेष्टा को करते हुए (प्राणतः)
प्राणी रूप (द्विपदः) दो पग वाले मनुष्य आदि वा (चतुष्पदः) चार पग वाले
गौ आदि पशुसंवन्धी इस (जगतः) संसार का (राजा) अधिष्ठाता (वभूव) होता
है और (यः) जो (अस्य) इस संसार का (ईशे) सर्वोपरिस्वामी है उस (कस्मै)
आनन्दस्वरूप (देवाय) अतिमनोहर परमेश्वर की (हविषा) विशेष भाव से भक्ति (वि-
धेग) सेवा करें वैसे विशेष भक्ति भाव आप लोगों को भी विधान करना चाहिये ॥ ३ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो जो एकही सब जगत्का महाराजा-
धिराज समस्त जगत् का उत्पन्न करने हारा सकल ऐश्वर्ययुक्त महात्मा न्यायाधीश है
उसी की उपासना से तुम सब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फलों को पाकर संतु-
ष्ट होओ ॥ ३ ॥

उपयामगृहीतइत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । परमेश्वरो देवता

विकृतिश्छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

पुनरतमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

उपयामगृहीतोऽसि प्रजापतये त्वा जुष्टं गृहणा-
म्येष ते योनिश्चन्द्रमास्ते महिमा । यस्ते
रात्रौ संवत्सरे महिमा सम्बभूव यस्ते पृथिव्या-
मग्नौ महिमा सम्बभूव यस्ते नक्षत्रेषु चन्द्रमसि

महिमा सम्बभूव तस्मै ते महिम्ने प्रजापतये
देवेभ्यः स्वाहा ॥ ४ ॥

उपयामगृहीतऽइत्युपयामऽ गृहीतः । असिः । प्रजापतयऽइतिप्रजा-
पतये । त्वा । जुष्टम् । गृह्णामि । एषः । ते । योनिः । चन्द्रमाः ।
ते । महिमा । यः । ते । रात्रौ । संबत्सरे । महिमा । सम्बभूवेति
सम्बभूव । यः । ते । पृथिव्याम् । अग्नौ । महिमा । सम्बभूवे-
ति सम्बभूव । यः । ते । नक्षत्रेषु । चन्द्रमसि । महिमा । सम्बभूवेति
सम्बभूव । तस्मै । ते । महिम्ने । प्रजापतयइतिप्रजापतये । देवे-
भ्यः । स्वाहा ॥ ४ ॥

पदार्थः— (उपयामगृहीतः) उपयामेन सत्कर्मणा योगाभ्यासेन गृहीतः
स्वीकृतः (असि) (प्रजापतये) प्रजापालकाय (त्वा) त्वाम् (जुष्टम्) से-
वितम् (गृह्णामि) (एषः) (ते) तव सृष्टौ (योनिः) जलम् । योनिरित्यु-
दकना० निघं० १ । १२ (चन्द्रमाः) चन्द्रलोकः (ते) तव (महिमा) (यः)
(ते) तव (रात्रौ) (संबत्सरे) (महिमा) (सम्बभूव) (यः) (ते) तव
(पृथिव्याम्) अन्तरिक्षे भूमौ वा (अग्नौ) विद्युति (महिमा) (संबभूव)
(यः) (ते) तव (नक्षत्रेषु) कारणरूपेण नाशरहितेषु लोकान्तरेषु (चन्द्र-
मसि) चन्द्रलोके (महिमा) (सम्बभूव) (तस्मै) (ते) तव (महिम्ने)
(प्रजापतये) (देवेभ्यः) (स्वाहा) सत्याचरणयुक्ता क्रिया ॥ ४ ॥

अन्वयः— हे जगदीश्वर यस्त्वमुपयामगृहीतोऽसि तं त्वा जुष्टं प्रजापतये
 ऽहं गृह्णामि यस्य ते सृष्टोवप योनिर्जलं यस्य ते सृष्टौ चन्द्रमा महिमा यस्य ते
 यो रात्रौ संवत्सरे महिमा च सम्बभूव यस्ते सृष्टौ पृथिव्यामग्नौ महिमा सम्बभूव
 यस्य ते सृष्टौ यो नक्षत्रेषु चन्द्रमसि च महिमा सम्बभूव तस्य ते तस्मै महिम्ने
 प्रजापतये देवेभ्यश्च स्वाहाऽस्माभिरनुष्ठेया ॥ ४ ॥

भावार्थः— हे मनुष्या यस्य महिम्ना सामर्थ्येन सर्वं जगद्विराजते यस्यान-
 न्तो महिमास्ति यस्य सिद्धौ रचनाविशिष्टं सर्वं जगद्विद्यन्तमस्ति तमेव सर्वं
 मनुष्या उपासीरन् ॥ ४ ॥

पदार्थः— हे जनदीश्वर जो आप (उपयामगृहीतः) सकर्म अर्थात् योगान्यास
 आदि उत्तम काम से स्वीकार किये हुए (असि) हो उन (त्वा, जुष्टम्) सेवा किये
 हुए आप को (प्रजापतये) प्रजा की पालना करने वाले राजा की रक्षा के लिये मैं
 (गृह्णामि) ग्रहण करता अर्थात् मनमें धरता हूँ जिन (ते) आप के संसार में (यः)
 यह (योनिः) जल वा जिन (ते) आप का संसार में (चन्द्रमाः) चन्द्रलोक
 (महिमा) वडप्पन वा जिन (ते) आप का (यः) जो (रात्रौ) रात्रि और
 (संवत्सरे) वर्ष में (महिमा) वडप्पन (सम्बभूव) सम्भव हुआ होता और होगा
 (यः) जो (ते) आप की सृष्टि में (पृथिव्याम्) अन्तरिक्ष वा भूमि और (अग्नौ)
 आग में (महिमा) वडप्पन (सम्बभूव) सम्भव हुआ होता और होगा तथा जिन
 (ते) आप सृष्टि में (यः) जो (नक्षत्रेषु) कारण रूप से विनाश को न प्राप्त होने
 वाले लोक लोकान्तरों में और (चन्द्रमसि) चन्द्रलोक में (महिमा) वडप्पन (सम्ब-
 भूव) सम्भव हुआ होता और होगा उन (ते) आप (तस्मै) उस (महिम्ने) वडप्पन
 (प्रजापतये) प्रजापालने हारे राजा (देवेभ्यः) और विद्वानों के लिये (स्वाहा) सत्या
 अरण्य युक्त क्रिया का हम लोगों को अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ४ ॥

भावार्थः—हे मनुष्यो जिस के महिमा सामर्थ्य से सब जगत् विराजमान जिस-का अनन्त महिमा और जिस की सिद्धि करने में रचना से भरा हुआ समस्त जगत् दृष्टान्त है उसी की सब मनुष्य उपासना करें ॥ ४ ॥

युञ्जन्तीत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । परमेश्वरो देवता ।

गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

पुनरीश्वरः कीदृशोऽस्तीत्याह ॥

फिर ईश्वर कैसा है इस वि० ॥

**युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तम्परि तस्थुषः ।
रोचन्ते रोचना दिवि ॥ ५ ॥**

युञ्जन्ति । ब्रध्नम् । अरुषम् । चरन्तम् । परि । तस्थुषः । रो-
चन्ते । रोचनाः । दिवि ॥ ५ ॥

पदार्थः—(युञ्जन्ति) युक्तं कुर्वन्ति (ब्रध्नम्) महान्तम् (अरुषम्)
अरुःषु मर्मसु सीदन्तम् (चरन्तम्) प्राप्नुवन्तम् (परि) सर्वतः (तस्थुषः)
स्थावरान् (रोचन्ते) प्रकाशन्ते (रोचनाः) दीप्तयः (दिवि) ॥ ५ ॥

अन्वयः—ये परितस्थुषश्चरन्तं विद्युत् मिव वर्तमानमरुषं ब्रध्नम्पर-
मात्मानमात्मना सह युञ्जन्ति ते दिवि सूर्ये रोचनाः किरणा इव रोचन्ते ॥५॥

भावार्थः—हे मनुष्या यथा प्रतिब्रह्माण्डे सूर्यः प्रकाशते तथा सर्वस्मिन्
जगति परमात्मा प्रकाशते ये योगाभ्यासेनाऽन्तर्यामिणं परमात्मानं स्वमात्मना
युञ्जते ते सर्वतः प्रकाशिता जायन्ते ॥ ५ ॥

पदार्थः—जो पुरुष (परि) सब ओर से (तस्थुषः) स्थावर जीवों को (चर-

न्तम्) प्राप्त होते हुए विजुली के समान वर्तमान (अरूपम्) प्राणियों के मर्मस्थल जिन में पीड़ा होने से प्राण का वियोग शीघ्र हो जाता है उन स्थानों की रक्षा करने के लिये स्थिर होते हुए (ब्रध्नन्) सब से बड़े सर्वोपरि विराजमान परमात्मा को अपने आत्मा के साथ (युञ्जन्ति) युक्त करते हैं वे (दिवि) सूर्य में (रोचनाः) किरणों के समान (रोचन्ते) परमात्मा में प्रकाशमान होते हैं ॥ ५ ॥

भावार्थः—हे मनुष्यो जैसे प्रत्येक ब्रह्माण्ड में सूर्य प्रकाशमान है वैसे सर्व जगत् में परमात्मा प्रकाशमान है जो योगाभ्यास से उस अन्तर्यामि परमेश्वर को अपने आत्मा से युक्त करते हैं वे सब ओर से प्रकाश को प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥

युञ्जन्त्यस्येति प्रजापतिर्भ्राषिः । सूर्यो देवता । विराट्-
गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

अथ केनेश्वरः प्राप्तव्यइत्याह ॥

अब किस से ईश्वर की प्राप्ति होने योग्य है इस वि० ॥

**युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षमा रथे । शो-
णाधृष्णू नृवाहसा ॥ ६ ॥**

युञ्जन्ति । अस्य । काम्या । हरीऽहति हरी । विपक्षसन्ति वि-
पक्षसा । रथे । शोणा । धृष्णूऽहति धृष्णू । नृवाहसेति नृऽवाहसा ॥ ६ ॥

पदार्थः—(युञ्जन्ति) अस्य जीवस्य (काम्या) कम्पीयौ (हरी)
हरणशीलौ (विपक्षसा) विविधैः परिगृहीतौ (रथे) याने (शोणा) रक्तगु
चिशिष्टौ (धृष्णू) दृढौ (नृवाहसा) नृणां वाहकौ ॥ ६ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यथा शिक्षकाः काम्या हरी विपक्षसा शोणा धृष्णू
नृवाहसा रथे युञ्जन्ति तथा योगिनोऽस्य परमेश्वरस्य मध्य इन्द्रियाणि मनः
प्राणैश्च युञ्जन्ति ॥ ६ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—यथा मनुष्याः मुशिक्षितैर्द्वैयुक्तेन यानेन स्था-
नान्तरं सद्यः प्राप्नुवन्ति तथैव विद्यासत्सङ्गयोगाभ्यासैः परमात्मानं क्षिप्रं
प्राप्नुवन्ति ॥ ६ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे शिक्षा करने वाले सज्जन (काम्या) मनोहर (हरी-
ले जाने हारे (विपक्षसा) जोकि विविध प्रकारों से भली भांति ग्रहण किये हुए
(शोणा) लाल रंग से युक्त (धृष्णू) अतिपुष्ट (नृवाहसा) मनुष्यों को एक देश
से दूसरे देश को पहुंचाने हारे दो घोड़ों को (रथे) रथ में (युञ्जन्ति) जोड़ते हैं
वैसे योगीजन (अस्य) इस परमेश्वर के बीच इन्द्रियां अन्तःकरण और प्राणों को
युक्त करते हैं ॥ ६ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे मनुष्य अच्छे सिखाये हुए घोड़ों से
युक्त रथ से एक स्थान से दूसरे स्थान को शीघ्र प्राप्त होते हैं वैसे ही विद्या सज्जनों का
संग और योगाभ्यास से परमात्मा को शीघ्र प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥

यद्वाप्त इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । इन्द्रो देवता ।

निचृद्बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

पुनर्मनुष्यः कस्य संगं कुर्यादित्याह ॥

फिर मनुष्य किसका संग करे इस वि० ॥

यद्वातोऽश्रपोऽग्रगनीगन्ध्रियामिन्द्रस्य तन्वम् ।

एतस्त्वोत्तरेण पथा पुनरश्वमा वर्त्तयासि नः ॥७॥

यत् । वातः । अपः । अग्नीगन् । प्रियाम् । इन्द्रस्य । तन्वम् । एतम् ।
स्तोतः । अनेन । पथा । पुनः । अश्वम् । आ । वर्त्तयासि । नः ॥ ७ ॥

पदार्थः—(यत्) यं कलायन्त्राश्वम् (वातः) वायुः (अपः) जलानि
(अग्नीगन्) प्राप्नुवन्ति (प्रियाम्) कर्मानुष्ठानम् (इन्द्रस्य) विद्युतः (तन्वम्)
विस्तृतं शरीरम् (एतम्) (स्तोतः) स्तावक (अनेन) (पथा) मार्गेण (पु-
नः) (अश्वम्) आशुगामिनम् - (आ) (वर्त्तयासि) वर्त्तयेः (नः)
अस्मान् ॥ ७ ॥

अन्वयः—हे स्तोतर्यथा शिल्पिजना इन्द्रस्य प्रियां तन्वं वात इव प्राप्य य-
द्यमपोऽग्नीगँस्तथैतमश्वमनेन पथा त्वं प्राप्नोषि पुनर्नोस्मानावर्त्तयासि तं भवन्तं
वयं सत्कुर्याम ॥ ७ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—हे मनुष्या ये युष्मान् सुमार्गेण गमयन्ति
तत्सङ्गेन यूयं वायुविद्युदादिविद्यां प्राप्नुत ॥ ७ ॥

पदार्थः—हे (स्तोतः) स्तुति करने हारे जन जैसे शिल्पी लोग (इन्द्रस्य) विजु-
ली के (प्रियाम्) अतिमुन्दर (तन्वम्) विस्तारयुक्त शरीर को (वातः) पवन के
समान पा कर (यत्) जिस कलायन्त्र रूपी घोड़े और (अपः) जलों को (अग्नीगन्)
प्राप्त होते हैं वैसे (एतम्) इस (अश्वम्) शीघ्र चलने हारे कलायन्त्र रूप घोड़े को
(अनेन) उक्त विजुली रूप (पथा) मार्ग से आप प्राप्त होते । पुनः) फिर (नः)
हमलोगों को (आ, वर्त्तयासि) भली भाँति वर्त्तते अर्थात् इधर उधर लेजाते हो उन
आप का हम लोग स्तुकार करें ॥ ७ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यों जो तुम को अच्छे मार्ग से चलाते
हैं उन के संग से तुम लोग पवन और विजुली आदि की विद्या को प्राप्त होओ ॥ ७ ॥

वसवइत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः वाय्वादयो देवताः ।

अत्यष्टिशब्दः । गांधारः स्वरः ॥

पुनर्विद्वांसः किं कुर्वन्तीत्याह ॥

किं विद्वान् लोग क्या करते हैं इत वि० ॥

वसवस्त्वाञ्जन्तु गायत्रेणा छन्दसा रुद्रास्त्वा-
ञ्जन्तु त्रैष्टुभेन छन्दसादित्यास्त्वाञ्जन्तु जागतेन
छन्दसा । भूर्भुवः स्वर्लाजीश्चाचीश्चन्यव्येगव्यं
एतदन्नमत्त देवा एतदन्नमद्धि प्रजापते ॥ ८ ॥

वसवः । त्वा । अञ्जन्तु । गायत्रेण । छन्दसा । रुद्राः । त्वा ।
अञ्जन्तु । त्रैष्टुभेन । त्रैस्तुभेनेति त्रैस्तुभेन । छन्दसा । आदि-
त्याः । त्वा । अञ्जन्तु । जागतेन । छन्दसा । भूः । भुवः । स्वः ।
लाजीश्च । शाचीश्च । व्ये । गव्ये । एतत् । अन्नम् । अत्त ।
देवाः । एतत् । अन्नम् । अद्धि । प्रजापतः इति प्रजापते ॥ ८ ॥

पदार्थः--(वसवः) प्रथमकल्पा विद्वांसः (त्वा) त्वाम् (अञ्जन्तु)
कामयन्ताम् (गायत्रेण) गायत्रीछन्दोवाच्येन (छन्दसा) अर्थेन (रुद्राः)
मध्यमकल्पा विद्वांसः (त्वा) त्वाम् (अञ्जन्तु) (त्रैष्टुभेन) त्रैष्टुभप्रकाशिते-
नार्थेन (छन्दसा) (आदित्याः) उत्तमा विद्वांसः (त्वा) (अञ्जन्तु)
(जागतेन) जगतीछन्दः प्रकाशितेनार्थेन (छन्दसा) स्वच्छन्देन (भूः) इमं
लोकम् (भुवः) अन्तरिक्षस्थान् (स्वः) प्रकाशस्थान् लोकान् (लाजीन्)

स्वस्वकक्षायां चलितान् (शाचीन्) व्यक्तान् (यव्ये) यवानां भवने क्षेत्रे जा-
तम् (गव्ये) गोर्विकारे (एतत्) अन्नम्) (अन्न) भक्षयत (देवाः) विद्वांसः
(एतत्) (अन्नम्) (अद्धि) भुङ्क्ष्व (प्रजापते) प्रजागृहक ॥ ८ ॥

अन्वयः--हे प्रजापते वसवो गायत्रेण छन्दसा यन्त्वाऽञ्जन्तु रुद्रास्त्रिष्टु-
भेन छन्दसा यन्त्वाऽञ्जन्त्वादित्या जागतेन छन्दसायन्त्वाऽञ्जन्तु स त्वमेतद-
न्नमद्धि । हे देवा यूयं यव्ये गव्ये एतदन्नप्रत्त लाजीन् शाचीन् भूर्भुवः स्वर्लोकान्
प्राप्नुत च ॥ ८ ॥

भावार्थः--ये विद्वांसः साङ्गोपाङ्गान् वेदान् मनुष्यान्ध्यापयन्ति ते धन्द-
वादार्हा भवन्ति ॥ ८ ॥

पदार्थः--हे (प्रजापते) प्रजाजनों को पालने हारे राजन् (वसवः) प्रथम
कक्षा के विद्वान् (गायत्रेण) गायत्री छन्द से कहने योग्य (छन्दसा) स्वच्छन्द अर्थ
से जिन (त्वाम्) आप को (अञ्जन्तु) चाहें (रुद्राः) मध्यम कक्षा के विद्वान् जन
(त्रैष्टुभेन) त्रिष्टुप् छन्द से प्रकार किये हुए (छन्दसा) स्वच्छन्द अर्थ से जिन(त्वा)
आप को (अञ्जन्तु) चाहें वा आदित्याः) उत्तम कक्षा के विद्वान् जन (जागतेन)
जगती छन्द से प्रकाशित किये हुए (छन्दसा) स्वच्छन्द अर्थ से जिन (त्वा) आप
को (अञ्जन्तु) चाहें सो आप (एतत्) इस (अन्नम्) अन्न को (अद्धि) खाइये
हे (देवाः) विद्वानो-तुम (यव्ये) यवों के खेत में उत्पन्न (गव्ये) गौ के दूध दही
आदि उत्तम पदार्थ में मिले हुए (एतम्) इस (अन्नम्) अन्न को (अन्न) खाओ
तथा (लाजीन्) अपनी २ कक्षा में चलते हुए (शाचीन्) प्रगट (भूः) इस प्रत्य-
क्ष लोक (भुवः) अन्तरिक्षस्थ लोक और (स्वः) प्रकार में स्थिर सूर्यादि लोकों को
प्राप्त होओ ॥ ८ ॥

भावार्थः---जो विद्वान् जन अंगों और उपांगों (अंगों के अंगों) से युक्त चारों वेदों को मनुष्यों को पढ़ाते हैं वे धन्यवाद के योग्य होते हैं ॥ ८ ॥

कः स्वित्सस्य प्रजापतिर्ऋषिः । जिज्ञासुर्देवता ।
निचृदत्यष्टिश्छदः । गान्धारः स्वरः ॥

अथ विद्वांसः किं किं प्रष्टव्या इत्याह ॥

अथ विद्वान् जनों को क्या क्या पूछना चाहिये इस वि० ॥

**कः स्वित्देकाकी चरति क उ स्वित्जायते पुनः ।
किं स्वित्द्विमस्य भेषजं किम्वावपनं महत् ॥६॥**

कः । स्वित् । एकाकी । चरति । कः । ऊँऽहत्थ्यू । स्वित् । जायते ।
पुनरिति पुनः । किम् । स्वित् । द्विमस्यं । भेषजम् । किम् । ऊँऽह-
त्थ्यू । आवपनमित्याऽवपनम् । महत् ॥ ६ ॥

पदार्थः---(कः) (स्वित्) प्रश्ने (एकाकी) असहायः (चरति)
गच्छति (कः) (उ) वितर्के (स्वित्) (जायते) (पुनः) (किम्)
(स्वित्) (द्विमस्य) शीतस्य (भेषजम्) औषधम् (किम्) (उ) (आव-
पनम्) समन्ताद्वपति यस्मिस्तत् (महत्) विस्तीर्णम् ॥ ६ ॥

अन्वयः---हे विद्वांसो वयं युष्मान् कः स्वित्देकाकी चरति क उ स्वित्
पुनः पुनर्जायते किं स्वित्द्विमस्य भेषजं किम् महदावपनमस्तीति पृच्छामः ॥ ६ ॥

भावार्थः---एतेषां प्रश्नानामुत्तरस्मिन्मन्त्र उत्तराणि कथितानीति वेद्यम् ।
मनुष्या ईदृशानेव प्रश्नान्कुर्युः ॥ ६ ॥

पदार्थः—हे विद्वानो हम लोग तुम को यह पूछते हैं कि (कः, स्वित्)
 कौन (एकाकी) एका एकी अकेला (चरति) विचरता है (उ) और (कः, स्वित्)
 कौन (पुनः) बार २ (जायते) प्रगट होता है (हिं, स्वित्) क्या (हिमस्य) शीत
 का (भेषजम्) औषध और (हिम्) क्या (उ) तो (महत्) बड़ा (आवपनम्)
 बीज बोने का स्थान है ॥ ९ ॥

भावार्थः—इन उक्त प्रश्नों के उत्तर अगले मंत्र में कहे हुए हैं यह जानना
 चाहिये । मनुष्यों को योग्य है कि सदा इसी प्रकार के प्रश्न किया करें ॥ ९ ॥

सूर्यइत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । सूर्यो देवता

अनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

अथ पूर्वोक्तप्रश्नानामुत्तराग्याह ॥

अब पिछिले मंत्र में कहे प्रश्नों के उत्तरों को कहते हैं ॥

सूर्यं एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः ।

अग्निहिमस्य भेषजं भूमिंरावपनं महत् ॥१०॥

सूर्यः । एकाकी । चरति । चन्द्रमाः । जायते । पुनरितिऽपुनः ।

अग्निः । हिमस्य । भेषजम् । भूमिः । आवपनमित्यावपनम् ।

महत् ॥ १० ॥

पदार्थः—(सूर्यः) सविता (एकाकी) (चरति) (चन्द्रमाः) चन्द्र
 लोकः (जायते) (पुनः) (अग्निः) पायकः (हिमस्य) (भेषजम्) (भू
 मिः) (आवपनम्) (महत्) ॥ १० ॥

अन्वयः—हे जिज्ञासुत्रो मनुष्याः सूर्य्य एकाकी चरति पुनश्चन्द्रमाः प्रकाशिनो जायते । अग्निर्हिमस्य भेषजं भूमिर्महदावपनमरतीति यूयं विस्त ॥१०॥

भावार्थः—अस्मिन् संसारे सूर्य्यः स्वाकर्षणेन स्वस्यैव कक्षायां वर्तते तस्यैव प्रकाशेन चन्द्रादयो लोकाः प्रकाशिता भवन्ति । आग्नेना तुल्यं शीतान्वा-
रकं वस्तु पृथिव्या तुल्यं महत् क्षेत्रं किमपि नास्तीति मनुष्यैर्वेदितव्यम् ॥ १० ॥

पदार्थः—हे जानने की इच्छा करने वाले मनुष्यो (सूर्य्यः) सूर्य्य (एकाकी) विना सहाय अपनी कक्षा में (चरति) चलता है (पुनः) फिर इसी सूर्य्य के प्रकाश से (चन्द्रमाः) चन्द्रलोक (जायते) प्रकाशित होता है (अग्निः) आग (हिमस्य) शीत का (भेषजम्) औषध (भूमिः) पृथिवी (महत्) बड़ा (आवपनम्) बने का स्थान है इस को तुम लोग जानो ॥ १० ॥

भावार्थः—इस संसार में सूर्य्य लोक अपनी आकर्षण शक्ति से अपनी ही कक्षा में वर्तमान है और उसी के प्रकाश से चन्द्र आदि लोक प्रकाशित होते हैं अग्नि के समान शीत के हटाने को कोई वस्तु और पृथिवी के तुल्य बड़ा पदार्थों के बने का स्थान नहीं है यह मनुष्यों को जानना चाहिये ॥ १० ॥

कास्विदित्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । जिज्ञासुर्देवता ।

अनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनः प्रश्नानाह ॥

फिर प्रश्नों को अगले मंत्र में कहते हैं ॥

का स्विदासीत्पूर्वचित्तिः किंस्विदासीद्बृहद-
र्यः । का स्विदासीत्पिपिलिपिला का स्विदासी-
त्पिशङ्गिला ॥ ११ ॥

का । स्वित् । आसीत् । पूर्वचित्तिरिति पूर्वचित्तिः । किम् ।
स्वित् । आसीत् । बृहत् । वयः । का । स्वित् । आसीत् । पिलिप्पि-
ला । का । स्वित् । आसीत् । पिशङ्गिला ॥ ११ ॥

पदार्थः--(का) (स्वित्) (आसीत्) अस्ति (पूर्वचित्तिः) पूर्वा चा
सौ चित्तिः प्रथमा स्मृतिविषया (किम्) (स्वित्) (आसीत्) (बृहत्) महत् (वयः)
यो वेति गच्छति स पत्नी (का) (स्वित्) (आसीत्) (पिलिप्पिला) आर्द्राभूता
चिकणा शोभना । श्रीवै पिलिप्पिला श० १३ । २ । ६ । १६ । (का)
(स्वित्) (आसीत्) (पिशङ्गिला) या पिशं प्रकाशरूपं गिलति सा ।
पिशमिति रूपनाम ॥ ११ ॥

अन्वयः--हे विद्वांसो वयं युष्मान् प्रति कास्वित्पूर्वाचित्तिगर्सात्किस्वि-
त्बृहद्वय आसीत्का स्वित्पिलिप्पिलाऽऽसीत्कास्वित्पिशङ्गिलाऽऽसीदिति पृ-
च्छामः ॥ ११ ॥

भावार्थः--इनेषामुत्तराण्युत्तरत्र मंत्रं सन्ति यदि विदुषः प्रति प्रश्नान्न
कुर्युस्तर्हि विद्वांसोऽपि न भवेयुः ॥ ११ ॥

पदार्थः--हे विद्वानो हम लोग तुम्हारे प्रति पूछते हैं कि (का, स्वित्) कौन (पृ-
र्वचित्तिः) स्मरण का प्रथम पहिला विषय (आसीत्) हुआ है (किं, स्वित्) कौन
(बृहत्) बड़ा (वयः) उड़ने हारा पत्नी (आसीत्) है (का, स्वित्) कौन (पिलि-
प्पिला) पिलिपिली चिकनी वस्तु (आसीत्) तथा (का, स्वित्) कौन (पिशङ्गिला) प्रका-
श रूप को निगल जाने वाली वस्तु है ॥ ११ ॥

भावार्थः--इन प्रश्नों के उत्तर अगले मंत्र में हैं जो विद्वानों के प्रति न पूछें
तो आप विद्वान् भी न हों ॥ ११ ॥

घौरासीदित्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । विद्युदादयो देवताः ।

निवृद्धनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

अथ प्राक्प्रश्नोत्तराण्याह ॥

अथ पिङ्गले मश्रो के उत्तरों को कहते हैं ॥

घौरासीत्पूर्वचित्तिरश्व आसीद्बृहद्वयः । अवि-
रासीत्पिलिप्पिला रात्रिरासीत्पिशङ्गिला ॥१२॥

घौः । आसीत् । पूर्वचित्तिरिति पूर्वचित्तिः । अश्वः । आसीत् ।
बृहत् । वयः । अविः । आसीत् । पिलिप्पिला । रात्रिः । आसीत् ।
पिशङ्गिला ॥ १२ ॥

पदार्थः--(घौः) द्विव्यगुणप्रदा वृष्टिः । अश्वे वृष्टिः । शत० कां०
१३।२।६।१४ (आसीत्) अस्ति (पूर्वचित्तिः) प्रथमस्मृतिविषया (अश्वः) योऽश्नुते
मार्गान् सोऽग्निः (आसीत्) (बृहत्) महत् (वयः) यो वेति गच्छति सः
(अविः) रक्षणादिकर्त्री पृथिवी (आसीत्) (पिलिप्पिला) (रात्रिः)
(आसीत्) (पिशङ्गिला) ॥ १२ ॥

अन्वयः--हे जिज्ञासवः पूर्वचित्तिघौरासीद्बृहद्वयोऽश्व आसीत् पिलि-
प्पिलाऽत्रिरासीत्पिशङ्गिला रात्रिरासीदिति यूयं बुध्यध्वम् ॥ १२ ॥

भावार्थः--हवनसूर्यरूपाद्यग्नितापेन सर्वगुणसंपन्नाऽन्नादिना संसारस्थि-
तिनिमित्ता वृष्टिर्जायते ततः सर्वरत्नाढ्या भूर्भवति । सूर्याग्निनिमित्तेनैव प्राणिनां
शयनाय रात्रिर्जायते ॥ १२ ॥

पदार्थः—हे जानने की इच्छा करने वालो (पूर्वचित्तिः) प्रथम स्मृति का विषय (द्यौः) दिव्यगुण देने हारी वर्षा (आसीत्) है (वृहत्) बड़े (वयः) उड़ने हारे (अश्वः) मार्गों को व्याप्त होने वाले पक्षी के तुल्य अग्नि (आसीत्) है (पिलिपिला) वर्षा से पिलिपिली चिकनी शोभायमान (अविः) अन्नादि से रक्षा आदि उत्तमगुण प्रगट करने वाली पृथिवी (आसीत्) है और (पिशंगिला) प्रकाशरूप को निगलने अर्थात् अन्धकार करने हारी (रात्रिः) रात (आसीत्) है यह तुम जानो ॥१२॥

भावार्थः—हवन और सूर्य रूपादि अग्नि के ताप से सब गुणों से युक्त अन्नादि से संसार की स्थिति करने वाली वर्षा होती है उस वर्षा से सब ओषधि आदि उत्तम पदार्थ युक्त पृथिवी होती और सूर्य रूप अग्नि से ही प्राणियों के विश्राम के लिये रात्रि होती है ॥१२॥

वायुरित्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । ब्रह्मादयो देवताः ।

भुरिगतिजगती छन्दः । निपादः स्वरः ।

अथ विद्वद्विर्मनुष्याः क्व योजनीयाइत्याह ॥

अब विद्वानों को मनुष्य कहां युक्त करने चाहिये इस वि० ॥

वायुष्ट्वां पचतैरवत्वसितग्रीवश्छागैर्न्यग्रोधंश्च-
मसैः शल्मलिर्वृध्या । एष स्य राथ्यो वृषां पद्भि-
श्चतुर्भिरेदंगन्ब्रह्माकृष्णाश्च नोऽवतु नमोऽ-
ग्नये ॥ १३ ॥

वायुः । त्वा । पचतैः । अवतु । असितग्रीवः । इत्यसितः । ग्रीवः ।
छागैः । न्यग्रोधः । चमसैः । शल्मलिः । वृध्या । एषः । स्यः । राथ्यः ।
वृषां । पद्भिरिति पद्भिः । चतुर्भिरिति चतुः । ऽभिः । आ ।
इत् । अगन् । ब्रह्मा । अकृष्णाः । च । नः । अवतु । नमः । अग्नये
॥ १३ ॥

पदार्थः—(वायुः) आदिमः स्थूलः कार्यरूपः (त्वा) त्वाम् (पचतैः) प-
रिपाकपरिणामैः (अवतु) रक्तु (असितग्रीवः) असिता कृष्णा ग्रीवा शिखा
यस्य सः (छागैः) छेदनैः (न्यग्रोधः) वटः (चमसैः) मेघैः (शल्मलिः)
वृक्षाविशेषः (वृध्या) वर्द्धनेन (एषः) (स्यः) सः (राथ्यः) रथेषु हिता र-
थ्यास्तासु कुशलः (वृषा) वर्षकः (पद्भिः) पादैः । अत्र वर्णव्यख्येन दस्य
दः (चतुर्भिः) (आ) (इत्) एवं (अगन्) गच्छति (ब्रह्मा) चतुर्वेदवित्
(अकृष्णः) अविद्यान्धकारराहितः (च) (नः) अस्मान् (अवतु) प्रवेशयतु
(नमः) अन्नम् (अग्नये) प्रकाशमानाय विदुषे ॥ १३ ॥

अन्वयः—हे विद्यार्थिन् पचतैर्वायुश्लेष्मैरसितग्रीवश्चमसैर्न्यग्रोधो वृद्ध्या
शल्मलिस्त्वावतु य एष राथ्यो वृषा स्य चतुर्भिः पद्भिरित्त्वाऽगन् योऽकृष्णो
ब्रह्मा च नोऽस्मानवतु तस्मात्प्रग्नये विद्यया प्रकाशमानाय नमो देयम् ॥ १३ ॥

भावार्थः—हे मनुष्या वायुः प्राणनोऽग्निपाचनेन सूर्यो वृष्ट्या वृक्षाः फ-
लादिभिरश्वादयो गत्या विद्वांसः शिक्त्या युष्मान् रक्षन्ति तान् यूयं विजानीत विदु-
पस्सत्कुरुत च ॥ १३ ॥

पदार्थः—हे विद्यार्थी जन (पचतैः) अच्छे प्रकार पाकों से (वायुः) स्थूल कार्य-
रूप पवन (छागैः) काटने की क्रियाओं से (असितग्रीवः) काली चौटियों वाला अग्नि
और (चमसैः) मेघों से (न्यग्रोधः) वट वृक्ष (वृध्या) उन्नति के साथ (शल्मलिः)
सेंबरवृक्ष (वा) तुम्हें को (अवतु) पाले जो (एषः) यह (राथ्यः) सड़कों में चलने

में कुशल और (वृषा) सुखों की वर्षा करने हारा है (स्यः) वह (चतुर्भिः, पद्भिः, इत्) जिन से गमन करता है उन चारों पगों से तुझ को (आऽगन्) प्राप्त हो (च) तथा जो (अकृष्णः) अविद्या रूप अन्धकार से पृथक् (ब्रह्मा) चार वेदों को जानने हारा उत्तम विद्वान् (नः) हम लोगों को सब गुणों में (अवतु) पहुंचावे उस (अग्नये) विद्या के प्रकाशमान चारों वेदों को पढ़े हुए विद्वान् के लिये (नमः) अन्न देना चाहिये ॥ १३ ॥

भावार्थः—हे मनुष्यों पवन श्वासा आदि के चलाने, आग अन्न आदि के पकाने, सूर्यमण्डल वर्षा, वृक्ष फल आदि, घोड़े आदि मगन और विद्वान् शिक्षा से तुम्हारी रक्षा करते हैं उन को तुम जानों और विद्वानों का सत्कार करो ॥ १३ ॥

सँ शितो रश्मिनेत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । ब्रह्मा देवता ।

निचृदनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनर्विद्वांसः किं कुर्युरित्याह ॥

फिर विद्वान् लोग क्या करें इस वि० ॥

सँ शितो रश्मिना रथः सँ शितो रश्मि-
ना हयः । सँ शितोऽऋष्वप्सुजा ब्रह्मा सोम-
पुरोगवः ॥ १४ ॥

सँ शितऽ इति समूऽशितः । रश्मिना । रथः । सँ शितऽ इति स-
मूऽशितः । रश्मिना । हयः । सँ शितऽ इति समूऽशितः । अऽपिस्व-
त्यप्ऽसु । अऽप्सुजाऽ इत्यप्सुजाः । ब्रह्मा । सोमपुरोगवऽ इति सो-
मऽपुरोगवः ॥ १४ ॥

पदार्थः—(संशितः) सम्यक्सूचमीकृतः (रश्मिना) किरणसमूहेन (रथः)
रमणसाधनः (संशितः) (रश्मिना) (हयः) अश्वः (संशितः) स्तुतः (अप्सु)

प्राणेषु (अप्सुजाः) प्राणेषु जायमानः (ब्रह्मा) महान्योगी विद्वान् (सोमपुरोगवः) सोम ओषधिगणबोध ऐश्वर्ययोगो वा पुरोगामी यस्य सः ॥ १४ ॥

अन्वयः—यदि मनुष्यै रश्मिना रथः संशितो रश्मिना हयः संशितोऽप्सुजाः सोमपुरोगवो ब्रह्मा संशितः क्रियेत तर्हि किं २ मुखं न लभ्येत ॥ १४ ॥

भावार्थः—ये मनुष्याः पदार्थविज्ञानेन विद्वांसो भवन्ति तेऽन्यान् कारयित्वा प्रशंसा प्राप्नुवन्तु ॥ १४ ॥

पदार्थः—जो मनुष्यों से (रश्मिना) किरणसमूह से (रथः) आनन्द को सिद्ध कराने वाला यान (संशितः) अच्छे प्रकार सूक्ष्म कारीगरी से बनाया (रश्मिना) लगाम की रस्सी आदि से (हयः) घोड़ा (संशितः) भली भांति चलने में तीक्ष्ण अर्थात् उत्तम किया तथा (अप्सु) प्राणों में (अप्सुजाः) जो प्राण वायु रूप से संचार करने वाला पवन वा वाप्य (सोमपुरोगवः) ओषधियों का बोध और ऐश्वर्य का योग जिस से पहिले प्राप्त होने वाला है वह ब्रह्मा बड़ा योगी विद्वान् (संशितः) अति प्रशंसित किया जाय तो क्या २ मुख न मिले ॥ १४ ॥

भावार्थः—जो मनुष्य पदार्थों के विशेष ज्ञान से विद्वान् होते हैं वे औरों को विद्वान् करके प्रशंसा को पावें ॥ १४ ॥

स्वयमित्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । विद्वान् देवता ।

निचृदनुष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

अथ जिज्ञासवः कीदृशा भवेयुरित्याह ॥

अब पढ़ने वा उत्तम विद्या बोध चाहने वाले कैसे हों इस वि० ।

स्वयं वाजिंस्तन्वं कल्पयस्व स्वयं यजस्व
स्वयं जुषस्व । महिमा तेऽन्येन न सन्नशे ॥१५॥

स्वयम् । वाजिन । तन्वम् । कल्पयस्व स्वयम् । यजस्व । स्वयम् । जु-
षस्व । महिमा । ते । अन्येन । न । सन्नशेऽहितिं समुऽनशे ॥ १५ ॥

पदार्थः— (स्वयम्) (वाजिन्) जिज्ञासो (तन्वम्) शरीरम् (कल्पयस्व)
समर्थयस्व (स्वयम्) (यजस्व) संगच्छस्व (स्वयम्) (जुषस्व) सेवस्व (महिमा)
प्रतापः (ते) तव (अन्येन) (न) (सन्नशे) सम्यक् नश्येत् ॥ १५ ॥

अन्वयः— हे वाजिस्त्वं स्वयं तन्वं कल्पयस्व स्वयं त्रिदुषो यजस्व स्वयं जु-
षस्व च यतस्ते महिमाऽन्येन सह न संनशे ॥ १५ ॥

भावार्थः— यथाग्निः स्वयं प्रकाशः स्वयं सङ्गतः स्वयं सेवमानोऽस्ति
तथा ये जिज्ञासवः स्वयं पुरुषार्थयुक्ता भवन्ति तेषां महिमा कदाचिन्न नश्यति
॥ १५ ॥

पदार्थः— हे (वाजिन्) बोध चाहने वाले जन तू (स्वयम्) आप (तन्वम्)
अपने शरीर को (कल्पयस्व) समर्थ कर (स्वयम्) आप अच्छे विद्वानों को (यजस्व)
मिल और (स्वयम्) आप उन की (जुषस्व) सेवा कर जिसे (ते) तेरी (महिमा)
बढ़ाई तेरा प्रताप (अन्येन) और के साथ (न) मत (संनशे) नष्ट हो ॥ १५ ॥

भावार्थः— जैसे अग्नि आप से आप प्रकाशित होता आप मिलता तथा आप सेवा
को प्राप्त है वैसे जो बोध चाहने वाले जन आप पुरुषार्थयुक्त होते हैं उनका प्रताप बढ़ाई
कभी नहीं नष्ट होती ॥ १५ ॥

नवाइत्यस्य प्रजाजर्पतिर्ऋषिः । सविता देवता । विराद् जगती
छन्दः निपादः स्वरः ॥

अथ मनुष्याः किदृशा भवेयुरित्याह ॥

अव मनुष्य कैसे हों इस वि०॥

न वाऽऽऽएतन्म्रियसे न रिष्यसि देवाँः॥
ऽइदैषि पथिभिः सुगेभिः । यत्नासते सुकृतो यत्र
ते ययुस्तत्र त्वा देवः सविता दधातु ॥ १६ ॥

न । वैः । ऊँऽइत्यं । एतत् । म्रियसे । न । रिष्यसि । देवान् ।
इत् । एषि । पथिभिरिति पथिऽभिः । सुगेभिरिति सुऽगेभिः । यत्र ।
आसते सुकृतऽइति सुऽकृतः । यत्र । ते । ययुः । तत्र । त्वा । देवः ।
सविता । दधातु ॥ १६ ॥

पदार्थः-- (न) निषेधे (वै) निश्चयेन (उ) वितर्के (एतत्)
म्रियसे (न) (रिष्यसि) हिन्धि (देवान्) दिव्यान् गुणान् विदुषो
वा (इत्) एव (एषि) प्राप्नोषि (पथिभिः) मार्गैः (सुगेभिः) सुखेन
गन्तुं योग्यैः (यत्र) (आसते) उपविशन्ति (सुकृतः) धर्मात्मानः (यत्र)
(यत्र) (ते) योगिनो विद्वांसः (ययुः) यान्ति (तत्र) (त्वा) त्वाम् (देवः)
स्वप्रकाशः (सविता) सकलजगदुत्पादकः परमेश्वरः (दधातु) धरतु ॥ १६ ॥

अन्वयः--हे विद्यार्थिन् यत्र ते सुकृत आसते सुखं ययुर्यत्र सुगेभिः प-
थिभिस्त्वं देवानेपि यत्रैतद्गु वर्तते स्थितस्त्वं न म्रियसे न वै रिष्यसि
तत्रेत् त्वा सविता देवो दधातु ॥ १६ ॥

भावार्थः—यदि मनुष्याः स्वस्वरूपं जानीयुस्तर्हि भेऽविनाशित्वं विद्युः ।
यदि धर्म्येण मार्गेण गच्छेयुस्तर्हि सुकृतामानन्दं प्राप्नुयुः । यदि परमात्मानं से-
वेरँस्तर्हि सत्ये मार्गे जीवान् दधुः ॥ १६ ॥

पदार्थः—हे विद्यार्थी (यत्र) जहां (ते) वे (सुकृतः) धर्मात्मा योगी विद्वान्
(आसते) बैठते और सुख को (ययुः) प्राप्त होते हैं वा (यत्र) जहां (सुगोभिः)
सुख से जाने के योग्य (पथिभिः) मार्गों से तू (देवान्) दिव्य अच्छे २ गुण वा
विद्वानों को (एषि) प्राप्त होता है और जहां (एतत्) यह पूर्वोक्त सब वृत्तान्त (उ)
तो वर्तमान है और स्थिर हुआ तू (न) नहीं (भ्रियसे) नष्ट हो (न, वै) नहीं
(रिष्यसि) दूसरे का नाश करे (तत्र) वहां (इत्) ही (त्वा) तुझे (सविता)
समस्त जगत् का उत्पन्न करनेवाला परमेश्वर (देवः) जोकि आप प्रकाशमान है—वह
(दधातु) स्थापन करे ॥ १६ ॥

भावार्थः जो मनुष्य अपने २ रूप को जानें तो अविनाशी भाव को जान सकें
जो धर्मयुक्त मार्ग से चलें तो अच्छे कर्म करने हारों के आनन्द को पावें जो परमात्मा
की सेवा करें तो जीवों को सत्यमार्ग में स्थापन करें ॥ १६ ॥

अग्निरित्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । अग्न्यादयो देवताः ।

अतिशक्यौ छन्दसी । पञ्चमः स्वरः ॥

अथ के पशव इत्याह ॥

अब पशु कौन हैं इस वि० ॥

अग्निः पशुरासीत्तेनायजन्तस एतं लोकमजयद्य-
स्मिन्नग्निः स तं लोको भविष्यति तत्रजेप्यसि पि
बैता अपः । वायुः पशुरासीत्तेनायजन्त स एतं

लोकमजयद्यस्मिन्वायुः स ते लोको भवि-
 ष्यति तं जेष्यसि पिबेताऽअपः । सूर्यः पशु-
 सीत्तेनायजन्तु स एतं लोकमजयद्यस्मिन्त्सूर्यः
 स ते लोको भविष्यति तं जेष्यसि पिबेताऽ
 अपः ॥ १७ ॥

अग्निः । पशुः । आसीत् । तेन । अयजन्तु । सः । एतम् । लोकम् । अ-
 जयत् । यस्मिन् । अपिः । सः । ते । लोकः । भविष्यति । तम् । जेष्यसि ।
 पिबे । एताः । अपः । वायुः । पशुः । आसीत् । तेन । अयजन्तु । सः । ए-
 तम् । लोकम् । अजयत् । यस्मिन् । वायुः । सः । ते । लोकः । भविष्यति ।
 तम् । जेष्यसि । पिबे । एताः । अपः । सूर्यः । पशुः । आसीत् । तेन । अय-
 जन्तु । सः । एतम् । लोकम् । अजयत् । यस्मिन् । सूर्यः । सः । ते । लोकः ।
 भविष्यति । तम् । जेष्यसि । पिबे । एताः । अपः ॥ १७ ॥

पदार्थः—(अग्निः) वह्निः (पशुः) दृश्यः (आसीत्) अस्ति (ते)
 (अयजन्तु) यजन्तु (सः) (एतम्) (लोकम्) द्रष्टव्यम् (अजयत्) जयति
 (यस्मिन्) लोके (अग्निः) (सः) (ते) तत्र (लोकः) (भविष्यति) (तम्)

(जेप्यसि) (पिव) (एताः) (अपः) जलानि (वायुः) (पशुः) द्रष्टव्यः
 (आसीत्) (तेन) (अयजन्त) (सः) (एतम्) वाय्वधिष्ठातृकम् (लोकम्)
 (अजयत्) जयति (यस्मिन्) (वायुः) (सः) (ते) (लोकः) (भविष्य
 त्ति) (तम्) (जेप्यसि) उत्कर्षयासि (पिव) (एताः) (अपः) प्राणान्
 (सूर्यः) (पशुः) दृश्यः (आसीत्) (तेन) (अयजन्त) (सः) (एतम्)
 सूर्याधिष्ठितम् (लोकम्) (अजयत्) जयति (यस्मिन्) (सूर्यः) (सः) (ते)
 (लोकः) (भविष्यति) (तम्) (जेप्यसि) (पिव) (एताः) (अपः) व्या-
 ष्णान् प्रकाशान् ॥ १७ ॥

अन्वयः— हे जिज्ञासो यस्मिन् सोऽग्निः पशुरासीत्तेनाऽयजन्त तेन
 त्वं यज यथा स विद्वंस्तेनैतं लोकमजयत्तथैतं जय तं चेज्जेप्यसि तर्हि सोऽग्नि-
 स्ते लोको भविष्यति । अतस्त्वमेता यज्ञेन शोधिता अपः पिव यस्मिन् स वायुः
 पशुरासीद्येन यजमाना अयजन्त तेन त्वं यज यथा स एतं लोकमजयत्तथा त्वं
 जय यदि तं जेप्यसि तर्हि स वायुस्ते लोको भविष्यति, अतस्त्वमेता अपः पिव
 यस्मिन्सं सूर्यः पशुरासीत्तेनायजन्त यथा स एतं लोकमजयत्तथा त्वं जय यदि
 त्वं तं जेप्यसि तर्हि स सूर्यस्ते लोको भविष्यति तस्मात्त्वमेता अपः पिव ॥१७॥

भावार्थः—हे मनुष्याः सर्वेषु यज्ञेष्वग्न्यादीनेव पशून् जानन्तु नैव प्राणि-
 नोऽत्र हिंसनीयां होतव्यां वा सन्ति य एवं विदित्वा सुगन्ध्यादिद्रव्याणि संसं-
 संकृत्याऽनौ जुहति तानि वायुं सूर्यं च प्राप्य वृष्टिद्वारां निवर्त्य ओषधीः प्राणान्

शरीरं बुद्धिं च क्रमेण प्राप्य सर्वान्प्राणिन आल्हांदयन्ति । एतत्कर्त्तारः पुण्य-
स्य महत्त्वेन परमात्मानं प्राप्य महीयन्ते ॥ १७ ॥

पदार्थः—हे विद्या बोध चाहने वाले पुरुष ! (अस्मिन्) जिस देखने योग्य लोक में (सः) वह (अग्निः) अग्नि (पशुः) देखने योग्य (आसीत्) है (तेन) उस से जिस प्रकार यज्ञ करने वाले (अयजन्त) यज्ञ करें उस प्रकार से तू यज्ञ कर जैसे (सः) वह विद्वान् (एतम्) इस (लोकम्) देखने योग्य स्थान को (अजयत्) जीतता है जैसे इस को जीत यदि (तम्) उस को (जेष्यसि) जीतेगा तो वह (अग्निः) अग्नि (ते) तेरा (लोकः) देखने योग्य (भविष्यति) होगा इस से तू (एताः) इन यज्ञ से शुद्ध किये हुए (अपः) जलों को (पिब) पी (यस्मिन्) जिस में (सः) वह (वायुः) पवन (पशुः) देखने योग्य (आसीत्) है और जिस से यज्ञ करने वाले (अयजन्त) यज्ञ करें (तेन) उस से तू यज्ञ कर जैसे (सः) वह विद्वान् (एतम्) इस वायु मण्डल के रहने के (लोकम्) लोक को (अजयत्) जीते जैसे तू जीत जो (तम्) उस को (जेष्यसि) जीतेगा तो वह (वायुः) पवन (ते) तेरा (लोकः) देखने योग्य (भविष्यति) होगा इस से तू (एताः) इन (अपः) यज्ञ से शुद्ध किये हुए प्राण रूपी पवनों को (पिब) धारण कर (यस्मिन्) जिस में वह (सूर्यः) सूर्यमण्डल (पशुः) देखने योग्य (आसीत्) है (तेन) उस से (अजयन्त) यत्न करने वाले यज्ञ करें जैसे (सः) वह विद्वान् (एतम्) इस सूर्यमण्डल के ठहरने के (लोकम्) लोक को (अजयत्) जीतता है जैसे तू जीत जो तू (तम्) उस को (जेष्यसि) जीतेगा तो (सः) वह (सूर्यः) सूर्यमण्डल (ते) तेरा (लोकः) देखने योग्य (भविष्यति) होगा इस से तू (एताः) यज्ञ से शुद्ध किये हुए (अपः) संसार में व्याप्त हो रहे सूर्यप्रकाशों को (पिब) ग्रहण कर ॥ १७ ॥

भावार्थः—हे मनुष्यो सब यज्ञों में अग्नि आदि को ही पशु जानो किन्तु

प्राणी इन यज्ञों में मारने योग्य नहीं न होमने योग्य हैं जो ऐसे जान कर मुगन्धि आदि अच्छे २ पदार्थों को भली भाँति बना आग में होम करने हारे होते हैं वे पवन और सूर्य को प्राप्त होकर वर्षा के द्वारा वहाँ से छूट कर ओषधी, प्राण, शरीर और बुद्धि को क्रम से प्राप्त होकर सब प्राणियों को आनन्द देते हैं इस यज्ञ कर्म के करने वाले पुण्य की बहुताई से परमात्मा को प्राप्त होकर सत्कार युक्त होते हैं ॥ १७ ॥

अथ प्राणायेत्यस्य मंत्रस्य प्रजापतिर्ऋषिः । प्राणादयो देवताः ।

विराड्जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥

पुनर्मनुष्यैः किं किं विज्ञेयमित्याह ॥

फिर मनुष्यों को क्या २ जानना चाहिये इस वि० ॥

प्राणाय स्वहापानाय स्वहा व्यानाय स्वा-
हा । अम्बेऽअम्बिकेऽअम्बालिके न मां नयति क-
श्चन । ससस्त्यश्वकः सुभद्रिकाऽकाम्पीलवा-
सिनीम् ॥ १८ ॥

प्राणाय । स्वहा । अपानाय । स्वहा । व्यानायेतिविऽअनाय । स्वहा ।
अम्बे । अम्बिके । अम्बालिके । न । मा । नयति । कः । चन । ससस्ति ।
अश्वकः । सुभद्रिकामिति सुभद्रिकाम् । कांपीलवासिनीमिति कांपीलवा-
सिनीम् ॥ १८ ॥

पदार्थः—(प्राणाय) प्राणपोषणाय (स्वहा) संत्या वाक् (अपा-
नाय) (स्वहा) (व्यानाय) (स्वहा) (अम्बे) मातः (अम्बिके) पि-
तामहि (अम्बालिके) प्रथितामहि (न) निषेधे (मा) माम् (नयति) वशे
स्थापयति (कः) (चन) कोऽपि (ससस्ति) स्वापिति (अश्वकः) अश्व
इव गन्ता जनः (सुभद्रिकाम्) सुष्ठुकल्याणकारिकाम् (कांपीलवासिनीम्)

कं सुखं पीलति वध्नानि गृह्णातीति कंपीलः स्वार्थेऽण् तं वासयितुं शीलमस्या-
स्तां लक्ष्मीम् ॥ १८ ॥

अन्वयः—हे अम्बेऽम्बिकेऽम्बालिके कश्चनाश्वको यां कांपीलवासिनीं
सुभद्रिकामादाय ससस्ति न मा नयति अतोऽहं प्राणाय स्वाहाऽपानाय स्वाहा
व्यानाय स्वाहा च करोमि ॥ १८ ॥

भावार्थः—हे मनुष्या यथा माता पितामही प्रपितामहऽपत्यानि सुशिक्षां
नयति तथा युष्माभिरपि स्वसन्तानाः शिक्षणीयाः । धनस्य स्वभावोस्ति यत्रेदं
संचायते तान्निद्रालूनलसान्कर्महीनान् करोति । अतो धनं प्राप्यापि पुरुषार्थ एव
कर्त्तव्यः ॥ १८ ॥

पदार्थः— हे (अम्बे) माता (अम्बिके) दादी (अम्बालिके) वा परदादी
(कश्चन) कोई (अश्वकः) घोड़े के समान शीघ्रगामी जन जिस (कांपीलवासिनीम्)
मुखग्राही मनुष्य को वसाने वाली (सुभद्रिकाम्) उत्तम कल्याण करने वाली लक्ष्मी को
ग्रहण कर (ससस्ति) सोता है वह (मा) मुझे (न) नहीं (नयति) अपने वश
में लाती इस से मैं (प्राणाय) प्राण के पोषण के लिये (स्वाहा) सत्य वाणी (अपा-
नाय) दुःख के हटाने के लिये (स्वाहा) सुशिक्षित वाणी और (व्यानाय) सब शरीर
में व्याप्त होनेवाले अपने आत्मा के लिये (स्वाहा) सत्य वाणी को युक्त करता
हूँ ॥ १८ ॥

भावार्थः— हे मनुष्यो जैसे माता दादी परदादी अपने २ सन्तानों को अच्छी
सिखावट पहुंचाती हैं वैसे तुम लोगों को भी अपने सन्तान शिक्षित करने चाहिये धन
का स्वभाव है कि जहां यह इकट्ठा होता है उन जनों को निद्रालु आलसी और कर्महीन
कर देता है इस से धन पा कर भी मनुष्य को पुरुषार्थ ही करना चाहिये ॥ १८ ॥

गणानां त्वेसस्य प्रजापतिर्ऋषिः । गणपतिर्देवता ।

शकरीछन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनर्मनुष्यैः कीदृशः परमात्मोपासनीय इत्याह ॥

फिर मनुष्य को कैसे परमात्मा की उपासना करनी चाहिये इस वि० ॥

गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा
प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वां निधिपतिं
हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमां त्वम-
जासि गर्भधम् ॥ १६ ॥

गणानाम् । त्वा । गणपतिमिति गणपतिम् । हवामहे । प्रियाणाम् । त्वा ।
प्रियपतिमिति प्रियपतिम् । हवामहे । निधीनामिति निधीनाम् । त्वा । नि-
धिपतिमिति निधिपतिम् । हवामहे । वसोऽइति वसो । मम । आ । अहम् ।
अजानि । गर्भधमिति गर्भधम् । आ । त्वम् । अजासि । गर्भधमिति
गर्भधम् ॥ १९ ॥

पदार्थः—(गणानाम्) समूहानाम् (त्वा) त्वाम् (गणपतिम्) समूह-
पालकम् (हवामहे) स्त्रीकुर्महे (प्रियाणाम्) कमनीयानाम् (त्वा) (प्रियपतिम्)
कमनीयं पालकम् (हवामहे) (निधीनाम्) विद्यादिपदार्थपोषकाणाम् (त्वा)
(निधिपतिम्) निधीनां पालकम् (हवामहे) (वसो) वसन्ति भूतानि य-
स्मिन्त्स वसुस्तत्सम्बुद्धौ (मम) (आ) (अहम्) (अजानि) जानीयाम्

(गर्भधम्) यो गर्भं दधाति तम् (आ) (त्वम्) (अजाति) प्राप्नुयः
(गर्भधम्) प्रकृतिम् ॥ १९ ॥

अन्वयः—हे जगदीश्वर वयं गणानां गणपतिं त्वा हवामहे प्रियाणां
प्रियपतिं त्वा हवामहे । निधीनां निधिपतिं त्वा हवामहे । हे वसो मम न्यायाधीशो
भूयाः । यंगर्भधं त्वमाजासि तं गर्भधमहमाजानि ॥ १९ ॥

भावार्थः—हे मनुष्या यः सर्वस्य जगतो रक्षक इष्टानां विधातैश्वर्या-
णां प्रदाता प्रकृतेः पतिः सर्वेषां बीजानि विदधाति तमेव जगदीश्वरं
सर्वउपासीरन् ॥ १९ ॥

पदार्थः—हे जगदीश्वर हम लोग (गणानाम्) गणों के बीच (गणपतिम्)
गणों के पालने हारे (त्वा) आप को (हवामहे) स्वीकार करते (प्रियाणाम्) अति-
प्रिय सुन्दरों के बीच (प्रियपतिम्) अतिप्रिय सुन्दरों के पालने हारे (त्वा) आप की
(हवामहे) प्रशंसा करते (निधीनाम्) विद्या आदि पदार्थों की पुष्टि करने हारे
के बीच (निधिपतिम्) विद्या आदि पदार्थों की रक्षा करने हारे (त्वा) आप को
(हवामहे) स्वीकार करते हैं हे (वसो) परमात्मन् जिस आप में सब प्राणी वसते हैं
सो आप (मम) मेरे न्यायाधीश हूजिये जिस (गर्भधम्) गर्भके समान संसार को धारण
करने वाली प्रकृति को धारण करने हारे (त्वम्) आप (आ, अजासि) जन्मादि
दोषरहित भली भांति प्राप्त होते हैं उस (गर्भधम्) प्रकृति के धर्ता आप को (अहम्)
मैं (आ, अजानि) अच्छे प्रकार जानूँ ॥ १९ ॥

भावार्थः—हे मनुष्यो जो सब जगत् की रक्षा चाहे हुए सुखों का विधान
ऐश्वर्यों को भली भांति देता प्रकृति का पालक और सब बीजों का विधान करता है उसी
जगदीश्वर की उपासना सब करो ॥ १९ ॥

ताउभावित्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । राजमजे देवते ।

स्वराडनुष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

अथ राजप्रजाजनाः परस्परं कथं वर्त्तन्वित्याह ॥

अथ राजा और प्रजाजन परस्पर कैसे वर्त्तें इस वि० ॥

ताऽउभौ चतुरः पदः सम्प्रसारयाव स्वर्गे लोके
प्रोर्णुवाथां वृषां वाजी रेतोधा रेतो दधातु ॥२०॥

तौ । उभौ । चतुरः । पदः । सम्प्रसारयाविति सम्प्रसारयाव । स्वर्गऽ-
इति स्वऽगे लोके । प्र । ऊर्णुवाथाम् । वृषां । वाजी । रेतोधाऽइति रेतऽधाः ।
रेतः । दधातु ॥ २० ॥

पदार्थः— (तौ) प्रजाराजानौ (उभौ) (चतुरः) धर्मार्थकाममोक्षान् (पदः)
प्राप्तव्यान् (संप्रसारयाव) विस्तारयावः (स्वर्गे) सुखमये (लोके) द्रष्टव्ये
(प्र) (ऊर्णुवाथाम्) प्राप्नुयाथाम् (वृषा) दुष्टानां शक्तिबन्धकः (वाजी)
विज्ञानवान् (रेतोधाः) यो रेतः श्लेषमालिङ्गनं दधाति सः (रेतः) वीर्यं
पराक्रमम् (दधातु) ॥ २० ॥

अन्वयः— हे राजमजे युवां उभौ तौ यथा स्वर्गे लोके चतुरः पदः
प्रोर्णुवाथां तथैतानानामध्यापकोपदेशकौ संप्रसारयाव यथा रेतोधा वृषा वाजी
राजा प्रजासु रेतो वीर्यं दध्यात्तथा प्रजापि दधातु ॥ २० ॥

भावार्थः— अत्र वाचकलु०—यदि राजमजे पितापुत्रवद्वर्त्तनीयातां तर्हि
धर्मार्थकाममोक्षफलसिद्धिं यथावत्प्राप्नुयातां यथा राजा प्रजासुखवले वर्द्धयेत्तथा
प्रजा अपि राज्ञः सुखवले उन्नयेत् ॥२०॥

पदार्थः—हे राजा प्रजा जनो तुम (उभा) दोनों (तौ) प्रजा राजाजन जैसे (स्वर्गे) मुख से भरे हुए (लोके) देखने योग्य व्यवहार वा पदार्थ में (चतुरः) चारों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष (पदः) जो कि पाने योग्य हैं उन को (प्रोर्णुवाथाम्) प्राप्त होओ जैसे इन का हम अध्यापक और उपदेशक दोनों (संप्रसारयाव) विस्तार करें जैसे (रेतो-धाः) आलिंगन अर्थात् दूसरे से मिलने को धारण करने और (वृषा) दुष्टों के सामर्थ्य वर्धने अर्थात् उन की शक्ति को रोकने हारा (वाजी) विशेष ज्ञानवान् राजा प्रजा-जनों में (रेतः) अपने पराक्रम को स्थापन करे जैसे प्रजाजन (दधानु) स्थापन करें ॥२०॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—जो राजा प्रजा पिता और पुत्र के ममान अपना वर्त्ताव वैसे तो धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष फल की सिद्धि को यथावत् प्राप्त हों जैसे राजा प्रजा के मुख और बल को बढ़ावे वैसे प्रजा भी राजा के मुख और बल की उन्नति करे ॥ २० ॥

उत्सक्थ्या इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । न्यायाधीशो देवता ।

भुरिग् गायत्री छन्दः । पद्जः स्वरः ॥

पुनाराज्ञा दुष्टाचाराः सम्यग् दण्डनीया इत्याह ॥

फिर राजा को दुष्टाचारी प्राणी भलीभांति दण्ड देने योग्य हैं इस वि० ॥

उत्सक्थ्या अत्र गुदं धेहि समञ्जि चारया
वृषन् । य स्त्रीणां जीवभोजनः ॥ २१ ॥

उत्सक्थ्याऽइत्युत्सक्थ्याः । अत्र । गुदम् । धेहि । सम् । अञ्जिम् ।
चारय । वृषन् । यः । स्त्रीणाम् । जीवभोजनऽइति जीवभोजनः ॥ २१ ॥

पदार्थः—(उत्सक्थ्याः) ऊर्ध्वं सक्थिनी यस्यास्तस्याः प्रजायाः (अत्र)
(गुदम्) क्रीडाम् (धेहि) (सम्) (अञ्जिम्) प्रसिद्धन्यायम् (चारय)

मापय । अत्र संहितायामिति दीर्घः (वृषन्) शक्तिमन् (यः) (स्त्रीणाम्)
(जीवभोजनः) जीवा भोजनं भक्षणं यस्य सः ॥ २१ ॥

अन्वयाः—हे वृषन् यः स्त्रीणां जीवभोजनो व्यभिचारी व्यभिचारिणी
वा स्त्री वर्त्तेत । तं तां च निगृह्योत्सक्थ्यास्ताडय स्वप्रजायां च गुदमव धेह्यञ्जि
संचारय ॥ २१ ॥

भावार्थः—हे राजन् धे विषयसेवायां क्रीडन्तो जनाः क्रीडन्त्यः स्त्रियो वा
व्यभिचारं वर्द्धयेयुस्तेनाश्च तीव्रेण दण्डेन शासनीयाः ॥ २१ ॥

पदार्थः— हे (वृषन्) शक्तिमन् (यः) जो (स्त्रीणाम्) स्त्रियों के बीच (जी-
वभोजनः) प्राणियों का मांस खाने वाला व्यभिचारी पुरुष वा पुरुषों के बीच उक्तप्रकार
की व्यभिचारिणी स्त्री वर्त्तमान हो उस पुरुष और उस स्त्री को बांध कर (उत्सक्थ्याः)
ऊपर को पग और नीचे को शिर कर ताड़ना करके और अपनी प्रजा के मध्य (अव, गुदम्)
उत्तम सुख को (धेहि) धारण करो और (अञ्जिम्) अपनं प्रगट न्याय को (संचारय)
भली भंति चलाओ ॥ २१ ॥

भावार्थः—हे राजन् जो विषय सेवा में रमते हुए जन वा वैसी स्त्री व्यभिचार
को बढ़ावे उन २ को प्रबल दण्ड से शिक्षा देनी चाहिये ॥ २१ ॥

यकासकावित्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । राजप्रजे देवते ।

विराडनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

यकामकौ शकुन्तिकाहलगिति वञ्चति ।
आहन्ति गभे पसो निगल्गलीति धारका ॥२२॥

यका । असकौ । शकुन्तिका । आहलक् । इति । वञ्चति । आ । हन्ति ।

गभे । पसः । निगल्गलीति । धारका ॥ २२ ॥

पदार्थः— (यका) या (असकौ) असौ प्रजा (शकुन्तिका) अल्पा
पक्षिणीव निर्बला (आहलक्) समन्ताद्दलं विलेखनमञ्चति सः (इति)
अनेन प्रकारेण (वञ्चति) पलम्भते (आ) (हन्ति) (गभे) प्रजायाम्
(पसः) राष्ट्रम् (निगल्गलीति) भृशं निगलतीव वर्त्तते (धारका) सुखस्य
धर्त्री ॥ २२ ॥

अन्वयः— यस्यां गभे राजा पसो राष्ट्रमाहन्ति सा धारका प्रजा निगल्-
गलीति यतो यकाऽसकौ शकुन्तिका शकुन्तिकेव वर्त्तते तस्मादिमाहलप्रजा
वञ्चतीति ॥ २२ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—यदि राजा न्यायेन प्रजाया रक्षणं न कुर्याद-
कृत्वा करं गृहीयात्तर्हि यथा प्रजाः क्रमशः क्षीणा भवन्ति तथा राजापि नष्टो
भवति । यदि विद्याविनयाभ्यां प्रजाः संरक्षेत्तर्हि राजप्रजे सर्वतो वर्द्धताम् ॥ २२ ॥

पदार्थः— जिस (गभे) प्रजा में राजा अयने (पसः) राज्य को (आहन्ति)
जाने वा प्राप्त हो वह (धारका) सुख की धारण करनेवाली प्रजा (निगल्गलीति)
निरन्तर सुख को निगलतीसी वर्त्तमान होती है और जिस से (यका) जो (असकौ)
यह प्रजा (शकुन्तिका) छोटी चिड़िया के समान निर्बल है इस से इस प्रजा को
(आहलक्) अच्छे प्रकार जो हल भूमि से करोदता है उस को प्राप्त होने वाला
अर्थात् हल से जुती हुई भूमि से कर को लेने वाला राजा (वञ्चतीति) ऐसे वञ्चता
अपना कर धन लेता है कि जैसे प्रजा सुख को प्राप्त हो ॥ २२ ॥

भावार्थः— इस मंत्र में वाचकलु०—यदि राजा न्याय से प्रजा की रक्षा न करे और प्रजा से कर लेवे तो जैसे प्रजा नष्ट हो वैसे राजा भी नष्ट होता है । यदि विद्या और विनय से प्रजा की भली भांति रक्षा करे तो राजा और प्रजा सब ओर से वृद्धि को पावे ॥ २२ ॥

यकोऽसकावित्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । राजप्रजे
देवते । बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

पुनस्तस्मैव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

युकोऽसकौ शकुन्तक आहलगिति वञ्चति ।
विवक्षत इव ते मुखमध्वर्यो मा नस्त्वमभिभा-
षथाः ॥ २३ ॥

युः । असकौ । शकुन्तकः । आहलक् । इति । वञ्चति । विवक्षत इति
विवक्षतः इव । ते । मुखम् । अध्वर्यो इत्यध्वर्यो । मा । नः । त्वम् । अभि ।
भाषथाः ॥ २३ ॥

पदार्थः—(युः) यः (असकौ) असौ राजा (शकुन्तकः) निर्बलः
पक्षीव (आहलक्) समन्ताद्विलिखितं यथास्यात्तथा (इति) (वञ्चति)
वञ्चितो भवति (विवक्षत इव) वक्तुमिच्छोरिव (ते) तव (मुखम्) आस्यम्
(अध्वर्यो) योऽध्वरं मिवाचरति तत्सम्बुद्धौ (मा) (नः) अस्मान् (त्वम्)
(अभि) (भाषथाः) वदेः ॥ २३ ॥

अन्वयः— हे अध्वर्यो त्वं नो माभिभाषथा मिथ्याभाषणं विवक्षत इव ते
मुखं मा भवतु यद्येवं युकोऽसकौ करिष्यसि नहि शकुन्तक इव राजाऽऽहलगिति
न वञ्चति ॥ २३ ॥

भावार्थः- अत्रवाचकलु०-राजा कदाचिन्मिथ्यापतिज्ञः परुषवादी न स्यान्न कंचिद्वञ्चयेत् । यद्ययमन्यायं कुर्यात्तर्हि स्वयमपि प्रजाभिर्वञ्चितः स्यात् ॥ २३ ॥

पदार्थः हे (अध्वर्यो) यज्ञ के समान आचरण करने हारे राजा (स्वम्) तू (नः) हम लोगों के प्रति (मा, अभिभाषथाः) झूठ मत बोलो और (विवक्षत इव) बहुत गप्प सप्प बकते हुए मनुष्य के मुख के समान (ते) तेरा (मुखम्) मुख मत हो यदि इस प्रकार (यकः) जो (असकौ) यह राजा गप्प सप्प करेगा तो (शकुन्तकः) निर्बल पखेरू के समान (आहलक्) भली भांति उच्छिन्न जैसे हो (इति) इस प्रकार (वञ्चति) ठगा जायगा ॥ २३ ॥

भावार्थः-—इस मंत्र में वाचकलु०—राजा कभी झूठी प्रतिज्ञा करने और कटु-वचन बोलनेवाला न हो तथा न किसी को ठगे जो यह राजा अन्याय करे तो आप भी प्रजा जनों से ठगा जाय ॥ २३ ॥

माताचेत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । भूमिसूर्यो देवते ।

निचृदनुष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ।

फिर उसी वि० ।

माता च ते पिता च तेऽग्रं वृक्षस्य रोहतः ।
प्रतिलामीति ते पिता गभे मुष्टिमत्सयत् ॥ २४ ॥

माता । च । ते । पिता । च । ते । अग्रम् । वृक्षस्य । रोहतः । प्रतिलामि ।
इति । ते । पिता । गभे । मुष्टिम् । अत्सयत् ॥ २४ ॥

पदार्थः—(माता) पृथिवीव वर्तमाना माता (च) (ते) तव (पिता) सूर्य इव वर्तमानः पिता (च) (ते) तव (अग्रम्) मुख्यश्रियम् (वृक्षस्य) वृक्षितुं छेत्तुं योग्यस्य संसाराख्यस्य राजस्य (रोहतः) (प्रतिलामि) स्निह्यामि (इति) (ते) तव (पिता) (गभे) प्रजायाम् (मुष्टिम्) मुष्ट्या धनग्राहकं राजगम् (अनंसयत्) तंसयत्यलंकरोति ॥ २४ ॥ इयं वै माताऽसौ पिता ताभ्यामेवैनं स्वर्गं लोकं गमयत्यग्रं वृक्षस्य रोहत इति । श्रीविंशोऽध्यायस्य श्रियमेवैनं राष्ट्रस्याग्रं गमयति प्रतिलामीति ते पिता गभे मुष्टिमत् सयदिति । विद्मै गभो राष्ट्रं मुष्टी राष्ट्रमेवाविश्याहन्ति तस्माद्दराष्ट्री विशं घातुकः ॥ श० का० १२ अ० २ ब्राह्म १ कं ७ ॥

अन्वयः—हे राजन् यदि ते पृथिवीव माता च सूर्य इव ते पिता च वृक्षस्याग्रं रोहतः । यदि ते पिता गभे मुष्टिमत् सयत्तर्हि प्रजाजनोऽहम्प्रतिलामीति ॥ २४ ॥

भावार्थः—यौ मातापितरौ पृथिवीसूर्यवद्वैर्यविद्यापकाशितौ न्यायेन राज्यं पालयित्वाग्रयां श्रियं प्राप्य प्रजाभूषयित्वा स्वस्य पुत्रं राजनीत्या युक्तं कुर्यातां तौ राज्यं कर्तुमर्हेताम् ॥ २४ ॥

पदार्थः—हे राजन् यदि (ते) आप की (माता) पृथिवी के तुल्य सहनशील मान करने वाली माता (च) और (ते) आप का (पिता) सूर्य के समान तेजस्वी पालन करने वाला पिता (च) भी (वृक्षस्य) छेदन करने योग्य संसार रूप वृक्ष के राज्य की (अग्रम्) मुख्य श्री शोभा वा लक्ष्मी पर

(रोहतः) आरूढ होते हैं आप का (पिता) पिता (गमे) प्रजा में (मुष्टिम्) मुष्टी से धन लेने वाले राज्य को धन लेकर (अतंसयत्) प्रकाशित करता है तो मैं (इति) इस प्रकार प्रजाजन (प्र, तिलामि) भली भांति उस राजा से प्रीति करता हूँ ॥ २४ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकुल०—जो माता पिता पृथिवी और सूर्य के तुल्य धीर्य और विद्या से प्रकाश को प्राप्त न्याय से राज्य को पाल कर उत्तम लक्ष्मी वा शोभा को पाकर प्रजा को सुशोभित कर अपने पुत्र को राजनीति से युक्त करें वे राज्य करने को योग्य हों ॥ २४ ॥

माताचेत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । भूमिसूर्यौ देवते ।

निचृदनुष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनर्मातापितरौ कीदृशौ भवेतामित्याह ॥

फिर माता पिता कैसे हों इस वि० ॥

माता च ते पिता च तेऽग्रैर्वृक्षस्य क्रीडतः ।
विवक्षत इव ते मुखं ब्रह्मन्मा त्वं वदो बहु ॥२५॥

माता । च । ते । पिता । च । ते । अग्रैः । वृक्षस्य । क्रीडतः । विवक्षतः ।
ऽइवेऽतिविऽवक्षतःऽइव । ते । मुखम् । ब्रह्मन् । मा । त्वम् । वदः ।
बहु ॥ २५ ॥

पदार्थः—(माता) पृथिवीवज्जननी (च) (ते) (पिता) सूर्यवद्व-
क्षमानः (च) (ते) (अग्रैः) विद्याराजलक्ष्म्यां (वृक्षस्य) राज्यस्य मध्ये
(क्रीडतः) (विवक्षत इव) (ते) तव (मुखम्) (ब्रह्मन्) चतुर्वेदवित् (मा)
(त्वम्) (वदः) वदेः (बहु) ॥ २५ ॥

अन्वयः—हे ब्रह्मन् यस्य ते माता च यस्य ते पिता च वृक्षस्याग्रे क्री-
डतस्तस्य ते विवक्षत इव यन्मुखं तेन त्वं बहु मा वदः ॥ २५ ॥

भावार्थः—यौ मातापितरौ सुशीलौ धर्मात्मानौ श्रीमन्तौ कुलीनौ
भवेतां ताभ्यां शिक्षित एषं पुत्रो मितभाषी भूत्वा कीर्तिमाप्नोति ॥ २५ ॥

पदार्थः—हे (ब्रह्मन्) चारों वेदों के जानने वाले सज्जन जिन (ते)
सूर्य के समान तेजस्वी आप की (माता) पृथिवी के समान माता (च) और जि-
न (ते) आप का (पिता) पिता (च) भी (वृक्षस्य) संसार रूप राज्य के बी-
च (अग्ने) विद्या और राज्य की शोभा में (क्रीडतः) रमते हैं उन (ते) आ-
प का (विवक्षत इव) बहुत कहा चाहते हुए मनुष्य के मुख के समान (मुखम्) मुख
है उस से (त्वम्) तू (बहु) बहुत (मा) मत (वदः) कहा कर ॥ २५ ॥

भावार्थः—जो माता पिता सुशीलधर्मात्मा लक्ष्मीवान् कुलीन हों उन्हों-
ने सिखाया हुआ ही पुत्र प्रमाण युक्त थोड़ा बोलने वाला होकर कीर्ति को प्राप्त हो
ता है ॥ २५ ॥

ऊर्ध्वमित्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । श्रीर्देवतः ।

अनुष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनाराजपुरुषः कामुत्कृष्टां कुर्युरित्याह ॥

फिर राज पुरुष किस की उन्नति करें इस वि० ॥

ऊर्ध्वामेनामुक्त्वापय गिरौ भारः हरन्निव ।
अथास्यै मध्यमेधताः शीते वाते पुनन्निव ॥ २६ ॥

ऊर्ध्वाम् । एनाम् । उत् । श्रापय । गिरौ । भारम् । हरन्निवेति हरन्ऽइव ।
अथ । अस्यै । मध्यम् । एधताम् । शीते । वाते । पुनन्निवेति पुनन्ऽइव ॥
॥ २६ ॥

पदार्थः—(ऊर्ध्वाम्) उत्कृष्टाम् (एनाम्) राज्याश्रिया युक्तां प्रजाम्
(उत्) (श्रापय) ऊर्ध्वं नय (गिरौ) पर्वते (भारम्) (हरन्निव) (अथ)
(अस्यै) अस्याः (मध्यम्) (एधताम्) वर्द्धताम् (शीते) (वाते) वायौ (पु-
नन्निव) पृथक् कुर्वन्निव ॥ २६ ॥ ऊर्ध्वामेनामुच्छ्रापयेति । श्रीर्वै राष्ट्रमश्वमेधः
श्रियमेवास्मै राष्ट्रमूर्ध्वमुच्छ्रयति गिरौ भारं हरन्निवेति । श्रीर्वै राष्ट्रस्य भारः
श्रियमेवास्मै राष्ट्रं संनहत्यथो श्रियमेवास्मिन् राष्ट्रमधिनिदधाति । अथास्यै
मध्यमेधतामिति श्रीर्वै राष्ट्रस्य मध्यं श्रियमेव राष्ट्रे मध्यंतोऽन्नाद्यं ददाति शीते
वाते पुनन्निवेति क्षेमो वै राष्ट्रस्य शीतं क्षेममेवास्मै करोति । श० का० ३ ब्रा०
३ कं० १ । २ । ३ । ४ ॥

अन्वयः—हे राजन् त्वं गिरौ भारं हरन्निवैनामूर्ध्वामुच्छ्रापय । अथास्यै
मध्यं प्राप्य शीते वाते पुनन्निव भवानेधताम् ॥ २६ ॥

भावार्थः—अत्रोपमालं०—यथा कश्चिद्भारवाट् शिरसि पृष्ठे वा भार-
मुत्थाप्य गिरिमारुह्योपरिस्थापयेत्तथा राजा श्रियमुन्नतिभावं नयेत् । यथा वा कृ-
षीवला बुसादिध्योऽन्नं पृथक्कृत्य भुक्त्वा वर्द्धन्ते तथा सत्यन्यायेन सत्यासत्ये
पृथक् कृत्य न्यायकारी राजा नित्यं वर्द्धते ॥ २६ ॥

पदार्थः—हे राजन् तू (गिरौ) पर्वत पर (भारम्) भार (हरन्निव) पहुँचाते हुए
के समान (एनाम्) इस राज्य लक्ष्मी युक्त (ऊर्ध्वाम्) उत्तम कक्षा वाली प्रजा को (उ-

च्छापय) सदा अधिक २ उन्नति दिया कर (अथ) अब (अस्यै) इस प्रजा के (मध्यम्) मध्य भाग लक्ष्मी को पाकर (शीते) शीतल (वाते) पवन में (पुनन्निव) खेती करने वालों की क्रिया से जैसे अन्न आदि शुद्ध हो या पवन के योग से जल स्वच्छ हो वैसे अप (एधताम्) वृद्धि को प्राप्त हूजिये ॥ २६ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में दो उपमालं०—राजा जैसे कोई बोझा ले जाने वाला अपने शिर वा पीठ पर बोझा को उठा पर्वत पर चढ़ उस भार को ऊपर स्थापन करे वैसे लक्ष्मी को उन्नति होने को अहोचावे वा जैसे खेती करने वाले भूसा आदि से अन्न को अलग कर उस अन्न को खा के बढ़ते हैं वैसे सत्य न्याय से सत्य असत्य को अलग कर न्याय करने हारा राजा नित्य बढ़ता है ॥ २६ ॥

ऊर्ध्वमेनमित्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । श्रीर्देवता । अनुष्टुप्-
छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

ऊर्ध्वमेनमुच्छ्रयताद् गिरौ भारं हरन्निव ।
अथास्य मध्यमेजतु शीते वाते पुनन्निव ॥२७॥

ऊर्ध्वम् । एनम् । उत् । अयतात् । गिरौ । भारम् । हरन्निवेति हरन्ऽइ-
व । अर्थ । अस्य । मध्यम् । एजतु । शीते । वाते । पुनन्निवेति पुनन्ऽइव
॥ २७ ॥

पदार्थः—(ऊर्ध्वम्) अग्रगामिनम् (एनम्) राजानम् (उच्छ्रयतात्) उच्छ्रितं कुर्यात् (गिरौ) पर्वते (भारम्) (हरन्निव) (अथ) (अस्य) राष्ट्र-
स्य (मध्यम्) (एजतु) सत्कर्मसु चेष्टताम् (शीते) (वाते) (पुनन्निव) ॥२७॥

अन्वयः—हे प्रजास्थ विद्वन् भवान् गिरौ भारं हरन्निवैनं राजानमूर्धमु-
च्छ्रयतात् । अथास्य मध्यं प्राप्य शीते वाते पुनन्निवैजतु ॥ २७ ॥

भावार्थः—अत्रोपमालं०—यथासूर्यो मेघमण्डले जलभारं नीत्वा वर्षयित्वा
सर्वानुन्नयति तथैव प्रजा राजपुरुषानुन्नयेदधर्माचरणाद्विभीयाच्च ॥ २७ ॥

पदार्थः—हे प्रजास्थ विद्वान् आप (गिरौ) पर्वत पर (भारम्) भार को (ह-
रन्निव) पहुंचाने के समान (एनम्) इस राजा को (ऊर्ध्वम्) सब व्यवहारों में अग्रग-
न्ता (उच्छ्रयतात्) उन्नति युक्त कों (अथ) इस के अनन्तर जैसे (अस्य) इस रा-
ज्य के (मध्यम्) मध्यभाग लक्ष्मी को पाकर (शीते) शीतल (वाते) पवन में (पु-
नन्निव) शुद्ध होते हुए अन्न आदि के समान (एजतु) उत्तम कर्मों में चेष्टा किया
कीजिये ॥ २७ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में दो उपमालं०—जैसे सूर्य मेघमण्डल में जल के भार
को पहुंचा और वहां से वर्षाके सब को उन्नति देता है वैसे ही प्रजा जन राजपुरुषों
को उन्नति दें और अधर्म के आचरण से डरें ॥ २७ ॥

यदस्याइत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । प्रजापतिर्देवता ।

निचृदनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

यदस्याऽअथहुमेघाः कृधु स्थूलमुपातसत् ।
मुष्काविदस्या एजतो गोशफे शंकुलाविव ॥२८॥

यत् । अस्याः । अंहुभेद्याऽइत्यंहुभेद्याः । कृधु । स्थूलम् । उपातसत् । अदित्युप
 ऽअतसत् । मुष्कौ । इत् । अस्या । एजतः । गोशफऽइति गोऽ शफे । शकुला-
 विवेतिशकुलौऽइव ॥ २८ ॥

पदार्थः—(यत्) यः (अस्याः) प्रजायाः (अंहुभेद्याः) अंहुमराधं या
 भिनत्ति तस्याः (कृधु) ँह्रस्वम् । कृध्विति ँह्रस्वनाम० निघं० ३ । २ । (स्थूलम्)
 महत् कर्म (उपातसत्) उपभूषयेत् (मुष्कौ) मूषकौ (इत्) एव (अस्याः)
 (एजतः) कम्पयतः (गोशफे) गोसुरचिन्हे (शकुलाविव) ँह्रस्वौ मत्स्या-
 विव ॥ २८ ॥

अन्वयः—यद्यो राजा राजपुरुषश्चास्या अंहुभेद्याः कृधु स्थूलं कर्मोपातस-
 तावस्या एजतो गोशफे शकुलाविव मुष्काविदेजतः ॥ २८ ॥

भावार्थः—अत्रोपमालं०—यथा प्रीतिमन्तौ मत्स्यावल्पेपि जलाशये निव-
 सतस्तथा राजराजपुरुषावल्पेपि करलाभे न्यायेन प्रीत्या वर्त्तेयातां यदि दुःख-
 च्छेदिकायाः प्रजायाः स्वल्पमहदुत्तमं कर्म प्रशंसयेतां तर्हि तौ प्रजा उपरक्ताः
 कृत्वा स्वावैपये प्रीतिं कारयेताम् ॥ २८ ॥

पदार्थः—(यत्) जो-राजा वा राजपुरुष (अस्याः) इस (अंहुभेद्याः) अ
 पराध का विनाश करने वाली प्रजा के (कृधु) थोड़े और (स्थूलम्) बहुत कर्म को
 (उपातसत्) सुशोभित करें वे दोनों (अस्याः) इस को (एजतः) कर्म कराते हैं और
 वे आप (गोशफे) गौ के खुर से भूमि में हुए गढ़ले में (शकुलाविव) छोटी दो मछलियों
 के समान (मुष्कौ) प्रजा से पाये हुए कर को चोरते हुए कपते हैं ॥ २८ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में उपमालं०—जैसे एक दूसरे से प्रीति रखने वाली मञ्जली छोटी ताल तलैया में निरन्तर बसती हैं वैसे राजा और राजपुरुष थोड़े भी करके लाभ में न्यायपूर्वक प्रीति के साथ बर्तें और यदि दुःख को दूर करने वाली प्रजा के थोड़े बहुत उत्तम काम की प्रशंसा करें तो वे दोनों प्रजा जनों को प्रसन्न कर अपने में उन से प्रीति करावें ॥ २८ ॥

यद्देवासइत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । विद्वांसो देवताः । अनुष्टुप् छन्दः ।
गान्धारः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

यद्देवासो ललामगुं प्रविष्टीमिन्माविषुः । स-
क्थ्ना देदिश्यते नारी सत्यस्याक्षिभुवो यथा
॥२९॥

यत् । देवासः । ललामगुमिन्ललामगुम् । प्र । विष्टीमिन्म् । आविषुः ।
सक्थ्ना । देदिश्यते । नारी । सत्यस्य । अक्षिभुवइत्यक्षिभुवः । यथा ॥२९॥

पदार्थः—(यत्) यम् (देवासः) विद्वांसः (ललामगुम्) येन न्या-
येनप्राप्तं गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति तम् (प्र) (विष्टीमिन्म्) विशिष्टा बहवः प्रीमा आ-
र्क्षीभूताः पदार्था विद्यन्ते यस्मिन्स्तम् (आविषुः) व्याप्नुयुः (सक्थ्ना) शरीराव
यवेन (देदिश्यते) भृशमृपदिश्येत (नारी) नरस्यस्त्री (सत्यस्य) (अक्षिभुवः)
यदक्षिणि भवति प्रत्यक्षं तस्य (यथा) ॥ २९ ॥

अन्वयः—हे राजन् यथा सत्यस्याक्षिभुवो मध्ये वर्तमाना देवासः सक्थ्ना नारीव यद्विष्टीमिनं ललामगुं न्यायं प्राविपुर्थाचाऽऽप्तेन सत्यमेव देदिश्यते तथा त्वमाचर ॥ २९ ॥

भावार्थः—अत्रोपमा०—यथा शरीराङ्गैः स्त्रीपुरुषौ लक्ष्येते तथा प्रत्यक्षादिप्रमाणैः सत्यं लक्ष्यते तेन सत्येन विद्वांसो यथा प्राप्तव्यमार्द्राभावं प्राप्नुयुस्तथेतरै राजप्रजास्थाः स्त्रीपुरुषां विद्यया विनयं प्राप्य सुखमन्विच्छन्तु ॥ २९ ॥

पदार्थः—हे राजन् (यथा) जैसे (सत्यस्य) सत्य (अक्षिभुवः) आंख के सामने प्रगट हुए प्रत्यक्ष व्यवहार के मध्य में वर्तमान (देवासः) विद्वान् लोग (सक्थ्ना) जांव वा और अपने शरीर के अंग से (नारी) स्त्री के समान (यत्) जिस (विष्टीमिनम्) जिस में सुन्दर बहुत गीले पदार्थ विद्यमान हैं (ललामगुम्) और जिस से मनोवाञ्छित फल को प्राप्त होते हैं ऐसे न्याय को (प्राविपुः) व्याप्त हों वा जैसे शास्त्रवेत्ता विद्वान् जन सत्य का (देदिश्यते) निरन्तर उपदेश करें वैसे आप आचरण करो ॥ २९ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में उपमालं०—जैसे शरीर के अंगों से स्त्री पुरुष लखे जाते हैं हैं वैसे प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों-से सत्य लखा जाता है उस सत्य से विद्वान् लोग जैसे पाने योग्य कोमलता को पावें वैसे और राजा प्रजा के स्त्री पुरुष विद्या से नम्रता को पाकर सुख को हूँ ॥ २९ ॥

यद्धरिण इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । राजा देवता ।

निचृदनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनः स राजा कथमाचरेदित्याह ॥

फिर वह राजा कैसे आचरण करे इस वि० ॥

यद्धरिणो यवमत्ति न पुष्टं पशु मन्यते ।
शूद्रा यदर्यजारा न पोषाय धनायति ॥ ३० ॥

यत् । हरिणः । यवम् । अत्ति । न । पुष्टम् । पशु । मन्यते । शूद्रा । यत् ।
अर्य्यजरेत्यर्य्यजारा । न । पोषाय । धनायति ॥ ३० ॥

पदार्थः—(यत्) यः (हरिणः) पशुः (यवम्-) (अत्ति) (न) (पु-
ष्टम्) (पशु) पशुम् (मन्यते) (शूद्रा) शूद्रस्य स्त्री (यत्) या (अर्य्यजा-
रा) अर्य्योस्वामिवैश्यौ जारयति वयसा हन्ति सा (न) निषेधे (पोषाय)
पुष्टये (धनायति) आत्मनो धनमिच्छति ॥ ३० ॥

अन्वयः—यत् यो राजा हरिणो यवमत्तीव पुष्टं पशु न मन्यते स
यद्यर्य्यजारा शूद्रेव पोषाय न धनायति ॥ ३० ॥

भावार्थः—यो राजा पशुवद्व्यभिचारे वर्त्तमानः प्रजापुष्टिं न करोति
स धनादद्या शूद्रा जारा दासीव सद्यो रोगी भूत्वा पुष्टिं विनाश्य धनहीनतया
दरिद्रः सन् म्रियते तस्माद्राजा कदाचिदीर्ष्या व्यभिचारं च नाचरेत् ॥ ३० ॥

पदार्थः—(यत्) जो राजा (हरिणः) हरिण जैसे (यवम्) खेत में उ-
गे हुए जौ आदि को (अत्ति) खाता है वैसे (पुष्टं) पुष्ट (पशु) देखने योग्य अ-
पने प्रजा जन को (न) नहीं (मन्यते) मानता अर्थात् प्रजा को रुष्ट पुष्ट नहीं देख
के खाता है वह (यत्) जो (अर्य्यजारा) स्वामी वा वैश्य कुल को अवस्था से चुढ़ा
करने हारी दासी (शूद्रा,) शूद्र की स्त्री के समान (पोषाय) पुष्टि के लिये (न)
नहीं (धनायति) अपने को धन चाहता है ॥ ३० ॥

भावार्थः—जो राजा पशु के समान व्यभिचार में वर्त्तमान प्रजा की पुष्टि को
नहीं करता वह धनादद्य शूद्र कुल की स्त्री जो कि जार कर्म करती हुई दासी है उस

के समान शास्त्र रोगी होकर अपनी पुष्टि का विनाश कर के धन हीनता से दरिद्र हुआ मरता है इस से राजा न कभी ईर्ष्या और न व्यभिचार का आचरण करे ॥ ३० ॥

यद्हरिणइत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । राजप्रजे
देवते । अनुष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनः स राजा केन हेतुना नश्यतीत्याहं ॥

फिर वह राजा किस हेतु से नष्ट होता है इस वि० ॥

यद्हरिणो यवमत्ति न पुष्टं बहु मन्यते । शू-
द्रो यदर्यायै जारो पोषमनुमन्यते ॥ ३१ ॥

यत् । हरिणः । यवम् । अत्ति । न । पुष्टम् । बहु । मन्यते । शूद्रः । यत् ।
अर्यायै । जारः । न । पोषम् । अनु । मन्यते ॥ ३१ ॥

पदार्थः—(यत्) यः (हरिणः) (यवम्) (अत्ति) भक्षयति (न)
(पुष्टम्) प्रजाजनम् (बहु) अधिकम् (मन्यते) जानाति (शूद्रः) पूर्वकु-
लोत्पन्नः (यत्) यः (अर्यायै) अर्यायाः स्वामिनो वैश्यस्य वा स्त्रियाः
(जारः) व्यभिचारेण वयो हन्ता (न) निषेधे (पोषम्) पुष्टम् (अनु)
(मन्यते) ॥ ३१ ॥

अन्वयः—यद्यः शूद्रोऽर्यायै जारो भवति स यथा पोषं नाऽनुमन्यते यत्
यो राजा हरिणो यवमत्तीव पुष्टं प्रजाजनं बहु न मन्यते स सर्वतः क्षीणो
जायते ॥ ३१ ॥

भावार्थः—अत्रवाचकं लु०—यदि राजा राजपुरुषाश्च परस्त्रीवेश्याग-
मनाय पशुवद्वर्तन्ते तान् सर्वे विद्वांसः शूद्रानिवजानन्ति यथा शूद्रः

आर्यकुले जारो भूत्वा सर्वान् संकरयति तथा ब्राह्मणक्षत्रियवैश्याःशूद्रकुले व्य-
भिचारं कृत्वा वर्णसंकरनिमित्ता भूत्वा नश्यन्ति ॥ ३१ ॥

पदार्थः—(यत्) जो (शूद्रः) मूर्खों के कुल में जन्मा हुआ मूढजन
(आर्यायै) अपने स्वामी अर्थात् जिस का सेवक उसकी वा वैश्य कुल की स्त्री के अर्थ
(जारः) जार अर्थात् व्यभिचार से अपनी अवस्था का नाश करने वाला होता है वह
जैसे (पोषम्) पुष्टि का (न) नहीं (अनुमन्यते) अनुमान रखता वा (यत्) जो
राजा (हरिणः) हरिण जैसे (यवम्) उगे हुए जौ आदि को (अत्ति) खाता है वैसे
(पुष्टम्) घन सन्तान स्त्री सुख ऐश्वर्य आदि से पुष्ट अपने प्रजा जन को (बहु)
अधिक (न) नहीं (मन्यते) मानता वह सब ओर से क्षीण नष्ट और भ्रष्ट होता
है ॥ ३१ ॥

भाष्यार्थः—इस मंत्रमें वाचकलु० —जो राजा और राजपुरुष परस्त्री और वे-
श्यागमन के लिये पशु के समान अपना वर्त्ताव करते हैं उन को सब विद्वान् शूद्र के
समान जानते हैं जैसे शूद्र मूर्खजन श्रेष्ठों के कुल में व्यभिचारी होकर सब को वर्णसंकर
कर देता है वैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र कुल में व्यभिचार करके वर्णसंकर के निमित्त
होकर नाश को प्राप्त होते हैं ॥ ३१ ॥

दधिक्रावणादत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । राजा देवता ।

अनुष्टुप्छन्दः । गान्धाः स्वरः ॥

पुनः स राजा कस्येव किं वर्द्धयेदित्याह ॥

फिर वह राजा किस के समान क्या बढ़ावे इस वि० ॥

दधिक्रावणां अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजि-
नः । सुरभि नो सुखां कस्तु प्र ण आयू ः षि
तारिषत् ॥ ३२ ॥

दधिक्रावण इति दधिऽक्रावणः । अकारिषम् । जिष्णोः । अश्वस्य । वाजिनः । सुरभि । नः । मुखान् । करत् । प्र । नः । आयूंषि । तारिषत् ॥ ३२ ॥

पदार्थः—(दधिक्रावणः) यो दधीन् पोषकान्धारकान् वा काम्यति तस्य (अकारिषम्) कुर्व्याम् (जिष्णोः) जयशीलस्य (अश्वस्य) आशुगामिनः (वाजिनः) बहुवेगवतः (सुरभि) प्रशस्तसुगन्धियुतानि (नः) अस्माकम् (मुखान्) मुखानि (करत्) कुर्व्यात् (प्र) (नः) (अस्माकम्) (आयूंषि) (तारिषत्) सन्तारयेत् ॥ ३२ ॥

अन्वयः—हे राजन् यथाऽहं दधिक्रावणो वाजिनो जिष्णोरश्वस्येव वीर्यमकारिषं तथा भवान् नः सुरभि मुखेव वीर्यं प्रकरन्न आयूंषि तारिषत् ॥ ३२ ॥

भावार्थः—यथाऽश्वशिक्षका अश्वान् वीर्यरक्षणनियमेन बलिष्ठान् संग्रामे विजयनिपित्तान् कुर्वन्ति तथैवाध्यापकोपदेशकाः कुमारान् कुमारिभ्यः पूर्णेन ब्रह्मचर्यसेवनेन विद्यायुक्तान् विदुषीश्च कृत्वा शरीरात्मनलाय प्रवृत्तं दीर्घायुषो युद्धशालीनान् सम्पादयेयुः ॥ ३२ ॥

पदार्थः—हे राजन् जैसे मैं (दधिक्रावणः) जो धारण पोषण करने वालों को प्राप्त होता (वाजिनः) बहुत वेगयुक्त (जिष्णोः) जीतने और (अश्वस्य) शीघ्र जाने वाला है उस घोड़े के समान पराक्रम को (अकारिषम्) करूँ जैसे आप (नः) हम लोगों के (सुरभि) सुगन्धि युक्त (मुखान्) मुखोंके तुल्य पराक्रम को (प्र, करत्) भली भाँति करो और (नः) हमारे (आयूंषि) आयुओं को (तारिषत्) उन की अवधि के पार पहुंचाओ ॥ ३२ ॥

भावार्थः—जैसे घोड़ों के सिखाने वाले घोड़ों को पराक्रमकी रक्षा के नियम से बलिष्ठ और संग्राम में जिताने वाले करते हैं वैसे पढ़ाने और उपदेश करने वाले कुमार और कुमारियों को पूरे ब्रह्मचर्य के सेवन से परिष्ठत परिष्ठता कर उन को शरीर और आत्मा के बल के लिये प्रवृत्त करा के बहुत आयु वाले और अति युद्ध करने में कुशल बनावें ॥ ३२ ॥

गायत्रीत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । विद्वांसो देवताः ।

उष्णिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह

फिर उसी वि०

गायत्री त्रिष्टुब्जगत्यनुष्टुप्पङ्क्त्या सह ।
बृहत्युष्णिहा ककुप्सूचीभिः शम्यन्तु त्वा ॥३३॥

गायत्री । त्रिष्टुप् । त्रिस्तुवितिं त्रिऽस्तुप् । जगती । अनुष्टुप् । अनुस्तुवित्य-
नुऽस्तुप् । पङ्क्त्या । सह । बृहती । उष्णिहा । ककुप् । सूचीभिः । शम्यन्तु ।
त्वा ॥ ३३ ॥

पदार्थः--(गायत्री) गायन्तं त्रायमाणा (त्रिष्टुप्) याऽध्यात्मिकाभि-
भौतिकाधिदैविकानि त्रीणि सुखानि स्तोभते स्तभ्नानि सा (जगती) जगद्-
द्विस्तीर्णा (अनुष्टुप्) ययाऽनुष्टोभते सा (पङ्क्त्या) विस्तृतया क्रियया
(सह) (बृहती) महदर्था (उष्णिहा) यया उषः स्निहति तथा (ककुप्)
लालित्ययुक्ता (सूचीभिः) सीवनसाधिकाभिः (शम्यन्तु) (त्वा) त्वाम् ॥३३॥

अन्वयः-- हे विद्वान् ये विद्वांसः पङ्क्त्या सह गायत्री त्रिष्टुब्जगत्यनु-
ष्टुवुष्णिहा सह बृहती ककुप्सूचीभिरिव त्वा त्वां शम्यन्तु तांस्त्वंसेवस्व ॥ ३३ ॥

भावार्थः-- ये विद्वांसो गायत्र्यादिछन्दोऽर्थविज्ञापनेन मनुष्यान् विदुषः
कुर्वन्ति सूच्या छिन्नं वस्त्रमिव भिन्नमतान्यनुसंधत्यैकमत्ये स्थापयन्ति ते जगत्कं-
ल्याणकारका भवन्ति ॥ ३३ ॥

पदार्थः— हे विद्वान् जो विद्वान् जन (पंक्त्या) विस्तारयुक्त पंक्ति छन्द के (सह) साथ जो (गायत्री) गाने वाले की रक्षा करती हुई गायत्री (त्रिष्टुप्) आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधिदैविक इन तीनों दुःखों को रोकने वाला त्रिष्टुप् (जगती) जगत् के समान विस्तीर्ण अर्थात् फैली हुई जगती (अनुष्टुप्) जिस से पीछे से संसार के दुःखों को रोकते हैं वह अनुष्टुप् तथा (उष्णिहा) जिस से प्रातःसमय की बेला को प्राप्ति करता है उस उष्णिहा छन्द के साथ (बृहती) गम्भीर आशय वाली बृहती (ककुप्) ललित पदों के अर्थ से युक्त ककुप्छन्द (सूचीभिः) सूहियों से जैसे वस्त्र सिद्धा जाता है वैसे (त्वा) तुम्हको (शम्यन्तु) शान्ति युक्त करे या सब विद्याओं का बोध करावे उनका तू सेवन कर ॥ ३३ ॥

भावार्थः— जो विद्वान् गायत्री आदि छन्दों के अर्थ को बताने से मनुष्यों को विद्वान् करते हैं और सूई से फटे वस्त्र को सीवे त्यों अलग-अलग मतवालों का सत्य में मिलाप कर देते हैं और उन को एक मत में स्थापन करते हैं वे जगत् के कल्याण करने वाले होते हैं ॥ ३३ ॥

द्विपदाइत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । प्रजा देवताः ।

निचृदनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनर्विद्वांसः किं कुर्युरित्याह ॥

फिर विद्वान् लोग क्या करें इस वि० ॥

द्विपदा याश्चतुष्पदास्त्रिपदा याश्च षट्पदाः ।
विच्छन्दा याश्च सच्छन्दाः सूचीभिः शम्यन्तु
त्वा ॥ ३४ ॥

द्विपदाइति द्विःपदाः । याः । चतुष्पदाइति चतुःऽपदाः । त्रिपदाइति त्रिःपदाः । याः । च । षट्पदाइति षट्ऽपदाः । विच्छन्दाइति विःच्छन्दाः । याः । च । सच्छन्दाइति सच्छन्दाः । सूचीभिः । शम्यन्तु । त्वा ॥ ३४ ॥

पदार्थः—(द्विपदाः) द्वे पदे यासु ताः (याः) (चतुष्पदाः) च त्वारि पदानि यासु ताः (त्रिपदाः) त्रीणि पदानि यासु ताः (याः) (च) (षट्पदाः) षट् पदानि यासु ताः (विच्छन्दाः) विविधानि छन्दास्यूर्जनानि यासु ताः (याः) (च) (सच्छन्दाः) समानानि छन्दासि यासु ताः (सूचीभिः) अनुसंधानसाधिकाभिः क्रियाभिः (शम्यन्तु) (त्वा) ॥ ३४ ॥

अन्वयः—ये विद्वांसः सूचीभिर्या द्विपदा चारचतुष्पदा यास्त्रिपदा या षच षट्पदा या विच्छन्दा चारष सच्छन्दास्त्वां ग्राहयित्वा शम्यन्तु शमं प्रापयन्तु तान् नित्यं सेवस्व ॥ ३४ ॥

भावार्थः—ये विद्वांसो मनुष्यान् ब्रह्मचर्यानियमेन वीर्यवृद्धिं प्रापय्यारोगान् जितेन्द्रियान् विषयासक्तिविरहान्कृत्वा धर्म्ये व्यवहारे चालयन्ति ते सर्वेषां पूज्या भवन्ति ॥ ३४ ॥

पदार्थः—जो विद्वान् जन (सूचीभिः) सन्धियों को मिला देने वाली क्रियाओं से (याः) जो (द्विपदाः) दो २ पद वाली वा जो (चतुष्पदाः) चार ४ पद वाली वा (त्रिपदाः) तीन पदों वाली (च) और (याः) जो (षट्पदाः) छः पदों वाली जो (विच्छन्दाः) अनेकविध पराक्रमों वाली (च) और (याः) जो (सच्छन्दाः) ऐसी हैं कि जिन में एक से छन्द हैं वे क्रिया (त्वा) तुम को ग्रहण कराके (शम्यन्तु) शान्ति सुख को प्राप्त करावें उन का नित्य सेवन करो ॥ ३४ ॥

भावार्थः—जो विद्वान् मनुष्यों को ब्रह्मचर्य नियम से वीर्य वृद्धि को पहुँचा कर नीरोग जितेन्द्रिय और विषयासक्ति से रहित करके धर्मयुक्त व्यवहार में चलाते हैं वे सब को पूज्य अर्थात् सत्कार करने के योग्य होते हैं ॥ ३४ ॥

महानाम्न्यइत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । प्रजा देवता ।

भुरिगुणिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

पुनर्विद्वांसः कीदृशा भवेयुरित्याह ॥

फिर विद्वान् कैसे हों इस वि० ॥

महानाम्न्यो रेवत्यो विश्वा आशाः प्रभूव-
रीः । मैघीर्विद्युतो वाचः सूचीभिः शम्यन्तु
त्वा ॥ ३५ ॥

महानाम्न्य ऽइति महाऽनाम्न्यः । रेवत्यः । विश्वाः । आशाः । प्रभूवरी-
ति प्रऽभूवरीः । मैघीः । विद्युतऽइति विऽद्युतः । वाचः । सूचीभिः । शम्य-
न्तु । त्वा ॥ ३५ ॥

पदार्थः—(महानाम्न्यः) महन्नाम यासां ताः (रेवत्यः) बहुधनयुक्ताः
(विश्वाः) अखिलाः (आशाः) दिशः (प्रभूवरीः) प्रभुत्वयुक्ताः (मै-
घीः) मेघानामिमाः (विद्युतः) (वाचः) (सूचीभिः) (शम्यन्तु) (त्वा)
त्वाम् ॥ ३५ ॥

अन्वयः—हे जिज्ञासो सूचीभिर्या महानाम्न्यो रेवत्यः प्रभूवरीर्विश्वा-
आशा इव मैघीर्विद्युतइव च वाचस्त्वाशम्यन्तु तास्त्वंगृहाण ॥ ३५ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—येषां वाचो दिग्बत्सर्वासु विद्यासु व्यापिका
मेघस्था विद्युदिव सर्वार्थप्रकाशिकाः सन्ति ते शान्त्या जितोद्रियत्वं प्राप्य महा-
कीर्तयो जायन्ते ॥ ३५ ॥

पदार्थः—हे ज्ञानं चाहने हारे (सूचीभिः) सन्धानं करने वाली क्रियाओं
से जो (महानाम्न्यः) बड़े नाम वाली (रेवत्यः) बहुत प्रकार के धन और (प्रभूव-
रीः) प्रभुता से युक्त (विश्वाः) समस्त (आशाः) दिशाओं के समान

(मैघीः) वा मेघों की तड़फ (विद्युतः) जो बिजुली उन के समान (वाचः) वाणी (त्वा) तुझ को (शम्यन्तु) शान्तियुक्त करें उन का तू ग्रहण कर ॥ ३५ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—जिन की वाणी दिशा के तुल्य सब विद्याओं में व्याप्त होने और मेघ में ठहरी हुई बिजुली के समान अर्थ का प्रकाश करने वाली हैं वे विद्वान् शांति से जितेन्द्रियता को प्राप्त होकर बड़ी कीर्ति वाले होते हैं ॥ ३५ ॥

नार्यइत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । स्त्रियो देवताः ।

भुरिगुण्णिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

अथ कन्याः कियद्ब्रह्मचर्यं कुर्युरित्याह ॥

अथ कन्या कितना ब्रह्मचर्य करै इस वि० ॥

नार्यस्ते पत्न्यो लोम विचिन्वन्तु मनीषया ।
देवानां पत्न्यो दिशः सूचीभिः शम्यन्तु त्वा ॥३६॥

नार्यः । ते । पत्न्यः । लोम । वि । चिन्वन्तु । मनीषया । देवानाम् ।
पत्न्यः । दिशः । सूचीभिः । शम्यन्तु । त्वा ॥ ३६ ॥

पदार्थः— (नार्यः) नराणां स्त्रियः (ते) तव (पत्न्यः) स्त्रियः (लोम) अनुकूलं वचनम् (वि) (चिन्वन्तु) सञ्चितं कुर्वन्तु (मनीषया) मनसईपणकर्या प्रज्ञया (देवानाम्) विदुषाम् (पत्न्यः) स्त्रियः (दिशः) (सूचीभिः) अनुसंधानक्रियाभिः (शम्यन्तु) (त्वा) त्वाम् ॥ ३६ ॥

अन्वयः— हे विदुष्यध्यापिके याः कुमार्यो मनीषया ते लोम विचि
न्वन्तु ता देवानां नार्यः पत्न्यो भवन्तु हे कुमारी या देवानां पत्न्यो भूत्वा
सूचीभिः दिश इव शुद्धा विदुष्यः सन्ति तास्त्वा त्वां शम्यन्तु ॥ ३६ ॥

भावार्थः—याः कन्या आद्ये वयसि आपोदशादाचतुर्विंशद्वर्षब्रह्मचर्येण
विद्यासुशिक्षाः प्राप्य स्वसदृशानां पत्न्यः स्युस्ता दिश इव सुप्रकाशितकीर्तयो
भवन्ति ॥ ३६ ॥

पदार्थः—हे परिडता पढ़ाने वाली विदुषी स्त्री जो कुमारी (मनीषया)
तीक्ष्ण बुद्धि से (ते) तेरी (लोम) अनुकूल आज्ञा को (विचिन्वन्तु) इकट्ठा
करें वे (देवानाम्) परिडतों की (नार्यः) परिडतानी हों हे कुमारी जो परिडतों
की (पत्न्यः) परिडतानी होके (सूचीभिः) मिलाप की क्रियाओं से (दिशः)
दिशाओं के समान शुद्ध पाक विद्या पढ़ी हुई हैं वे (त्वा) तुम्हें (शम्यन्तु)
शान्ति और ज्ञान दें ॥ ३६ ॥

भावार्थः—जो कन्या प्रथम अवस्था में सोलह वर्षकी अवस्था से चौबीस
वर्षकी अवस्था तक ब्रह्मचर्यसे विद्या उत्तम शिक्षाको पाकर अपने सदृश पुरुषों
की पत्नी हों वे दिशाओं के समान उत्तम प्रकाशयुक्त कीर्ति वाली हों ॥ ३६ ॥

रजताइत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । स्त्रियो देवताः । अनुष्टुप्-
छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनस्ताः कीदृशो भवेयुरित्याह ॥

फिर वे कैसी हों इस वि० ॥

**रजता हरिणीः सीसा युजो युज्यन्ते कर्म-
भिः । अश्वस्य वाजिनस्त्वचि सिमाः शम्यन्तु
शम्यन्तीः ॥ ३७ ॥**

रजताः । हरिणीः । सीसाः । युजः । युज्यन्ते । कर्मभिरिति कर्मभिः ।
अश्वस्य । वाजिनः । त्वचि । सिमाः । शम्यन्तु । शम्यन्तीः ॥ ३७ ॥

पदार्थः—(रजताः) अनुरक्ताः (हरिणीः) प्रशस्तो हरो हरणं विद्यते यासां ताः (सीसाः) प्रेमबन्धिकाः । अत्र पिञ्चन्धने, इत्यस्मादौणादिकः कस, प्रत्ययोऽन्वेषामपीति दीर्घः (युजः) समाहिताः (युज्यन्ते) (कर्माभिः) धर्म्याभिः क्रियाभिः (अश्वस्य) व्याप्तुं शीलस्य (वाजिनः) प्रशस्तबलवतः (त्वचि) संवरणे (सिमाः) प्रेम्णा बद्धाः (शम्यन्तु) आनन्दन्तु (शम्यन्तीः) शमं प्राप्नुवतीः प्रापयन्त्यो वा ॥ ३७ ॥

अन्वयः—यथा स्वयंवरा वाजिनोऽश्वस्य त्वचि संयुज्यन्ते तथा कर्मभी-
रजता हरिणीः सीसा युजः शम्यन्तीः सिमा हृद्यान् पतीन् प्राप्य शम्यन्तु ॥ ३७ ॥

भावार्थः—हे मनुष्या ये मुशिक्षिताः स्वयंवरा भूत्वा स्त्रीपुरुषाः स्वे-
च्छया परस्परस्मिन् प्रीता विवाहं कुर्वन्ति ते भद्रान् लावण्यगुणस्वभावयुक्तान् स-
न्तानानुत्पाद्य सदानन्दन्ति ॥ ३७ ॥

पदार्थः—जैसे स्वयंवर विवाह से विवाही हुई स्त्री (वाजिनः) प्रशंसित बल युक्त
(अश्वस्य) उत्तम गुणो में व्याप्त अपने पति के (त्वचि) उढ़ाने में (युज्यन्ते) सं-
युक्त की जाती अर्थात् पति को वस्त्र उढ़ाने आदि सेवा में लगाई जाती हैं जैसे (कर्मे-
भिः) धर्म युक्त क्रियाओं से (रजताः) अनुराग अर्थात् प्रीति को प्राप्त हुई (हरिणीः)
जिन का प्रशंसित स्वीकार करना है वे (सीसाः) प्रेमवाली (युजः) साधधान चित्त
उचित काम करने वाली (शम्यन्तीः) शान्ति को प्राप्त होती वा प्राप्त कराती हुई वा
(सिमाः) प्रेम से बंधी स्त्री अपने हृदय से प्रिय पतियों को प्राप्त हो के (शम्यन्तु) आ-
नन्द भागें ॥ ३७ ॥

भावार्थः—हे मनुष्यो जो विद्या और अच्छी शिक्षा से युक्त आप विवाह का

प्राप्त स्त्री पुरुष अपनी इच्छा से एक-दूसरे से प्रीति किये हुए विवाह को करते हैं वे लावण्य अर्थात् अति सुन्दरता गुण और उत्तम स्वभाव युक्त सन्तानों को उत्पन्न कर सदा आनन्द युक्त होते हैं ॥ ३७ ॥

कुविदङ्गेत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । सभासदो देवताः ।

निचृत्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अथाऽध्यापकाऽध्येतारः कीदृशः स्युरित्याह ॥

अब पढ़ने और पढ़ाने हारे कैसे हों इस वि० ॥

कुविदङ्ग यवमन्तो यवञ्चित्तथा दान्त्यनुपूर्-
वं वियूयं । इहेहैषाङ् कृणुहि भोजनानि ये व-
र्हिषो नमऽउक्तिं यजन्ति ॥ ३८ ॥

कुवित् । अङ्ग । यवमन्त इति यवमन्तः । यवम् । चित् । यथा । दान्ति ।
अनुपूर्वमित्यनुपूर्वम् । वियूयेति वियूयं । इहेहेतीहऽइह । एषाम् । कृणुहि ।
भोजनानि । ये । वर्हिषः । नमऽउक्तिमितिनमः । उक्तिम् । यजन्ति ॥ ३८ ॥

पदार्थः--(कुवित्) बहुविज्ञानयुक्तः (अङ्ग) मित्र (यवमन्तः)
बहुयवादिधान्ययुक्ताः (यवम्) धान्यसमूहम् (चित्) अपि (यथा) (दान्ति)
छिन्दन्ति (अनुपूर्वम्) आनुकूल्यमनतिक्रम्य (वियूयं) वियोज्य संमिश्रय च
(इहेह) अस्मिन्नस्मिन्व्यवहारे (एषाम्) जनानाम् (कृणुहि) कुरु (भोजनानि)

पालनार्थिन्यन्नाभि(ये) (वहिषः) जलस्य (नमउक्तिम्) नमसोऽन्नस्य वच-
नम् (यजन्ति) सङ्गच्छन्ते ॥ ६८ ॥

अन्वयः—हे अङ्ग कुवित्त्वमिहेहैपां यथा यवमन्तो कृषवि ययं वियूय
चिदप्यनुपूर्वं दान्ति ये च वहिषो नम उक्तिं यजन्ति तेषां भोजनानि कृणुहि ॥६८॥

भावार्थः—अत्रोपमालं०—हे अध्यापकाध्येतारो यूयं यथा कृषीवलाः पर-
स्परस्य क्षेत्राणि पर्यायेण लूनन्ति बुसादिभ्योऽन्नानि पृथक्कृत्याऽन्यान्भोजयित्वा
स्वयं भुञ्जते तथैवेह विद्याव्यवहारे निष्कपटतया विद्यार्थिधिरध्यापकानां सेवा-
मध्यापकैर्विद्यार्थिनां विद्याद्याद्धिं च कृत्वा परस्परान् भोजनादिना सत्कृत्य सर्व
आनन्दन्ते ॥ ६८ ॥

पदार्थः—हे (अङ्ग) मित्र (कुवित्) बहुत विज्ञानयुक्त तू (इहेह) इस र
व्यवहार में (णाम्) इन मनुष्यों से (यथा) जैसे (यवमन्तः) बहुत जौ आदि अ-
न्न युक्त खेती करनेवाले (यवम्) जौ आदि अनाज के समूह को बुस आदि से (वि-
यूय) पृथक् कर (चित्) और (अनुपूर्वम्) क्रम से (दान्ति) छेदन करते हैं उन
के और (ये) जो (वहिषः) जल वा (नम उक्तिम्) अन्न सबन्धी वचन को (यज-
न्ति) कह कर सत्कार करते हैं उन के (भोजनानि) भोजनों को (कृणुहि) करो
॥ ६८ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में उपमालं०—हे पढ़ने और पढ़ने वालो तुम लोग जैसे खे-
ती करने हारे एक दूसरे के खेत को पारी से काटते और भूसा से अन्न को अलग कर
औरों को भोजन कराके फिर आप भोजन करते हैं वैसे ही यहां विद्या के व्यवहार में

निष्कपट भाव से विद्यार्थियों को पढ़ाने वालों की सेवा और पढ़ाने वालों को विद्यार्थियों की विद्यावृद्धि कर एक दूसरे को खान पान से सत्कार कर सब कोई आनन्द भोगें ॥ ३८ ॥

कस्त्राच्छयतीत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । अध्यापको देवता ।

भुरिग्गायत्री छन्दः । पद्जः स्वरः ॥

पुनरध्यापका विद्यार्थिनां कीदृशीं परीक्षां गृहीयुरित्याह ॥

फिर पढ़ानेवाले विद्यार्थियों की कैसी परीक्षा लेवे इस वि० ॥

कस्त्राच्छयति कस्त्रा विशास्ति कस्ते गात्रा-
शि शम्यति । क उ ते शमिता क्विः ॥ ३६ ॥

कः । त्वा । आच्छयति । कः । त्वा । वि । शास्ति । कः । ते । गात्राशि ।
शम्यति । कः । उ इत्थं । ते । शमिता । क्विः ॥ ३९ ॥

पदार्थः—(कः) (त्वा) त्वाम् (आच्छयति) समन्ताच्छिनत्ति (कः)
(त्वा) त्वाम् (वि) (शास्ति) विशेषेणोपदिशति (कः) (ते) तव (गा-
त्राणि) अङ्गानि (शम्यति) शाम्यति शमं प्रापयति । अत्र वाच्छन्दीति दी-
र्घत्वाभावः (कः) (उ) वितर्के (ते) तत्र (शमिता) यज्ञस्य कर्त्ता (क-
विः) सर्वशास्त्रवित् ॥ ३६ ॥

अन्वयः—हे अध्येतस्त्रा त्वां क आच्छयति कस्त्रा विशास्ति कस्ते गा-
त्राणि शम्यति क उ ते शमिता क्विरध्यापकोऽस्ति ॥ ३६ ॥

भावार्थः—अध्यापका अध्येतृन्प्रत्येवं परीक्षायां पृच्छेयुः के युष्माकमध्य-
यनं छिन्दन्ति के युष्मानध्यनायोपदिशन्ति केऽङ्गानां शुद्धिं योग्यां चेषटां च
ज्ञापयन्ति कोऽध्यापकोऽस्ति किमधीतं किमध्येतव्यमस्तीत्यादि पृष्ट्वा सुपरीक्ष्यो-
त्तमानुत्साह्याधमान् धिक्कृत्वा विद्यामुन्नयेयुः ॥ ३६ ॥

पदार्थः— हे पढ़ने वाले विद्यार्थि जन (त्वा) तुझे (कः) कौन (आह्वय-
ति) ड़ेदन करता (कः) कौन (त्वा) तुझे (विशास्ति) अच्छा सिखाता (कः)
कौन (ते) तेरे (गात्राणि) अङ्गों को (शम्यति) शान्ति पहुंचाता और (कः)
कौन (उ) तो (ते) तेरा (शमिता) यज्ञ करनेवाला (कविः) समस्त शास्त्र को
जानता हुआ पढ़ाने हारा है ॥ ३६ ॥

भावार्थः—अध्यापक लोग पढ़ने वालों के प्रति ऐसे परीक्षा में पूछें कि कौन
तुम्हारे पढ़ने को काटने अर्थात् पढ़ने में विघ्न करत कौन तुम को पढ़ने के लिये
उपदेश देते हैं कौन अङ्गों की शुद्धि और योग्य चेष्टा को जनाते हैं कौन पढ़ाने
वाला है क्या पढ़ा क्या पढ़ने योग्य है ऐसे पूछ उतम परीक्षा कर उतम विद्यार्थियों
को उत्साह देकर दृष्ट स्वभाव वालों को धिक्कार देके विद्या की उन्नति करावें ॥ ३६ ॥

ऋतव इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । प्रजा देवताः ।

अनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनः स्त्रीपुरुषाः कथं वर्तेरन्नित्याह ॥

फिर स्त्री पुरुष कैसे अपना वर्त्तव वर्ते इस वि० ॥

ऋतवस्तन्नृतुथा पर्वं शमितारो विशासतु ।
संवत्सरस्य तेजसा शमीभिः शम्यन्तुत्वा ॥४०॥

ऋतवः । ते । ऋतुथेत्यृतुऽथा । पर्वं । शमितारः । वि । शामतु । संवत्स-
रस्य । तेजसा । शमीभिः । शम्यन्तु । त्वा ॥ ४० ॥

पदार्थः—(ऋतवः) वसन्ताद्याः (ते) तव (ऋतुथा) ऋतुभ्यः (पर्व) पालनम् (शमितारः) अध्ययनाध्यापनाख्ये यज्ञे शमादिगुणानां प्रापकाः (वि, शासतु) विशेषेणोपदिशन्तु (संवत्सरस्य) (तेजसा) जलेन तेज इत्युदकना०निघ० १ । १२ । (शमीभिः) कर्माभिः (शम्यन्तु) (त्वा) त्वाम् ॥ ४० ॥

अन्वयः—हे विद्यार्थेन् यथा ते ऋतव ऋतुथापर्वेशमितारोऽध्येतारं विशासतु संवत्सरस्य तेजसा शमीभिस्त्वा त्वां शम्यन्तु तांस्त्वंसदैव सेवस्व ॥ ४० ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—यथा ऋतवः पर्यायेण स्वानि स्वानि लिङ्गान्यभिपद्यन्ते तथैव स्त्रीपुरुषाः पर्यायेण ब्रह्मचर्यगृहस्थवानप्रस्थसंन्यासाश्रमान् कृत्वा ब्राह्मणा ब्राह्मण्यश्चाऽध्यापयेयुः । क्षत्रियाः प्रजा रक्षन्तु वैश्याः कृष्यादिकमुन्नयन्तु शूद्राश्चैतान् सेवन्तामिति ॥ ४० ॥

पदार्थः—हे विद्यार्थी जन जैसे (ते) तेरे (ऋतवः) वसन्त आदि ऋतु (ऋतुथा) ऋतु के गुणों से (पर्व) पालना करें (शमितारः) वैसे पढ़ने पढ़ाने रूप यज्ञ में शम दम आदि गुणों की प्राप्ति कराने हारे अध्यापक पढ़ने वालों को (वि, शासतु) विशेषता से उपदेश करें (संवत्सरस्य) और संवत् के (तेजसा) जल (शमीभिः) और कर्मों से (त्वा) तुम्हें (शम्यन्तु) शान्ति दें उनकी तू सदैव सेवा कर ॥ ४० ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—जैसे ऋतु पारी से अपने चिन्हों को प्राप्त होते हैं वैसे स्त्री पुरुष पारी से ब्रह्मचर्य गार्हस्थ का धर्म वानप्रस्थ वन में रह कर तप करना और संन्यास आश्रम को करके ब्राह्मण और ब्राह्मणी पढ़ावे क्षत्रिय और क्षत्रिया प्रजा की रक्षा करें वैश्य और वैश्या खेती आदि की उन्नति करें और शूद्र शूद्रा उक्त ब्राह्मण आदि की सेवा किया करें ॥ ४० ॥

अर्द्धमासा इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । प्रजा देवताः ।

अनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

अथ बालकेषु मात्रादायः कथं वर्तेरन्नित्याह ॥

अथ बालकों में माता आदि कैसे वर्ते इस वि० ॥

अर्द्धमासाः परूंषि ते मासा आच्छयन्तु
शम्यन्तः । अहोरात्राणि मरुतो विलिष्टं सू-
दयन्तु ते ॥ ४१ ॥

अर्द्धमासाः इत्यर्द्धमासाः । परूंषि । ते । मासाः । आ । च्छयन्तु ।
शम्यन्तः । अहोरात्राणि । मरुतः । विलिष्टमिति विलिष्टम् । सूदयन्तु । ते
॥ ४१ ॥

पदार्थः—(अर्द्धमासाः) कृष्णशुक्लपक्षाः (परूंषि) कठोराणि
वचनानि (ते) तत्र (मासाः) चैत्रादयः (आ) समंतात् (छयन्तु) छिन्द-
न्तु (शम्यन्तः) शान्तिं प्रापयन्तः (अहोरात्राणि) (मरुतः) मनुष्याः (वि-
लि) विरुद्धमल्पमपि व्यसनम् (सूदयन्तु) दूरी कारयन्तु (ते)
तत्र ॥ ४१ ॥

अन्वयः—हे विद्यार्थिन् अहोरात्राण्यर्द्धमासा मासाश्चायूंषीव ते तत्र प-
रूंषि शम्यन्तो मरुतो दुर्व्यसनान्याच्छयन्तु ते तत्र मासा विलिष्टं सूदयन्तु ॥ ४१ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—यदि मातापित्रध्यापकोपदेशकातिथयो-
बालानां दुर्गुणान् निवर्तयेयुस्तीर्हि ते शिष्टा कदाचिन्नभवेयुः ॥ ४१ ॥

पदार्थः—हे विद्यार्थी लोग (अहोरात्राणि) दिन रात (अर्द्धमासाः) उजे-
ले अंधियारं पखवाड़े और (मासाः) चैत्रादि महीने जैसे आगु अर्थात् उमरों को
काटते हैं वैसे (ते) तेरे (पखंषि) कठोर वचनों को (शम्यन्तः) शान्ति पहुंचाते
हुए (मरुतः) उत्तम मनुष्य दुष्ट कामों का (आह्वयन्तु) विनाश करें और (ते)
तेरे (विलिष्टम्) थोड़े भी कुव्यसन को (सूदयन्तु) दूर करें ॥ ४१ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—जो माता पिता पढ़ाने और उपदेश
करने वाले तथा अतिथि लोग बालकों के दुष्ट गुणों को न निवृत्त करें तो वे शिष्ट अ-
र्थात् उत्तम कभी न हों ॥ ४१ ॥

दैव्या इत्यस्य प्रजापति ऋषिः । भुरिगुणिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

अथाध्यापकादयः कथं वर्तेरन्नित्याह ॥

अब पढ़ानेवाले आदि सज्जन कैसे वर्ते इस वि० ॥

दैव्या अध्वर्यवस्त्वाह्वयन्तु वि च शासतु ।
गात्राणि पर्वशस्तेसिमाः कृण्वन्तु शम्यन्ती ॥४१॥

दैव्याः । अध्वर्यवः । त्वा । आ । ह्वयन्तु । वि । च । शासतु । गात्राणि ।
पर्वशऽइति पर्वशः । ते । सिमाः । कृण्वन्तु । शम्यन्तीः ॥ ४२ ॥

पदार्थः— (दैव्याः) देवेषु विद्वत्सु कुशलाः (अध्वर्यवः) आत्मनो
ऽहिसौख्ययज्ञमिच्छन्तः (त्वा) त्वाम् (आ) (ह्वयन्तु) छिन्दन्तु (वि)
(च) (शासतु) उपदिशन्तु (गात्राणि) अङ्गानि (पर्वशः) सन्धितः (ते) तव
(सिमाः) प्रेमबद्धाः (कृण्वन्तु) (शम्यन्तीः) दुष्टस्वभावं निवारयन्त्यः ॥ ४२ ॥

। अन्वयः—हे विद्यार्थिन् विद्यार्थिनि वा दैव्या अध्वर्यवस्त्वा विशासतु च ते तव दोषानाच्छद्यन्तु पर्वशो गात्राणि परीक्षन्तां सिमाः शम्यन्तीः सत्यो मातरोऽप्येवं शिक्षां कृण्वन्तु ॥ ४२ ॥

भावार्थः—अध्यापकोपदेशकाऽतिथयो यदा बालकान् शिक्षयेयुस्तदा दुर्गुणान् विनाश्य विद्यां प्रापयेयुरेवमध्यापकोपदेशिका विदुष्यः स्त्रियोऽपि कन्याः प्रत्याचरेयुः । वैद्यकशास्त्रीत्या शरीरावयवान् सम्यक् परीक्ष्यौषधान्यपि प्रदद्युः ॥ ४२ ॥

पदार्थः—हे विद्यार्थी वा विद्यार्थिनी (दैव्याः) विद्वानों में कुशल (अध्वर्यवः) अपनी रक्षा रूप यज्ञ को चाहते हुए अध्यापक उपदेशक लोग (त्वा) तुम्हें (विशास-तु) विशेष उपदेश दें (च) और (ते) तेरे दोषों का (आ, ल्यन्तु) विनाश करें (पर्वशः) संधि से (गात्राणि) अङ्गों को परखें (सिमाः) प्रेम से बंधी हुई (श-म्यन्तीः) दुष्ट स्वभाव को दूर करती हुई माता आदि सत्ता स्त्रियां भी ऐसी ही शिक्षा (कृण्वन्तु) करें ॥ ४२ ॥

भावार्थः—अध्यापक उपदेशक और अतिथि लोग जब बालकों को सिखलावें तब दोषों का विनाश कर उन को विद्या की प्राप्ति करावें ऐसे पढ़ाने और उपदेश करने वाली स्त्री भी कन्याओं के प्रति आचरण करें और वैद्यक शास्त्र की रीति से शरीर के अङ्गों की अच्छे प्रकार परीक्षा कर औषधि भी दें ॥ ४२ ॥

द्यौरित्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । राजा देवता । अनुष्णुप्-

छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनरध्यापकादयः कीदृशा भवेयुरित्याह ॥

फिर अध्यापकादि कैसे हों इस वि० ॥

द्यौस्ते' पृथिव्यन्तरिक्षं वायुश्चिच्छुद्रं
पृणातु ते । सूर्यास्ते नक्षत्रैः सह लोकं
कृणोतु साधुया ॥ ४३ ॥

द्यौः । ते । पृथिवी । अन्तरिक्षम् । वायुः । छिद्रम् । पृणातु ।
ते । सूर्यः । ते । नक्षत्रैः । सह । लोकम् । कृणोतु । साधुयेति
साधुऽया ॥ ४३ ॥

पदार्थः—(द्यौः) प्रकाशरूपा विद्युत् (ते) तव (पृथिवी) भूमिः (अ-
न्तरिक्षम्) आकाशम् (वायुः) पवनः (छिद्रम्) इन्द्रियम् (पृणातु) सुखयतु
(ते) तव (सूर्यः) सविता (ते) तव (नक्षत्रैः) (सह) (लोकम्) दर्श-
नीयम् (कृणोतु) (साधुया) साधु सत्यम् ॥ ४३ ॥

अन्वयः—हे शिष्येऽध्यापिके वा यथा द्यौः पृथिव्यन्तरिक्षं वायुः सूर्यो
नक्षत्रैः सह चन्द्रश्च ते छिद्रं पृणातु ते तव व्यवहारं साधनोतु तथा ते तव साधुया
लोकं कृणोतु ॥ ४३ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—यथा पृथिव्यादयः सुखप्रदाः सूर्यादयाः प्र-
काशकाः पदार्थाः सन्ति तथैवाऽध्यापका उपदेशकारचाऽध्यापिका अप्युपदेशिका-
श्च सर्वान् सन्मार्गस्थान् कृत्वा विद्याप्रकाशं जनयन्तु ॥ ४३ ॥

पदार्थः—हे पढने वा पढाने हारी स्त्रियो जैसे (द्यौः) प्रकाशरूप विजुली (पृ-
थिवी) भूमि, (अन्तरिक्षम्) आकाश (वायुः) पवन (सूर्यः) सूर्य लोक और
(नक्षत्रैः) तारागणों के (सह) साथ चन्द्रलोक (ते) तेरे (छिद्रम्) प्रत्येक इन्द्रिय
को (पृणातु) सुख देवे (ते) तेरे व्यवहार को सिद्ध करें वैसे (ते) तेरे (साधुया)
उत्तम सत्य (लोकम्) देखने योग्य लोक को (कृणोतु) सिद्ध करे ॥ ४३ ॥

भावार्थः--इस मंत्र में वाचकलु०--जैसे पृथिवी आदि सुख देने और सूर्य आदि पदार्थ प्रकाश करने वाले हैं वैसे ही पढाने वाले और उपदेश करने वाले वा पढाने और उपदेश करने वाली स्त्री सब को अच्छे मार्ग में स्थापन कर विद्या के प्रकाश को उत्पन्न करें ॥ ४३ ॥

शन्तइत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । राजा देवता । उष्णिक्-

छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

पुनर्मात्रादिभिः किं कर्त्तव्यमित्याह ॥

फिर माता आदि को क्या करना चाहिये इस वि० ॥

शन्ते परेभ्यो गात्रेभ्यः शमस्त्ववरेभ्यः । शमस्थभ्यो मज्जभ्यः शस्वस्तु तन्वै तव ॥ ४४ ॥

शम् । ते । परेभ्यः । गात्रेभ्यः । शम् । अस्तु । अवरेभ्यः ।
शम् । अस्थभ्यः इत्यस्थभ्यः । मज्जभ्यः इति मज्जभ्यः ।
शम् । ऊँ इत्यूँ । अस्तु । तन्वै । तव ॥ ४४ ॥

पदार्थः--(शम्) सुखम् (ते) तुभ्यम् (परेभ्यः) उत्कृष्टेभ्यः (गात्रेभ्यः) (शम्) (अस्तु) (अवरेभ्यः) मध्यस्थेभ्यो निकृष्टेभ्यो वा (शम्) (अस्थभ्यः) अस्थिभ्यः । छन्दस्यपि दृश्यत इत्यनेन हलादावप्यनङ् (मज्जभ्यः) (शम्) (उ) (अस्तु) (तन्वै) शरीराय (तव) ॥ ४४ ॥

अन्वयः--हे विद्यामिच्छो यथा पृथिव्यादितत्त्वं तव तन्वे शमस्तु परेभ्यो गात्रेभ्यः शम्ववरेभ्यो गात्रेभ्यः शमस्तु । अस्थभ्यो मज्जभ्यः शमस्तु तथा स्वकीयैरुत्तमगुणकर्मस्वभावैरध्यापकास्ते शंकरा भवन्तु ॥ ४४ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—यथा मातापित्राऽध्यापकोपदेशकैः सन्तानानां दृढाङ्गानि दृढा धातवश्च स्युर्यैः कल्याणं कर्तुमर्ह्युस्तथाऽध्यापनीयमुपदेष्टव्यं च ॥ ४४ ॥

पदार्थः—हे विद्या चाहने वाले जैसे पृथिवी आदि तत्त्व (तव) तेरे (तन्वै) शरीर के लिये (शम्) सुख हेतु (अस्तु) हो वा (परेभ्यः) अत्यन्त उत्तम (गात्रेभ्यः) अङ्गों के लिये (शम्) सुख (उ) और (अवेरेभ्यः) उत्तमों से न्यून मध्य तथा निकृष्ट अङ्गों के लिये (शम्) सुखरूप (अस्तु) हो और (अस्थभ्यः) हड्डी मज्जभ्यः) और शरीर में रहने वाली चरबी के लिये (शम्) सुख हेतु हो वैसे अपने उत्तम गुण कर्म और स्वभाव से अध्यापक लोग (ते) तेरे लिये सुख के करने वाले हों ॥ ४४ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—जैसे माता, पिता, पढ़ाने और उपदेश करने वालों को अपने सन्तानों के पुष्ट अंग और पुष्ट धातु हों जिन से दूसरों के कल्याण करने के योग्य हों वैसे पढ़ाना और उपदेश करना चाहिये ॥ ४४ ॥

कः स्वित्दित्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । जिज्ञासुर्देवता ।

निचृदनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

अथ विदुषः प्रति प्रश्ना एव कर्त्तव्या इत्याह ॥

अब विद्वानों के प्रति प्रश्न ऐसे करने चाहियें इस वि० ॥

कः स्वित्देकाकी चरति क उ स्वित्ज्जा-
यते पुनः । किं स्वित्द्विसस्य भेषजं कि-
म्यावपनं महत् ॥ ४५ ॥

कः । स्वि॒त् । ए॒काकी । च॒रति॒ । कः । ऊँऽइ॒त्यूँ । स्वि॒त् ।
जा॒यते॒ । पु॒नरि॒ति पु॒नः । कि॒म् । स्वि॒त् । हि॒मस्य॑ । भे॒षज॑म् ।
कि॒म् । ऊँ इ॒त्यूँ । आ॒व॒प॒ना॒मि॒त्याव॑प॒नम् । म॒हत् ॥ ४५ ॥

पदार्थः— (कः) (स्वि॒त्) (ए॒काकी) अ॒महा॒योऽद्वि॒तीयः (च॒रति)
माप्नो॒स्ति (कः) (उ) (स्वि॒त्) अपि (जा॒यते) (पु॒नः) (कि॒म्)
(स्वि॒त्) (हि॒मस्य) शी॒तस्य (भे॒षज॑म्) औ॒षध॑म् (कि॒म्) (उ)
(आ॒व॒प॒नम्) स॒मन्ता॒त्सर्वा॑धार॒म् (म॒हत्) ॥ ४५ ॥

अन्वयः— हे विद्वान् अस्मिन् संसारे कःस्विदेकाकी चरति क उ
स्विन्पुनर्जायते किं स्विद्धिमस्य भेषजं किमु महदावपनमस्तीति वदस्व ॥ ४५ ॥

भावार्थः—असहायः को भ्रमति शीतानिवारकः कः, कः पुनःपुनरुत्प-
द्यते महदुत्पत्तिस्थानं किमस्तीत्येतेषां प्रश्नानामुत्तरेण मन्त्रेण समाधानानि वेदित-
व्यानि ॥४५॥

पदार्थः—हे विद्वान् इयं संसार में (कः, स्वि॒त्) कौन (ए॒का॒की) ए॒का-
ए॒की अ॒केला (च॒रति) चलता वा प्राप्त होता है (उ) और (कः, स्वि॒त्)
कौन (पु॒नः) फिर २ (जा॒यते) उत्पन्न होता (किं, स्वि॒त्) कौन (हि॒मस्य)
शीत का (भे॒षज॑म्) औषध (कि॒म्, उ) और क्या (म॒हत्) बड़ा (आ॒व॒प॒नम्)
अच्छे प्रकार सबबीज बाने का आधार है इस सब को आप कहिये ॥ ४५ ॥

भावार्थः—विनासहाय के कौन भ्रमता, कौन फिर २ उत्पन्न होता शीत
की निवृत्ति कर्ता कौन और बड़ा उत्पात्ति का स्थान क्या है इन सब प्रश्नों के समाधान
अगले मंत्र से जानने चाहिये ॥ ४५ ॥

सूर्यइत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । सूर्यादयो देवताः ।

अनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनः पूर्वोक्तप्रश्नोत्तराण्याह ॥

फिर पूर्वोक्त प्रश्नों के उत्तरों को अगले मंत्र में कहते हैं ॥

सूर्यं एकाकी चरति चन्द्रमा जायते
पुनः । अग्निर्हिमस्य भेषजं भूमिराव-
पनं महत् ॥४६॥

सूर्यः । एकाकी । चरति । चन्द्रमाः । जायते । पुनरितिऽपु-
नः । अग्निः । हिमस्य । भेषजम् । भूमिः । आवपनमित्याऽव-
पनम् । महत् ॥ ४६ ॥

पदार्थः—(सूर्यः) सूर्यलोकः (एकाकी) असहायः (चरति)
(चन्द्रमाः) आह्लादकरश्चन्द्रः (जायते) प्रकाशिनो भवति (पुनः) पश्चात्
(अग्निः) पात्रकः (हिमस्य) शीतस्य (भेषजम्) औषधम् (भूमिः)
भवन्ति भूतानि यस्यां सा पृथिवी (आवपनम्) समन्ताद्वपन्ति यस्मिंस्तत्
(महत्) विस्तीर्णम् ॥ ४६ ॥

अन्वयः—हे जिज्ञासो सूर्य एकाकी चरति चन्द्रमाः पुनर्जायतेऽग्नि-
र्हिमस्य भेषजं महदावपनं भूमिरस्तीति ॥ ४६ ॥

भावार्थः—हे जिज्ञासो सूर्यः स्वस्यैव परिधौ भ्रमति न कस्यचिन्लोकस्य
परितः । चन्द्रादिलोकास्तेनैव प्रकाशिता भवन्ति । अग्निरेव शीतविनाशकस्सर्व-
वैजवपनार्थं महत् क्षेत्रं भूमिरेवास्तीति यूयं विजानीत ॥ ४६ ॥

पदार्थः—हे जिज्ञासु जानने की इच्छा करने वाले पुरुष (सूर्यः) सूर्य लोक (एकाकी) अकेला (चरति) स्वपरिधि में घूमता है (चन्द्रमाः) आनन्द देने वाला चन्द्रमा (पुनः) फिर २ (जायते) प्रकाशित होता है (अग्निः) पावक (हिमस्य) शीत का (भेषजम्) औषध और (महत्) बड़ा (आवपनम्) अच्छे प्रकार बोलने का आधार कि जिस में सब वस्तु बोलते हैं (भूमिः) वह भूमि है ॥ ४६ ॥

भावार्थः—हे विद्वानो सूर्य अपनी ही परिधि में घूमता है किसी लोकान्तर के चारों ओर नहीं घूमता चन्द्रादि लोक उसी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं अग्नि ही शीत का नाशक और सब बीजों के बोलने को बड़ा क्षेत्र भूमि ही है ऐसा तुम लोग जानो ॥ ४६ ॥

किं स्विदित्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । जिज्ञासुर्देवता ।

अनुष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनः प्रश्नानाह ॥

फिर प्रश्नों को अगले मंत्र में कहते हैं ॥

किंस्वित्सूर्यसमं ज्योतिःकिंसमुद्रसमं सरः । किंस्वित्पृथिव्यै वर्षीयः कस्य मात्रा न विद्यते ॥ ४७ ॥

किम् । । स्वि॒त् । सूर्य॑स॒म॒मि॒ति॒ सूर्य॑ऽस॒मम् । ज्योतिः॑ ।
किम् । स॒मु॒द्र॑स॒म॒मि॒ति॒ स॒मु॒द्र॑ऽस॒मम् । सरः॑ । किम् । स्वि॒त् ।
पृ॒थि॒व्यै । वर्षी॑यः । कस्य॑ । मात्रा॑ । न । वि॒द्य॒ते ॥ ४७ ॥

पदार्थः—(किम्) (स्वित्) (सूर्यसमम्) सूर्येण तुल्यम् (ज्योतिः) प्रकाशस्वरूपम् (किम्) (समुद्रसमम्) (सरः) सरन्ति जलानि यस्मिन् त-

डागे तत् (किम्) (स्वित्) (पृथिव्यै) पृथिव्याः । अत्र पञ्चम्यर्थे चतुर्थी
(वर्षीयः) वृद्धम् (कस्य) (मात्रा) मयिते यया सा (न) (विद्यते) भ-
वति ॥ ४७ ॥

अन्वयः---हे विद्वन् किं स्विमूर्यसमं ज्योतिः किं समुद्रसमं सरः किं-
स्विपृथिव्यै वर्षीयः कस्य मात्रा न विद्यते इति ॥ ४७ ॥

भावार्थः---आदित्यवत्तजस्वि समुद्रवदुदधि भूधरधिकं च किं कस्य च
परिमाणं नास्तीत्येतेषां प्रश्नानामुत्तराणि परस्मिन् मंत्रे वेदितव्यानि ॥ ४७ ॥

पदार्थः---हे विद्वान् (किं,स्वित्) कौन (सूर्यसमम्) सूर्य के समान (ज्योतिः)
प्रकाशस्वरूप (किम्) कौन (समुद्रसमम्) समुद्र के समान (सरः) जिस में जल
बहते वा गिरते वा आते जाते हैं ऐसा तालाब (किं,स्वित्) कौन (पृथिव्यै) पृथिवी
से (वर्षीयः) अतिबड़ा और (कस्य) किस का (मात्रा) जिस से तोल हो वह
परिमाण (न) नहीं (विद्यते) विद्यमान है ॥ ४७ ॥

भावार्थः---आदित्य के तुल्य तेजस्वी, समुद्र के समान जलाधर और भूमि से
बड़ा कौन है और किस का परिमाण नहीं है इन चार प्रश्नों का उत्तर अगले मंत्र में
जानना चाहिये ॥ ४७ ॥

ब्रह्मेत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । ब्रह्मादयो देवताः ।

अनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

अथैतेषामुत्तराण्याह ॥

अब उक्त प्रश्नों के उत्तरों को अगले मंत्र में कहते हैं ॥

ब्रह्म सूर्यसमं ज्योतिर्द्यौः समुद्रसमं
सरः । इन्द्रः पृथिव्यै वर्षीयान्गोस्तु
मात्रा न विद्यते ॥ ४८ ॥

ब्रह्म । सूर्यसममिति सूर्यसमम् । ज्योतिः । द्यौः । समुद्रस-
ममिति समुद्रसमम् । सरः । इन्द्रः । पृथिव्यै । वर्षीयान् ।
गोः । तु । मात्रा । न । विद्यते ॥ ४८ ॥

पदार्थः— (ब्रह्म) बृहत् सर्वेभ्यो महदनन्तम् (सूर्यसमम्) (ज्योतिः)
प्रकाशकम् (द्यौः) अन्तरिक्षम् (समुद्रसमम्) समुद्रेण समानः (सरः)
(इन्द्रः) सूर्यः (पृथिव्यै) पृथिव्याः (वर्षीयान्) अतिशयेन वृद्धो महान्
(गोः) वाचः (तु) (मात्रा) (न) (विद्यते) भवति ॥ ४८ ॥

अन्वयः—हे जिज्ञासो त्वं सूर्यसमं ज्योतिर्वृत्तं समुद्रसमं सरो द्यौः पृथिव्यै
वर्षीयानिन्द्रो गोस्तु मात्रा न विद्यतइति विजानीहि ॥ ४८ ॥

भावार्थः— न किञ्चित्प्रकाशेन ब्रह्मणा समं ज्योतिर्विद्यते सूर्यप्रकाशेन
युक्तेन मेघेन तुल्यो जलाशयः सूर्येण तुल्यो लोकेशो वाचा तुल्यं व्यवहारसाधकं
किञ्चिदपि यस्तु न भवतीति सर्वे निश्चिन्वन्तु ॥ ४८ ॥

पदार्थः— हे ज्ञान चाहने वाले जन तू (सूर्यसमम्) सूर्य के समान-
(ज्योतिः) स्वप्रकाशस्वरूप (ब्रह्म) सब से बड़े अनन्त परमेश्वर (समुद्रसमम्)
समुद्र के समान (सरः) ताल (द्यौः) अन्तरिक्ष (पृथिव्यै) पृथिवी से (वर्षीयान्)
बड़ा (इन्द्रः) सूर्य और (गोः) वाणी का (तु) तो (मात्रा) मान परिमाण (न)
नहीं (विद्यते) विद्यमान है इसको जान ॥ ४८ ॥

भावार्थः—कोई भी आप प्रकाशमान जो ब्रह्म है उसके समान ज्योति विद्यमान
नहीं वा सूर्य के प्रकाश से युक्त मेघ के समान जल के ठहरने का स्थान वा सूर्यमण्डल

के तुल्य लोकेष वा वाणी के तुल्य व्यवहार का सिद्ध करनेहारा कोई भी पदार्थ नहीं होता इसका निश्चय सब करें ॥ ४८ ॥

पृच्छामीत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः प्रष्टुसमाधातारौ देयते ।

अनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनः प्रश्नानाह ॥

फिर प्रश्नों को अगले मंत्र में कहते हैं ॥

पृच्छामि त्वा चितये देवसख यदि
त्वमत्र मनसा जगन्थ । येषु विष्णुस्त्रि-
षु पदेष्वेष्टस्तेषु विश्वं भुवनमाविवे-
शां ॥ ३॥ ५ ॥ ४९ ॥

पृच्छामि । त्वा । चितये देवसखेति देवऽसख । यदि । त्वम् ।
अत्र । मनसा । जगन्थ । येषु । विष्णुः । त्रिषु । पदेषु । आ-
इष्टइत्याऽइष्टः । तेषु । विश्वम् । भुवनम् । आ । विवेश ॥ ४९ ॥

पदार्थः— (पृच्छामि) (त्वा) त्वाम् (चितये) चेतनाय (देवसख)
देवानां विदुषां सुहृद् (यदि) (त्वम्) (अत्र) (मनसा) अन्तःकरणेन
(जगन्थ) (येषु) (विष्णुः) व्यापकेश्वरः (त्रिषु) त्रिविधेषु (पदेषु)
नामस्थानजन्मारूपेषु (एष्टः) (तेषु) (विश्वम्) (भुवनम्) (आ)
(विवेश) आविष्टो व्याप्तोऽस्ति ॥ ४९ ॥

अन्वयः—हे देवसख यदि त्वमत्र मनसा जगन्थ तर्हि त्वाचितये पृच्छामि यो विष्णुर्षेषु त्रिषु पदेष्वेष्टोऽस्ति तेषु व्याप्तः सन् विश्वं भुवनमाविवेश तं च पृच्छामि ॥ ४९ ॥

भावार्थः—हे विद्वन् यश्चेतनः सर्वव्यापी पूजितुं योग्यः परमेश्वरोऽस्ति तं मया मुपादिश ॥ ४९ ॥

पदार्थः—हे (देवसख) विद्वानों के मित्र (यदि) जो (त्वम्) तू (अत्र) यहां (मनसा) अन्तःकरण से (जगन्थ) प्राप्त हो तो (त्वा) तुम्हें (चितये) चेतन के लिये (पृच्छामि) पूछता हूं जो (विष्णुः) व्यापक ईश्वर (येषु) जिन (त्रिषु) तीन प्रकार के (पदेषु) प्राप्त होने योग्य जन्म नाम और स्थान में (एष्टः) अच्छे प्रकार इष्ट है (तेषु) उनमें व्याप्त हुआ (विश्वम्) सम्पूर्ण (भुवनम्) पृथिवी आदि लोकों को (आ, विवेश) भली भांति प्रवेश कर रहा है उस परमात्मा को भी तुझ से पूछता हूं ॥ ४९ ॥

भावार्थः—हे विद्वान् जो चेतनस्वरूप सर्वव्यापी पूजा, उपासना, प्रशंसा, स्तुति करने योग्य परमेश्वर है उस का मेरे लिये उपदेश करो ॥ ४९ ॥

अपीत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । ईश्वरो देवता ।

निचृत् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अथैतेषामुत्तराण्याह ।

अथ उक्त प्रश्नों के उत्तर अगले मंत्र ॥

अपि तेषु त्रिषु पदेष्वस्मि येषु
विश्वं भुवनमाविवेश । सद्यः पश्यसि
पृथिवीम् तद्यामेके नाङ्गेन दिवो अस्य
पृष्ठम् ॥ ५० ॥

अपि । तेषु । त्रिषु । पदेषु । अस्मि । येषु । विश्वम् ।
 भुवनम् । आविवेशेत्याऽविवेशः । सद्यः । परि । एमि । पृथि-
 वीम् । उत । चाम् । एकेन । अद्भ्योऽन । दिवः । अस्य ।
 पृष्ठम् ॥ ५० ॥

पदार्थः— (अपि) (तेषु) पूर्वोक्तेषु (त्रिषु) (पदेषु) प्राप्तुं
 योग्येषु नामस्थानजन्माख्येषु (अस्मि) (येषु) (विश्वम्) अखिलम् (भुवनम्)
 जगत् (आविवेश) समन्ताद्विष्टमस्ति (सद्यः) (परि) सर्वतः (एमि) मातो-
 ऽस्मि (पृथिवीम्) भूमिमन्तरिक्षं वा (उत) (चाम्) सर्वं प्रकाशम् (एकेन)
 (अद्भ्योऽन) कमनीयेन (दिवः) प्रकाशमानस्य सूर्यादिलोकस्य (अस्य)
 (पृष्ठम्) आधारम् ॥ ५० ॥

अन्वयः— हे मनुष्या यो जगत्स्रष्टृधरोऽहं येषु त्रिषु पदेषु विश्वं
 भुवनमाविवेश तेष्वप्यहं व्याप्तोऽस्मि । अस्य दिवः पृष्ठं पृथिवीमुत चाव्यक्तेकना-
 क्केन सद्यः पर्येमि तं मां सर्वे यूयमुपाध्वम् ॥ ५० ॥

भावार्थः— यथा सर्वाङ्गीवान् प्रतीश्वर उपदिशति — अहं कार्य-
 कारणात्मके जगति व्याप्तोऽस्मि मया विनैकः परमाणुरप्यव्याप्तो नास्ति ।
 सोऽहं यत्र जगन्नास्ति तत्राप्यनन्तस्वरूपेण पूर्णोऽस्मि । यदिदं जगदतिवि-
 स्तीर्णं भवन्तः परयन्ति तदिदं मत्सन्निधावेकाणुमात्रमपि नास्तीति तथैव
 विद्वान् विज्ञापयेत् ॥ ५० ॥

पदार्थः— हे मनुष्यो जो जगत् का रचने हारा ईश्वर मैं (येषु) जिन
 (त्रिषु) तीन (पदेषु) प्राप्त होने योग्य जन्म नाम स्थानों में (विश्वम्)

समस्त (भुवनम्) जगत् (आविवेश) सब ओर से प्रवेश को प्राप्त हो रहा है (तेष्) उन जन्म नाम और स्थानों में (अपि) भी मैं व्याप्त (अस्मि) हूँ (अस्य) इस (दिवः) प्रकाशमान सूर्यआदि लोकों के (पृष्ठम्) ऊपरले भाग (पृथिवीम्) भूमि वा अन्तरिक्ष (उत) और (चाम्) समस्त प्रकाश को (एकेन) एक (अङ्गेन) अति मनोहर प्राप्त होने योग्य व्यवहार वा देश से (सद्यः) शीघ्र (परि, एमि) सब ओर से प्राप्त हूँ उस मेरी उपासना तुम सब किया करे ॥ ५० ॥

भावार्थः— जैसे सब जीवों के प्रति ईश्वर उपदेश करता है कि मैं कार्य कारणात्मक जगत् में व्याप्त हूँ मेरे बिना एक परमाणु भी अव्याप्त नहीं है सो मैं जहाँ जगत् नहीं है वहाँ भी अनन्त स्वरूप से परिपूर्ण हूँ जो इस आविष्टारयुक्त जगत् को आप लोग देखते हैं सो यह मेरे आगे अणुमात्र भी नहीं है इस बात को जैसे ही विद्वान् सब को जनावे ॥ ५० ॥

केष्वन्त इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । पुरुषेश्वरो देवता ।

पङ्क्तिरुच्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

अथेश्वरविषये प्रश्नावाह ॥

अथ ईश्वर विषय में दो प्रश्न कहते हैं ॥

केष्वन्तः पुरुष आ विवेश कान्यन्तः
पुरुषे अर्पितानि । एतद्ब्रह्मनुप
वह्लामसि त्वा किं स्वित्नुः प्रति
वोचास्यत्र ॥ ५१ ॥

केषु । अन्तरित्यन्तः । पुरुष । आः । विवेश । कानि ।
अन्तरित्यन्तः । पुरुषे । अर्पितानि । एतत् । ब्रह्मन् । उप ।

ब्रह्मामसि । त्वा । किम् । स्वित् । नः । प्रति । वोचासि ।

अत्र ॥ ५१ ॥

पदार्थः— (केषु) (अन्तः) मध्ये (पुरुषः) सर्वत्र पूर्णः (आ)
विवेश) प्रविष्टोऽस्ति (कानि) (अन्तः) मध्ये (पुरुषे) (अर्पितानि)
स्थापितानि (एतत्) (ब्रह्मन्) ब्रह्मविद्विद्वन् (उप) (ब्रह्मामसि) प्रधाना
भवामः (त्वा) त्वाम् (किम्) (स्वित्) (नः) अस्मान् (प्रति)
(वोचासि) उच्यते । अत्र लेटि मध्यमैकवचने वा छन्दसि सर्वे विधयो भवन्ती-
त्युपासमः (अत्र) ॥ ५१ ॥

अन्वयः—हे ब्रह्मन् केषु पुरुषोऽन्तराविवेश कानि पुरुषेऽन्तरर्पितानि
येन वयमुपब्रह्मामसि । एतत्त्वा त्वां पृच्छामस्तर्किस्विदस्त्यत्र नः प्रतियो-
चासि ॥ ५१ ॥

भावार्थः—चतुर्वेदविद्विद्वानितरैर्जनैरेवं प्रष्टव्यः । हे वेदविद्विद्वन्
पूर्णः परमेश्वरः केषु प्रविष्टोऽस्ति कानि च तदन्तर्गतानि सन्ति । एतत्पृष्टो
भवान् यथाध्वेन ब्रवीतु येन वयं प्रधानपुरुषा भवेम ॥ ५१ ॥

पदार्थः—हे (ब्रह्मन्) वेदज्ञविद्वन् (केषु) किन में (पुरुषः) सर्वत्र पूर्ण
परमेश्वर (अन्तः) भीतर (आ, विवेश) प्रवेश कर रहा है और (कानि)
कौन (पुरुषे) पूर्ण ईश्वर में (अन्तः) भीतर (अर्पितानि) स्थापन किये हैं
जिस ज्ञान से हम लोग (उप, ब्रह्मामसि) प्रधान हों (एतत्) यह (त्वा) आप
को पूछते हैं सो (किं, स्वित्) क्या है (अत्र) इस में (नः) हमारे (प्रति)
प्रति (वोचासि) कहिये ॥ ५१ ॥

भावार्थः—इतर मनुष्यों को चाहिये कि चारों वेद के ज्ञाता विद्वान् को
ऐसे पूछें कि वेदज्ञ विद्वन् पूर्ण परमेश्वर किन में प्रविष्ट है और कौन उस के
अन्तर्गत हैं यह बात आप से पूछी है यथार्थता से कहिये जिस के ज्ञान से हम
उत्तम पुरुष हों ॥ ५१ ॥

पञ्चस्वन्त इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । परमेश्वरो देवता ।

विराद् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पूर्वमन्त्रोक्तप्रश्नयोरुत्तरमाह ॥

पूर्व मंत्र में कहे प्रश्नों के उत्तर अगले मंत्र में कहते हैं ॥

पञ्चस्वन्तः पुरुष आ विवेश तान्यन्तः
पुरुषे अर्पितानि । एतत् त्वा अत्र प्रतिमन्वानो
अस्मि न मायया भवस्युत्तरो मत् ॥५२॥

पञ्चस्विति पञ्चसु । अन्तरित्यन्तः । पुरुषः । आ । विवेश ।
तानि । अन्तरित्यन्तः । पुरुषे । अर्पितानि । एतत् । त्वा । अत्र ।
प्रतिमन्वान इति प्रतिमन्वानः । अस्मि । न । मायया । भवसि ।
उत्तरइत्युत्तरः । मत् ॥ ५२ ॥

पदार्थः—(पञ्चसु) भूतेषु तन्मात्रासु वा (अन्तः) (पुरुषः) पूर्णः
परमात्मा (आ) (विवेश) स्वव्याप्त्याऽऽविष्टोऽस्ति (तानि) भूतानि
तन्मात्राणि वा (अन्तः) मध्ये (पुरुषे) पूर्णं परमात्मनि (अर्पितानि)
स्थापितानि (एतत्) (त्वा) त्वाम् (अत्र) (प्रतिमन्वानः) प्रत्यक्षेण विजानन्
(अस्मि) (न) (मायया) प्रज्ञया मायेति प्रज्ञाना ० निघं ० ३।२ (भवसि)
(उत्तरः) उत्कृष्टं तारयति समादधाति सः (मत्) मम सकाशात् ॥ ५२ ॥

अन्वयः—हे जिज्ञासो पञ्चस्वन्तः पुरुष आ विवेश तानि पुरुषेऽन्तरितानि ।
एतत् त्वा प्रतिमन्वानोऽहं समाधातास्मि यदि मायया युक्तस्त्वं भवसि तर्हि भदुत्तरः
समाधाता करिचनास्ताति विजानीहि ॥ ५२ ॥

भावार्थः—परमेश्वर उपदिशति हे मनुष्या मद्दुत्तरः कोऽपि नास्ति । अहमेव सर्वेषा-
माधारः सर्वमभिव्याप्य धरामि । मयि व्याप्ते सर्वाणि वस्तूनि स्वस्वानियमे स्थितानि
सन्ति । हे सर्वोत्तमा योगिनो विद्वांसो भवन्तो ममेदं विज्ञानं विज्ञापयत ॥५२॥

पदार्थः—हे जानने की इच्छा वाले पुरुष (पञ्चसु) पांच भूतों वा उन की
सूक्ष्म मात्राओं में (अन्तः) भीतर (पुरुषः) पूर्ण परमात्मा (आ, विवेश) अपनी व्याप्ति से
अच्छे प्रकार व्याप्त हो रहा है (तानि) वे पञ्चभूत वा तन्मात्रा (पुरुषे) पूर्ण परमात्मा
पुरुष के (अन्तः) भीतर (अर्पितानि) स्थापित किये हैं (एतत्) यह (अत्र) इस
जगत् में (त्वा) आप को (प्रतिमन्यानः) मत्पक्ष जानता हुआ मैं समाधान कर्ता (अ-
स्मि) हूँ जो (मायया) उत्तम बुद्धि से युक्त तू (भवसि) होता है तो (मत्) मु-
झ से (उत्तरः) उत्तम समाधान कर्ता कोई भी (न) नहीं है यह तू जान ॥ ५२ ॥

भावार्थः—परमेश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यो मेरे ऊपर कोई भी नहीं है
मैं ही सब का आधार सब में व्याप्त हो के धारण करता हूँ मेरे व्याप्त होने से सब प-
दार्थ अपने २ नियम में स्थित हैं । हे सब से उत्तम योगी विद्वान् लोगो आप लोग इ-
स मेरे विज्ञान को जानाओ ॥ ५२ ॥

कास्विदित्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । प्रष्टा देवता ।

अनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनः प्रश्नानाह ॥

फिर भी अगले मंत्र में प्रश्नों को कहते हैं ॥

कास्विदासीत्पूर्वचित्तिः किंस्विदा-
सीद्बृहद्वयः । कास्विदासीत्पलिपिप्-
ला कास्विदासीत्पिशङ्गिला ॥ ५३ ॥

का । स्वि॒त् । आ॒सी॒त् । पु॒र्वचि॒त्तिरि॒ति पु॒र्वऽचि॒त्तिः ।
किम् । स्वि॒त् । आ॒सी॒त् । वृ॒हत् । वयः॑ । का । स्वि॒त् ।
आ॒सी॒त् । पि॒लि॒प्पि॒ला । का । स्वि॒त् । आ॒सी॒त् । पि॒शङ्-
गि॒ला ॥ ५३ ॥

पदार्थः— (का) (स्वि॒त्) (आ॒सी॒त्) (पु॒र्वचि॒त्तिः) पु॒र्वस्मिन्ननादौ सञ्च-
यनाख्या (किम्) (स्वि॒त्) (आ॒सी॒त्) (वृ॒हत्) महत् (वयः) प्रजनना-
त्मकम् (का) (स्वि॒त्) (आ॒सी॒त्) (पि॒लि॒प्पि॒ला) आर्द्राभूता (का)
(स्वि॒त्) (आ॒सी॒त्) (पि॒शङ्गि॒ला) अवयवान्तःकर्त्री ॥ ५३ ॥

अन्वयः— हे विद्वन्नत्र जगति का स्वि॒त्पु॒र्वचि॒त्तिरासीत् किं स्वि॒द् वृ॒ह-
द्वय आसीत्का स्वि॒त् पि॒लि॒प्पि॒ला आसीत्का स्वि॒त् पि॒शङ्गि॒ला आसीदिति
भवन्तं पृच्छामि ॥ ५३ ॥

भावार्थः— अत्र चत्वारः प्रश्नास्तेषां समाधानानि परस्मिन्मन्त्रे द्रष्ट-
व्यानि ॥ ५३ ॥

पदार्थः— हे विद्वन् इस जगत् में (का, स्वि॒त्) कौन (पु॒र्वचि॒त्तिः) पु॒र्व
अनादि समय में संचित होनेवाली (आ॒सी॒त्) है (किं, स्वि॒त्) क्या (वृ॒हत्) बड़ा
(वयः) उत्पन्न स्वरूप (आ॒सी॒त्) है (का, स्वि॒त्) कौन (पि॒लि॒प्पि॒ला) पि॒लि॒प्पि॒ली
चिकनी (आ॒सी॒त्) है और (का, स्वि॒त्) कौन (पि॒शङ्गि॒ला) अवयवों को
भीतर करने वाली (आ॒सी॒त्) है यह आप को पूछता हूँ ॥ ५३ ॥

भावार्थः— इस मंत्र में चार प्रश्न हैं उनके समाधान अगले मंत्र में देखने
चाहिये ॥ ५३ ॥

द्यौरासीदित्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । समाधाता देवता ।

निचृदनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पूर्वप्रश्नानामुत्तराण्याह ॥

पूर्व मंत्र के प्रश्नों के उत्तर अगले मंत्र० ॥

**द्यौरासीत्पूर्वचित्तिरश्व आसीद्बृ-
हद्वयः । अविरासीत्पिलिप्पिला रात्रि-
रासीत्पिशङ्गिला ॥ ५४ ॥**

द्यौः । आसीत् । पूर्वचित्तिरिति पूर्वचित्तिः । अश्वः ।
आसीत् । बृहत् । वयः । अविः । आसीत् । पिलिप्पिला । रात्रिः ।
आसीत् । पिशङ्गिला ॥ ५४ ॥

पदार्थः— (द्यौः) विद्युत् (आसीत्) (पूर्वचित्तिः) प्रथमं चयनम्
(अश्वः) सहत्तत्त्वम् (आसीत्) (बृहत्) महत् (वयः) प्रजननात्मकम्
(अविः) रक्तिका प्रकृतिः (आसीत्) (पिलिप्पिला) (रात्रिः) रात्रिवद्-
र्त्तमानः प्रलयः (आसीत्) (पिशङ्गिला) सर्वेषामवदवानां निग-
लिका ॥ ५४ ॥

अन्वयः— हे जिज्ञासो द्यौः पूर्वचित्तिरासीदश्वो बृहद्वय आसीदविः पिलि-
प्पिलाऽऽसीद्रात्रिः पिशङ्गिलाऽऽसीदिति त्वं विजानीहि ॥ ५४ ॥

भावार्थः— हे मनुष्या याऽतीवसूक्ष्मा विद्युत्सा प्रथमा परिणतिर्महदाख्यं
द्वितीया परिणतिः, प्रकृतिर्मूलकारणमपरिणतिः, प्रलयः सर्वस्थूलविनाशको-
ऽस्तीति विजानीत ॥ ५४ ॥

पदार्थः— हे जिज्ञासु मनुष्य (द्यौः) धिजुली (पूर्वचितिः) पहिला संचय (आसीत्) है (अश्वः) महत्त्व (बृहत्) बड़ा (वयः) उत्पत्ति स्वरूप (आसीत्) है (अविः) रक्षा करने वाली प्रकृति (पिलिप्पिला) पिलिपिली चिकनी (आसीत्) है (रात्रिः) रात्रि के समान वर्तमान प्रलय (पिशङ्गिला) सब अवयवों को निगलने वाला (आसीत्) है यह तू जान ॥ ५४ ॥

भावार्थः— हे मनुष्यो जो अतिमूढ विद्युत् है सो प्रथम परिणाम, महत्त्वरूप द्वितीय परिणाम और प्रकृति सब का मूल कारण परिणाम से रहित है और प्रलय सब स्थूल जगत् का विनाशरूप है यह जानना चाहिये ॥ ५४ ॥

का इमित्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । प्रष्टा देवता ।

अनुष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनः प्रश्नानाह ॥

फिर अमले मंत्र में प्रश्न कहते हैं ॥

का ईमरे पिशङ्गिला का ई
कुरुपिशङ्गिला । क ईमास्कन्दमर्षति
क ई पन्थां विसर्पति ॥ ५५ ॥

का । ईम् । अरे । पिशङ्गिला । का । ईम् । कुरुपिश-
ङ्गिलेतिकुरुपिशङ्गिला । कः । ईम् । आस्कन्दमित्यास्क-
न्दम् । अर्षति । कः । ईम् । पन्थाम् । वि । सर्पति ॥ ५५ ॥

पदार्थः— (का) (ईम्) समुच्चये (अरे) नीचसंबोधने (पिशङ्गिला) रूपाक्षरकारिणी (का) (ईम्) (कुरुपिशङ्गिला) (कः) (ईम्) (आस्कन्दम्) (अर्षति) प्राप्नोति (कः) (ईम्) उदकस्य (पन्था-
म्) मार्गम् (वि) (सर्पति) ॥ ५५ ॥

अन्वयः—अरे स्त्रि का ई पिशङ्गिला का ई कुरुपिशङ्गिला
क ईमास्कन्दमर्षति क ई पन्थां विसर्पतीति समाधेहि ॥ ५५ ॥

भावार्थः— केन रूपमात्रियते केन कृष्यादिर्नश्यते कः शीघ्रं धावति
कश्च मार्गं प्रसरतीति चत्वारः प्रश्नास्तेषामुत्तराणि पररिमन्त्रे वेदितव्या-
नि ॥ ५५ ॥

पदार्थः— (अरे) हे विदुषि स्त्रि (का, ईम्) कौन वार २ (पिशङ्गिला)
रूप का आवरण करने हारी (का, ईम्) कौन वार २ (कुरुपिशङ्गिला) यवादि
अन्नो के अवयवों को निगलने वाली (क, ईम्) कौन वार २ (आस्कन्दम्) न्यारी २
चाल को (अर्षति) प्राप्त होता और (कः) कौन (ईम्) जल के (पन्थाम्)
मार्ग को (वि, सर्पति) विशेष पसर के चलता है ॥ ५५ ॥

भावार्थः— किससे रूप का आवरण और किस से खेती आदि का विनाश
होता कौन शीघ्र भागता और कौन मार्ग में पसरता है ये चार प्रश्न हैं इन के उत्तर
अगले मंत्र में जानो ॥ ५५ ॥

अजेत्यस्य प्रजापतिर्भूविः । समाधाता देवता ।

स्वराडुष्णिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

पूर्वप्रश्नानामुत्तराण्याह ॥

पूर्व मंत्र में कहे प्रश्नों के उत्तर अगले मंत्र में कहते हैं ॥

अजारे पिशङ्गिला श्वावित्कुरु-
पिशङ्गिला । शश आस्कन्दमर्षत्य-
हिः पन्थां वि सर्पति ॥ ५६ ॥

अजा । अरे । पिशङ्गिला । श्वावित् । श्वविदिति
श्वऽवित् । कुरुपिशङ्गिलीति कुरुऽपिशङ्गिला । शशः ।

आस्कन्दमित्याऽस्कन्दम् । अर्षति । अहिः । पन्थाम् । वि ।
सर्पति ॥ ५६ ॥

पदार्थः—(अजा) जन्मरहिता प्रकृतिः (अरे) सम्बोधने (पिशङ्गिला) (श्वावित्) पशुविशेष इव (कुरुपिशङ्गिला) कुरोः कृतस्य कृष्यादेः पिशान्यङ्गानि गिलाति सा (शशः) पशुविशेष इव वायुः (आस्कन्दम्) सम्मन्तादुत्प्लुत्य गमनम् (अर्षति) प्राप्नोति (अहिः) मेघः (पन्थाम्) पन्थानम् (वि, सर्पति) विविधतया गच्छति ॥ ५६ ॥

अन्वयः—अरे मनुष्या अजा पिशङ्गिला श्वावित्कुरुपिशङ्गिलाऽस्ति-
शश आस्कन्दमर्षत्यहिः पन्थां विसर्पतीति विजानीत ॥ ५६ ॥

भावार्थः—हे मनुष्या अजा याऽजा प्रकृतिः सर्वकार्यप्रलयाधिकारिणी कार्यकारणारूपा स्वकार्यं स्वस्मिन् प्रलाययति । या सेधा कृष्यादिकं विनाशयति यो वायुः शश इव गच्छन् सर्वं शोषयति यो मेघः सर्पइव गच्छति तान् विजानीत ॥ ५६ ॥

पदार्थः—(अरे) हे मनुष्यो (अजा) जन्मरहित प्रकृति (पिशङ्गिला) विश्व के रूप को प्रलय समय में निगलनेवाली (श्वावित्) सेही (कुरुपिशङ्गिला) क्रिये हुए खेती आदि के अवयवों का नाश करती है (शशः) खरहा के तुल्य वेगयुक्त कृषि आदि में खरखराने वाला वायु (आस्कन्दम्) अच्छे प्रकार कूदके चलने अर्थात् एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को शीघ्र (अर्षति) प्राप्त होता और (अहिः) मेघ (पन्थाम्) मार्ग में (वि, सर्पति) विविध प्रकार से जाता है इस को तुम जानो ॥ ५६ ॥

भावार्थः—हे मनुष्यो जो प्रकृति सब कार्यरूप जगत् का प्रलय करने हारी कार्यकारणरूप अपने कार्य को अपने में लय करने हारी है जो सेही खेती आदि का विनाश करती है जो वायु खरहा के समान चलता हुआ सब को सुखाता है और जो मेघ साँप के समान पृथिवी पर जाता है उन सब को जानो ॥ ५६ ॥

कत्यस्येत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । प्रष्टा देवता ।

निचृत्त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनः प्रश्नानानाह ॥

फिर भी अगले संत्र में प्रश्न कहते हैं ॥

कत्यास्य विष्टाः कत्यक्षराणि कति
होमासः कतिधा समिद्धः । यज्ञस्य त्वा
विदथा पृच्छमत्र कति होतार ऋतुशो
यजन्ति ॥ ५७ ॥

कति । अस्य । विष्टाः । विस्था इति विऽस्थाः । कति ।
अक्षराणि । कति । होमासः । कतिधा । समिद्धं इति समऽ-
इद्धः । यज्ञस्य । त्वा । विदथा । पृच्छम् । अत्र । कति ।
होतारः । ऋतुश इत्यृतुऽशः । यजन्ति ॥ ५७ ॥

प्रदार्थः—(कति) (अस्य) (विष्टाः) विशेषण तिष्ठति यज्ञो यासु
ताः (कति) (अक्षराणि) उदकानि । अक्षरमित्युदकना० निघं० १ । १२
(कति) (होमासः) दानाऽऽदानानि (कतिधा) कतिप्रकारैः (समिद्धः) ज्ञाना-
दिप्रकाशकाः समिद्धाः । अत्र छान्दसो वर्णागमस्तेन धस्य द्वित्वं सम्पन्नम्

(यज्ञस्य) संयोगादुत्पन्नस्य जगतः (त्वा) त्वाम् (विदथा) विज्ञानानि (पृ-
च्छम्) पृच्छामि (अत्र) (कति) (होतारः) (ऋतुशः) ऋतुमृतुं प्रति
(यजन्ति) संगच्छन्ते ॥ ५७ ॥

अन्वयः---हे विद्वन्नस्य यज्ञस्य कति विष्ठाः कत्यक्षराणि कति होम-
सः कतिधा समिद्धः कति होतार ऋतुशो यजन्तीत्यत्र विषये विदथा त्वाऽहं
पृच्छम् ॥ ५७ ॥

भावार्थः---इदं जगत्क तिष्ठति कत्यस्य निर्माणसाधनानि कति व्यापार-
योग्यानि कतिविधं ज्ञानादिप्रकाशकं कति व्यवहर्त्तार इति पञ्च प्रश्नास्तेषामु-
त्तराण्युत्तरत्र वेद्यानि ॥ ५७ ॥

पदार्थः---हे विद्वन् (अस्य) इस (यज्ञस्य) संयोग से उत्पन्न हुए संसार-
रूप यज्ञ के (कति) कितने (विष्ठाः) विशेष कर संसाररूप यज्ञ जिन में स्थित हो
वे (कति) कितने इस के (अक्षराणि) जलादि साधन (कति) कितने (होमासः)
देने लेने योग्य पदार्थ (कतिधा) कितने प्रकारों से (समिद्धः) ज्ञानादि के प्रकाशक
पदार्थ समिवरूप (कति) कितने (होतारः) होता अर्थात् देने लेने आदि व्यवहार
के कर्त्ता (ऋतुशः) वसन्तादि प्रत्येक ऋतु में (यजन्ति) संगम करते हैं इसप्रकार
(अत्र) इस विषय में (विदथा) विज्ञानों को (त्वा) आप से मैं (पृच्छम्)
पृच्छता हूं ॥ ५७ ॥

भावार्थः---यह गजत् कहाँ स्थित है, कितने इस की उत्पत्ति के साधन,
कितने व्यापार के योग्य वस्तु, कितने प्रकार का ज्ञानादि प्रकाशक वस्तु और कितने
व्यवहार करने वाले हैं इन पांच प्रश्नों के उत्तर अगले मंत्र में जान लेना चाहिये ॥ ५७ ॥

षडस्येत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । समिधा देवता ।

निचृत्त्रिण्डुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पूर्वप्रश्नानामुत्तराण्याह ॥

पूर्व मंत्र में कहे प्रश्नों के उत्तर अगले मंत्र में कहे हैं ॥

षडस्य विष्ठाः शतमक्षराण्यशीति-
होमाः समिधो ह तिस्रः । यज्ञस्य ते
विदथा प्र ब्रवीमि सप्त होतार ऋतु-
शो यजन्ति ॥ ५८ ॥

षट् । अस्य । विष्ठाः । विस्था इति विऽस्थाः । शतम् ।
अक्षराणि । अशीतिः । होमाः । समिध इति सप्तऽइधः । ह ।
तिस्रः । यज्ञस्य । ते । विदथा । प्र । ब्रवीमि । सप्त । होता-
रः । ऋतुश इति ऋतुऽशः । यजन्ति ॥ ५८ ॥

पदार्थः—(षट्) ऋतवः (अस्य) (विष्ठाः) (शतम्) (अक्षरा-
णि) उदकानि (अशीतिः) उपलक्षणमेतदसंख्यस्य (होमाः) (समिधः)
समिध्यते प्रदीप्यते ज्ञानं याभिस्ताः (ह) किल (तिस्रः) (यज्ञस्य) (ते)
तुभ्यम् (विदथा) विज्ञानानि (प्र) प्रकर्षेण (ब्रवीमि) (सप्त) पञ्च प्राणा
मनश्चात्मा च (होतारः) दातारश्चादातारः (ऋतुशः) यजन्ति ॥ ५८ ॥

अन्वयः—हे जिज्ञासवोऽस्य यज्ञस्य षट् विष्ठाः शतमक्षराण्यशीति-
होमास्तिस्त्रो ह समिधः सप्त होतार ऋतुशो यजन्ति तस्य विदथा ते ऽहं
प्रब्रवीमि ॥ ५८ ॥

भावार्थः—हे ज्ञानमीप्सवो जना यस्मिन् यज्ञे षट् ऋतवः स्थितिसा-
धका असंख्यानि जलादीनि वस्तूनि व्यवहारसाधकानि बहवो व्यवहारयोग्याः
पदार्थाः सर्वे प्राण्यप्राणिनो होत्रादयः संगच्छन्ते यत्र च ज्ञानादिप्रकाशिका त्रि-
विधा विद्याः सन्ति तं यज्ञं यूयं विजानीत ॥ ५८ ॥

पदार्थः—हे जिजासु लोगो (अस्य) इस (यज्ञस्य) संगत जगत् के (षट्)
छः ऋतु (विद्याः) विशेष स्थिति के आधार (शतम्) असंख्य (अक्षराणि) ज-
लादि उत्पत्ति के साधन (अशीतिः) असंख्य (होमाः) देने लेने योग्य वस्तु (तिस्रः)
आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तीन (ह) प्रसिद्ध (समिधः) ज्ञानादि की
प्रकाशक विद्या (सप्त) पांच प्राणं, मन और आत्मा सात (होतारः) देने लेने आदि
व्यवहार के कर्ता (ऋतुशः) प्रति वसन्तादि ऋतु में (यजन्ति) संगत होते
हैं उस जगत् के (विदथा) विद्वानों को (ते) तेरे लिये मैं (प्रब्रवीमि) कहता
हूँ ॥ ५८ ॥

भावार्थः—हे ज्ञान चाहने वाले लोगो जिस जगत् रूप यज्ञ में छः ऋतु स्थिति
के साधक असंख्य जलादि वस्तु व्यवहारसाधक बहुत व्यवहार के योग्य पदार्थ और सब
प्राणी अप्राणी होता आदि संगत होते हैं और जिस में ज्ञान आदि का प्रकाश करने
वाली तीन प्रकार की विद्या हैं, उस यज्ञ को तुम लोग जानो ॥ ५८ ॥

को ऽस्येत्यस्य प्रजःपतिर्ऋषिः । प्रष्टा देवता ।

निचृन् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनः प्रश्नानाह ॥

फिर भी अगले मंत्र में प्रश्नों को कहते हैं ॥

को अस्य वेदु भुवनस्य नाभिं को
द्यावापृथिवी अन्तरिक्षम् । कः सूर्यस्य

वेद बृहतो जनित्रं को वेद चन्द्रमसं
यतोजाः ॥ ५८ ॥

कः । अस्य । वेद । भुवनस्य । नाभिम् । कः । द्यावापृथिवीः
इति द्यावापृथिवी । अन्तरिक्षम् । कः । सूर्यस्य । वेद ।
बृहतः । जनित्रम् । कः । वेद । चन्द्रमसम् । यतोजा इति
यतःऽजाः ॥ ५९ ॥

पदार्थः— (कः) (अस्य) (वेद) जानाति (भुवनस्य) सर्वाधि-
करणस्य संसारस्य (नाभिम्) मध्यमाङ्गं बन्धनस्थानम् (कः) (द्यावापृथि-
वी) (सूर्यभूमी (अन्तरिक्षम्) आकाशम् (कः) (सूर्यस्य) सवितृमण्ड-
लस्य (वेद) जानाति (बृहतः) महतः (जनित्रम्) कारणं जनकं वा
कः) (वेद) (चन्द्रमसम्) चन्द्रलोकम् (यतोजाः) यस्मा-
ज्जातः ॥ ५८ ॥

अन्वयः— हे विद्वन्स्थ भुवनस्य नाभिं को वेद को द्यावापृथिवी
अन्तरिक्षं वेद को बृहतः सूर्यस्य जनित्रं वेद यो यतोजास्तंचन्द्रमसं च को
वेदेति समाधेहि ॥ ५९ ॥

भावार्थः— अस्य जगतो धारकं बन्धनं भूमिसूर्यान्तरिक्षाणि महतः
सूर्यस्य कारणं यस्मादुत्पन्नश्चन्द्रस्तं च को वेदेति चतुर्णां प्रश्नानामुत्तराणि
परस्मिन्मन्त्रे सन्तीति वेदितव्यम् ॥ ५९ ॥

द्वर्थः— हे विद्वन् (अस्य) इस (भुवनस्य) सब के आधारभूत संसार के
(नाभिम्) बन्धन के स्थान मध्यभाग को (कः) कौन (वेद) जानता (कः) कौन
(द्यावापृथिवी) सूर्य और पृथिवी तथा (अन्तरिक्षम्) आकाश को जानता (कः)
कौन (बृहतः) बड़े (सूर्यस्य) सूर्यमण्डल के (जनित्रम्) उपादान वा निमित्त

कारण को (वेद) जानता और जो (यतोजाः) जिस से उत्पन्न हुआ है उस चन्द्रमा के उत्पादक को और (चन्द्रमसम्) चन्द्रलोक को (कः) कौन (वेद) जानता है इन का समाधान कीजिये ॥ ५६ ॥

भावार्थः—इस जगत् के घारण कर्त्ता बन्धन, भूमि सूर्य अन्तरिक्षों महान् सूर्य के कारण और चन्द्रमा जिस से उत्पन्न हुआ है उस को कौन जानता है इन चार प्रश्नों के उत्तर अगले मंत्र में हैं यह जानना चाहिये ॥ ५६ ॥

वेदाहमित्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । समाधाता देवता ।

त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पूर्वप्रश्नानामुत्तराण्याह ॥

पूर्व मंत्र में कहे प्रश्नों के उत्तर अगले मंत्र में कहते हैं ॥

वेदाहमस्य भुवनस्य नाभिं वेद द्या-
वापृथिवी अन्तरिक्षम् । वेद सूर्यस्य बृ-
हतो जनित्रमथो वेद चन्द्रमसं यतो-
जाः ॥ ६० ॥

वेद अहम् । अस्य । भुवनस्य । नाभिम् । वेद । द्यावा-
पृथिवी इति द्यावापृथिवी । अन्तरिक्षम् । वेद । सूर्यस्य । बृह-

तः । जनित्रम् । अथो इत्यथो । वेद । चन्द्रमसम् । यतोजा
इति यतःऽजाः ॥ ६० ॥

पदार्थः—(वेद (अहम्) (अस्य) (भुवनस्य) (नाभिम्) बन्धनम् ।
(वेद) (द्यावापृथिवी) प्रकाशाप्रकाशौ लोकसमूहौ (अन्तरिक्षम्) आकाशम्
(वेद) (सूर्यस्य) (बृहतः) महत्परिमाणयुक्तस्य (जनित्रम्) (अथो)
(वेद) (चन्द्रमसम्) (यतोजाः) ॥ ६० ॥

अन्वयः—हे जिज्ञासोऽस्य भुवनस्य नाभिमहं वेद द्यावापृथिवी अन्तरि-
क्षं वेद बृहतः सूर्यस्य जनित्रं वेद। अथो यतोजास्तं चन्द्रमसञ्चाहं वेद ॥ ६० ॥

भावार्थः—विद्वान् ब्रूयात्—हे जिज्ञासोऽस्य जगत् बन्धनस्थितिकारणं
लोकत्रयस्य कारणं सूर्योऽचन्द्रमसोश्चोपादाननिमित्ते एतत्सर्वमहं जानामि ब्रह्मै-
वास्य सर्वस्य निमित्तं कारणं प्रकृतिश्चोपादानमिति ॥ ६० ॥

पदार्थः—हे जिज्ञासो पुरुष (अस्य) इस (भुवनस्य) सब के अधिकरण
जगत् के (नाभिम्) बन्धन के स्थान कारण रूप मध्यभाग परब्रह्म को (अहम्) मैं
(वेद) जानता हूँ तथा (द्यावापृथिवी) प्रकाशित और अप्रकाशित लोकसमूहों और
(अन्तरिक्षम्) आकाश को भी (वेद) मैं जानता हूँ (बृहतः) बड़े (सूर्यस्य)
सूर्यलोक के (जनित्रम्) उपादान तैजस कारण और निमित्त कारण ब्रह्म को (वेद)
मैं जानता हूँ (अथो) इस के अनन्तर (यतोजाः) जिस परमात्मा से उत्पन्न हुआ जो
चन्द्र उस परमात्मा को तथा (चन्द्रमसम्) चन्द्रमा को (वेद) मैं जानता हूँ ॥ ६० ॥

भावार्थः—विद्वान् उत्तर देवे कि हे जिज्ञासु पुरुष इस जगत् के बन्धन अर्थात्
स्थिति के कारण प्रकाशित अप्रकाशित मध्यस्थ आकाश इन तीनों लोक के कारण और
सूर्य चन्द्रमा के उपादान और निमित्त कारण इस सब को मैं जानता हूँ ब्रह्म ही इस सब
का निमित्त कारण और प्रकृति उपादान कारण है ॥ ६० ॥

पृच्छामीत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । प्रष्टा देवता ।

निचृत् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनः प्रश्नानाह ॥

फिर भी अगले मंत्र में प्रश्नों को कहते हैं ॥

पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः
पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभिः । पृच्छामि
त्वा वृष्णो अश्वस्य रेतः पृच्छामि
वाचः परमं व्योम ॥ ६१ ॥

पृच्छामि । त्वा । परम् । अन्तम् । पृथिव्याः । पृच्छामि । य-
त्र । भुवनस्य । नाभिः । पृच्छामि । त्वा । वृष्णः । अश्वस्य ।
रेतः । पृच्छामि । वाचः । परमम् । व्योमेति विऽन्त्रोम ॥ ६१ ॥

पदार्थः—(पृच्छामि) (त्वा) त्वाम् (परम्) परभागस्थम् (अन्तम्)
सीमानम् (पृथिव्याः) पृच्छामि (यत्र (भुवनस्य) (नाभिः) मध्याकर्षणेन
बन्धकम् (पृच्छामि) (त्वा) त्वाम् (वृष्णः) सेचकस्य (अश्वस्य) बलवतः
(रेतः) वीर्यम् (पृच्छामि) (वाचः) वाण्याः (परमम्) प्रकृष्टम् (व्योम)
आकाशरूपं स्थानम् ॥ ६१ ॥

अन्वयः—हे विद्वन्हे त्वा त्वां पृथिव्या अन्तं परं पृच्छामि यत्र भु-
वनस्य नाभिरस्ति तं पृच्छामि यद् वृष्णोऽश्वस्य रेतोऽस्ति तत्पृच्छामि वाचः
परमं व्योम त्वा पृच्छामीति वदोचराणि ॥ ६१ ॥

भावार्थः—पृथिव्याः सीमा लोकस्याकर्षणेन बन्धनं बलिनो जनस्य पराक्रमो वाक्पारगश्च कोऽस्तीत्येतेषां प्रश्नानामुत्तराणि परस्मिन् मंत्रे वेदितव्यानि ॥६१॥

पदार्थः—हे विद्वान् जन मैं (त्वा) आप को (पृथिव्याः) पृथिवी के (अन्तम्, परम्) पर भाग अवधि को (पृच्छामि) पूछता (यत्र) जहाँ इस (भुवनस्य) लोक का (नाभिः) मध्य से खेंच के बन्धन करता है उस ओ (पृच्छामि) पूछता जो (वृष्णाः) सेचन कर्त्ता (अश्वस्य) बलवान् पुरुष का (रेतः) पराक्रम है उस को (पृच्छामि) पूछता और (वाचः) तीन वेदरूप वाणी के (परमम्) उत्तम (व्योम) आकाशरूप स्थान को (त्वा) आप से (पृच्छामि) पूछता हूँ आप उत्तर कहिये ॥६१॥

भावार्थः—पृथिवी की सीमा क्या, जगत् का आकर्षण से बन्धन कौन, बली जन का पराक्रम कौन और वाणी का पारगन्ता कौन है इन चार प्रश्नों के उत्तर अगले मंत्र में जानने चाहिये ॥ ६१ ॥

इयमित्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । समाधाता देवता ।

विराट् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पूर्वप्रश्नानामुत्तराण्याह ॥

एवं मंत्र में कहे प्रश्नों के उत्तर अ० ॥

इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या
अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः । अयं सो-
मो वृष्णो अश्वस्य रेतो ब्रह्मायं वाचः
परमं व्योम ॥ ६१ ॥

इयम् । वेदिः । परः । अन्तः । पृथिव्याः । अयम् ।
यज्ञः । भुवनस्य । नाभिः । अयम् । सोमः । वृष्णः ।

अश्वस्य । रेतः । ब्रह्मा । अयम् । वाचः । परमम् । व्योमेति वि-
श्राम ॥६२॥

पदार्थः— (इयम्) (वेदिः) मध्यरेखा (परः) (अन्तः) (पृथिव्याः)
भूमेः (अयम्) (यज्ञः) सर्वैः पूजनीयो जगदीश्वरः (भुवनस्य) संसारस्य
(नाभिः) (अयम्) (सोमः) ओषधिराजः (वृष्णः) वीर्यकरस्य (अश्वस्य)
बलेन युक्तस्य जनस्य (रेतः) (ब्रह्मा) चतुर्वेदवित् (अयम्) (वाचः)
वाण्याः (परमम्) (व्योम) स्थानम् ॥ ६२ ॥--

अन्वयः— हे जिज्ञासो इयं वेदिः पृथिव्याः परोऽन्तोऽयं यज्ञो भुवनस्य
नाभिरयं सोमो वृष्णोऽश्वस्य रेतोऽयं ब्रह्मा वाचः परमं व्योमास्तीति विद्धि ॥६२॥

भावार्थः— हे मनुष्या यद्यस्य भूगोलस्य मध्यस्था रेखा क्रियेत तर्हि सा
उपरिष्ठाद्भूमेरन्तं प्राप्नुवती सती व्याससंज्ञां लभते । अयमेव भूमेरन्तोऽस्ति
सर्वेषां मध्याकर्षणं जगदीश्वरः सर्वेषां प्रणिनां वीर्यकर ओषधिराजः सोमो-
वेदपारगा वाक्पारगोऽस्तीति यूयं विजानीत ॥ ६२ ॥

पदार्थः— हे जिज्ञासु जन (इयम्) यह (वेदिः) मध्यरेखा (पृथिव्याः)
भूमि के (परः) परभाग की (अन्तः) सीमा है (अयम्) यह प्रत्यक्ष गुणोंवाला
(यज्ञः) सब को पूजनीय जगदीश्वर (भुवनस्य) संसार की (नाभिः) नियत स्थिति
का बन्धक है (अयम्) यह (सोमः) ओषधियों में उत्तम अंशुमान् आदि सोम
(वृष्णः) पराक्रम कर्त्ता (अश्वस्य) बलवान् जन का (रेतः) पराक्रम है और
(अयम्) यह (ब्रह्म) चारों वेद का ज्ञाता (वाचः) तीन वेदरूप वाणी का
(परमम्) उत्तम (व्योम) स्थान है तू इसको जान ॥ ६२ ॥

भावार्थः— हे मनुष्यो जो इस भूगोल की मध्यस्थ रेखा की जावे तो वह
ऊपर से भूमि के अन्त को प्राप्त होतीहुई व्यास संज्ञक होती है यही भूमि की सीमा है ।

सब लोकों के मध्य आकर्षण कर्ता जगदीश्वर है सत्र प्राणियों को पराक्रम कर्ता ओषधियों में उत्तम अंशुमान् आदि सोम है और वेदपारग पुरुष बाण्णी का पारगन्ता है यह तुम जानो ॥ ६२ ॥

सुभूरित्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । समाधाता देवता ।

विराडनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

ईश्वरः कीदृश इत्याह ॥

ईश्वर कैसा है इत्त वि० ॥

सुभूः स्वयम्भूः प्रथमोऽन्तर्महत्पृ-
णवे । दधे ह गर्भमृत्विद्यं यतो जातः
प्रजापतिः ॥ ६३ ॥

सुभूरिति सुभूः । स्वयम्भूरिति स्वयम्भूः । प्रथमः । अन्तः ।
महति । अणवे । दधे । ह । गर्भम् । ऋत्विद्यम् । यतः । जातः ।
प्रजापतिरिति पूजाऽपतिः ॥ ६३ ॥

पदार्थः— (सुभूः) यः सुष्ठु भवतीति (स्वयम्भूः) यः स्वयम्भवत्युत्पत्ति-
नाशरहितः (प्रथमः) आदिमः (अन्तः) मध्ये (महति) (अणवे) यत्राण्यस्यु-
दकानि संबद्धानि सन्ति तस्मिन् संसारे (दधे) दधाति (ह) किल (गर्भम्)
बीजम् (ऋत्विद्यम्) ऋतु सम्प्राप्तोऽस्य तम् (यतः) यस्मात् (जातः)
(प्रजापतिः) प्रजापालकः सूर्यः ॥ ६३ ॥

अंगवयः— हे जिज्ञासो यतः प्रजापतिर्जातो यश्च सुभूः स्वयम्भूः प्रथमो जगदीश्वरो महत्यर्णवेऽन्तर्ऋत्वियं गर्भं दधे तं ह सर्वे जना उपासीरन् ॥ ६३ ॥

भावार्थः— यदि ये मनुष्याः सूर्यादीनां परं कारणं प्रकृतिं तत्र बीजधारकं परमात्मानं च विजानीयुस्तर्हि तेऽस्मिन्संसारे विस्तीर्णसुखा भवेयुः ॥ ६३ ॥

पदार्थः— हे जिज्ञासु जन (यतः) जिस जगदीश्वर से (प्रजापतिः) विश्व का रक्षक सूर्य (जातः) उत्पन्न हुआ है और जो (सुभूः) सुन्दर विद्यमान (स्वयम्भूः) जो अपने आप प्रसिद्ध उत्पत्ति नाश रहित (प्रथमः) सब से प्रथम जगदीश्वर (महति) बड़े विस्तृत (अर्णवे) जलों से संबद्ध हुए संसार के (अन्तः) बीच (ऋत्वियम्) समयानुकूल प्राप्त (गर्भम्) बीज को (दधे) धारण करता है (ह) उसी की सब लोग उपासना करें ॥ ६३ ॥

भावार्थः— यदि जो मनुष्य लोग सूर्यादि लोकों के उत्तम कारण प्रकृति को और उस प्रकृति में उत्पत्ति की शक्ति को धारण करने हारे परमात्मा को जानें तो वे जन इस जगत् में विस्तृत सुख वाले होंगे ॥ ६३ ॥

होता यज्ञदित्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । ईश्वरो देवता ।

विराडुष्णिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

ईश्वरः कथमुपास्य इत्याह

ईश्वर की उपासना कैसे करनी चाहिये इस वि० ॥

होता यज्ञत्प्रजापतिः सोमस्य महिम्नः ।

जुषतां पिबतु सोमः होतुर्यजः ॥ ६४ ॥

होता । यज्ञत् । प्रजापतेर्मिति प्रजापतिम् । सोमस्यमहिम्नः ।
जुषताम् । पिवतु । सोमम् । होतः । यज ॥ ६४ ॥

पदार्थः— (होता) आदाता (यज्ञत्) यजेत्पूजयेत् (प्रजापतिम्)
विश्वस्य पालकं स्वामिनम् (सोमस्य) सकलैश्वर्ययुक्तस्य (महिम्नः)
महतो भावस्य सकाशात् (जुषताम्) (पिवतु) (सोमम्) सर्वौषधिरसम्
(होतः) दातः (यज) पूजय ॥ ६४

अन्वयः— हे होतर्षथा होता सोमस्य महिम्नः प्रजापतिं यज्ञञ्जुषतां
च सोमं च पिवतु तथा त्वं यज पिव च ॥ ६४ ॥

भावार्थः— अत्र वाचकलु०—हे मनुष्या यथा विद्वांसोऽस्मिञ्जगति
रचनादिविशेषैः परमात्मनो महिमानं विदित्वैनमुपासते तथैतं यूयमप्युपाध्वं
यथेमे युक्त्यौषधानि सेवित्वाऽरोगा जायन्ते तथा भवन्तोऽपि भवन्तु ॥ ६४ ॥

पदार्थः— हे (होतः) दान देने हारे जन जैसे (होता) प्रहीता पुरुष
(सोमस्य) सब ऐश्वर्य्य से युक्त (महिम्नः) बड़प्पन के होने से (प्रजापतिम्)
विश्व के पालक स्वामी की (यज्ञत्) पूजा करे वा उस को (जुषताम्) सेवन
से प्रसन्न करे और (सोमम्) सब उत्तम औषधियों के रस को (पिवतु) पीवे वैसे तू
(यज) उस की पूजा कर और उत्तम औषधि के रस को पिया कर ॥ ६४ ॥

भावार्थः— इस मंत्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो जैसे विद्वान् लोग इस
जगत् में रचना आदि विशेष चिन्हों से परमात्मा के महिमा को जान के इस की
उपासना करते हैं वैसे ही तुम लोग भी इस की उपासना करो जैसे ये विद्वान् युक्तिपू-
र्वक पथ्य पदार्थों का सेवन कर नीरोग होते हैं वैसे आप लोग भी हों ॥ ६४ ॥

प्रजापते नेत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । ईश्वरो देवता ।

विरादात्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

प्रजापते न त्वदे तन्निय न्यो विश्वा
रूपाणि परि ता बभूव । यत्कामास्ते
जुहुमस्तन्नो अस्तु वयम् स्याम पत-
यो रयीणाम् ॥ ६५ ॥

प्रजापत इति प्रजाऽपते । न । त्वत् । एतानि । अन्यः ।
विश्वा । रूपाणि । परि । ता । बभूव । यत्कामा इति यत्
ऽकामाः । ते । जुहुमः । तत् । नः । अस्तु । वयम् । स्याम ।
पतयः । रयीणाम् ॥ ६५ ॥

पदार्थः—(प्रजापते) सर्वस्याः प्रजायाः पालक स्वामिन्नीश्वर (न)
(त्वत्) तत्र सकाशात् (एतानि) पृथिव्यादीनि भूतानि (अन्यः) भिन्नः
(विश्वा) सर्वाणि (रूपाणि) स्वरूपानुक्तानि (परि) (तां) तानि (व-
भूव) भवति (यत्कामाः) यः पदार्थः कामो येषां तं (ते) तत्र (जुहुमः)
प्रशंसामः (तत्) कर्मनीयं वस्तु (नः) अस्मभ्यम् (अस्तु) भवतु (वयम्)
(स्याम) भवेम (पतयः) स्वामिनः पालकाः (रयीणाम्) विद्यासुवर्णादि-
धनानाम् ॥ ६५ ॥

अन्वयः—हे प्रजापते परमात्मन्कश्चित्त्वदन्यस्ता तान्येतानि विश्वा रूपा-

णि वस्तूनि न परि बभूव । यत्कामा वयं त्वां जुहुमस्तन्नोऽस्तु ते कृपया वयं
रयीणां पतयः स्याम् ॥ ६५ ॥

भावार्थः—यदि परमेश्वरादुत्तमं बृहदैश्वर्ययुक्तं सर्वशक्तिमद्वस्तु किञ्चिद-
पि नास्ति तर्हि तुल्यमपि न । यो विश्वात्मा विश्वस्रष्टाऽस्तिलैश्वर्यप्रद ईश्वरो
ऽस्ति तस्यैव भक्तिविशेषेण पुरुषार्थेनैहिकमैश्वर्यं योगाभ्यासेन पारमार्थिकं
सामर्थ्यं प्राप्नुयाम ॥ ६५ ॥

अत्र परमात्ममहिमा सृष्टिगुणवर्णनं योगप्रशंसा-प्रश्नोत्तराणि सृष्टिपदार्थ-
प्रशंसनं राजप्रजागुणवर्णनं शास्त्राद्युपदेशोऽध्ययनमध्यापनं स्त्रीपुरुषगुणवर्णनं
पुनः प्रश्नोत्तराणि परमेश्वरगुणवर्णनं यज्ञव्याख्या रेखागणितादि चोक्तमत
एतदर्थस्य पूर्वाऽध्यायोक्तार्थेन सह सङ्गतिरस्तीति देयम् ॥

पदार्थः—हे (प्रजापते) सब प्रजा के रक्षक स्वामिन् ईश्वर कोई भी (त्वत्)
आप से (अन्यः) भिन्न (ता) उन (एतानि) इन श्रियेव्यादि भूतों तथा (वि-
श्वा) सब (रूपाणि) स्वरूपयुक्त वस्तुओं पर (न) नहीं (परि, बभूव) बलवान्
है (यत्कामाः) जिस २ पदार्थ की कामना वाले हो कर (वयम्) हम लोग आप की
(जुहुमः) प्रशंसा करें (तत्) वह २ कामना के योग्य वस्तु (नः) हम को (अ-
स्तु) प्राप्त हो (ते) आप की कृपा से हम लोग (रयीणाम्) विद्या सुवर्ण आदि
धनों के (पतयः) रक्षक स्वामी (स्याम) हों ॥ ६५ ॥

भावार्थः—जो परमेश्वर से उत्तम, बड़ा, ऐश्वर्ययुक्त, सर्वशक्तिमान् पदार्थ
कोई भी नहीं है तो उस के तुल्य भी कोई नहीं जो सब का आत्मा सब का रचने
वाला समस्त ऐश्वर्य का दाता ईश्वर है उस की भक्ति विशेष और अपने पुरुषार्थ से
इस लोक के ऐश्वर्य और योगाभ्यास के सेवन से परलोक के सामर्थ्य को हम लोग
प्राप्त हों ॥ ६५ ॥

इस अध्याय में परमात्मा के महिमा, सृष्टि के गुण, योग की प्रशंसा, प्रश्नोत्तर, सृष्टि के पदार्थों की प्रशंसा, राजा प्रजा के गुण, शास्त्र आदि का उपदेश, पठन पाठन, स्त्री पुरुषों के परस्पर गुण, फिर प्रश्नोत्तर, ईश्वर के गुण, यज्ञ की व्याख्या और रेखागणित आदि का वर्णन किया है इस से इस अध्याय के अर्थ की पूर्व अध्याय के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां परमविदुषां श्रीमद्विरजा-
नन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण दयानन्दसरस्वतीस्वामिना
विरचिते संस्कृतार्थभाषाभ्यां विभूषिते सुप्रमाणयुक्ते
यजुर्वेदभाष्ये त्रयोविंशोऽध्यायः समाप्तः ॥

अथ चतुर्विंशोऽध्यायारम्भः ।

—०—

ओ३म् विश्वानि देव सवितर्दुःखितानि परा सुव ।
यद्गदं तन्न आ सुव ॥ १ ॥

अश्वइत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । प्रजापतिर्देवता ।

भुरिक् संकृतिश्छन्दः । गान्धारः स्वरः ।

अथ मनुष्यैः पशुभ्यः कीदृश उपकारो ग्राह्य इत्याह ॥

अथ चौबीसवें अध्याय का आरम्भ है इसके प्रथम मंत्र में मनुष्यों को पशुओं से कैसा उपकार लेना चाहिये इस विषय का वर्णन है ।

अश्वं तूपरो गोमृगस्ते प्राजापत्याः
कृष्णग्रीव आग्नेयो रराटेपुरस्तात्सा-
रस्वती मे ष्यधस्ताद्दन्वोराश्विनावधो-
रामो ब्राह्मोः सौमाप्रीष्णाः श्यासो ना-
भ्यांसौर्ययामी श्वेतश्च कृष्णश्च पा-
श्वयोस्त्वाष्ट्रौ लोमशसंवथी सुक्थ्यो
वायव्यः श्वेतः पुच्छ इन्द्राय स्वप-
स्याय वे हृद्वैष्णावो वामनः ॥ १ ॥

अश्वः । तूपरः । गोमृग इति गोमृगः । ते । प्राजाप-
त्या इति प्राजापत्याः । कृष्णग्रीव इति कृष्णग्रीवः । आग्ने-
यः । रराटे । पुरस्तात् । सारस्वती । मेधी । अधस्तात् । हन्वोः ।

आश्विनौ । अधोरामावित्यधःशमौ । बाह्वोः । सौमापौष्ण ।
 श्यामः । नाभ्याम् । सौर्य्यामौ । श्वेतः । च । कृष्णः च । पा-
 र्श्वयोः । त्वाष्ट्रौ । लोमशसक्थावेति लोमशसक्थौ । सक्थ्योः ।
 वायव्यः । श्वेतः । पुच्छे । इन्द्राय स्वपस्यायेति तुऽप्रपस्याय ।
 वेहत् । वैष्णवः । वामनः ॥ १ ॥

पदार्थः—(अश्वः) आशुगामी तुरङ्गः (तूपरः) हिंसकः (गोमृगः)
 गौरिव वर्तमानो गवयः (ते) (प्राजापत्याः) प्रजापतिः सूर्यो देवता येषान्ते
 (कृष्णग्रीवः) कृष्णा ग्रीवा यस्य सः (आग्नेयः) अग्निदेवताकः (रराटे)
 ललाटे (पुरस्तात्) आदितः (सारस्वती) सरस्वती देवता यस्याः सा (मे-
 षी) शब्दकर्त्री मेपस्य स्त्री (अधस्तात्) (हन्वोः) मुखाऽवयवयोः (आश्वि-
 नौ) अश्विदेवताकौ (अधोरामौ) अधो रमणं ययोस्तौ (बाह्वोः) (सौमा-
 पौष्णः) सोमपूषदेवताकः (श्यामः) कृष्णवर्णः (नाभ्याम्) मध्ये (सौर्य-
 यामौ) सूर्ययमसम्बन्धिनौ (श्वेतः) श्वेतवर्णः (च) कृष्णः (च) (पा-
 र्श्वयोः) वामदक्षिणभागयोः (त्वाष्ट्रौ) त्वाष्ट्रदेवताकौ (लोमशसक्थौ) लो-
 मानि विद्यन्ते यस्य तल्लोमशं सक्थि ययोस्तौ (सक्थ्योः) पादावयवयोः
 (वायव्यः) वायुदेवताकः (श्वेतः) श्वेतवर्णः (पुच्छे) (इन्द्राय) ऐश्वर्ययु-
 क्ताय (स्वपस्याय) शोभनान्यपांसि कर्माणि यस्य तस्मै (वेहत्) अकालेवृ-
 षभोपगमनेन गर्भघातिनी (वैष्णवः) विष्णुदेवताकः (वामनः) वक्राङ्गः ॥ १ ॥

अन्वयः— हे मनुष्या यूयमश्वस्तूपरो गोमृगस्ते प्राजापत्याः कृष्णग्रीव
 आग्नेयः पुरस्ताद्रराटे मेषी सारस्वती अधस्ताद्धन्वोर्बाह्वोरधोरामावाश्विनौ सौ-

मापौष्णः श्यामो नाभ्यां पार्श्वयोः श्वेतश्च कृष्णश्च सौर्ययामौ सक्थ्योर्लोम-
शसक्थौ त्वाष्ट्रौ पुच्छे श्वेतो वायव्यो वेहृद्वैष्णवो वामनश्च स्वपस्यायेन्द्राय सं-
योजयत ॥ १ ॥

भावार्थः— ये मनुष्या अश्वादिभ्यः कार्याणि संसाध्यैश्वर्यमुन्नीय
धर्म्याणि कर्माणि कुर्युस्ते सौभाग्यवन्तो भवेयुः । अत्र सर्वत्र देवतापदेन तराव-
गुणयोगात्पशवो वेदितव्याः ॥ १ ॥

पदार्थः— हे मनुष्यो तुम जो (अश्वः) शीघ्र चलने हारा घोड़ा (तूपरः)
हिंसा करने वाला पशु (गोमृगः) और गौ के समान वर्तमान नीलगाय है (ते) वे
(प्राजापत्याः) प्रजापालक सूर्य देवता वाले अर्थात् सूर्यमण्डल के गुणों से युक्त (कृ-
ष्णाग्नीवः) जिस की काली गर्दन वह पशु (आग्नेयः) अग्नि देवता वाला (पुरस्तात्)
प्रथम से (रराटे) ललाट के निमित्त (मेपी) मेड़ी (सारस्वती) सरस्वती देवता वा-
ली (अधस्तात्) नीचे से (हन्वोः) ठोड़ी वामदक्षिण भागों के और (बाह्वोः)
भुजाओं के निमित्त (अधोरामौ) नीचे रमण करने वाले (आश्विनौ) जिनका अश्वि-
देवता वे पशु (सौमापौष्णः) सोम और पूषा देवता वाला (श्यामः) काले रंग से यु-
क्त पशु (नाभ्याम्) तुन्दी के निमित्त और (पार्श्वयोः) बाई दाहिनी ओर के नियम
(श्वेतः) सुफेद रंग (च) और (कृष्णः) काला रंग वाला (च) और (सौर्यया-
मौ) सूर्य वा यम सम्बन्धि पशु वा (सक्थ्योः) पैरों की गांठियों के पास के भागों के
निमित्त (लोमशसक्थौ) जिस के बहुत रोम विद्यमान ऐसे गांठियों के पास के भागसे
युक्त (त्वाष्ट्रौ) त्वष्टा देवता वाले पशु वा (पुच्छे) पूँछ के निमित्त (श्वेतः) सु-
फेद रंग वाला (वायव्यः) वायु जिस का देवता है वह (वेहत) जो कामोद्दीपन
समय के बिना बैल के समीप जाने से गर्भ नष्ट करने वाली गौ वा (वैष्णवः)

विष्णु देवता वाला और (वामनः) नाटा शरीर से कुछ टेढ़े अंगवाला पशु इन स-
मों को (स्वपत्याय) जिस के सुन्दर २ कर्म उस (इन्द्राय) ऐश्वर्य्ययुक्त पुरुष के लि-
ये संयुक्त करो अर्थात् उक्त प्रत्येक अंग के आनन्द निमित्तक उक्त गुणवाले पशुओं
को नियत करो ॥ १ ॥

भावार्थ :- जो मनुष्य अश्व आदि पशुओं से कार्यों को सिद्ध कर ऐश्वर्य
को उन्नति देके धर्म के अनुकूल काम करें वे उत्तम भाग्य वाले हों । इस प्रकरण में
सब स्थानों में देवता पद से उस २ पद के गुण योग से पशु जानने चाहियें ॥ १ ॥

रोहितइत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । सोमादयो देवताः ।

निचृत्संकृतिश्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनः के पशवः कीदृशगुणा इत्याह ॥

फिर कौन पशु कैसे गुण वाले हैं इस वि० ॥

रोहितो धूम्रो रोहितः कर्कन्धु रोहि-
तस्ते सौम्या बभ्रुररुणा बभ्रुः शुक्रं बभ्रुस्ते
वारुणाः शिति रन्ध्रीऽन्यताः शितिरन्ध्रः
समन्तशितिरन्ध्रस्ते सावित्राः शितिवा-
हुरन्यताः शितिबाहुः समन्तशितिवा-
हस्ते बार्हस्पत्याः पृषती सुद्रुपृषती-
स्थूलपृषती ता मैत्रावरुण्यः ॥ २ ॥

रोहितः । धूम्ररोहित इति धूम्रऽरोहितः । कर्कन्धुरोहितेऽइति
कर्कन्धुरोहितः । ते । सौम्याः । बभ्रुः । अरुणबभ्रुरिति अरु-
णऽबभ्रुः । शुकबभ्रुरिति शुकऽबभ्रुः । ते । वारुणाः । शितिरन्ध्र-
इति शितिऽरन्ध्रः । अन्यतःशितिरन्ध्रइत्यन्यतःऽशितिरन्ध्रः ।
समन्तशितिरन्ध्रइतिसमन्तऽशितिरन्ध्रः । ते । सावित्राः । शिति
बाहुरिति शितिऽबाहुः । अन्यतःशितिबाहुरित्यन्यतःऽशितिबाहुः ।
समन्तशितिबाहुरिति समन्तऽशितिबाहुः । ते । बार्हस्पत्याः ।
पृषती । जुद्रपृषतीति जुद्रऽपृषती । स्थूलपृषतीति स्थूलऽपृषती
ताः । मैत्रावरुण्यः ॥ २ ॥

पदार्थः---(रोहितः) रक्तवर्णः (धूम्ररोहितः) धूम्ररक्तवर्णः (कर्क-
न्धुरोहितः) कर्कन्धुर्वदरीफलमिव रोहितः (ते) (सौम्याः) सोमदेवताकाः
(बभ्रुः) नकुलसदृशवर्णः (अरुणबभ्रुः) अरुणेन युक्तो बभ्रुर्वर्णो यस्य सः
(शुकबभ्रुः) शुकस्येव बभ्रुर्वर्णो यस्य सः (ते) (वारुणाः) वरुणदेवताकाः
(शितिरन्ध्रः) शितिः श्वेतता रन्ध्रे यस्य सः (अन्यतःशितिरन्ध्रः) अन्यतोऽ-
न्यस्मिन् रन्धाणीव शितयो यस्य सः (समन्तशितिरन्ध्रः) समन्ततो रन्धा-
णीव शितियः श्वेतचिन्हानि यस्य सः (ते) (सावित्राः) सवितृदेवताकाः (शि-
तिबाहुः) शितयो बाह्वोर्यस्य सः (अन्यतःशितिबाहुः) अन्यतः शितयो बा-
ह्वोर्यस्य सः (समन्तशितिबाहुः) समन्ताच्छितयो बाह्वोभुजस्थानयोर्यस्य
सः (ते) (बार्हस्पत्याः) बृहस्पतिदेवताकाः (पृषती) अङ्गैः सुसिक्ता (जु-
द्रपृषती) जुद्राणि पृषन्ति यस्याः सा (स्थूलपृषती) स्थूलानि पृषन्ति यस्याः
सा (ताः) (मैत्रावरुण्यः) प्राणोदानदेवताकाः ॥ २ ॥

अन्वयः— हे मनुष्या युष्मार्भिर्ये सोहितो धूम्रोहितः कर्कन्धुरोहितश्च सन्ति ते सौम्याः । ये बभ्रुररुणबभ्रुःशुकबभ्रुश्च सन्ति ते वारुणाः । ये शित्तिरन्ध्रोऽन्यतश्शित्तिरन्ध्रः समन्तशित्तिरन्ध्रश्च सन्ति ते सावित्राः । ये शितिबाहुरन्यतः शितिबाहुः समन्तशितिबाहुश्च सन्ति ते वार्हस्पत्याः । याः पृषती लुद्रपृषती स्थूलपृषती च सन्ति ता मैत्रावरुणयो भवन्तीति बोध्यम् ॥ २ ॥

भावार्थः—ये चन्द्रादिगुणयुक्ताः पशवः सन्ति तैस्तत्कार्यं मनुष्यैः साध्यम् ॥ २ ॥

पदार्थः— हे मनुष्यो तुम को जो (रोहितः) सामान्य लाल (धूम्रोहितः) धुमेला लाल और (कर्कन्धुरोहितः) पके बेर के समान लाल पशु हैं (ते) वे (सौम्याः) सोमदेवता अर्थात् सोम गुण वाले । जो (बभ्रुः) न्योला के समान धुमेला (अरुणबभ्रुः) लालामी लिये हुए न्योले के समान रंगबाला और (शुकबभ्रु) शुग्गा की समता को लिये हुए के समान रंगयुक्त पशु हैं (ते) वे सब (वारुणाः) वरुण देवता वाले अर्थात् श्रेष्ठ जो (शित्तिरन्ध्रः) शिति रन्ध्र अर्थात् जिसके मर्म स्थान आदि में सुपेदी (अन्यतः शित्तिरन्ध्रः) जो और अङ्ग से और अङ्ग में छेद से हो बैसी जिसके जहां तहां सुपेदी (समन्तशित्तिरन्ध्रः) और जिसके सब ओर से छेदों के समान सुपेदी के चिन्ह हैं (ते) वे सब (सावित्राः) सविता देवता वाले (शितिबाहुः) जिसके अगले भुजाओं में सुपेदी के चिन्ह (अन्यतः शितिबाहुः) जिसके और अंग से और अंग में सुपेदी के चिन्ह और (समन्तशितिबाहुः) जिसके सब ओर से अगले गोड़ों में सुपेदी के चिन्ह हैं ऐसे जो पशु हैं (ते) वे (वार्हस्पत्याः) बृहस्पति देवता वाले तथा जो (पृषती) सब अंगों से अच्छी छिट की हुई सौ (लुद्रपृषती) जिसके छोटे रंग विरंग छीटे और (स्थूलपृषती) जिसके मोटे र छीटे हैं (ताः) वे सब (मैत्रावरुणयः) प्राण और उदान देवता वाले होते हैं यह जानना चाहिये ॥ २ ॥

भावार्थः— जो चन्द्रमा आदि के उत्तम गुणवाले पशु हैं उनसे उनके गुण के अनूकूल काम मनुष्यों को सिद्ध करने चाहिये ॥ २ ॥

शुद्धवाल इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । अश्व्यादयो देवताः ।

निचृदतिजगतीकन्दः । निपादः स्वरः ॥

पुनः कीदृशगुणाः पशव इत्याह ॥

फिर कैसे गुण वाले पशु हैं इस वि० ॥

शुद्धवालः सर्वशुद्ध वालो मणिवालस्त
 आश्विनाः श्वेतः श्वेताक्षीऽरुणास्ते रु-
 द्राय पशुपतये कर्णा यामा अवलि-
 प्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः ॥ ३ ॥

शुद्धवाल इति शुद्धऽवालः । सर्वशुद्धवाल इति सर्वऽशुद्धवालः ।
 मणिवाल इति मणिऽवालः । ते । आश्विनाः । श्वेतः । श्वेता-
 क्ष इति श्वेतऽअक्षः । अरुणाः । ते । रुद्राय । पशुपतये इति पशुऽ
 पतये । कर्णाः । यामा । अवलिप्ता इत्यवऽलिप्ताः । रौद्राः ।
 नभोरूपा इति नभःऽरूपाः । पार्जन्याः ॥ ३ ॥

पदार्थः (शुद्धवालः) शुद्धा वाला यस्य सः (सर्वशुद्धवालः) सर्वे शुद्धा
 वाला यस्य सः (मणिवालः) मणिरिव वाला यस्य स (ते) (आश्विनाः)
 सूर्यचन्द्रदेवताकाः (श्वेतः) श्वेतवर्णः (श्वेताक्षः) श्वेते अक्षिणी यस्य सः
 (अरुणाः) रक्तवर्णः (ते) (रुद्राय) दुष्टानां रोदकाय (पशुपतये) पशूनां
 पालकाय (कर्णाः) यैः कार्याणि कुर्वन्ति ते (यामाः) वायुदेवताकाः (अव-
 लिप्ताः) अवलिप्तान्युपचितान्यङ्गानि येषान्ते (रौद्राः) प्राणादिदेवताकाः
 (नभोरूपाः) नभ इव रूपं येषान्ते (पार्जन्याः) मेघदेवताकाः ॥ ३ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या युष्माभिर्ये शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणि-
वालश्च सन्ति ते आश्विनाः । ये श्येतः श्येताक्षोऽरुणश्च सन्ति ते पशुपतये
रुद्राय । ये कर्णाः सन्ति ते यामाः । येऽवलिप्ताः सन्ति ते रौद्राः । ये नभोरूपाः
सन्ति ते पार्जन्याश्च वेदितव्याः ॥ ६ ॥

भावार्थः—यो यस्य पशोर्देवताऽस्ति स तद्गुणोऽस्तीति वेद्यम्
॥ ३ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो तुम को जो (शुद्धवालः) जिस के शुद्ध बाल वा
शुद्ध छोटे २ अंग (सर्वशुद्धवालः) जिस के समस्त शुद्ध बाल और (मणिवालः)
जिस के मणि के समान चिलकते हुए बाल हैं ऐसे जो पशु (ते) वे सब (आश्वि-
नाः) सूर्य चन्द्र देवता वाले अर्थात् सूर्य चन्द्रमा के समान दिव्य गुण वाले । जो
(श्येतः) सुपेद रंगयुक्त (श्येताक्षः) जिस की सुपेद आँखें और (अरुणः) जो
लाल रंग वाला है (ते) वे (पशुपतये) पशुओं की रक्षा करने और (रुद्राय)
दुष्टों को रूतानेहारे के लिये । जो ऐसे हैं कि (कर्णाः) जिन से काम करते हैं वे
(यामाः) वायु देवता वाले (अवलिप्ताः) जिन के उन्नति युक्त अंग अर्थात् स्थूल
शरीर हैं वे (रौद्राः) प्राण वायु आदि देवता वाले तथा (नभोरूपाः) जिन का
आकाश के समान नीला रूप है ऐसे जो पशु हैं वे सब (पार्जन्याः) मेघ देवता वाले
जानने चाहिये ॥ ३ ॥

भावार्थः—जो जिस पशु का देवता है वह उस का गुण है यह जानना
चाहिये ॥ ३ ॥

पृश्निरित्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । मारुतादयो देवताः ।

विराडतिथीतिश्छन्दः । पद्जः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिरउसी वि० ॥

पृश्निस्तिरश्चिन् पृश्निरू ध्वपृश्निस्ते

मारुताः फुल्गूर्लीहितोर्णीपलक्षी ताः

सारस्वत्युःप्लीहाकर्णः शुण्ठाकर्णोऽ
 ध्यालोहकर्णस्ते त्वाष्ट्राःकृष्णाग्नीवः शि-
 तिकक्षोऽञ्जिसक्थस्तऽरेन्द्राग्नाः कृष्णा
 ञ्जिरल्पाञ्जिर्महाञ्जिस्त उषस्याः

॥ ४ ॥

पृश्निः । तिरश्चीनपृश्निरिति तिरश्चीनऽपृश्निः । ऊर्ध्वपृश्निरित्यु-
 र्ध्वऽपृश्निः । ते । मारुताः । फल्गूः । लोहितोर्णीतिलोहितऽऊर्णो ।
 पलञ्ची । ताः । सारस्वत्युः । प्लीहाकर्णः । प्लीहाकर्ण इति
 प्लीहाऽकर्णः । शुण्ठाकर्णः । शुण्ठकर्ण इति शुण्ठऽकर्णः । अ-
 ध्यालोहकर्ण इत्यध्यालोहऽकर्णः । ते । त्वाष्ट्राः । कृष्णाग्नीव इति
 कृष्णाऽग्नीवः । शितिकक्षऽ इति शितिऽकक्ष । अञ्जिसक्थऽइत्य-
 ञ्जिऽसक्थः । ते । ऐन्द्राग्नाः । कृष्णाञ्जिरिति कृष्णाऽञ्जिः ।
 अल्पाञ्जिरित्यल्पऽअञ्जिः । महाञ्जिरिति महाऽअञ्जिः ।
 ते । उषस्याः ॥ ४ ॥

पदार्थः—(पृश्निः) पृष्ठव्यः (तिरश्चीनपृश्निः) तिरश्चीनः पृश्निः स्पर्शो
 यस्य सः (ऊर्ध्वपृश्निः) ऊर्ध्व उत्कृष्टः पृश्निः स्पर्शो यस्य सः (ने) (मारुताः)
 मरुदेवताकाः (फल्गूः) या फलानि गच्छति प्राप्नोति सा (लोहितोर्णी) लोहिता
 ऊर्णा यस्याः सा (पलञ्ची) पले चञ्चले अक्षिणी यस्याः सा (ताः)
 (सारस्वत्युः) सरस्वती देवताकाः (प्लीहाकर्णः) प्लीहेव कर्णे यस्य सः
 (शुण्ठाकर्णः) शुण्ठौ शुष्कौ कर्णौ यस्य सः (अध्यालोहकर्णः)

अधिगतं च तन्लोहं च सुवर्णं तद्वद्वर्णो यस्य सः । लोहमिति हिरण्यमा० नि-
घं० १ । २ (ते) (त्वाष्ट्राः) त्वष्टृदेवताकाः (कृष्णग्रीवः) कृष्णा ग्रीवां
यस्य सः (शितिकृत्तः) शिती श्वेतौ कर्तौ पार्श्वौ यस्य सः (अञ्जिसक्थः)
अञ्जिनी प्रसिद्धानि सक्थीनि यस्य सः (ते) (ऐन्द्राग्नाः) वायुविद्युद्देव-
ताकाः (कृष्णाञ्जिः) कृष्णा त्रिलिखिता अञ्जिर्गतिर्यस्य सः (अन्पाञ्जिः)
अन्पगतिः (महाञ्जिः) महागतिः (ते) (उपस्याः) उपोदेवताकाः ॥ ४ ॥

अन्वयः— हे मनुष्या ये पृश्निस्तिरश्चीनपृश्निरूर्ध्वपृश्निश्च
सन्ति ते मारुताः । याः फल्गूलोहितोर्णी पलक्षी च सन्ति ताः सारस्वत्यः ।
ये प्लीहाकर्णः शुण्ठाकर्णोऽध्यालोहकर्णश्च सन्ति ते त्वाष्ट्राः । ये कृष्णग्रीवः
शितिकर्णोऽञ्जिसक्थश्च सन्ति ते ऐन्द्राग्नाः । ये कृष्णाञ्जिरन्पाञ्जिमर्हाञ्जिश्च
सन्ति ते उपस्याश्च भवन्तीति वेद्यम् ॥ ४ ॥

भावार्थः—ये पशवः पक्षिणश्च वायुगुणा ये नदीगुणा ये सूर्यगुणा
ये वायुविद्युद्गुणा ये चोषोगुणाः सन्ति तैस्तदनुकूलानि कार्याणि साधनी-
यानि ॥ ४ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जो (पृश्निः) पूछने योग्य (तिरश्चीनपृश्निः) जिस
का तिरछा स्पर्श और (ऊर्ध्वपृश्निः) जिस का ऊंचा या उत्तम स्पर्श है (ते) वे
(मारुताः) वायु देवता वाले । जो (फल्गूः) फलों को प्राप्त हों (लोहितोर्णी)
जिस की लाल ऊर्णा अर्थात् देह के बाल और (पलक्षी) जिस की चंचल चपल
आंखें ऐसे जो पशु हैं (ताः) वे (सारस्वत्यः) सरस्वती देवता वाले (प्लीहाकर्णः)
जिस के कान में प्लीहा रोग के आकार चिन्ह हों (शुण्ठाकर्णः) जिस के सूखे कान
और जिस के (अध्यालोहकर्णः) अच्छे प्रकार प्राप्त हुए सुवर्ण के सामन कान
ऐसे जो पशु हैं (ते) वे सब (त्वाष्ट्राः) त्वष्टा देवता वाले जो (कृष्णग्रीवः)

काले गले वाले (शितिकक्षः) जिस के पांजर की ओर सुपेद अंग और (अञ्जिस-
 षथः) जिस की प्रसिद्ध जङ्घा अर्थात् स्थूल होने से अलग विदित हों ऐसे जो पशु हैं
 (ते) वे सब (ऐन्द्राग्नाः) पवन और विजुली देवता वाले तथा (कृष्णाञ्जलिः)
 जिस की करोड़ी हुई चाल (अल्पाञ्जलिः) जिस की थोड़ी चाल और (महाञ्जलिः)
 जिस की बड़ी चाल ऐसे जो पशु हैं (ते) वे सब (उषस्याः) उषा देवता वाले
 होते हैं यह जानना चाहिये ॥ ४ ॥

भावार्थः—जो पशु और पत्नी पवन गुण वा जो नदी गुण वा जो सूर्य गुण
 वा जो पवन और विजुली गुण तथा जो प्रातः समय की बेला के गुण वाले हैं उन से
 उन्हीं के अनुकूल काम सिद्ध करने चाहिये ॥ ४ ॥

शिल्पाइत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः ।

निचृद्बृहतीछन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह

फिर उसी वि० ॥

शिल्पा वैश्वदेव्यो रोहिण्यस्यवयो

वाचेऽविज्ञाता अदित्यै सरूपा धात्रे

वत्सतर्यो देवानां पत्नीभ्यः ॥ ५ ॥

शिल्पाः । वैश्वदेव्युइति वैश्वदेव्यः । रोहिण्यः । स्यवयुइति

ः त्रिऽप्रवयः । वाचे । अविज्ञाता इत्याविऽज्ञाताः । अदित्यै ।

सरूपा इति सरूपाः । धात्रे । वत्सतर्यः । देवानाम् ।

पत्नीभ्यः ॥ ५ ॥

पदार्थः—(शिल्पाः) सुरूपाः शिल्पकार्यसाधिकाः (वैश्वदेव्यः) विश्वदेवदेवताकाः (रोहियः) आरोद्धुमर्हाः (त्र्यवयः) त्रिविधाश्च ता अवयवश्च ताः (वाचे) (अविज्ञाताः) विशेषेणाज्ञाताः (अदित्यै) पृथिव्यै (सरूपाः) समानं रूपं यासां ताः (धात्रे) धारकाय (वत्सतर्यः) अतिशयेन वत्सा अल्पवयसः (देवानाम्) दिव्यगुणानां विदुषाम् (पत्नीभ्यः) भार्याभ्यः ॥ ५ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या युष्माभिर्याः शिल्पा वैश्वदेव्यो वाचे रोहियस्त्र्यवयोऽदित्या अविज्ञाताः धात्रे सरूपा देवानां पत्नीभ्यो वत्सतर्यश्चता विज्ञेयाः ॥ ५ ॥

भावार्थः—ये सर्वे विद्वांसः शिल्पविद्ययाऽनेकानि यानादीनि रचयेयुः पशूनां च पालनं कृत्वोपयोगं गृह्णीयुस्तेऽभीमन्तः स्युः ॥ ५ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो तुम को (शिल्पाः) जो सुन्दर रूपवान् और शिल्पकार्यों की सिद्धि करने वाली (वैश्वदेव्यः) विश्वदेव देवता वाले (वाचे) वाची के लिये (रोहियः) नीचे से ऊपर को बढ़ाने योग्य (त्र्यवयः) जो तीन प्रकार की भेड़ों (अदित्यै) पृथिवी के लिये (अविज्ञाताः) विशेष कर न जानी हुई भेड़ आदि (धात्रे) धारण करने के लिये (सरूपाः) एक से रूप वाली तथा (देवानाम्) दिव्यगुण वाले विद्वानों की (पत्नीभ्यः) स्त्रियों के लिये (वत्सतर्यः) अतीव छोटी २-थोड़ी अवस्था वाली बछियां जाननी चाहिये ॥ ५ ॥

भावार्थः—जो सब विद्वांसः शिल्प विद्या से अनेकों यान आदि बनावें और पशुओं की पालना कर उन से उपयोग लें वे धनवान् हों ॥ ५ ॥

कृष्णग्रीवा इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । अग्न्यादयो देवताः ।

धिराहुष्णिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

ऋर उसी चि० ॥

कृष्णग्रीवा आग्नेयाः शितिभ्रवो
वसूनां रोहिता रुद्राणां श्वेता अ-
वरोकिण आदित्यानां नभोरूपाः
पार्जन्याः ॥ ६ ॥

कृष्णग्रीवा इति कृष्णग्रीवाः । आग्नेयाः । शितिभ्रव इति
शितिभ्रवः । वसूनाम् । रोहिताः । रुद्राणाम् । श्वेताः । अवरो-
किण इत्यवरोकिणः । आदित्यानाम् । नभोरूपा इति नभःरू-
पाः । पार्जन्याः ॥ ६ ॥

पदार्थः—(कृष्णग्रीवाः) कृष्णा कर्पिका ग्रीवा निगरणं येषान्ते
(आग्नेयाः) अग्निदेवताकाः शितिश्श्वेताः भूभृकुटिर्यासां ताः (वसूनाम्)
पृथिव्यादीनाम् (रोहिताः) रक्तवर्णाः (रुद्राणाम्) प्राणदीनाम् (श्वेताः)
श्वेतवर्णाः (अवरोकिणः) अवरोधका (आदित्यानाम्) सूर्यसम्बन्धनां मा-
सानाम् (नभोरूपाः) नभ उदकमिव रूपं येषां ते (पार्जन्याः) मेघदेवताकाः ॥ ६ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या ये कृष्णग्रीवास्त आग्नेयाः । ये शितिभ्रवस्ते
वसूनां ये रोहितास्ते रुद्राणां ये श्वेता अवरोकिणस्ते आदित्यानां ये नभोरूपा-
स्ते च पार्जन्याः बोध्याः ॥ ६ ॥

भावार्थः—मनुष्यैरग्नेराकर्षणक्रिया पृथिव्यादीनां धारणाक्रिया वायूनां प्ररोहणक्रिया आदित्यानामवरोधिका मेघानां च जलवर्षिकाः क्रिया विदित्वाः कार्येषूपयोज्याः ॥ ६ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यों जो (कृष्णाग्नीवाः) ऐसे हैं कि जिन की खिंची हुई गर्दन वा खिंचा हुआ खाना निगलना वे (आग्नेयाः) अग्नि देवता वाले (शिति-अवः) जिन की सुपेद भौंहें हैं वे (वसूनाम्) पृथिवी आदि वसुओं के । जो (रोहिताः) लालरंग के हैं वे (रुद्राणाम्) प्राण आदि ग्यारह रुद्रों के । जो (श्वेताः) सुपेद रंग के और (अवरोकिणः) अवरोध करने अर्थात् रोकने वाले हैं वे (आदित्या-नाम्) सूर्यसम्बन्धी महीनोंके और जो (नभोरूपाः) ऐसे हैं कि जिन का जल के समान रूप है वे जीव (पार्जन्याः) मेघदेवता वाले अर्थात् मेघ के सदृश गुणों वाले जानने चाहियें ॥ ६ ॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि अग्नि की खिंचने की पृथिवी आदि की धारण करने की पवनों की अच्छे प्रकार चढ़ने की सूर्य आदि की रोकने की और मेघों की जल वर्षाने की क्रिया को जान कर सब कामों में सम्यक् निरन्तर उपयुक्त क्रिया करें ॥ ६ ॥

उन्नत इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । इन्द्रादयो देवताः ।

अतिजगती छन्दः । निपादः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

उन्नत ऋषिः प्रजापतिः वा । मन्तस्तः । ऐन्द्रावैष्णवा

उन्नतः शितिवाहुः शितिपृष्ठस्त ऐन्द्रा-

बार्हस्पत्याः शुक्ररूपा वाजिनाः कल-

मांषा आग्निमारुताः श्यामाः पौ-
ष्णाः ॥ ७ ॥

उन्नत इत्युत्पन्नतः । ऋषभः । वामनः । ते । ऐन्द्रावैष्णवाः ।
उन्नतइत्युत्पन्नतः । शितिवाहुरिति शितिऽवाहुः । शितिपृष्ठइति
शितिऽपृष्ठः । ते । ऐन्द्रावार्हस्पत्याः वा शुक्रं रूपाइति शुक्रंऽरूपाः ।
वाजिनाः । कल्माषाः । आग्निमारुता इत्याग्निऽमारुताः । श्या-
माः । पौष्णाः ॥ ७ ॥

पदार्थः— (उन्नतः) उच्छ्रितः (ऋषभः) श्रेष्ठः (वामनः)
वक्राङ्गः (ते) (ऐन्द्रावैष्णवाः) विद्युद्वायुदेवताकाः (उन्नतः) (शितिवाहुः)
शित्वातनूकर्तारौ वाहू इव बलं यस्य सः (शितिपृष्ठः) शितिस्तनूकरणं पृष्ठं
यस्य सः (ते) (ऐन्द्रावार्हस्पत्याः) वायुसूर्यदेवताकाः (शुक्ररूपाः) शुकस्य
रूपमिव रूपं येषान्ते (वाजिनाः) वेगवन्तः (कल्माषाः) श्वेतकुण्डवर्णाः
(आग्निमारुताः) अग्निवायुदेवताकाः (श्यामाः) श्यामवर्णाः (पौष्णाः)
पुष्टिनिमित्तमेघदेवताकाः ॥ ७ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या भवन्निर्ये उन्नत ऋषभो वामनश्च सन्ति । त
ऐन्द्रावैष्णवाः य उन्नतः शितिवाहुः शितिपृष्ठश्च मन्ति त ऐन्द्रावार्हस्पत्याः ।
ये शुक्ररूपा वाजिनः कल्माषाः सन्ति त आग्निमारुताः । ये श्यामाः सन्ति ते
च पौष्णाः विज्ञेयाः ॥ ७ ॥

भावार्थः—ये मनुष्याः पशूनामुन्नतिं पुष्टिं च कुर्वन्ति ते नानाविधानि
सुखानि लभन्ते ॥ ७ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो तुम को जो (उन्नतः) ऊँचा (ऋषभः) और श्रेष्ठ (वामन)
देहे अंगो वाले नाटा पशु हैं (ते) वे (ऐन्द्रावैष्णवाः) बिजुली और पवम देवता वाले

जो (उन्नतः) ऊंचा (शितिबाहुः) जिस का दूसरे पदार्थ को काटती छांटती हुई भुजाओं के समान बल और (शितिपृष्ठः) (जिस की सूक्ष्म की हुई पीठ ऐसे जो पशु हैं (ते) वे (ऐन्द्राबार्हस्पत्याः) वायु और सूर्य देवता वाले (शुकरूपाः) जिन का सुगों के समान रूप और (वाजिनाः) वेग वाले (कल्माषाः) कवरे भी हैं वे (आग्नि-मारुताः) अग्नि और पवन देवता वाले तथा जो (श्यामाः) काले रंग के हैं वे (पौष्णाः) पुष्टि निमित्तक मेघ देवता वाले जानने चाहिये ॥ ७ ॥

भावार्थः—जो मनुष्य पशुओं की उन्नति और पुष्टि करते हैं वे नाना प्रकार के सुखों को पाते हैं ॥ ७ ॥

एता इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । इन्द्राग्न्यादयो देवताः ।

विराट् बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

एता ऐन्द्राग्ना द्विरूपा अग्नीषोमीया
वामना अनड्वाह आग्नवैष्णवा वशा
मैत्रावरुण्योऽन्यतः अन्यो मैत्र्यः ॥ ८ ॥

एताः । ऐन्द्राग्नाः । द्विरूपा इति द्विरूपाः । अग्नीषोमीयाः ।

वामनाः । अनड्वाहः आग्नवैष्णवाः । वशाः । मैत्रावरुण्यः ।

अन्यतः अन्य इत्यन्यतःऽन्यः । मैत्र्यः ॥ ८ ॥

पदार्थः—(एताः) पूर्वोक्ताः (ऐन्द्राग्नाः) वायुविद्युत्सङ्गिनः (द्विरूपाः) द्वे रूपे यासां ताः (अग्नीषोमीयाः) सोमाग्निदेवताकाः (वामनाः) वक्रावयवाः (अनड्वाहः) वृषभाः (आग्नवैष्णवाः) अग्निवायुदेवताकाः (वशाः) बन्ध्या गावः (मैत्रावरुण्यः) प्राणोदानदेवताकाः (अन्यत-पन्यः) या अन्यतो यन्ति प्राप्नुवन्ति ताः (मैत्र्यः) मित्रस्य प्रिये वर्त्तमानाः ॥ ८ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या युष्माभिर्या एता द्विरूपाः सन्ति ता ऐन्द्रा-
ग्नाः । ये वामना अनद्वाहः सन्ति तेऽग्नीषोमीया आग्नावैष्णवाश्च । या
वशाः सन्ति ता मैत्रावरुण्यः । या अन्यतप्यः सन्ति ताश्च मैत्र्यो
विज्ञेयाः ॥ ८ ॥

भावार्थः—ये मनुष्या वायवग्न्यादिगुणान्पशून् पालयन्ति ते सर्वो-
पकारका भवन्ति ॥ ८ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो तुम को (एताः) ये पूर्वोक्त (द्विरूपाः) द्विरूप
पशु अर्थात् जिन के दो २ रूप हैं वे (ऐन्द्राग्नाः) वायु और विजुली के संगी जो
(वामनाः) टेढ़े अंगों वाले व नाटे और (अनद्वाहः) तैल हैं वे (अग्नीषोमीयोः)
सोम और अग्नि देवता वाले तथा (आग्नावैष्णवाः) अग्नि और वायु देवता वाले
जो (वशाः) बन्ध्या गौ हैं वे (मैत्रावरुण्यः) प्राण और उदान देवता वाली और
जो (अन्यतप्यः) कहीं से प्राप्त हों वे (मैत्र्यः) मित्र के प्रिय व्यवहार में जानने
चाहिये ॥ ८ ॥

भावार्थः—जो मनुष्य वायु और अग्नि आदि के गुणों वाले गौ आदि
पशु हैं उन की पालना करते हैं वे सब का उपकार करने वाले होते हैं ॥ ८ ॥

कृष्णग्रीवा इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । अन्यादयो देवताः ।

निचृत्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ।

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

कृष्णग्रीवा आग्नेया बभ्रवः सौम्याः
श्वेता वायव्या अविज्ञाता अदित्यै
सरूपा धात्रे वत्सतुर्यो देवानां प-
त्नीभ्यः ॥ ८ ॥

कृष्णग्रीवा इति कृष्णऽग्रीवाः । आग्नेयाः । बभ्रवः । सौ-
म्याः । श्वेताः । वायव्याः । अविज्ञाता इत्यविज्ञाताः । अदि-
त्यै । सरूपाऽइति सरूपाः । धात्रे । वत्सतर्यः । देवानाम् ।
पत्नीभ्यः ॥ ९ ॥

पदार्थः—(कृष्णग्रीवाः) कृष्णकण्ठाः (आग्नेयाः) अग्निदेवताकाः (ब-
भ्रवः) नकुलवर्णवर्णयुक्ताः (सौम्याः) सोमदेवताकाः (श्वेताः) (वाय-
व्याः) वायुदेवताकाः (अविज्ञाताः) न विशेषेण ज्ञाता विदिताः (अदित्यै)
अस्वष्टितायै जनित्वक्रियायै । अदितिर्जनित्वमिति मंत्र प्रामाण्याद्वादिति श-
ब्देन गृह्यते (सरूपाः) समानं रूपं यासां ता (धात्रे) धारकाय वायवे (व-
त्सतर्यः) अतिशयेन वत्साः (देवानाम्) सूर्यादीनाम् (पत्नीभ्यः) पालि-
काभ्यः क्रियाभ्यः ॥ ६ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या युष्माभिर्ये कृष्णग्रीवास्त आग्नेयाः । ये बभ्र-
वस्ते सौम्याः । ये श्वेतास्ते वायव्याः । येऽविज्ञातास्तेऽदित्यै ये सरूपास्ते धा-
त्रे । या वत्सतर्यस्ताश्च देवानां पत्नीभ्यो विज्ञेयाः ॥ ९ ॥

भावार्थः—ये पशवः कर्षका निगलका अग्निवद्वर्त्तमाना य ओषधीवद्धार-
काः । य आवरकास्ते वायुवद्वर्त्तमानाः । येऽविज्ञातास्ते प्रजमनाय ये धातृगु-
णास्ते धारणाय ये सूर्यकिरन्ववर्त्तमानाः पदार्थाः सन्ति ते व्यवहारसाधने
प्रयोज्याः ॥ ६ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो तुम को जो (कृष्णग्रीवाः) काले गले के हैं वे (आग्ने-
याः) अग्निदेवता वाले जो (बभ्रवः) न्योले के रंग के समान रंग वाले हैं वे (सौ-
म्याः) सोम देवता वाले जो (श्वेताः) सुपेद हैं वे (वायव्याः) वायु देवता वाले ।
जो (अविज्ञाताः) विशेष चिन्ह से कुछ न जाने गये वे (अदित्यै) जो कभी

नाश नहीं होती उस उत्पत्ति रूप क्रिया के लिये जो (सरूपाः) ऐसे हैं कि जिन का एकसारूप है वे (धात्रे) धारण करने हारे पवन के लिये । और जो (वत्सतर्यः) छोटी २ बछिया हैं वे (देवानाम्) सूर्य आदि लोकों की (पत्नीभ्यः) पालना करने वाली क्रियाओं के जानने चाहियें ॥ ६ ॥

भावार्थ :- जो पशु जोतने और निगलने वाले अग्नि के समान वर्तमान जो ओषधी के समान गुणों को धारण करने और द्रंपने वाले हैं पवन के समान वर्तमान जो नहीं जानने योग्य उत्पत्ति के लिये जो धारण करते हुए के तुल्य गुणयुक्त हैं वे धारण करने के लिये । तथा जो सूर्य की किरणों के समान वर्तमान, पदार्थ हैं वे व्यवहारों की सिद्धि करने में अच्छे प्रकार युक्त करने चाहियें ॥ ६ ॥

कृष्णा भौमा इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । अन्तरिक्षादयो
देवताः । विराड् गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

कृष्णा भौमा धूम्रा अन्तरिक्षा बृ-
हन्तो दिव्याः शबला वैद्युताः सिध्मा-
स्तारकाः ॥ १० ॥

कृष्णाः । भौमाः । धूम्राः । अन्तरिक्षाः । बृहन्तः । दिव्याः ।
शबलाः । वैद्युताः । सिध्माः । तारकाः ॥ १० ॥

पदार्थः—(कृष्णाः) कृष्णवर्णा विलेखननिमित्ता वा (भौमाः)
भूमिदेवताकाः (धूम्रा) धूम्रवर्णाः (अन्तरिक्षाः) अन्तरिक्ष
देवताकाः (बृहन्तः) वर्धकाः (दिव्याः) दिव्यगुणकर्मस्वभावाः

(श्वलाः) किञ्चिच्छ्रुताः (वैद्युताः) विद्युद्देवताकाः (सिध्माः) मङ्गलकारिणः (तारकाः) दुःखस्य पारे कारिणः ॥ १० ॥

अन्वयः—हे मनुष्या युष्माभिर्ये कृष्णास्ते भौमाः । ये धूमास्त अन्तरिक्षाः । ये दिव्या बृहन्तः श्वलास्ते वैद्युताः । ये सिध्मास्ते च तारका विज्ञेयाः ॥ १० ॥

भावार्थः—यदि मनुष्याः कर्षणादिकार्यसाधकान् पशवादि पदार्थान् भूम्यादिषु संयोजयेयुस्तर्हि ते मङ्गलमाप्स्युः ॥ १० ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो तुम को जो (कृष्णाः) काले रंग के चा खेत आदि के जुताने वाले हैं वे (भौमाः) भूमि देवता वाले । जो (धूमाः) धूमेले हैं वे (अन्तरिक्षाः) अन्तरिक्ष देवता वाले । जो (दिव्याः) दिव्य गुण कर्म स्वभावयुक्त (बृहन्तः) बढ़ते हुए और (श्वलाः) थोड़े सुपेद हैं वे (वैद्युताः) विजुली देवता वाले । और जो (सिध्माः) मङ्गल कराने वाले हैं वे (तारकाः) दुःख के पार उतारने वाले जानने चाहिये ॥ १० ॥

भावार्थः—यदि मनुष्य जोतने आदि कार्यों के साधक पशु आदि पदार्थों को भूमि आदि में संयुक्त करें तो वे आनन्द मङ्गल को प्राप्त हों ॥ १० ॥

धूम्रानित्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । वसन्तादयो देवताः ।

विराड् बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ।

पुनस्तमेव विषममाह ।

फिर वसी वि० ॥

धूम्रान् वसन्तायालभते प्रवृतान्
ग्रीष्माय कृष्णान् वर्षाभ्योऽरुणाञ्छु-
रदे पृषतो हेमन्ताय पिशाङ्गाञ्छि-
शिराय ॥ ११ ॥

धूम्रान् । वसन्ताय । आ । लभते । श्वेतान् । ग्रीष्माय ।
 कृष्णान् । वर्षाभ्यः । अरुणान् । शरदे । पृषतः । हेमन्ताय ।
 पिशङ्गान् । शिशिराय ॥ ११ ॥

पदार्थः—(धूम्रान्) धूमवर्णान् पदार्थान् (वसन्ताय) वसन्तर्तौ सुखाय
 (आ) समन्तात् (लभते) प्राप्नोति (श्वेतान्) श्वेतवर्णान् (ग्रीष्माय)
 ग्रीष्मर्तौ सुखाय (कृष्णान्) कृष्णवर्णान् कृपिसाधकान् वा (वर्षाभ्यः) व-
 र्षर्तौ कार्यसाधनाय (अरुणान्) आरक्तान् (शरदे) शरदृर्तौ सुखाय (पृषतः)
 स्थूलान् (हेमन्ताय) हेमन्तर्तौ कार्यसाधनाय (पिशङ्गान्) रक्तपीतवर्णान्
 (शिशिराय) शिशिरर्तौ व्यवहारसाधनाय ॥ ११ ॥

अन्वयः—यो मनुष्यो वसन्ताय धूम्रान् ग्रीष्माय श्वेतान् वर्षाभ्यः कृष्णान्
 शरदेऽरुणान् हेमन्ताय पृषतः शिशिराय पिशङ्गानाल्लभते स सततं सुखी भ-
 वति ॥ ११ ॥

भावार्थः—मनुष्यैर्यस्मिन्नृतौ ये पदार्थाः संचनीयाः सेवनीयाश्च स्युस्ता-
 न्संघित्य संसेव्याऽरोगा भूत्वा धर्मार्थकाममोक्षसाधनान्यनुष्ठातव्यानि ॥ ११ ॥

पदार्थः—जो मनुष्य (वसन्ताय) वसन्त ऋतु में सुख के लिये (धूम्रान्) धु-
 मेले पदार्थों के (ग्रीष्माय) ग्रीष्म ऋतु में आनन्द के लिये (श्वेतान्) सुपेद रंग के
 (वर्षाभ्यः) वर्षा ऋतु में कार्य सिद्धि के लिये (कृष्णान्) काले रंग के वा खेती
 की सिद्धि कराने वाले (शरदे) शरद ऋतु में सुख के लिये (अरुणान्) लाल रंग
 के (हेमन्ताय) हेमन्त ऋतु में कार्य साधने के लिये (पृषतः)

मोटे और (शिरिराय) शिशिर ऋतु सम्बन्धी व्यवहार साधने के लिये (पिशङ्गान्) लालामी लिये हुए पीले पदार्थों की (आ, लभते) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है वह निरन्तर सुखी होता है ॥ ११ ॥

भावार्थः— मनुष्यों को जिस ऋतु में जो पदार्थ इकट्ठे करने वा सेवने योग्य हों उन को इकट्ठे और उन का सेवन कर जीरोग हो के धर्म अर्थ, काम और मोक्ष के सिद्ध करने के व्यवहारों का आचरण करें ॥ ११ ॥

व्यवय इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । अन्यादयो देवताः ॥

विराडनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

त्र्यवयो गायत्र्यै पञ्चावयस्त्रिष्टुभे
दित्यवाहो जगत्यै त्रिवृत्सा अनुष्टुभे
तुर्यवाह उष्णिह ॥ १२

त्र्यवयु इति त्रिऽत्र्यवयः । गायत्र्यै । पञ्चावयु इति पञ्चऽ-
अवयः । त्रिष्टुभे । त्रिस्तुभ इति त्रिऽस्तुभे । दित्यवाहऽ इति
दित्यऽवाहः । जगत्यै । त्रिवृत्साऽ इति त्रिऽवृत्साः । अनुष्टुभे
अनुस्तुभ इत्यनुऽस्तुभे । तुर्यवाह इति तुर्यऽवाहः । उष्णि-
हे ॥ १२ ॥

पदार्थः (त्र्यवयः) तिस्रोऽवयो येषां ते (गायत्र्यै) गायतो रक्षिकायै (पञ्चावयः) पञ्च अवयो येषान्ते (त्रिष्टुभे) त्रयाणां शरीरवा-
चिकमानसानां सुखानां स्तम्भनाय स्थिरीकरणाय (दित्यवाहः) दितौ खण्डने भवा दित्या न दित्या अदित्यास्तान् ये वहन्ति प्रापयन्ति ते दित्यवाहः

(जगत्यै) जगद्रक्षणायै क्रियायै (त्रिवत्साः) त्रयो वत्सास्त्रिषु वा निवासो
 येषान्ते (अनुष्टुभे) अनुस्तम्भाय (तुर्यवाहः) ये तुर्यं चतुर्थं वहन्ति ते (उ-
 ष्णिहे) उत्कृष्टतया स्निह्यति यया तस्यै क्रियायै ॥ १२ ॥

अन्वयः—ये ज्यवयो गायत्र्यै पञ्चात्रयस्त्रिष्टुभे दित्यवाहो जगत्यै
 त्रिवत्सा अनुष्टुभे तुर्यवाह उष्णिहे च प्रयतेरस्ते सुखिनः स्युः ॥ १२ ॥

भावार्थः—यथा विद्वांसोऽधीतैर्गायत्र्यादिछन्दोऽर्थैः सुखानि वर्धयन्ते
 तथा पशुपालका घृतादीनि चर्दयेयुः ॥ १२ ॥

पदार्थः—जो (ज्यवयः) ऐसे हैं कि जिन की तीन भेड़ें वे (गायत्र्यै)
 गाते हुआ की रक्षा करने वाली के लिये (पञ्चावयः) जिन के पांच भेड़ें हैं वे
 (त्रिष्टुभे) तीस अर्थात् शरीर वाणी और मन संबन्धी सुखों के स्थिर करने के लिये ।
 जो (दित्यवाहः) विनाश में न प्रसिद्ध हों उन की प्राप्ति कराने वाले (जगत्यै)
 संसार की रक्षा करने की जो क्रिया उस के लिये (त्रिवत्साः) जिन के तीन बछड़ा
 वा जिनके तीन स्थानों में निवास वे (अनुष्टुभे) पीछे से रोकने की क्रिया के लिये और
 (तुर्यवाहः) जो अपने पशुओं में चौथे को प्राप्त कराने वाले हैं वे (उष्णिहे) जिस क्रिया से
 उत्तमता के साथ प्रसन्न हों उस क्रिया के लिये अच्छा बल करें वे सुखी हों ॥ १२ ॥

भावार्थः—वैसे विद्वान् जन पढ़े हुए गायत्री आदि छन्दों के अर्थों से
 सुखों को बढ़ाते हैं वैसे पशुओं के पालने वाले घी आदि पदार्थों को बढ़ावें ॥ १२ ॥

षष्ठ्यादित्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । विराजदियो देवताः ।

निचृदनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

षष्ठ्यावाहो विराजदुक्षाणो बृहत्याऽ-
 ऋषभाः । ककुभेऽनुष्टुप् छन्दः । पृथ्व्यै
 धे नवोऽतिछन्दसे ॥ १३ ॥

पृष्ठवाहइतिपृष्ठऽवाहः । विराज इति विराजे । उक्षाणः ।
 बृहत्यै । ऋषभाः । ककुभे । अनद्वाहः । पङ्क्त्यै । धेनवः ।
 अतिछन्दसऽइत्यतिऽछन्दसे ॥ १३ ॥

पदार्थः—(पृष्ठवाहः) ये पृष्ठेन पृष्ठेन वहन्ति ते (विराजे) विराद्
 छन्दसे (उक्षाणः) वीर्यसेचनसमर्थाः (बृहत्यै) बृहतीछन्दोऽर्थाय (ऋषभाः)
 बलिष्ठाः (ककुभे) ककुपुष्णिक् छन्दोऽर्थाय (अनद्वाहः) शकटवहनसमर्थाः
 (पङ्क्त्यै) पङ्क्तिछन्दोऽर्थाय (धेनवः) दुग्धदात्र्यः (अतिछन्दसे) अति-
 जगत्यादि छन्दोऽर्थाय ॥ १३ ॥

अन्वयः—यैर्मनुष्यैर्विराजेपृष्ठवाहो बृहत्याउक्षाणः ककुभे ऋषभाः प-
 ङ्क्त्या अनद्वाहोऽतिछन्दसे धेनवः स्वीक्रियन्ते तेऽतिसुखं लभन्ते ॥ १३ ॥

भावार्थः—यथा विद्वांसो विराडादिछन्दोभ्यो बहूनि विधाकार्याणि
 साध्नुवन्ति तयोष्ठादिभ्यः पशुभ्यो गृहस्था अखिलानि कार्याणि साध्नुयुः ॥ १३ ॥

पदार्थः—जिन मनुष्यों ने (विराजे) विराद् छन्द के लिये (पृष्ठवाहः)
 जो पीठ से पदार्थों को पहुँचाते (बृहत्यै) बृहती छन्द के अर्थ को (उक्षाणः) वी-
 र्य सींचने में समर्थ (ककुभे) ककुपु उष्णिक् छन्द के अर्थ को (ऋषभाः) अतिब-
 लवान् प्राणी (पङ्क्त्यै) पङ्क्ति छन्द के अर्थ को (अनद्वाहः) लड़ा पहुँचाने में
 समर्थ बैलों को (अतिछन्दसे) अतिजगती आदि छन्द के अर्थ को (धेनवः) दूध देने
 वाली गौएँ स्वीकार की वे अतीव सुख पाते हैं ॥ १३ ॥

भावार्थः— जैसे विद्वान् विराट् आदि छन्दों के लिये बहुत विद्या विषयक कामों को सिद्ध करते हैं वैसे ऊंट आदि पशुओं से गृहस्थ लोग समस्त कामों को सिद्ध करें ॥ १३ ॥

कृष्णग्रीवा इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । अग्न्यादयो देवताः ।
भुरिगति जगती छन्दः । निपादः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

कृष्णग्रीवा आग्नेया बभ्रवः सौम्या
उपध्वस्ताः सवित्रा वत्सतर्युः सार-
स्वत्युः श्यामाः पौष्णाः पृश्नयो मारु-
ता बहुरूपा वैश्वदेवा वशा द्यावापृ-
थिवीयाः ॥ १४ ॥

कृष्णग्रीवा इति कृष्णग्रीवाः । आग्नेयाः । बभ्रवः । सौ-
म्याः । उपध्वस्ता इत्युपध्वस्ताः । सवित्राः । वत्सतर्युः । सा-
स्वत्युः । श्यामाः । पौष्णाः । पृश्नयः । मारुताः । बहुरूपा
इति बहुरूपाः । वैश्वदेवा इति वैश्वदेवाः । वशाः । द्यावा-
पृथिवीयाः ॥ १४ ॥

पदार्थः— (कृष्णग्रीवाः) कृष्णकण्ठाः (आग्नेयाः) अग्निदेवता-
काः (बभ्रवः) सर्वस्य धारकाः पोषका वा (सौम्याः) सोमदेवताकाः (उप-
ध्वस्ताः) उपाधः पतिताः (सवित्राः) सवितृदेवताकाः (वत्सतर्युः) ह्रस्वा
वत्स यासां ताः (सारस्वत्युः) वाग्देवताकाः (श्यामा) श्यामवर्णाः

(पौष्णाः) पुष्टिकरमेघदेवताकाः (पृश्नयः) प्रष्टव्याः (मारुताः) मनुष्य-
देवताकाः (बहुरूपाः) बहूनि रूपाणि येषान्ते (वैश्वदेवाः) विश्वेदेवदेवताकाः
(वशाः) देदीप्यमानाः (द्यावापृथिवीयाः) द्यावापृथिवीदेवताकाः ॥ १४ ॥

अन्वयः— हे मनुष्या युष्माभिर्ये कृष्णग्रीवास्त आग्नेयाः । ये वभ्रवस्ते
सौम्याः । य उपध्वस्तास्ते सांवित्राः । या वत्सतर्यस्ताः सारस्वत्यः । ये श्यामास्ते
पौष्णाः । ये पृश्नयस्ते मारुताः । ये बहुरूपास्ते वैश्वदेवाः । ये वशास्ते च
द्यावापृथिवीया विज्ञेयाः ॥ १४ ॥

भावार्थः— यथा शिल्पिनोऽग्न्यादिभ्यः पदार्थेभ्योऽनेकानि कार्याणि
साध्नुवन्ति तथा कृषीवलाः पशुभिर्ब्रह्मन्ति कार्याणिसाध्नुयुः ॥ १४ ॥

पदार्थः— हे मनुष्यो तुम को जो (कृष्णग्रीवाः) काले गले वाले हैं वे
(आग्नेयाः) अग्नि देवता वाले । जो (वभ्रवः) सब का धारण पोषण करने वाले
हैं वे (सौम्याः) सोम देवता वाले । जो (उपध्वस्ताः) नीचे के समीप गिरे हुए हैं
वे (सांवित्राः) सविता देवता वाले । जो (वत्सतर्यः) छोटी र बाछिया हैं वे (सार-
स्वत्यः) वाणी देवता वाली । जो (श्यामाः) काले वर्ण के हैं वे (पौष्णाः) पुष्टि
करनेहारे मेघ देवता वाले । जो (पृश्नयः) पूछने योग्य हैं वे (मारुताः) मनुष्य
देवता वाले । जो (बहुरूपाः) बहुरूपी अर्थात् जिन के अनेक रूप हैं वे (वैश्वदेवाः)
समस्त विद्वान् देवता वाले और जो (वशाः) निरन्तर चिलकते हुए हैं वे (द्यावापृ-
थिवीयाः) आकाश पृथिवी देवता वाले जानने चाहिये ॥ १४ ॥

भावार्थः— जैसे शिल्प विद्या जानने वाले विद्वान् जन अग्नि आदि पदार्थों से
अनेक कार्य सिद्धि करते हैं वैसे खेती करनेवाले पुरुष पशुओं से बहुत कार्य सिद्ध
करें ॥ १४ ॥

उक्ता इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । इन्द्रादयो देवताः ।

विराडुष्णिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

उक्ताः सञ्चरा एता ऐन्द्राग्नाः कृष्णा
वारुणाः पृश्नयो मारुताः कायास्तू-
पराः ॥१५॥

उक्ताः । सञ्चराऽइति सम्ऽचराः । एता । ऐन्द्राग्नाः । कृष्णाः ।
वारुणाः । पृश्नयः । मारुताः । कायाः । तूपराः ॥ १५ ॥

पदार्थः— (उक्ताः) कथिताः (सञ्चराः) ये सम्यक् चरन्ति ते
(एताः) (ऐन्द्राग्नाः) इन्द्राग्निदेवताकाः (कृष्णाः) कर्पकाः (वारुणाः)
वेवरुणदेवताकाः (पृश्नयः) विचित्रचिन्हाः (मारुताः) (कायाः) प्रजापति-
देवताकाः (तूपराः) हिंसकाः ॥ १५ ॥

अन्वयः— हे मनुष्या युष्माभिरेता उक्ताः सञ्चरा ऐन्द्राग्नाः कृष्णाः वा-
रुणाः पृश्नयो मारुतास्तूपराः कायाश्च सन्तीति बोध्यम् ॥ १५ ॥

भावार्थः— ये नानादेशसंचारिणः प्राणिनस्सन्ति ते मनुष्या यथायोग्या-
नुपकारान् गृह्णीयुः ॥ १५ ॥

पदार्थः— हे मनुष्यो तुम को (एताः) ये (उक्ताः) कहे हुए (सञ्चराः)
जो अच्छे प्रकार चलने हारे पशु आदि हैं वे (ऐन्द्राग्नाः) इन्द्र और अग्नि देवता वाले ।
जो (कृष्णाः) सींचने वा जोतने हारे हैं (वारुणाः) वेवरुण देवता वाले और जो
(पृश्नयः) चित्र विचित्र चिन्ह युक्त (मारुताः) मनुष्य केसे स्वभाव वाले (तूपराः)
हिंसक हैं वे (कायाः) प्रजापति देवता वाले हैं यह जानना चाहिये ॥ १५ ॥

भावार्थः—जो नानापकार के देशों में आने जाने वाले पशु-आदि प्राणि हैं उन से मनुष्य यथायोग्य उपकार लेवे ॥ १५ ॥

अग्नय इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । अग्न्यादयो देवताः ।

शक्वरीच्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनः कर्म के रक्षणिया इत्याह ॥

फिर किस के लिये कौन रक्षा करने योग्य हैं इस दि० ॥

अग्नयेऽनीकवते प्रथम जानान् भते
मरुद्भ्यः सान्तपनेभ्यः सवात्यान्
मरुद्भ्यो गृहमेधिभ्यो बर्षिहान
मरुद्भ्यः क्रीडिभ्यः समसृष्टान् मरु-
द्भ्यः स्वतवद्भ्योऽनुसृष्टान् ॥ १६ ॥

अग्नये । अनीकवत इत्यनीकऽवते । प्रथमजानिति
प्रथमऽजान् । आ । लभते । मरुद्भ्य इति मरुत्ऽभ्यः ।
सान्तपनेभ्य इति नामऽतपनेभ्यः । सवात्यानिति सऽवात्या-
न् । मरुद्भ्य इति मरुत्ऽभ्यः । गृहमेधिभ्य इति गृहमे-
धिभ्यः । बर्षिहान् । मरुद्भ्य इति मरुत्ऽभ्यः । क्रीडिभ्य
इति क्रीडिभ्यः । समसृष्टानिति समःसृष्टान् । मरुद्भ्य
इति मरुत्ऽभ्यः । स्वतवद्भ्य इति स्वतवत्ऽभ्यः । अनु-
सृष्टानित्यनुऽसृष्टान् ॥ १६ ॥

पदार्थः—(अग्नये) पावकइव वर्त्तमानाय से-
नापतये (अनीकवते) प्रशंसितसेनाय (प्रथमजान्)
प्रथमाद्विस्तीर्णात्कारणादुत्पन्नान् (आ) (लभते)

(मरुद्भ्यः) वायुवद्वत्तमानेभ्यो मनुष्येभ्यः (सान्तपने-
भ्यः) सम्यक् तपनं ब्रह्मचर्याद्याचरणं येषान्तेभ्यः (स-
वात्यान्) समानवाते भवान् (मरुद्भ्यः) प्राणइवप्रि-
येभ्यः (गृहमेधिभ्यः) गृहस्थेभ्यः (वष्किहान्) चिरप्र-
सूतान् (मरुद्भ्यः) (क्रीडिभ्यः) प्रशंसितक्रीडेभ्यः
(संसृष्टान्) सम्यग्गुणयुक्तान् (मरुद्भ्यः) मनुष्येभ्यः
(स्वतवद्भ्यः) स्वतो वासो येषान्तेभ्यः (अनुसृष्टान्)
अनुषङ्गिणः ॥ १६ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यथा विद्वांसोऽनीकवतेऽग्नये
प्रथमजान् सान्तपनेभ्यो मरुद्भ्यः सवात्यान् गृहमेधिभ्यो
मरुद्भ्यो वष्किहान् क्रीडिभ्यो मरुद्भ्यः संसृष्टान् स्वत-
वद्भ्यो मरुद्भ्योऽनुसृष्टानालभते तथैव यूयमेतानाल-
भध्वम् ॥ १६ ॥

भावार्थः—यथा विद्वद्विद्विद्वान् जिनः पश्यान्ते तथैवेतरैर्मनुष्यैः पालनीयाः ॥ १६ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यों जैसे विद्वान् जन (अनीकवते) प्रशंसित सन्त
रखने वाले (अग्नये) अग्नि के समान वर्तमान तेजस्वी सेवार्थाश के लिये
(प्रथमजान्) विस्तारयुक्त कारण से उत्पन्न हुए (सान्तपनेभ्यः) जिन का
अच्छे प्रकार ब्रह्मचर्य आदि आचरण है उन (मरुद्भ्यः) प्राण के समान
प्रीति उत्पन्न करने वाले मनुष्यों के लिये (सवात्यान्) एकसे पवन में हुए
पदार्थों (गृहमेधिभ्यः) घर में जिन की धीर बुद्धि है उन (मरुद्भ्यः) मनु-
ष्यों के लिये (वष्किहान्) बहुत काल के उत्पन्न हुआ (क्रीडिभ्यः) प्रशं-
सायुक्त विहार आनन्द करने वाले (मरुद्भ्यः) मनुष्यों के लिये (संसृष्टान्)
अच्छे प्रकार गुणयुक्त और (स्वतवद्भ्यः) जिन का आप से निवास है उन
(मरुद्भ्यः) स्वतंत्र मनुष्यों के लिये (अनुसृष्टान्) मिलने वालों को (आ-
लभते) प्राप्त होता है वैसे ही तुम् लोग इन को प्राप्त होओ ॥ १६ ॥

भावार्थः—जैसे विद्वानों से विद्यार्थी और पशु पाले जाते हैं वैसे अन्य मनुष्यों को भी पालने चाहिये ॥ १६ ॥

उक्ता इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । इन्द्राग्न्यादयो देवताः ।

भुरिगायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह

निर उसी वि० ॥

उक्ताःसञ्चरा एता ऐन्द्राग्नाः प्राशुङ्गा

माहेन्द्रा बहुरूपा वैश्वकर्मणाः ॥१७॥

उक्ताः सञ्चरा इति समञ्चराः । एताः । ऐन्द्राग्नाः ।
प्राशुङ्गाः । प्राशुङ्गा इति प्रशुङ्गाः । माहेन्द्रा इति महा-
इन्द्राः । बहुरूपा इति बहुरूपाः । वैश्वकर्मणा इति
वैश्वकर्मणाः ॥ १७ ॥

पदार्थः—(उक्ताः) निरूपिताः (सञ्चराः) सं-
चरन्ति येषु ते मार्गाः (एताः) (ऐन्द्राग्नाः) वायुवि-
द्युद्देवताकाः (प्राशुङ्गाः) प्रकृष्टानि श्रुङ्गाणि येषान्ते
(माहेन्द्राः) महेन्द्रदेवताकाः (बहुरूपाः) बहुवर्णयुक्ताः
(वैश्वकर्मणाः) विश्वकर्मदेवताकाः ॥ १७ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या युष्माभिर्य एता ऐन्द्राग्नाः
प्राशुङ्गा माहेन्द्रा बहुरूपा वैश्वकर्मणाः सञ्चरा उक्तास्ते-
षु गन्तव्यम् ॥ १७ ॥

भावार्थः—यथा विद्वद्भिः पश्वादिपालनमार्गा उ-
क्तास्तथैव वेदे प्रतिपादिताः सन्ति ॥ १७ ॥

पदार्थः—हे यनुष्यो तुम को जो (एताः) ये (ऐन्द्राग्नाः) वायु और विजुली देवता वाले वा (प्राभृङ्गाः) जिन के उत्तम शीम हैं वे (माहेन्द्राः) महेन्द्र देवता वाले वा (बहुरूपाः) बहुत रंगयुक्त (वैश्वकर्माः) विश्वकर्म देवता वाले (भंजराः) जिन में अच्छे प्रकार आने जाते हैं वे मार्ग (चक्राः) निरूपण किये उन म जाना आना चाहिये ॥ १७ ॥

भावार्थः—जैसे विद्वानों ने पशुओं की पालना आदि के मार्ग कहे हैं वैसे ही वेद में प्रतिपादित हैं ॥ १७ ॥

धूम्रा इत्यस्य अजापितृभृदिः । पितरो देवताः ।

— भुरेगतिजगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

धूम्रा बभ्रुनीकाशाः पितृणां सोम-
वतां बभ्रुवी धूम्रनीकाशाः पितृणां ब-
र्हिषदां कृष्णा बभ्रुनीकाशाः पितृणा-
मग्निष्वात्तानां कृष्णाः पृषन्तस्त्रैयम्ब-
काः ॥ १८ ॥

धूम्राः । बभ्रुनीकाशाः । बभ्रुनिकाशा इति बभ्रुऽनि-
काशाः । पितृणाम् । सोमवता इति सोमऽवताम् ।
बभ्रुवः । धूम्रनीकाशाः । धूम्रनिकाशा इति धूम्रऽनिका-
शाः । पितृणाम् । बर्हिषदाम् । बर्हिसदामिति बर्हिऽसदाम् ।
कृष्णाः । बभ्रुनीकाशाः । बभ्रुनिकाशा इति बभ्रुऽनि-
काशाः । पितृणाम् । अग्निष्वात्तानाम् । अग्निष्वा-
त्तानामित्यग्निऽस्वात्तानाम् । कृष्णाः । पृषन्तः । त्रैयम्ब-
काः ॥ १८ ॥

पदार्थः-- (धूम्राः) धूम्रवर्णाः (वभ्रु नीकाशाः) न-
कुलसदृशाः (पितृणाम्) जनकजननीनाम् (सोमवताम्)
सोमगुणयुक्तानाम् (वभ्रवः) पुष्टिकर्तारः (धूम्रनीकाशाः)
(पितृणाम्) (बर्हिषदाम्) ये बर्हिषि सभायां सीदन्ति
ते (कृष्णाः) कृष्णवर्णाः (वभ्रु नीकाशाः) पालकसदृशाः
(पितृणाम्) (अग्निष्वात्तानाम्) गृहीताग्निविद्यानाम्
(कृष्णाः) कृष्णवर्णाः (पृषन्तः) स्थूलाङ्गाः (त्रैयम्बकाः)
त्रिष्वधिकारेष्वम्बकं लक्षणं येषान्ते ॥ १८ ॥

अन्वयः-- हे मनुष्या युष्माभिः सोमवतां पितृणां
वभ्रु नीकाशा धूम्रा बर्हिषदां पितृणां कृष्णा धूम्रनीकाशा
वभ्रवोऽग्निष्वात्तानां पितृणां वभ्रु नीकाशा कृष्णाः पृषन्त-
स्त्रैयम्बकाश्च सन्तीति विज्ञेयाः ॥ १८ ॥

भावार्थः-- ये जनका विद्याजन्मदातारश्च सन्ति तेषां
घृतादिभिर्गवादिदानैश्च यथायोग्यं सत्कारः कर्त्तव्यः ॥ १८ ॥

पदार्थः-- हे मनुष्यो तुम को (सोमवताम्) सोमशान्ति आदि गुण युक्त
उत्पन्न करने वाले (पितृणाम्) माता पिताओं के (वभ्रुनीकाशाः) न्योले के
समान (धूम्राः) धुमेले रंगवाले (बर्हिषदाम्) जो सभा के बीच बैठते हैं उन
(पितृणाम्) पालना करनेवाले विद्वानों के (कृष्णाः) काले रंग वाले (धूम्र-
नीकाशाः) धुआं के समान अर्थात् धुमेले और (वभ्रवः) पुष्टि करने वाले तथा
(अग्निष्वात्तानाम्) जिन्होंने अग्नि विद्या ग्रहण की है उन (पितृणाम्) पा-
लना करने वाले विद्वानों के (वभ्रुनीकाशाः) पालने वाले के समान (कृष्णाः)
काले रंग वाले (पृषन्तः) मोटे अङ्गों से युक्त (त्रैयम्बकाः) जिनका तीन
अधिकारों में चिन्ह है वे प्राणी वा पदार्थ हैं यह जानना चाहिये ॥ १८ ॥

भावार्थः— जो उत्पन्न करने और विद्या देने वाले विद्वान् हैं : उनका भी
आदि पदार्थ वा गौ आदि के दान से यथायोग्य सत्कार करना चाहिये ॥१८॥

उक्ताः संचरा इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । वायुदेवता ।

त्रिपाद् गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

पुनस्तमेध विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

उक्ताः सञ्चरा एताः शुनासीरीयाः

श्वेता वायव्याः श्वेताः सौर्याः ॥१८॥

उक्ताः । सञ्चरा इति समञ्चराः । एताः । शुनासी-
रीयाः । श्वेताः । वायव्याः । श्वेताः । सौर्याः ॥ १८ ॥

पदार्थः—(उक्ताः) (संचराः) (एताः) (शुनासीरीयाः)

शुनासीरदेवताकाः (ऋषिसाधकाः) (श्वेताः) श्वेतवर्णाः

(वायव्याः) वायुवद्विद्व्यगुणाः (श्वेताः) (सौर्याः)

सूयवत्प्रकाशमानाः ॥ १८ ॥

अन्वयः— हे मनुष्या यूयं य एताः शुनासीरीयाः
संचरा वायव्याः श्वेताः सौर्याः श्वेताश्चोक्तास्तान् कार्य-
षु संप्रयुङ्गध्वम् ॥ १८ ॥

भावार्थः— या यस्य पशोदेवता उक्ताः स तद्गुणो
ग्राह्यः ॥ १८ ॥

पदार्थः— हे मनुष्यो तुम जो (एताः) ये (शुनासीरीयाः) शुनासीर देवता
वाले अर्थात् खेती की सिद्धि करने वाले (संचराः) आनेजाने हारे (वायव्याः)
पवन के समान दिव्य गुणयुक्त (श्वेताः) सुपेद रंग वाले बौं (सौर्याः) सूर्य
के समान प्रकाशमान (श्वेताः) सुपेद रंग के पशु (उक्ताः) कहे हैं उनको
अपने कार्यों अच्छे प्रकार निरन्तर नियुक्त करो ॥ १८ ॥

भावार्थः—जो जिस पशु का देवता कहा है वह उस पशु का गुणग्रहण करना चाहिये ॥ १९ ॥

वसन्तायेत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । वसन्तादयो देवताः ।

विराड् जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥

पुनः कस्मै के समाश्रयितव्या इत्याह ॥

फिर किस के लिये कौन अच्छे प्रकार आश्रय करने योग्य हैं इस वि० ॥

वसन्ताय कपिञ्जलानालभते ग्रीष्मा-
य कलविड्कान्वर्षाभ्यस्ति त्तिरीञ्छर-
दे वर्तिका हेमन्ताय ककराञ्छिशि-
राय विककरान् ॥ २० ॥

वसन्ताय । कपिञ्जलान् । आ । लभते । ग्रीष्माय ।
कलविड्कान् । वर्षाभ्यः । त्तिरीन् । शरदे । वर्तिकाः ।
हेमन्ताय । ककरान् । शिशिराय । विककरानिति
विककरान् ॥ २० ॥

पदार्थः—(वसन्ताय) (कपिञ्जलान्) पक्षिवि-
शेषान् (आ) (लभते (ग्रीष्माय) (कलविड्कान्)
षट्कान् (वर्षाभ्यः) (त्तिरीन्) (शरदे) (वर्तिकाः)
पक्षिविशेषाः (हेमन्ताय) (ककरान्) पक्षिविशेषान्
(शिशिराय) (विककरान्) विककरान् पक्षिविशेषान् ॥ २० ॥

अन्वयः—हे मनुष्याः पक्षिविज्ञानो वसन्ताय या-
कपिञ्जलान् ग्रीष्माय कलविड्कान्वर्षाभ्यस्ति त्तिरी-
ञ्छरदे वर्तिका हेमन्ताय ककराञ्छिशिराय विककरा-
नालभते तान् यूयं विजानीत ॥ २० ॥

भावार्थः—यस्मिन्न्यस्मिन्नूतौ ये ये पक्षिणः प्रमु-
दिता भवन्ति ते ते तद्गुणा विज्ञेयाः ॥ २० ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो पक्षियों को जानने वाला जन (वसन्ताय) वसन्त ऋतु के लिये (कपिञ्जलान्) जिन कपिञ्जल नाम के विशेष पक्षियों (ग्रीष्मा-
य) ग्रीष्म ऋतु के लिये (कलविड्कान्) चिरौटा नाम के पक्षियों (वर्षा-
भ्यः) वर्षा ऋतु के लिये (तित्तिरीन्) तीतरों (शरद्दे) शरद् ऋतु के लिये
(वृत्तिकाः) वतकों (हेमन्ताय) हेमन्त ऋतु के लिये (ककरान्)
ककरनाम के पक्षियों और (शिशिराय) शिशिर ऋतु के अर्थ (विककरान्)
विककर नाम के पक्षियों को (आ, लभते) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है उन
को तुम जानो ॥ २० ॥

भामार्थः—जिस २ ऋतु में जो २ पक्षी अच्छे आनन्द को पाते हैं
वे २ उस गुण वाले जानने चाहिये ॥ २० ॥

समुद्रायेत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । वरुणो देवता ।

विराट् छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

पुनः के किमर्थाः सेवनीया इत्याह ॥

फिर कौन किस के अर्थ सेवन करने चाहिये इस वि० ॥

समुद्राय शिशुमारानालभते पर्जन्याय मण्डूकान्द्रभ्यो मत्स्यान् मित्राय कुलीपयान् वरुणाय नाक्रान् ॥२१॥

समुद्राय । शिशुमारानिति शिशुमारान् । आ ।
लभते । पर्जन्याय । मण्डूकान् । अद्रभ्य इत्यतुःभ्यः ।
मत्स्यान् । मित्राय । कुलीपयान् । वरुणाय ।
नाक्रान् ॥ २१ ॥

पदार्थः- (समुद्राय) महाजलाशयाय (शिशुमारा-
रान्) ये स्वशिशून् मारयन्ति तान् (आ) (लभते)
(पर्जन्याय) मेघाय (मण्डूकान्) (अद्भ्यः) (म-
त्स्यान्) (मित्राय) (कुलीपयान्) (वरुणाय) (ना-
क्रान्) ॥ २१ ॥

श्रवण्यः- हे मनुष्या यथा जलजन्तुपालनवित्
समुद्राय शिशुमारान् पर्जन्याय मण्डूकान् अद्भ्यो मत्स्यान्
मित्राय कुलीपयान् वरुणाय नाक्रानालभते तथा यूय-
मप्यालभध्वम् ॥ २१ ॥

भावार्थः- यथा जलचरजन्तुगुणविदस्तान्वर्धयितुं
निगृहीतुं वा शक्नुवन्ति तथाऽन्येष्याचरन्तु ॥ २१ ॥

पदार्थः- हे मनुष्यो जैसे जल के जीवों की पालना करने को
जानने वाला जन (समुद्राय) महाजलाशय समुद्र के लिये (शिशुमारान्)
जो अपने बालकों को मार डालते हैं उन शिशुमारों (पर्जन्याय) मेघ के लिये
(मण्डूकान्) मेंढूकों (अद्भ्यः) जलों के लिये (मत्स्यान्) मछलियों (मि-
त्राय) मित्र के समान सुख दते हुए सूर्य के लिये (कुलीपयान्) कुलीपय नाम के
जंगली पशुओं और (वरुणाय) वरुण के लिये (नाक्रान्) नाकें मगर ज-
लजन्तुओं को (आ, लभते) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है वैसे तुम भी प्राप्त
होगे ॥ २१ ॥

भावार्थः- जैसे जलचर जन्तुओं के गुण जानने वाले पुरुष उन जल
के जन्तुओं को बहावा पकड़ सकत हैं वैसे आचरण और लोग भी करें ॥ २१ ॥

सोमायैत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । सोमादयो देवताः ।

विराड् बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

सोमाय ह्रस्वानालभते वायवे व-

लाका इन्द्राग्निभ्यां क्रुञ्चान् मित्राय

सद्गून् वरुणाय चक्रवाकान् ॥ २२ ॥

सोमाय । हंसान् । आ । लभते । वायवे । बला-
काः । इन्द्राग्निभ्यामितीन्द्राग्निभ्याम् । क्रुञ्चान् । मि-
त्राय । सद्गून् । वरुणाय । चक्रवाकानिति चक्रवा-
कान् ॥ २२ ॥

पदार्थः—(सोमाय) चन्द्रायौपधिराजाय वा (हं-
सान्) पक्षिविशीपान् (आ, लभते) (वायवे) (ब-
लाकाः) बलाकानां स्त्रियः (इन्द्राग्निभ्याम्) (क्रुञ्चान्)
सारसान् (मित्राय) (सद्गून्) जलकाकान्
(वरुणाय) (चक्रवाकान्) ॥ २२ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यथा पक्षियुगविज्ञानी जनः
सोमाय हंसान् वायवे बलाका इन्द्राग्निभ्यां क्रुञ्चान्
मित्राय सद्गून् वरुणाय चक्रवाकानालभते तथा यूयम-
प्यालभध्वस् ॥ २२ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—मनुष्यैर्य उत्तमाः पक्षिणः
सन्ति ते प्रयत्नेन संपाल्य वर्द्धनीयाः ॥ २२ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो! जैसे पक्षियों के गुण का विशेष ज्ञान रखने वाला
पुरुष (सोमाय) चन्द्रमा वा औपधियों में उत्तम सोम के लिये (हंसान्) हं-
सों (वायवे) पवन के लिये (बलाकाः) बगुलियों (इन्द्राग्निभ्याम्) इन्द्र
और अग्नि के लिये (क्रुञ्चान्) सारसों (मित्राय) मित्र के लिये (सद्गून्)
जन के कडवाँ वा सुनरगुर्गों और (वरुणाय) वरुण के लिये (चक्रवाकान्)
चक्रवाकियों का (आ, लभते) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है वैसे तुम भी
प्राप्त होओ ॥ २२ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु० — मनुष्यों को जो उत्तम पक्षी हैं
वे अच्छे तरह के साथ पालनकर बढाने चाहिये ॥ २२ ॥

अग्नय इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । अग्न्यादयो देवताः ।

पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

किं वसी वि० ॥

अग्नये कुटून् नालभते वनस्पति-
भ्य उलूकान् गनीषीमाभ्यां चाषान्-
शिवभ्यां मयूरान् मित्रावरुणाभ्यां
कपोतान् ॥ २३ ॥

अग्नये । कुटून् । आ । लभते । वनस्पतिभ्य इति
वनस्पतिभ्यः । उलूकान् । अगिषीमाभ्याम् । चाषान् ।
अशिवभ्यामित्यशिवभ्यः । मयूरान् । मित्रावरुणाभ्याम् ।
कपोतान् ॥ २३ ॥

पदार्थः— (अग्नये) पावकाय (कुटून्) कुक्कुटान्
(आ)(लभते)(वनस्पतिभ्यः) उलूकान् (अगिषीमाभ्याम्)
(चाषान्) (अशिवभ्याम्) (मयूरान्) (मित्रावरुणाभ्याम्)
(कपोतान्) ॥ २३ ॥

अन्वयः— हे मनुष्या यथा पक्षिगुणत्रिज्जलोऽग्न-
ये कुटून् वनस्पतिभ्य उलूकान् गनीषीमाभ्यां चाषान् शिव-
भ्यां मयूरान् मित्रावरुणाभ्यां कपोतान् लभते यूयमप्या-
लभध्वम् ॥ २३ ॥

भावार्थः— अत्र वाचकलु—ये कुक्कुटादीनां पक्षि-
णां गुणान् जानन्ति ते रुदैतान्वर्धयन्ति ॥ २३ ॥

पदार्थः— हे मनुष्यो जैम पक्षियों के गुण जानने वाला जग (अग्न-
ये) अग्निके लिये (कुटून्) मृगों (वनस्पतिभ्यः) वनस्पति अर्थात् विना-

दुग्ध फल देने वाले हृत्नों के लिये (उल्लूकान्) उल्लू पक्षियों (अग्नीपोषा-
भ्याम्) अग्नि और रोम के लिये (चाषान्) नीलकण्ठ पक्षियों (अश्वि-
भ्याम्) सूर्य चन्द्रमा के लिये (मयृगान्) मयूरों तथा (मित्रावरुणाभ्याम्)
मित्र और वरुण के लिये (कपोतान्) ककतर्गों को (आलभते) अन्न
प्रकार प्राप्त होता है वैसे इन को पुन भी प्राप्त होशां ॥ २३ ॥

भावार्थः— इस मन्त्र में वाचकतुः—जो मुर्गा आदि पक्षियों के
मुर्गों को जानने के वे सदा इन को बढ़ाते हैं ॥ २३ ॥

सोमायैत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । सोमादेवो देवतः ।

शुभेक्ष् पक्षुस्त्रिकण्ठः । पक्ष्यमः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

सोमाय लब्जानलभते त्वष्ट्रे कौली-
कान्गोषादीर्देवानां पत्नीभ्यः कुली-
कां देवजामिभ्योऽग्नये गृहपतये पा-
रुष्णान् ॥ २४ ॥

सोमाय । लब्जान । आ । लभते । त्वष्ट्रे । कौलीकान् ।
गोषादीः । गोसादीरिति गोसादीः । देवानाम् । पत्नी-
भ्यः । कुलीकाः । देवजामिभ्य इति देवजामिभ्यः । अग्न-
ये । गृहपतये इति गृहपतये । पारुष्णान् ॥ २४ ॥

पदार्थः— (सोमाय) ऐश्वर्याय (लब्जान्) (आः)
(लभते) (त्वष्ट्रे) प्रकाशकाय (कौलीकान्) पक्षिविशेषान्
(गोसादीः) यथाः सादयन्ति हिंसन्ति तः पक्षिणीः (देवा-
नाम्) विदुषाम् (पत्नीभ्यः) स्त्रीभ्यः (कुलीकाः) पक्षिणी विशेषाः
(देवजामिभ्यः) विदुषां भगिनीभ्यः (अग्नये) अग्निरिव
वर्त्तमानाय (गृहपतये) गृहपालकाय (पारुष्णान्) पक्षि-
विशेषान् ॥ २४ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यथा पक्षिकर्मविज्जनः सोमा-
य लवःस्त्वष्ट्रेः कौलीकान् देवानां पत्नीभ्यो गोसादीर्देव-
जामिभ्यः कुलीका अग्नये गृहपतये पारुष्णानालभते तथा
यूधरुप्यालमध्वम् ॥ २४ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—ये मनुष्याः पक्षिणां स्वभा-
वजानि कर्माणि विदित्वा तदनुकरणं कुर्वन्ति ते बहुश्रुत-
वद्वन्ति ॥ २४ ॥

पदार्थः— हे मनुष्यो जैसे पक्षियों का काम जाननेवाला जन (सोमाय)
एश्वर्य के लिये (लवान्) वटेरों (त्वष्ट्रे) प्रकाश के लिये ('कौलीकान्')
कौलीकनाम के पाक्षियों (देवानाम् विद्वानों की (पत्नीभ्यः) स्त्रियों के लिये
(गोसादीः) तो गौश्रों को मारनी हैं उन पखेरियों (देवजामिभ्यः) विद्वानों
की विद्वानता के लिये (कुलीकाः) कुलीकनामक पखेरियों और (अग्नये)
जां आग्नि के समान वर्तमान (गृहपतये) गृहपालन करने वाला उसके लिये
(पारुष्णान्) पारुष्ण पक्षियों को (आ,लभते) प्राप्त होता है वैसे तुम भी
प्राप्त होओ ॥ २४ ॥

भावार्थः— इस मन्त्र में वाचकलु०—जो मनुष्य पक्षियों के स्वभावज कामों
को जानकर उनकी अनुहारिक्रिया करते हैं वे बहुश्रुतके समान होते हैं ॥२४॥

अहू न इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । कालावयवा देवताः ।

विराट् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

अहने पारार्वतानालभते रात्र्यै सी-
चापरहोरात्रयोः सन्धिभ्यो जतूससि-
भ्यो दात्योहावत्सवत्सराय महतः
सुप्रणान् ॥ २५ ॥

अह्ने । पारावतान् । आ । लभते । रात्र्यै । सी-
चापूः । अहोरात्रयोः सन्धिभ्य इति सन्धिभ्यः । जतूः ।
मासेभ्यः । दात्यौहान् । संवत्सराय । महतः । सुपर्णा
निति सुपर्णान् ॥ २५ ॥

पदार्थः—(अह्ने) दिवसाय (पारावतान्) कलर-
वान् (आ) (लभते) (रात्र्यै) (सीचापूः) पक्षिवि-
शेषान् (अहोरात्रयोः) (सन्धिभ्यः) (जतूः) पक्षिवि-
शेषान् (मासेभ्यः) (दात्यौहान्) कृष्णकाकान् (सं-
वत्सराय वर्षाय (महतः) (सुपर्णान्) शोभनपक्षान्
पक्षिणः ॥ २५ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यथा कालविज्जनीऽह्ने पारा-
वतान् रात्र्यै सीचापूरहोरात्रयोः सन्धिभ्यो जतूमासेभ्यो
दात्यौहान्तसंवत्सराय महतः सुपर्णानालभते तथा यूयम-
प्येतानालभध्वम् ॥ २५ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०-ये मनुष्याः स्वस्वसमयानु-
कूलक्रीडकानां पक्षिणां स्वभावं विदित्वा स्वस्वभावं कुर्व्यु-
स्ते बहुविदस्स्युः ॥ २५ ॥

पदार्थः— हे मनुष्यो जैसे काल का जानने वाला (अह्ने) दिवस के
लिये (पारावतान्) कोमल शब्द करने वाले कवूरों (रात्र्यै) रात्रि के लिये
(सीचापूः) सीचापूनामक पक्षियों (अहोरात्रयोः) दिन रात्रि के (सन्धिभ्यः)
सन्धियों अर्थात् प्रातः सायंकालके लिये (जतूः) जतूनामक पक्षियों (मासेभ्यः)
महीनों के लिये (दात्यौहान्) काले कौओं और (संवत्सराय) वर्ष के लिये
(महतः) बड़े (सुपर्णान्) सुन्दर पंखों वाले पक्षियों को (आ, लभते)
अच्छे प्रकार प्राप्त होता है वैसे तुप भी इनको प्राप्त होओ ॥ २५ ॥

भावार्थः—इमं मन्त्रं मे वाचकलु०—जो मनुष्य अपने २ समय के अनु-
कूल क्रीडा करने वाले पक्षियों के स्वभाव को जान कर अपने स्वभाव को वै-
सा करे वे बहुत जानने वाले हों ॥ २५ ॥

भूम्या इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । भूम्यादयो देवताः ।

भुरिगनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनरुतमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

भूम्या आखूनालभते अन्तरिक्षाय पा-
ङ्क्तान् दिवे कशान् दिग्भ्यो नकुलान्
बभ्रुकान् अवन्तरदिशाभ्यः ॥ २६ ॥

भूम्यै । आखून् । आ । लभते । अन्तरिक्षाय । पा-
ङ्क्तान् । दिवे । कशान् । दिग्भ्य इति दिक्ऽभ्यः । न-
कुलान् । बभ्रुकान् । अवन्तरदिशाभ्य इत्यवान्तरऽ
दिशाभ्यः ॥ २६ ॥

पदार्थः— (भूम्यै) (आखून्) भूपकान् (आ)
(लभते) (अन्तरिक्षाय) (पाङ्क्तान्) पङ्क्तिरूपेण
गन्तून् पक्षिविशेषान् (दिवे) प्रकाशाय (कशान्) प-
क्षिविशेषान् (दिग्भ्यः) पूर्वादिभ्यः (नकुलान्) (बभ्रु-
कान्) नकुलजातिविशेषान् (अवन्तरदिशाभ्यः) उपदि-
शाभ्यः ॥ २६ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यथा भूमिजन्तुगुणविज्जनो
भूम्या आखून् अन्तरिक्षाय पाङ्क्तान् दिवे कशान् दिग्भ्यो
नकुलान् अवन्तरदिशाभ्यो बभ्रुकान् लभते तथा यूयमप्या-
लभध्वम् ॥ २६ ॥

भावार्थः—ये मनुष्या भूम्यादिदन्मूपकादिगुणान्
विदित्वोपकुर्यु रते बहुविज्ञाना जायेरन् ॥ २६ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे भूमि के जन्तुओं के गुण जानने वाला पुरुष
(भूम्यै) भूमि के लिये (आखून) मूषां (अन्तर्गिषाय) अन्तर्गत के
लिये (पाङ्क्तान्) पङ्क्तिरूप के चलने वाले विशेषपत्तियों (दिद्रं) प्रकाश के
लिये (कशान्) कशनाम के पत्तियों (दिग्भ्यः) पूर्व आदि दिशाओं के लि-
ये (नकुलान्) नेउलों और (अवान्तर दिशाभ्यः) अवान्तर अर्थात् कोण
दिशाओं के लिये (वधुकान्) भूरे २ विशेष नेउलों को (आ, लभते) अच्छे
प्रकार प्राप्त होता है वैसे तुम भी प्राप्त होओ ॥ २६ ॥

भावार्थः—जो मनुष्य भूमि आदि के समान मूषे आदि के गुणों को
जान करे उपकार करे वे बहुत विज्ञान वाले हों ॥ २६ ॥

वसुभ्य इत्यस्थं प्रजापतिर्ऋषिः । वस्वादयो देवताः ।

निचृद् बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

वसुभ्य ऋश्यानालभते रुद्रेभ्यो
रुहनादित्येभ्यो न्यङ्कून् विश्वेभ्यो
देवेभ्यः पृषतान्त्साध्यैभ्यः कुलु-
ङ्गान् ॥ २७ ॥

वसुभ्य इति वसुभ्यः । ऋश्यान् । आ । लभते । रुद्रेभ्यः ।
रुहन् । आदित्येभ्यः न्यङ्कून् । विश्वेभ्यः । देवेभ्यः ।
पृषतान् । साध्यैभ्यः । कुलुङ्गान् ॥ २७ ॥

पदार्थः—(वसुभ्यः) अग्न्यादिभ्यः (ऋश्यान्) मृग-
जातिविशेषान् पशून् (आ) (लभते) (रुद्रेभ्यः) प्राणा-
दिभ्यः (रुहन्) मृगविशेषान् (आदित्येभ्यः) मासेभ्यः
(न्यङ्कून्) पशुविशेषान् (विश्वेभ्यः) (देवेभ्यः) दिव्येभ्यः
पदार्थेभ्यो विद्वद्भ्यो वा (पृषतान्) मृगविशेषान् (साध्ये-
भ्यः) साधितुं योग्येभ्यः (कुलुङ्गान्) पशुविशेषान् ॥२७॥

अन्वयः—हे मनुष्या यथा पशुगुणविज्जनो वसुभ्य-
ऋश्यान् रुद्रेभ्यो रुहनादित्येभ्यो न्यङ्कून् विश्वेभ्यो
देवेभ्यः पृषतान्साध्येभ्यः कुलुङ्गानालभते तथैतान्यूय-
मप्यालभध्वम् ॥ २७ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—ये मनुष्या मृगादीनां वेग-
गुणान् विदित्वोपकुर्युस्तेऽत्यन्तं सुखं लभेरन् ॥ २७ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो! जैसे पशुओं के गुणों का जानने वाला जन (वसुभ्यः)
अग्नि आदि वसुओं के लिये (ऋश्यान्) ऋश्य जाति के हरिणों (रुद्रेभ्यः)
माण आदि रुद्रों के लिये (रुहन्) रोजनाभी जन्तुओं (आदित्येभ्यः) दारह
महीनों के लिये (न्यङ्कून्) न्यङ्कुनामक पशुओं (विश्वेभ्यः) समस्त (देवेभ्यः)
दिव्य पदार्थों वा विद्वानों के लिये (पृषतान्) पृषत् जाति के मृगविशेषों और
(साध्येभ्यः) सिद्ध करने के जो योग्य हैं उन के लिये (कुलुङ्गान्) कुलुङ्ग
नाम के पशुविशेषों को (आ, लभते) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है वैसे इन को
तुम भी प्राप्त होओ ॥ २७ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु० —जो मनुष्य हरिण आदि के
वेगरूप गुणों को जानकर उपकार करें वे अत्यन्त सुख को प्राप्त हों ॥ २७ ॥

ईशानायैत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । ईशानादयो देवताः ।

बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

पुनस्तस्यैव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

ईशानाय त्वा परस्वत आ लभते
मित्राय गौरान् वरुणाय महिषान्
बृहस्पतये गवयान् त्वष्ट्रे उष्ट्रान् ॥ २८ ॥

ईशानाय । त्वा । परस्वतः । आ । लभते । मित्राय ।
गौरान् । वरुणाय । महिषान् । बृहस्पतये । गवयान् ।
त्वष्ट्रे । उष्ट्रान् ॥ २८ ॥

पदार्थः- (ईशानाय) समर्थाय जनाय (त्वा) त्वा-
म् (परस्वतः) मृगविशेषान् (आ, लभते) (मित्राय)
(गौरान्) (वरुणाय) (महिषान्) (बृहस्पतये) (ग-
वयान्) (त्वष्ट्रे) (उष्ट्रान्) ॥ २८ ॥

अन्वयः- हे राजन् ! यो मनुष्य ईशानाय त्वा परस्वतो
मित्राय गौरान् वरुणाय महिषान् बृहस्पतये गवयान् त्वा
उष्ट्रान् लभते स धनधान्ययुक्तो जायते ॥ २८ ॥

भावार्थः- ये पशुभ्यो यथावदुपकारान् गृह्णीयुस्ते
समर्थाः स्युः ॥ २८ ॥

पदार्थः- हे राजा जो मनुष्य (ईशानाय) समर्थ जन के लिये (त्वा)
आप और (परस्वतः) परस्वत् नामी मृगविशेषों को (मित्राय) मित्र के
लिये (गौरान्) गौरे मृगों को (वरुणाय) अति श्रेष्ठ के लिये (महिषान्)
भैंसों को (बृहस्पतये) बृहस्पति अर्थात् महात्माओं के रक्षक के लिये

(गवयान्) नीलगाहों को और (त्वष्ट्रे) त्वष्टा अर्थात् पदार्थ विद्या से पदा-
र्थों को सूक्ष्म करने वाले के लिये (उष्ट्रान्) ऊंटों को (आ, लभते) अच्छे
प्रकार प्राप्त होता है वह धनधान्य युक्त होता है ॥ २८ ॥

भावार्थः—जो पशुओं से यथावत् उपकार लेवे वे समर्थ हों ॥२८॥

प्रजापतयइत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । प्रजापत्यादयो
देवताः । विराडनुष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥
पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

प्रजापतये पुरुषान् हस्तिन आ लभते
वाचे प्लुषींश्चक्षुषे मशकान्छ्रोत्राय
भृङ्गाः ॥ २९ ॥

प्रजापतयइति प्रजापतये । पुरुषान् । हस्तिनः ।
आ । लभते । वाचे । प्लुषीन् । चक्षुषे । मशकान् ।
श्रोत्राय । भृङ्गाः ॥ २९ ॥

पदार्थः—(प्रजापतये) प्रजास्वामिने (पुरुषान्)
(हस्तिनः) कुञ्जरान् (आ, लभते) (वाचे) (प्लुषीन्)
जन्तुविशेषान् (चक्षुषे) (मशकान्) (श्रोत्राय) (भृङ्गाः) ॥२९॥

अन्वयः—यो मनुष्यः प्रजापतये पुरुषान्हस्तिनी
वाचे प्लुषींश्चक्षुषे मशकान्छ्रोत्राय भृङ्गा आलभते स व-
लिष्ठो दृढेन्द्रियो जायते ॥ २९ ॥

भावार्थः—ये प्रजारक्षणाय चतुरङ्गिणीं सेनां जिते-
न्द्रियतां च समाचरन्ति ते श्रीमन्तो भवन्ति ॥ २९ ॥

पदार्थः—जो मनुष्य (प्रजापतये) प्रजा पालने हारे राजा के लिये
(पुरुषान्) पुरुषों (हस्तिनः) और हाथियों (वाचे) वाणी के लिये (प्लु-
षीन्) प्लुषि नाम के जीवों (चक्षुषे) नेत्र के लिये (मशकान्) मशाओं

और (श्रोत्राय) कान के लिये (भृङ्गाः) भोंरों को (आ, लभते) प्राप्त होता है वह बली और पुष्ट इन्द्रियों वाला होता है ॥ २६ ॥

भावार्थः—जो प्रजा की रक्षा के लिये चतुरङ्गिणी अर्थात् चारों दिशाओं को रोकने वाली सेना और जितेन्द्रियता का अच्छे प्रकार आचरण करते हैं वे धनवान् और कान्तिमान् होते हैं ॥ २६ ॥

प्रजापतयइत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । प्रजापत्यादयो
देवतः । निचृदतिभृतिश्छन्दः । षड्जः स्वरः ॥
पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर वसी वि० ॥

प्रजापतये च वायवे च गोमृगो वरुणा-
यारणयो मे षो यमार्य कृष्णो मनुष्यराजा-
य मर्कटः शार्दूलार्य रोहिद्रूषभार्य गवयी
क्षिप्रश्ये नाय वर्तिका नीलङ्गोः कृमिः
समुद्रार्य शिशुमारो हिमवते हस्ती ॥३०॥

प्रजापतय इति प्रजापतये । च । वायवे । च । गोमृ-
ग इति गोमृगः । वरुणाय । आरण्यः । मेपः । यमार्य ।
कृष्णः । मनुष्यराजायेति मनुष्यराजाय । मर्कटः ॥ शार्दू-
लार्य । रोहित । ऋषभार्य । गवयी । क्षिप्रश्येनायेति क्षिप्र-
श्येनाय । वर्तिका । नीलङ्गोः । कृमिः । समुद्रार्य । शिशु-
मारइति शिशुमारः । हिमवतइति हिमवते हस्ती ॥३०॥

पदार्थः—(प्रजापतये) प्रजापालकाय (च) तत्सम्बन्धिभ्यः (वायवे) (च) तत्सम्बन्धिभ्यः (गोमृगः) यौ गाँ

माष्टिं शुन्धति सः (वरुणाय) (आरण्यः) वने भवः
 (मेषः) अविजातिविशेषः (यमाय) न्यायाधीशाय
 (कृष्णः) कृष्णगुणविशिष्टः (मनुष्यराजाय) नरेशाय
 (मर्कटः) वानरः (शार्दूलाय) महासिंहाय (रोहि-
 त्) रक्तगुणविशिष्टो भृगुः (ऋषभाय) श्रेष्ठाय सभ्या-
 य (गवयी) गवयस्य स्त्रीः (क्षिप्रश्येनाय) क्षिप्रगामि-
 ने श्येनायेव वर्त्तमानाय (वर्त्तिका) (नीलङ्गोः) यो-
 नीलं गच्छति तस्य (कृमिः) क्षुद्रजन्तुविशेषः (समुद्रा-
 य) (शिशुमारः) बलहन्ता (हिमवते) बहूनि हिमा-
 नि विदन्ते यस्य तस्मै (हस्ती) ॥ ३० ॥

अन्वयः—हे मनुष्याः युष्माभिः प्रजापतये च वाय-
 वे च गोमृगो वरुणायारण्यो मेषो यमाय कृष्णो मनुष्य-
 राजाय मर्कटः शार्दूलाय रोहिदृषभाय गवयी क्षिप्रश्ये-
 नाय वर्त्तिका नीलङ्गोः कृमिः समुद्राय शिशुमारो हिम-
 वते हस्ती च सम्प्रयोक्तव्यः ॥ ३० ॥

भावार्थः—ये मनुष्या मनुष्यसम्बन्धयुक्तमान्प्रा-
 णिनो रक्षन्ति ते साङ्गोपाङ्गवत्त्वात् जायन्ते ॥ ३० ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! तुम को (प्रजापतये) प्रजा पालने वाले (च)
 और उस के सम्बन्धियों तथा (वायवे) वायु (च) और वायु के सम्बन्धी
 पदार्थों के लिये (गोमृगः) जो पृथिवी को शुद्ध करता वह (वरुणाय) अ-
 तिसत्त्व के लिये (आरण्यः) वन का (मेषः) मेढा (यमाय) न्यायाधीश
 के लिये (कृष्णः) काला हरिण (मनुष्यराजाय) मनुष्यों के राजा के लिये
 (मर्कटः) वानर (शार्दूलाय) बड़े सिंह अर्थात् केशरी के लिये (रोहित्)
 लालमृग (ऋषभाय) श्रेष्ठ सभ्य पुरुष के लिये (गवयी) नीलगार्हिणी
 (क्षिप्रश्येनाय) शीघ्र चलने वाले बाज परखेरु के समान जो वर्त्तमान उस के
 लिये (वर्त्तिका) बतक (नीलङ्गोः) जो नील को प्राप्त होता उस छोटे की-

डे के हेतु (कृमिः) छोटा कीड़ा (समुद्राय) समुद्र के लिये (शिशुमारः) बालकों को मारने वाला शिशुआर और (हिमवते) जिस के अनेकों हिमखण्ड विद्यमान हैं उस पर्वत के लिये (हस्ती) हाथी अच्छे प्रकार युक्त करना चाहिये ॥ ३० ॥

भावार्थः—जो मनुष्य मनुष्यसम्बन्धी उत्तम प्राणियों की रक्षा करते हैं वे साङ्गापाङ्ग बलवान् होते हैं ॥ ३० ॥

मयुरित्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । प्राजापत्यादयो देवताः ।

स्वराट्त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

मयुः प्राजापत्य उलो हलिक्ष्णा वृषदंशस्ते धात्रे दिशां कड्को धुङ्क्षान्नेयी कलविङ्को लोहिताहिः पुष्करसादस्ते त्वाष्ट्रा वाचे कुञ्चः ॥३१॥

मयुः प्राजापत्यइति प्राजापत्यः । उलः । हलिक्ष्णाः । वृषदंशइतिवृषदंशः । ते । धात्रे । दिशाम् । कड्कः । धुङ्क्षा । आग्नेयी । कलविङ्कः । लोहिताहिरिति लोहितअहिः । पुष्करसादइति पुष्करसादः । ते । त्वाष्ट्राः । वाचे । कुञ्चः ॥ ३१ ॥

पदार्थः (मयुः) किल्वरः (प्राजापत्यः) प्रजापतिदेवताकः (उलः) क्षुद्रकृमिः (हलिक्षणः) मृगेन्द्रविशेषः (वृषदंशः) मार्जालः (ते) (धात्रे) धारकाय (दिशाम्) (कड्कः) लोहपृष्ठः (धुङ्क्षा) पक्षिविशेषः (आग्नेयी) (कलविङ्कः) चटकः (लोहिताहिः) लो-

(लोहिताहिः) लोहितश्चासावहिश्च (पुष्करसादः) यः
पुष्करे सीदति (ते) (त्वाष्ट्राः) त्वष्टृदेवताकाः (वाचे)
(क्रुञ्चः) ॥ ३१ ॥

अन्वयः—हे मनुष्याः! युष्माभिः प्राजापत्यो मयुरुलो
हलिङ्गो वृषदंशश्च ते धात्रे कङ्को दिशां धुङ्क्षा आग्नेयी
कलविङ्को लोहिताहिः पुष्करसादस्ते त्वाष्ट्रा वाचे क्रुञ्चश्च
वेदितव्याः ॥ ३१ ॥

भावार्थः—ये ऋगालसर्पादीन् वशं नयन्ति ते धुरन्ध-
रास्सन्ति ॥ ३१ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो! तुमको (प्राजापत्यः) प्रजापति देवता वाला
(मयुः) किंनर निन्दित मनुष्य और जो (उलः) छोटा कीड़ा (हलिङ्गः)
विशेष सिंह और (वृषदंशः) बिलार हैं (ते) वे (धात्रे) धारणा करने वाले के
लिये (कङ्कः) उजली चीन्हा (दिशाम्) दिशाओं के हेतु (धुङ्क्षा) धुङ्क्षा
नाम की पक्षिणी (आग्नेयी) अग्नि देवता वाली जो (कलविङ्कः) चि-
रांटा (लोहिताहिः) लाल सांप और (पुष्करसादः) तालाव में रहने वाला
है (ते) वे सब (त्वाष्ट्राः) त्वष्टा देवता वाले तथा (वाचे) वाणी के लिये
(क्रुञ्चः) सारस जानना चाहिये ॥ ३१ ॥

भावार्थः—जो सियार और सांप आदि को वश में लाते हैं वे
मनुष्य धुरन्धर होते हैं ॥ ३१ ॥

सोमायेत्यस्य प्रजापतिर्ऋपिः । सोमादयो देवताः ।

भुविर्जगती छन्दः । निपादः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

सोमाय कुलुङ्ग आरग्योऽजो नकुलः
शका ते पीषणाः क्रोष्टा मायोरिन्द्रस्य

गौरमृगः पिद्वोन्यङ्कुः कक्कटस्तेऽनुम-
त्यै प्रतिश्रुत्कार्यै चक्रवाकः ॥ ३२ ॥

सोमाय । कुलुङ्गः । आरण्यः । अजः । नकुलः ।
शका । ते । पौष्णाः । क्रोष्टा । मायोः । इन्द्रस्य । गौरमृ-
गइति गौरमृगः । पिद्वः । न्यङ्कुः । कक्कटः । ते ।
अनुमत्या इत्यनुमत्यै । प्रतिश्रुत्कार्याइति प्रतिश्रुत्कार्यै ।
चक्रवाकइति चक्रवाकः ॥ ३२ ॥

पदार्थः— (सोमाय) (कुलुङ्गः) पशुविशेषः
(आरण्यः) अरण्ये भवः (अजः) छागजातिविशेषः
(नकुलः) (शका) शकः शक्तिमान् । अत्र सुपांसुलुगित्याका-
रादेशः (ते) (पौष्णाः) पुष्टिकरसम्बन्धिनः (क्रोष्टा) शृगालः
(मायोः) शृगालविशेषस्य (इन्द्रस्य) ऐश्वर्ययुक्तस्य
(गौरमृगः) (पिद्वः) मृगविशेषः (न्यङ्कुः) मृगविशेषः
(कक्कटः) अयमपि मृगविशेषः (ते) (अनुमत्यै) (प्रति-
श्रुत्कार्यायै (चक्रवाकः) पक्षिविशेषः ॥ ३२ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यदि युष्माभिः सोमाय कुलुङ्गः ग
आरण्योऽजो नकुलः शका च ते पौष्णा मायोः क्रोष्टेन्द्रस्य
गौरमृगो ये पिद्वो न्यङ्कुः कक्कटश्च तेऽनुमत्यै प्रतिश्रुत्कार्यै
चक्रवाकश्च सम्प्रयुज्यते तर्हि बहुकृत्यं कर्तुं शक्येत ॥ ३२ ॥

भावार्थः—य आरण्येभ्यः पशवादिभ्योऽप्युपकारं
कर्त्तुं जानीयुस्तं सिद्धकार्या जायन्ते ॥ ३२ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! यदि तुम्हें (सोमाय) सोम के लिये जो
(कुलुङ्गः) कुलुङ्ग नामक पशु वा (आरण्य) वनेला (अजः) बकरा (नकुलः) न्याला

और (शका) सामर्थ्यवाला विशेष पशु हैं (ते) वे (पौष्णाः) पुष्टि करने वाले के सम्बन्धी वा (मायोः) विशेष सियार के हेतु (क्रोष्टा) सानान्य सियार वा (इन्द्रस्य) ऐश्वर्ययुक्त पुरुष के अर्घ (गौरसृगः) गौरा हरिण वा जो (पिहः) विशेष सृग (न्यङ्कुः) किसी और जाति का हरिण और (फक्कटः) फक्कट नाम का सृग है (ते) वें (अनुसत्यै) अनुसति के लिये तथा (प्रतिश्रुत्फायै) सुने पीछे सुनाने वाली के लिये (चक्रवाकः) चकई चकवा पक्षी अच्छे प्रकार युक्त किये जावें तो बहुत काम करने को समर्थ हो सकें ॥ ३२ ॥

भावार्थः—जो इनले पशुओं से भी उपकार करना जानें वे सिद्ध कार्यों वाले होते हैं ॥ ३२ ॥

सौरीत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । मित्रादयो देवताः ।

धुरिजगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ।

फिर उसी वि० ॥

सौरी वलाका शार्गः सृजयः श्याण्डक-
स्तेमैत्राः सरस्वत्यै शारिः पुरुषवाक्श्वा-
विद्धीमीशार्दूलो वृकः पृदाकुस्ते मन्यवे
सरस्वते शुक्रः पुरुषवाक् ३३ ॥

सौरी । वलाका । शार्गः । सृजयः । श्याण्डक इति शय-
ऽआण्डकः । ते । मैत्राः । सरस्वत्यै । शारिः । पुरुषवागिति
पुरुषवाक् । श्यावित् । श्वविदिति श्वऽवित् । भौमी ।
शार्दूलः । वृकः । पृदाकुः । ते । मन्यवे । सरस्वते । शुक्रः ।
पुरुषवागिति पुरुषवाक् ॥ ३३ ॥

पदार्थः—(सौरी) सूर्यो देवता यस्याः सा (वलाका)
विशेषपक्षिणी (शार्गः) शार्ङ्गश्चातकः । अत्र छान्दसो

वर्णलोपइतिङ्लोपः (सृजयः) पक्षिविशेषः (शयाण्डकः)
 पक्षिविशेषः (ते) (मैत्रा) प्राणदेवताकाः (सरस्वत्यै) नदी
 (शारिः) शुकी (पुरुषवाक्) शुकः (श्वावित्) सेधा (भौमी)
 पृथिवीदेवताका (शार्दूलः) व्याघ्रविशेषः (वृकः) चित्रकः
 (पृदाकुः) सर्पः (ते) (मन्यवे) क्रोधाय (सरस्वते) समुद्राय
 (शुकः) शुद्धिकृत् पक्षिविशेषः (पुरुषवाक्) पुरुषस्य
 वागिव वाग्यस्य सः ॥ ३३ ॥

अर्थव्ययः—हे मनुष्या युष्माभिर्या सौरी सा बलाका
 ये शार्गः सृजयः शयाण्डकश्च ते मैत्राः शारिः पुरुषवाक्
 सरस्वत्यै श्वावित् भौमी शार्दूलो वृकः पृदाकुश्च ते मन्यवे
 शुकः पुरुषवाक् च सरस्वते विज्ञेयाः ॥ ३३ ॥

भावार्थः—ये बलाकादयः पशुपक्षिणस्तेषां मध्यात्
 केचित्पालनीयाः केचित्ताडनीयाः सन्तीति वेदम् ॥ ३३ ॥

पदार्थः— हे मनुष्यो तुमको (सौरी) जिसका सूर्य देवता है वह (बलाका)
 बगुलिया तथा जो (शार्गः) पपीहा पक्षी (सृजयः) सृजय नाम वाला और
 (शयाण्डकः) शयाण्डक पक्षी हैं (ते) वे (मैत्राः) प्राण देवता वाले (शारिः)
 शुगी (पुरुषवाक्) पुरुष के समान बोलने हारा शुगा (सरस्वत्यै) नदी
 के लिये (श्वावित्) सेही (भौमी) भूमि देवता वाली जो (शार्दूलः)
 केशरी सिंह (वृकः) भेड़िया और (पृदाकुः) सांप हैं (ते) वे (मन्यवे)
 क्रोध के लिये तथा (शुकः) शुद्धि करने हारा शुभापक्षि और (पुरुषवाक्)
 जिस की मनुष्य की बोली के समान बोली है वह पक्षी (सरस्वते) समुद्र के
 लिये जानना चाहिये ॥ ३३ ॥

भावार्थः—जो बलाका आदि पशु पक्षी हैं उनमेंसे कोई पालने और
 कोई ताडना देने योग्य हैं यह जानना चाहिये ॥ ३३ ॥

सुपर्ण इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । अग्न्यादयो देवताः ।

स्वराद् शकवरी छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

सुपर्णः पार्जन्य आतिर्वाहसो दर्विं-
दा ते वायवे बृहस्पतये वाचस्पतये
पैङ्गराजोऽलज अन्तरिक्षः प्लवो मद्गु-
र्मत्स्यस्ते नदीपतये द्यावापृथिवीयः
कूर्मः ॥ ३४ ॥

सुपर्णा इति सुऽपर्णाः । पार्जन्यः । आतिः । वाहसः ।
दर्विंदोति दर्विंदा । ते । वायवे । बृहस्पतये । वाचः ।
पतये । पैङ्गराज इति पैङ्गराजः । अलजः । अन्तरिक्षः ।
प्लवः । मद्गुः । मत्स्यः । ते । नदीपतयऽइति नदीऽप-
तये । द्यावापृथिवीयः । कूर्मः ॥ ३४ ॥

पदार्थः- (सुपर्णः) शोभनपतनः (पार्जन्यः) पार्जन्यत्र-

दगुणः (आतिः) पक्षिविशेषः (वाहसः) अजगरः सर्पविशेषः
(दर्विंदा) काष्ठच्छिन् पक्षिविशेषः (ते) (वायवे) (बृहस्पतये)
बृहतां पालकाय (वाचः) (पतये) पालकाय (पैङ्गराजः)
पक्षिविशेषः (अलजः) पक्षिविशेषः (अन्तरिक्षः) अन्तरिक्ष-
देवताकः (प्लवः) वर्तिका (मद्गुः) जलकाकः (मत्स्यः)
(ते) (नदीपतये) समुद्राय (द्यावापृथिवीयः) प्रकाशभूमि-
देवताकः (कूर्मः) कच्छपः ॥ ३४ ॥

अन्वयः-हे मनुष्या युष्माभिर्यः सुपर्णः स पार्जन्यो
य आतिर्वाहसो दर्विंदा च ते वायवे पैङ्गराजो बृहस्पतये

वाचस्पतयेऽलजान्तरिक्षी ये प्लवो मदगुर्मत्स्यश्च ते
नदीपतये यः कूर्मः स द्यावापृथिवीयश्च विज्ञेयः ॥ ३४ ॥

भावार्थः— ये मेघादितुल्यगुणाः पशुपक्षिविशेषाः स-
न्ति ते कार्योपयोगाय नियोजनीयाः ॥ ३४ ॥

पदार्थः— हे मनुष्यो तुम को जो (सुपर्णः) सुन्दर गिरने वा
जानेवाला पक्षी वह (पाञ्चन्यः) मेघ के समान गुण वाला जो (आतिः)
आति नाम वाला पक्षी (वाहसः) अजगर सांप (दर्विदा) और काठ को
छिन्न भिन्न करने वाला पक्षी है (ते) वे सब (वायवे) पवन के लिये
(पैङ्गराजः) पैङ्गराज नाम का पक्षी (वृहस्पतये) बड़ेर पदार्थों और
(वाधः, पतये) बापी की पालना करने हारे के लिये (अलजः) अलज
पक्षी (अन्तरिक्षः) अन्तरिक्ष देवता वाला जो (प्लवः) जल में तरने वाला
वतक पक्षी (नद्गुः) जल का कउआ और (मत्स्यः) मछली हैं (ते)
वे सब (नदीपतये) समुद्र के लिये और जो (कूर्मः) कछुआ है वह (द्या-
वापृथिवीयः) प्रकाश भूमि देवता वाला जानना चाहिये ॥ ३४ ॥

भावार्थ— जो मेघ आदि के समान गुण वाले विशेषर पशु पक्षी
हैं वे काम के उपयोग के लिये युक्त करने चाहियें ॥ ३४ ॥

पुरुषमृग इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । चन्द्रादयो देवताः ।

निचृच्छकरी छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

पुरुष मृगश्चन्द्रमसो गोधा कार्त्तिका
दावाघाटस्ते वनस्पतीनां कृकवाकुः
सावित्रीहंसो वातस्य नाक्रोमकरः कु-
लीपयस्तेऽकूपारस्य ह्रियै शल्यकः ॥ ३५ ॥

पुरुषमृगऽइति पुरुषमृगः। चन्द्रमसः। गोधा। कालका।
 दारवाघाटः दारवाघात इति दारुऽआयातः। ते। वनस्पती-
 नाम्। कृकवाकुरिति कृकऽवाकुः। सावित्रः। हंसः।
 वातस्य। नाक्रः। मकरः। कुलीपयः। ते। अकूपारस्य।
 ह्रियै। शल्यकः ॥ ३५ ॥

पदार्थः— (पुरुषमृगः) यः पुरुषान्माष्टि स पशु-
 विशेषः (चन्द्रमसः) चन्द्रस्य (गोधा) (कालका) (दा-
 र्वाघाटः) शतपत्रकः (ते) (वनस्पतीनाम्) (कृकवाकुः)
 कुक्कुटः (सावित्रः) सवितृदेवताकः (हंसः) (वातस्य)
 (नाक्रः) नक्राज्जातः (मकरः) (कुलीपयः) जलजन्तु-
 विशेषः (ते) (अकूपारस्य) समुद्रस्य (ह्रियै) लज्जायै
 (शल्यकः) कण्टकपक्षयुक्तः श्वावित् ॥ ३५ ॥

अन्वयः— हे मनुष्या युष्माभिर्यः पुरुषमृगः स च-
 न्द्रमसो ये गोधा कालका दारवाघाटश्च ते वनस्पतीनां यः
 कृकवाकुः स सावित्रो यो हंसः स वातस्य ये नाक्रो मकरः
 कुलीपयश्च तेऽकूपारस्य यः शल्यकः स ह्रियै च विज्ञेयाः
 ॥ ३५ ॥

भावार्थः— ये चन्द्रादिगुणाः पशुपक्षिविशेषास्ते म-
 नुष्यैर्विज्ञेयाः ॥ ३५ ॥

पदार्थः— हे मनुष्यो ! तुम को जो (पुरुषमृगः) पुरुषों को शुद्ध
 करने हारा पशुविशेष वह (चन्द्रमसः) चन्द्रमा के अर्थ जो (गोधा)
 गोह (कालका) कालका पक्षी और (दारवाघाटः) कठफोरवा हैं (ते)
 वे (वनस्पतीनाम्) वनस्पतियों के सम्बन्धी जो (कृकवाकुः) मुर्गा वह

(सावित्रः) रुविता देवता वाला जो (हंसः) हंस है वह (वातस्य) पवन के अर्थ जो (नाक्रः) नाके का बच्चा (मकरः) मगर मच्छ (कुलीपयः) और विशेष जल जन्तु हैं (ते । व (अकूपारस्य) समुद्र के अर्थ और जो (शल्यकः) सेही है वह (द्वियै) लज्जा के लिये जानना चाहिये ॥ ३५ ॥

भावाथ :— जो चन्द्रमा आदि के गुणों से युक्त विशेष पशु पक्षी हैं वे मनुष्यों को जानने चाहिये ॥ ३५ ॥

एणीत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । अश्विन्यादयो देवताः ।

निचृज्जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

ए॒ण्य॒ह्नो॑ म॒ण्डू॒को॒ मू॒षिका॑ ति॒त्तिरि॒स्ते
स॒र्पाणां॑ लो॒षा॒श आ॒श्विनः॑ कृ॒ष्णा रा॒
त्र॒या ऋ॒क्षो॑ ज॒तूः सु॒षि॒लीका॑ त इ॒तर॒
ज॒नानां॑ ज॒हका॑ वै॒ष्णा वी ॥ ३६ ॥

ए॒णी । अ॒ह्नः । म॒ण्डू॒कः । मू॒षिका॑ । ति॒त्तिरिः॑ । ते ।
स॒र्पाणा॑म् । लो॒षा॒शः । आ॒श्विनः॑ । कृ॒ष्णाः । रा॒त्र्यै ।
ऋ॒क्षः । ज॒तूः । सु॒षि॒लीके॑ति सु॒षि॒लीका॑ । ते । इ॒तर॒ज॒
ना॒नामि॑ति॒तर॑ज॒नाना॑म् । ज॒हका॑ । वै॒ष्णा॒वी ॥ ३६ ॥

पदार्थः—(एणी) मृगी (अह्नः) दिनस्य (मण्डू-
कः) (मूषिका) (तित्तिरिः) (ते) (सर्पाणाम्) (लो-
पाशः) वनचरपशुविशेषः (आश्विनः) अश्विदेवताकः
(कृष्णः) कृष्णवर्णः (रात्र्यै) (ऋक्षः) भल्लूकः (जतूः)
(सुषिलीका) एतौ च पक्षिविशेषौ (ते) (इतरजनानाम्)
इतरे च ते जना इतरजनास्तेषाम् (जहका) गात्रसंकी-
र्त्तनी (वैष्णावी) विष्णुदेवताका ॥ ३६ ॥

अन्वयः--हे मनुष्या युष्माभिर्यैणी साऽहो ये मण्डू-
को मूषिका तित्तिरिश्च ते सर्पाणां यो लोपाशः स आश्वि-
नो यः कृष्णः स रात्र्यै य ऋक्षो जतूः सुषिलीका च त इ-
तरजनानां या जहका सा वैष्णवी च विज्ञेयाः ॥ ३६ ॥

भावार्थः--ये दिनादिगुणाः पशुपक्षिविशेषास्ते त-
त्तद्गुणतो विज्ञेयाः ॥ ३६ ॥

पदार्थः--हे मनुष्यो! तुम को जो (एणी) हरिणी है वह (अन्हः)
दिन के अर्थ जो (मण्डूकः) मेढुका (मूषिका) मूषटी और (तित्तिरिः)
तीतरि पक्षिणी हैं (ते) वे (सर्पाणाम्) सर्पों के अर्थ जो (लोपाशः)
कोई वनचर विशेष पशु वह (आश्विनः) अश्वि देवता वाला जो (कृ-
ष्णः) काले रंग का हरिण आदि है वह (रात्र्यै) रात्रि के लिये जो (ऋक्षः)
रीठ (जतूः) जतू नाम वाला और (सुषिलीका) सुषिलीका पक्षी है
(ते) वे (इतरजनानाम्) और मनुष्यों के अर्थ और (जहका) अङ्-
गों का संकोच करने वाली पक्षिणी (वैष्णवी) विष्णु देवता वाली जान-
ना चाहिये ॥ ३६ ॥

भावार्थः--जो दिन आदि के गुण वाले पशु पक्षी विशेष हैं वे उस र-
गुण से जानने चाहिये ॥ ३६ ॥

अन्यवाप इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । अर्द्धमासादयो

देवताः । भुरिग्जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

अन्यवापोऽर्द्धमासानामृषयो मयूरः
सुपर्णास्ते गन्धर्वाणामपामुद्रो मासान्
कश्यपो रोहित्कुण्डुणार्ची गोलत्तिका
तेऽप्सरसां मृत्यवैऽसितः ॥ ३७ ॥

अन्यवाप इत्यन्यऽवापः । अर्द्धमासानामित्यर्द्धऽमा-
सानाम् । ऋश्यः । मयूरः । सुपर्णा इति सुऽपर्णाः । ते ।
गन्धर्वाणाम् । अपाम् । उद्रः । मासान् । कश्यपः । रो-
हित् । कुण्डुणाची । गोलत्तिका । ते । अप्सरसाम् ।
मृत्यवे । असितः ॥ ३७ ॥

पदार्थः—(अन्यवापः) कोकिलारुयः पक्षिविशेषः
(अर्द्धमासानाम्) (ऋश्यः) मृगविशेषः (मयूरः)
(सुपर्णाः) पक्षिविशेषः (ते) (गन्धर्वाणाम्) गायका-
नाम् (अपाम्) जलानाम् (उद्रः) जलचरः कर्कटारुयः
(मासान्) मासानाम् । अत्र विभक्तित्वत्ययः । (कश्यपः)
कच्छपः (रोहित्) मृगविशेषः (कुण्डुणाची) वनचरी
(गोलत्तिका) वनचरविशेषा (तं) (अप्सरसाम्)
किरणादीनाम् (मृत्यवे) (असितः) कृष्णगुणः प्रशुवि-
शेषः ॥ ३७ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या युष्माभिर्योऽन्यवापः सोऽर्द्धमा-
सानां य ऋश्यो मयूरः सुपर्णाश्च ते गन्धर्वाणामपां च
य उद्रः स मासान् ये कश्यपो रोहित् कुण्डुणाची गोल-
त्तिका च तेऽप्सरसां योऽसितः स मृत्यवे च विज्ञेयाः ॥ ३७ ॥

भावार्थः—ये कालादिगुणाः पशुपक्षिणस्त उपकारि-
णः सन्तीति वेदम् ॥ ३७ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो! तुम को जो (अन्यवापः) कोकिला पक्षी है वह
(अर्द्धमासानाम्) पखवाडों के अर्थ जो (ऋश्यः) ऋश्य जाति का मृग
(मयूरः) मयूर और (सुपर्णाः) अच्छे पंखों वाला विशेष पक्षी है (ते) वे

(गन्धर्वाणाम्) गाने वालों के और (अपाम्) जलों के अर्थ जो (उद्रः) जल घर गिंगचा है वह (नासान्) महीनों के अर्थ जो (कश्यपः) कलुआ (रोहित्) विशेष मृग (कुरङ्गणाची) कुरङ्गणाची नाम की वन में रहने वाली और (गोलत्तिका) गोलत्तिका नाम वाली विशेष पशु जाति है (ते) वे (अप्तरसाम्) किरण आदि पदार्थों के अर्थ और जो (असितः) काले गुण वाला विशेष पशु है वह (मृत्यवे) मृत्यु के लिये जानना चाहिये ॥ ३७ ॥

भावाथ :- जो काल आदि गुण वाले पशु पक्षी हैं वे उपकार वाले हैं यह जानना चाहिये ॥ ३७ ॥

वर्षाहूरित्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । वर्षादयो देवताः ।

स्वराड्जगतीछन्दः । निषादः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

वर्षाहूर्ऋतू नामाखुः कशो मान्थाल-
स्ते पितृणां बलायाजगरो वसूनां क-
पिञ्जलैः कपोत उलूकः शशस्तेनिर्ऋ-
त्यै वरुणायारण्यो मेषः ॥ ३८ ॥

वर्षाहूरिति वर्षऽआहूः । ऋतूनाम् । आखुः । कशः ।
मान्थालः । ते । पितृणाम् । बलाय । अजगरः । वसू-
नाम् । कपिञ्जलः । कपोतः । उलूकः । शशः । ते । निर्ऋत्या
ऽइति निऽऋत्यै । वरुणाय । आरण्यः । मेषः ॥ ३८ ॥

पदार्थ :- (वर्षाहूः) या वर्षा आहूयति सा भेकी
(ऋतूनाम्) वसन्तादीनाम् (आखुः) मूषकः (कशः)
शासनीयः (मान्थालः) जन्तुविशेषः (ते) (पितृणाम्)
पालकानाम् (बलाय) (अजगरः) महान्सर्पः (वसू-
नाम्) (कपिञ्जलः) (कपोतः) (उलूकः) (शशः)
पशुविशेषः (ते) (निर्ऋत्यै) (वरुणाय) (आरण्यः)

अरण्ये भवः (मेषः) पशुविशेषः ॥ ३८ ॥

अन्वयः— हे मनुष्या युष्माभिर्या वर्षाहूः सा ऋतूनामाखुः कशो मान्थालश्च ते पितृणां बलायाजगरो वसूनां कपिञ्जलः कपोत उलूकः शशश्च ते निऋत्यै य आरण्यो मेषः स वरुणाय च विज्ञेयाः ॥ ३८ ॥

भावार्थः— ये ऋत्वादिगुणाः पशुपक्षिणस्ते तद्गुणा विज्ञेयाः ॥ ३८ ॥

पदार्थः— हे मनुष्यो! तुम को जो (वर्षाहूः) वर्षों को बुलाती है वह सेंडुकी (ऋतूनाम्) वसन्तआदि ऋतुओं के अर्थ (आखुः) सूया (कशः) सिखाने योग्य कश नाम वाला पशु और (मान्थालः) मान्थाल नामी विशेष जन्तु हैं (ते) वे (पितृणाम्) पालना करने वालों के अर्थ (बलाय) बल के लिये (अजगरः) बड़ा सांप (वसूनाम्) अग्नि आदि वसुओं के अर्थ (कपिञ्जलः) कपिञ्जल नामक (कपोतः) जो कबूतर (उलूकः) उलू और (शशः) खरहा हैं (ते) वे (निऋत्यै) निऋति के लिये (वरुणाय) और वरुण के लिये (आरण्यः) बनेला (मेषः) मेढ़ा जानना चाहिये ॥ ३८ ॥

भावार्थः— जो ऋतु आदि के गुण वाले पशु पक्षी विशेष हैं वे उन गुणों से युक्त जानने चाहिये ॥ ३८ ॥

शिवत्र इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः। आदित्यादयो देवताः।

स्वराट् त्रिष्टुप् छन्दः। धैवतः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

शिवत्र आदित्यानामुष्टो घृणीवान्
वार्धीन्सस्ते सत्याऽन्नरगयाय सृमरो
रुहं रौद्रः कृयिः कुटुरुर्दात्यो हस्ते वा-
जिनां कामाय पिकः ॥ ३९ ॥

शिवत्रः । आदित्यानाम् । उष्ट्रः । घृणीवान् । घृणी-
वानिति घृणीञ्चान् । वार्धीनसः । ते । मत्स्यै । अरण्या-
य । सृमरः । रुरुः । रौद्रः । क्वयिः । कुटुरुः । दात्यौहः ।
ते । वाजिनाम् । कामाय । पिकः ॥ ३६ ॥

पदार्थः—(शिवत्रः) विचित्रः पशुविशेषः (आदि-
त्यानाम्) कालावयवानाम् (उष्ट्रः) (घृणीवान्) तेज-
स्विपशुविशेषः (वार्धीनसः) कण्ठैस्तनवान्महानजः (ते)
(मत्स्यै) प्रज्ञायै (अरण्याय) (सृमरः) गवयः (रुरुः)
मृगविशेषः (रौद्रः) रुद्रदेवताकः (क्वयिः) पक्षिविशेषः
(कुटुरुः) कुक्कुटः (दात्यौहः) काकः (ते) (वाजिना-
म्) (कामाय) (पिकः) कोकिलः ॥ ३६ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या युष्मांभिर्यः शिवत्रः स आदित्या-
नाम् । य उष्ट्रो घृणीवान् वार्धीनसश्च ते मत्स्यै । यः सृमरः
सोऽरण्याय । यो रुरुः स रौद्रः । ये क्वयिः कुटुरुर्दात्यौ-
हश्च ते वाजिनाम् । यः पिकः स कामाय च विज्ञेयाः ॥ ३६ ॥

भावार्थः—य आदित्यादिगुणाः पशुपञ्चिणस्ते तत्त-
त्स्वभावाः सन्तीति वेदम् ॥ ३६ ॥

पदार्थः— हे मनुष्यो ! तूने जो (शिवत्रः) चित्र विचित्र रंग वाला
पशुविशेष वह (आदित्यानाम्) समय के अक्षयवर्षों के अर्थ, जो (उष्ट्रः)
ऊँट (घृणीवान्) तेजस्वि विशेष पशु और (वार्धीनसः) कण्ठ में जिस
के घन ऐसा बड़ा बुकरा है (ते) वे सब (मत्स्यै) बुद्धि के लिये, जो (स-
मरः) नील गाय वह (अरण्याय) वन के लिये, जो (रुरुः) मृगविशेष

है वह (रौद्रः) रुद्र देवता वाला, जो (क्वयिः) क्वयिनाम का पत्नी (कुट-
रः) सुर्गा और (दात्यौहः) कौआ हैं (ते) वे (वाजिनाम्) घोड़ों के
जर्थ और जो (रिक्ः) कोकिला है वह (कामाय) काम के लिये अरुठे
प्रकार जानने चाहियें ॥ ३९ ॥

भावार्थः—जो सूर्य आदि के गुण वाले पशु पत्नी विशेष हैं वे उसर
स्वभाव वाले हैं यह जानना चाहिये ॥ ३९ ॥

खड्ग इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । विश्वे देवादयो देवताः ।
शक्वरी छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह

फिर उसी वि० ॥

खड्गो वैश्वदेवः श्वा कृष्णः कर्णा
गर्दभस्तरक्षुस्ते रक्षसामिन्द्राय सूक-
रः सिंशुहो मारुतः कृकलासः पिप्प-
का शकुनिस्ते शरुय्यै विश्वेषां दे-
वानां पृषतः ॥ ४० ॥

खड्गः । वैश्वदेव इति वैश्वऽदेवः । श्वा । कृष्णः । क-
र्णाः । गर्दभः । तरक्षुः । ते । रक्षसाम् । इन्द्राय । सूकरः ।
सिंशुहः । मारुतः । कृकलासः । पिप्पका । शकुनिः ।
ते । शरुय्यै । विश्वेषाम् । देवानाम् । पृषतः ॥ ४० ॥

पदार्थः—(खड्गः) तुण्डमृङ्गः पशुविशेषः (वैश्व-
देवः) विश्वेषां देवानामयम् (श्वा) कुकुरः (कृष्णः)
कृष्णगुणविशेषः (कर्णः) दीर्घकर्णः (गर्दभः) पशुवि-
शेषः (तरक्षुः) व्याघ्रः (ते) (रक्षसाम्) (इन्द्राय)

(इन्द्राय) विदारकाय (सूकरः) यः सुष्ठु शुद्धिं करोति स बलिष्ठो वराहः (सिंहः) हिंसको व्याघ्रः (मारुतः) मरुद्देव-
ताकः (कृकलासः) सरटः (पिप्पका) पक्षिणी (शकुनिः) (ते)
(शरव्यायै) शरवीषु कुशलायै (विश्वेषाम्) अखिलानाम्
(देवानाम्) विदुषाम् (पृषतः) मृगविशेषाः ॥ ४० ॥

अन्वयः--हे मनुष्या युष्माभिर्यः खड्गः स वैश्वदेवो
ये कृष्णः श्वा कर्णो गर्दभस्तरक्षुश्च ते रक्षसां यः सूकरः स
इन्द्राय यः सिंहः स मारुतो ये कृकलासः पिप्पका शकुनि-
श्च ते शरव्यायै ये पृषतस्ते विश्वेषां देवानां विज्ञेयाः ॥ ४० ॥

भावार्थः--ये सर्वे पशुपक्षिणः सर्वगुणाः सन्ति तान्
विज्ञाय व्यवहारसिद्धये सर्वे मनुष्या नियोजयन्तामिति ॥ ४० ॥
अस्मिन्नध्याये पशुपक्षिमृगसरीसृपजलजन्तुकृम्यादी-
नां गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वाऽऽध्यायोक्तार्थेन सह सङ्ग-
तिरस्तीति धोदुव्यम् ॥

पदार्थः-- हे मनुष्यो! तुम को जो (खड्गः) ऊँचे और पौने सींगों
वाला गैँहा है वह (वैश्वदेवः) सब विद्वानों का, जो (कृष्णः) काले रंग
वाला (श्वा) कुत्ता (कर्णः) बड़े कानों वाला (गर्दभः) गदहा और
(तरक्षुः) व्याघ्र हैं (ते) वे सत्र (रक्षसाम्) राक्षस दुष्टहिंसक हवपियों
के अर्थ, जो (सूकरः) सुअर है वह (इन्द्राय) शत्रुओं को विदारने वाले
राजा के लिये, जो (सिंहः) सिंह है वह (मारुतः) मरुत देवता वाला,
जो (कृकलासः) गिरगिटान (पिप्पका) पिप्पका नाम की पक्षिणी
और (शकुनिः) पक्षिनात्र है (ते) वे) सब (शरव्यायै) जो शरवियों में
कुशल उत्तम है उसके लिये और जो (पृषतः) पृषज्जाति के हरिया हैं वे
(विश्वेषाम्) सब (देवानाम्) विद्वानों के अर्थ जानना चाहिये ॥ ४० ॥

भावार्थः--जो सब पशु पक्षी सब गुण भरे हैं उनको जानकर व्यवहार सिद्धि के लिये सब मनुष्य निरन्तर युक्त करें ॥ ४० ॥

इस अध्याय में पशु पक्षी रिंगने वाले सांप आदि, वनके मृग जल में रहने वाले प्राणी और कीड़े सकोड़े आदि के गुणों का वर्णन होने से इस अध्याय के अर्थ ही पिछले अध्याय में कहे हुए अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिये ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां परमविदुषां श्रीवि-
रजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण श्रीमत्परमहंसपरि-
व्राजकाचार्येण श्रीदयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचि-
ते संस्कृतार्यभाषाभ्यां विभूषिते सुप्रमाणयुक्ते
यजुर्वेदभाष्ये चतुर्विंशोऽध्यायः
पूर्तिमगमत् ॥

अथ पञ्चविंशोऽध्याय आरभ्यते

विश्वानि देव सवितर्दुष्टानि परा सुव ।

यद्भद्रं तन्न आसुव ॥१॥

शादमित्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । सरस्वत्यादयो देवताः ।

पूर्वस्य भुरिक् छकरी । आदित्यानित्युत्तरस्य निचूदति-

शकरी छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अथ केन किं कर्त्तव्यमित्याह

अब पञ्चीसवें अध्याय का आरम्भ है इस के प्रथम मन्त्र में किस की
क्या करना चाहिये इस वि० ॥

शादं॑ द॒द्विरव॑कान्दन्तमूलैर्मृदं॑ ब-
स्वो॑स्ते गान्द॑ष्ट्याभ्या॑श्च सर॑स्वत्याऽ
अग्रजिह्वं॑ जिह्वाया॑ उत्सादमवक्रन्देन
तालु वाज॑श्च हनु॑भ्यामप आस्ये॑ न वृ-
र्णशा॑साखडाभ्या॑म् । आदित्या॑न् प्रमश्रु-
भिः प॑न्थानं भू॒भ्यां द्यावा॑पृथि॒वी वर्त्तौ॑-
भ्यां वि॒द्युत्क॑नीनकाभ्या॑श्च शुक्राय॑ स्वा-
हा॑ कृष्णाय॑ स्वाहा॑ पार्था॑णि पद्मा-
शयव॑र्या इ॒क्ष्वोऽवा॑र्या॑णि पद्मा॑णि
पार्या॑ इ॒क्ष्वः ॥ १ ॥

शादम् । दृद्भिरिति दृत्ऽभिः । अवकाम् । दन्तमूलैरिति
 दन्तऽमूलैः । मृदम् । बस्वैः । ते । गाम् । दंष्ट्राभ्याम् । सरस्वत्यै ।
 अग्रजिह्वामित्यग्रऽजिह्वम् । जिह्वायाः । उत्सादमित्युत्-
 ऽसादम् । अवक्रन्देनेत्यवऽक्रन्देन । तालु । वाजम् । हनुभ्या-
 मिति हनुऽभ्याम् । अपः । आस्येन । वर्षणम् । आण्डाभ्याम् ।
 आदित्यान् । श्मश्रुभिरिति श्मश्रुऽभिः । पन्थानम् ।
 भ्रूभ्याम् । द्यावाप्रथिवी इति द्यावाप्रथिवी । त्रेताभ्या-
 मिति त्रेतैःऽभ्याम् । विद्युतमिति विऽद्युतम् । कनीनका-
 भ्याम् । शुक्राय । स्वाहा । कृष्णाय । स्वाहा ।
 पार्याणि पक्ष्माणि । अवार्याः । इक्ष्वः । अवार्याणि ।
 पक्ष्माणि । पार्याः । इक्ष्वः ॥ १ ॥

पदार्थः—(शादम्) शीयते छिनत्ति यस्मिँस्तं
 शादम् (दृद्भिः) दन्तैः (अवकाम्) रक्षिकाम् (दन्तमू-
 लैः) दन्तानां मूलैः (मृदम्) मृत्तिकाम् (बस्वैः) दन्त
 पृष्ठैः (ते) तव (गाम्) वाणीम् (दंष्ट्राभ्याम्) मुखद-
 न्ताभ्याम् (सरस्वत्यै) प्रशस्तविज्ञानवत्यै वाचे (अग्र-
 जिह्वम्) जिह्वाया अग्रम् (जिह्वायाः) (उत्सादम्) ऊ-
 र्ध्वं सीदन्ति यस्मिँस्तम् (अवक्रन्देन) विकलतारहितेन
 (तालु) आस्थावयवम् (वाजम्) अन्नम् (हनुभ्याम्) मु-
 खैकदेशाभ्याम् (अपः) जलानि (आस्येन) आस्यन्दन्ति क्लेदी-
 भवन्ति यस्मिँस्तेन (वर्षणम्) वर्षयितारम् (आण्डाभ्याम्)

(आदित्यान्) मुख्यान् विदुषः (श्मश्रुभिः) मुखाऽभितः
 केशैः (पन्थानम्) मार्गम् (भूभ्याम्) नेत्रगोलकोर्ध्वा-
 ऽवयवाभ्याम् (द्यावापृथिवी) सूर्यभूमी (वर्त्तोभ्याम्)
 गमनागमनाभ्याम् (विद्युत्तम्) तडितम् (कनीनकाभ्याम्)
 तेजोमयाभ्यां कृष्णगोलकतारकाभ्याम् (शुक्राय) वीर्याय
 (स्वाहा) ब्रह्मचर्यक्रियया (कृष्णाय) विद्य कर्षणाय
 (स्वाहा) सुशीलतायुक्तया क्रियया (पार्याणि) परितुं
 पूरयितुं योग्यानि (पक्ष्माणि) परिग्रहीतुं योग्यानि क-
 र्माणि नेत्रोर्ध्वलोमानि वा (अवार्याः) अवारे भवाः
 (इक्षवः) इक्षुदण्डाः (अवार्याणि) अवारेषु भवानि
 (पक्ष्माणि) परिग्रहणानि लोमानि वा (पार्याः) परि-
 तुं पालयितुं योग्याः (इक्षवः) गुडादिनिमित्ताः ॥ १ ॥

अन्वयः—हे जिज्ञासो विश्वार्थिन्! ते दद्विः शादं दन्तमूलैर्ब-
 र्ध्वंमायकां मृदं दंष्ट्राभ्यां सरस्वत्यै गां जिह्वाया अग्रजिह्ववक्रन्दे-
 नात्सादं नाल्लुहनुभ्यां घाजमास्येनाऽथ आण्डाभ्यां वृषणं श्मश्रुभि-
 रादित्यान् भूभ्यां पन्थानं वर्त्तोभ्यां द्यावापृथिवी कनीनकाभ्यां वि-
 द्युत्तमहं याग्रयामि । त्वया शुक्राय स्वाहा कृष्णाय स्वाहा पार्याणि प-
 क्ष्माण्यवार्या इक्षवोऽवार्याणि पक्ष्माणि पार्या इक्षवश्च संग्राह्याः ॥ १ ॥

भावार्थः—अध्यापकाः। दीव्यानामज्ञानग्रुपदेशेन पुष्टानि कृत्वा-
 ऽऽहारविहारादिकं सर्वोध्य सर्वा विद्याः प्रापय्यान्वण्डितं ब्रह्मचर्यं
 सर्वयित्वैश्वर्यं प्रापय्य सुखिनः सम्पादयेयुः ॥ १ ॥

पदार्थः— हे अच्छे ज्ञान की चाहना करते हुए विद्यार्थी जन ! (ते) तेरे (दाहः) दांतों ते (शादम्) जिस में छेदन करता है उस व्यवहार को (दन्त-मलैः) दांतों की जड़ों और (वस्त्रैः) दान्तों की पछाटियों से (अचकाम्) रक्षा करने वाली (मृदम्) मट्टी को (दंष्ट्राभ्याम्) डाढ़ों से (सरस्वत्यै) विशेष ज्ञान वाली वाणी के लिये (गाम्) बाणी को (जिहायाः) जीभ से (अग्र जिह्वम्) जीभ के अगले भाग को (अवक्रन्देन) विकलनारहित व्यवहार से (उत्सादम्) जिस में ऊपर को स्थिर होती है उस (तालु) तालु को (हनु-भ्याम्) ठोढ़ी के पास के भागों से (वाजम्) अन्न का (आस्येन) जिस से भोजन आदि पदार्थ को गाला करते उस मुख से (अपः) जलों को (आण्डा-भ्याम्) वीर्य को अच्छे प्रकार धारण करने हारे आँदों से (वृषणम्) वीर्य वर्षाने वाले अङ्ग को (श्मश्रुभिः) मुख के चारों ओर जो केश अर्थात् डाढ़ी उस से (आ-दित्यान्) मुख्य विद्वानों को (भ्रूभ्याम्) नेत्र गोलकों के ऊपर जो भौं हैं उन से (पन्थानम्) मार्ग को (वृत्तीभ्याम्) जाने आने से (घ्रावापृथिवी) सूर्य और भूमि तथा (कनीनिकाभ्याम्) तेज से भरे हुए काले नेत्रों के तारों के सदृश गोलों से (विद्युतम्) बिजुली को मैं समझाता हूँ । तुझ को (शुक्राय) वीर्य के लिये (स्वाहा) ब्रह्मचर्य क्रिया से और (कृष्णाय) विद्या खींचने के लिये (स्वाहा) सुन्दरशीलयुक्त क्रिया से (पार्याणि) पूरे करने योग्य (पचमाणि) जो सब ओर से लेने चाहिये उन कामों वा पलकों के ऊपर के विन्ने वा (अवार्याः) नदी आदि के प्रथम ओर होने वाले (इक्षवः) गन्नों के पैँडे वा (अवार्याणि) नदी आदि के पाहिले किनारे पर होने वाले पदार्थ (पचमाणि) सब ओर से जिन का ग्रहण करें वा लोभ और (पार्याः) पालना करने योग्य (इक्षवः) ऊख जो गुड़ आदि के निमित्त हैं वे पदार्थ अच्छे प्रकार ग्रहण करने चाहिये ॥ १ ॥

भावार्थः—अध्यापक लोग अपने शिष्यों के अज्ञों को उपदेश से अच्छे प्रकार पुष्ट कर तथा आहार वा विहार का अच्छा बोध, समस्त विद्याओं की प्राप्ति, अखण्डित ब्रह्मचर्य का सेवन और ऐश्वर्य की प्राप्ति करा के मुखयुक्त करें ॥ १ ॥

वातमित्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । प्राणादयो देवताः ।

भुरिगतिशकवर्यौ छन्दसी । धैवतः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

वातं प्राणोनापानेन नासिकेऽउपयाममधरे-
 णोष्ठेन सदुत्तरेण प्रकाशेनान्तरमनूकाशेन बाह्यं
 निवेष्यं मूर्ध्नास्तनयित्नुं निर्वाधेनाशनिम्स्ति-
 ष्केण विद्युतं कृनीनकाभ्यां कर्णाभ्यां श्रोत्रं
 श्रोत्राभ्यां कर्णां तेदनीमधरकण्ठेनापः शुष्कक-
 ण्ठेन चित्तं मन्याभिरदिति शीर्ष्णा निःसृतिं
 निर्जर्जल्पेन शीर्ष्णा संक्रोशैः प्राणान् रेष्माणांश्च
 स्तुपेन ॥ २ ॥

वातम् । प्राणेन । अपानेनेत्यपऽआनेन । नासि-
 के इति नासिके । उपयाममित्युपऽयामम् । अधरेण ।
 ओष्ठेन । सत् । उत्तरेणत्युत्तरेण । प्रकाशेनेति प्रऽ-
 काशेन । अन्तरम् । अनूकाशेन । अनुकाशेनेत्यनुऽ-
 काशेन । बाह्यम् । निवेष्यमिति निऽवेष्यम् । मूर्ध्ना ।
 स्तनयित्नुम् । निर्वाधेनेति निऽबाधेन । अशनिम् ।
 मस्तिष्केण । विद्युतमिति विऽद्युतम् । कृनीनका-
 भ्याम् । कर्णाभ्याम् । श्रोत्रम् । श्रोत्राभ्याम् ।
 कर्णां । तेदनीम् । अधरकण्ठेनेत्यधरऽकण्ठेन । अपः ।

शुष्ककण्ठेनेति शुष्कऽकण्ठेन । चित्तम् । मन्याभिः ।
 अदितिम् । शीर्ष्णा । निःकृतिमिति निःऽकृतिम् ।
 निर्जर्जल्पेनेति निःऽर्जर्जल्पेन । शीर्ष्णा । सुड्क्रौंशरिति
 सम्ऽक्रौशैः । प्राणान् । रेष्माणम् । स्तुपेन ॥ २ ॥

पदार्थः—(वातम्) वायुम् (प्राणेन) (अपानेन) (नासिके)
 नासिकाच्छिद्रे (उपयामम्) उपगतं नियमम् (अधरेण)
 मुखाद्धस्थेन (ओष्ठेन) (सत्) (उत्तरेण) उपरिस्थेन (प्र-
 काशेन) (अन्तरम्) मध्यस्थमाभ्यन्तरम् (अनूकाशेन)
 अनुप्रकाशेन (बाह्यम्) बहिर्भवम् (निवेष्यम्) निश्चयेन
 व्याप्तुं योग्यम् (मूर्धा) मस्तकेन (स्तनयित्नुम्) शब्दनि-
 मित्तां विद्युत्तम् (निर्वाधेन) नितरां बाधेन हेतुना (अरा-
 निम्) व्यापिकां घोषयुक्ताम् (भस्तिष्केण) शिरस्थमज्जी-
 तन्तुसमूहेन (विद्युत्तम्) विशेषेण द्योतमानाम् (कनीन-
 काभ्याम्) प्रदीप्राभ्यां कमनीयाभ्याम् (कर्णाभ्याम्) श्रव-
 णसाधकाभ्याम् (श्रोत्रम्) शृणोति येन तत् (श्रोत्राभ्या-
 म्) शृणोति याभ्यां गोलकाभ्यां ताभ्यां (कर्णां) करोति
 श्रवणं याभ्यांतौ (तेदनीम्) श्रवणक्रियाम् (अधरकण्ठेन)
 अधस्थेन कण्ठेन (अपः) जलानि (शुष्ककण्ठेन) (चित्तम्)
 विज्ञानसाधिकामन्तःकरणवृत्तिस् (मन्याभिः) विज्ञानक्रि-
 याभिः (अदितिम्) अविनाशिकां प्रज्ञाम् (शीर्ष्णा) शिरसा
 (निःकृतिम्) भूमिम् (निर्जर्जल्पेन) नितरां जर्जरीभूतेन
 (शीर्ष्णा) शिरसा (सुड्क्रौशैः) सम्यगाह्वानैः (प्राणान्)
 (रेष्माणम्) हिंसकम् (स्तुपेन) हिंसनेन ॥ २ ॥

अन्वयः—हे जिज्ञासो मदुपदेशग्रहणेन त्वं प्राणेनापानेन वातं नासिके उपयाममधरेणौष्ठेनोत्तरेण प्रकाशेन सदन्तरमनूकाशेन वाह्य-मूर्ध्ना निवेप्यं निर्वाधेन सह स्तनयित्नुमशानि मस्तिष्केण विद्युतं कर्नीनकाभ्यां कर्णाभ्यां कर्णौ श्रोत्राभ्यां च श्रोत्रं तेदनीमधरकण्ठे-नापः शुष्ककण्ठेन चित्तं मन्याभिरदिति शीष्णां निर्ऋतिं निर्जर्ज-ल्पेन शीष्णां संक्रोशैः प्राणान प्राप्नुहि । स्तुपेन हिंसनेन रेष्माणम-विद्यादिरोगं हिन्धि ॥ २ ॥

भावार्थः—सर्वमनुष्यैः प्रथमवयसि सर्वैः शरीरादिभिः साधनैः शरीरात्मवले संसाधनीये अविद्याकुशित्वाकुशीलादयो रोगाः सर्वथा हन्तव्याः ॥ २ ॥

पदार्थः—हे जानने की इच्छा करने वाले ! मेरे उपदेश के ग्रहण से तू (प्राणेन) प्राण और (अपानेन) अपान से (वातम्) पवन और (नासिके) नासिकाछिद्रों और (उपयामम्) प्राप्त हुए नियम को (अधरेण) नीचे के (ओष्ठेन) ओष्ठ से (उत्तरेण) ऊपरके (प्रकाशेन) प्रकाशरूप ओष्ठ से (सदन्तरम्) बीच में विद्यमान मुख आदि स्थान को (अनूकाशेन) पीछे से प्रकाश होने वाले अङ्ग से (वाह्यम्) बाहर हुए अङ्ग को (मूर्ध्ना) शिर से (निवेप्यम्) जो निश्चय से व्याप्त होने योग्य उम को (निर्वाधेन) निरन्तर ताड़ना के हेतु के साथ (स्तनयित्नुम्) शब्द करने हारी (अशानिम्) विजुली को (मस्तिष्केण) शिर की चरबी और नशों से (विद्युतम्) अति प्रकाश मान विजुली को (कर्नीनकाभ्याम्) दिपते हुए (कर्णाभ्याम्) शब्द को सुनवाने हारे पवनों से (कर्णौ) जिन से श्रवण करता उन कानों को और (श्रोत्राभ्याम्) जिन गोल २ छेदों से सुनता उन से (श्रोत्रम्) श्रवणेन्द्रिय और (तेदनीम्) श्रवण करने की क्रिया को (अधरकण्ठेन) कण्ठ के नीचे के भाग से (अपः) जलों (शुष्ककण्ठेन) सूखते हुए कण्ठ से (चित्तम्)

विशेष ज्ञान सिद्ध कराने हारे अन्तःकरण के वर्त्तव को (मन्थाभिः) विशेष ज्ञान की क्रियाओं से (अदितिम्) न विनाश को प्राप्त होने वाली उत्तम बुद्धि को (शीर्ष्णा) शिर से (निर्ऋतिम्) भूमि को (निर्जर्जल्पेन) निरन्तर जीर्ण सब प्रकार परिपक्व हुए (शीर्ष्णा) शिर और (संकोशैः) अच्छे प्रकार बुलावाओं से (प्राणान्) प्राणों को प्राप्त हो तथा (स्तुपेन) हिंसा से (रेष्माणम्) हिंसक अविद्या आदि रोग का नाश कर ॥ १ ॥

भावार्थः—सब मनुष्यों को चाहिये कि पहिली अवस्था में समस्त शरीर आदि साधनों से शारीरिक और आत्मिक बल को अच्छे प्रकार सिद्ध करें और अविद्या दृष्ट शिखावट निन्दित स्वभाव आदि रोगों को सब प्रकार हनन करें ॥ २ ॥

मशकानित्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । इन्द्रादयो देवताः ॥

धुरिकृतिश्छन्दः । निपादः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

मशकान्केशैरिन्द्रश्च स्वपसा वहैन बृहस्पतिश्च
शकुनिसादेन कूर्माञ्छफैराक्रमणश्च स्थूराभ्यामृ-
क्षलाभिः कृपिञ्जलान् ज्वं जहृघाभ्यामध्वानं
बाहुभ्यां जाम्बीलेनारण्यमग्निमतिरुग्भ्यां पूषणं
दोभ्यामश्विनावश्चसाभ्याश्च रुद्रश्च रौराभ्याम् ॥३॥

मशकान् । केशैः । इन्द्रम् । स्वपसेति सुऽअपसा ।
वहैन । बृहस्पतिम् । शकुनिसादेनेति शकुनिऽसादेन ।
कूर्मान् । शफैः । आक्रमणमित्याऽक्रमणम् । स्थू-
राभ्याम् । ऋक्षलाभिः । कृपिञ्जलान् । ज्वम् ।

जङ्घाभ्याम् । अध्वानम् । बाहुभ्यामिति बाहु-
ऽभ्याम् । जाम्बीलेन । अरण्यम् । अग्निम् । अति-
रुग्भ्यामित्यतिरुग्ऽभ्याम् । पूषणम् । दोर्भ्यामिति
दोऽभ्याम् । अश्विनौ । अंसाभ्याम् । रुद्रम् ।
रोराभ्याम् ॥ ३ ॥

पदार्थः—(मशकान्) (केशैः) शिरस्थैर्वालैः (इन्द्रम्)
ऐश्वर्यम् (स्वपसा) सुष्टु कर्मणा (वहेन) प्रापणेन (वृ-
हस्पतिम्) बृहत्या वाच स्वामिनं विद्वांसम् (शकुनि-
सादेन) येन शकुनीन्सादयति तेन (कूर्मान्) कच्छपा-
न् (शफैः) खुरैः (आक्रमणम्) स्थूराभ्याम् (स्थूला-
भ्याम्) (ऋक्षलाभिः) गत्यादानैः (कपिञ्जलान्) प-
क्षिविशेषान् (जवम्) वेगम् (जङ्घाभ्याम्) (अ-
ध्वानम्) मार्गम् (बाहुभ्याम्) भुजाभ्याम् (जाम्बी-
लेन) फलविशेषेण (अरण्यम्) वनम् (अग्निम्)
पावकम् (अतिरुग्भ्याम् रुचीच्छाभ्याम् (पूषणम्)
पुष्टिम् (दोर्भ्याम्) भुजदण्डाभ्याम्) (अश्विनौ)
प्रजाराजानौ (अंसाभ्याम्) भुजमूलाभ्याम् (रुद्रम्)
रोदयितारम् (रोराभ्याम्) कथनश्रवणाभ्याम् ॥ ३ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यूयं केशैरिन्द्रं शकुनिसादेन कूर्मान् मशका-
न् स्वपसा वहेन बृहस्पतिं स्थूराभ्यामृक्षलाभिः कपिञ्जलान् जङ्घा-
भ्यामध्वानं जवमंसाभ्यां बाहुभ्यां शफैराक्रमणं जाम्बीलेनारण्यम-
ग्निमतिरुग्भ्यां पूषणं दोर्भ्यामश्विनौ प्राप्नुत रोराभ्यां रुद्रं च ॥३॥

भावार्थः—मनुष्यैर्बहुभिरुपायैरुत्तमा गुणाः प्रापणीया विघ्नाश्च
निवारणीयाः ॥ ३ ॥

पदार्थः-हे मनुष्यो (केशैः) शिर के बालों से (इन्द्रम्) ऐश्वर्य को (श-
कुनिसादेन) जिस से पक्षियों को स्थिर कराता उस व्यवहार से (कूर्मान्)
कछुओं और (मशकान्) मशों को (स्वपसा) उत्तम काम और (बहेन)
प्राप्ति कराने से (बृहस्पतिम्) बड़ी वाणी के स्वामी विद्वान् को (स्थूराभ्या-
म्) स्थूल (ऋक्षलाभिः) चाल और ग्रहण करने आदि क्रियाओं से (क-
पिञ्जलान् कपिञ्जल नामक पक्षियों को (जङ्घाभ्याम्) जङ्घाओं से (अश्वान-
म्) मार्ग और (जवम्) वेग को (असाभ्याम्) भुजाओं के मूल अर्थात्
बगलों (बाहुभ्याम्) भुजाओं और (शफैः) खुरों से (आक्रमणम्) चाल को
(जाम्बीलेन) जमुनि आदि के फल से (अरण्यम्) वन और (अग्निम्)
अग्नि को (अतिरुग्भ्याम्) अतीव रुचि प्रीति और इच्छा से (पूषाम्) पु-
ष्टि को तथा (दोर्भ्याम्) भुजदण्डों से (अश्विर्ना) प्रजा और राजा को प्रा-
प्त होओ और (रोराभ्याम्) कहने सुनने से (रुद्रम्) रुलाने द्वारे को प्राप्त
होओ ॥ ३ ॥

भावार्थः-मनुष्यों को चाहिये कि बहुत उपायों से उत्तम गुणों की प्राप्ति और
विघ्नों की निवृत्ति करें ॥ ३ ॥

अग्नेरित्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । अग्न्यादयो देवताः । स्वराङ्
धृतिश्छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

पुनः कस्य का क्रिया कर्त्तव्येत्याह ॥

फिर किस को क्या क्रिया करने योग्य है इस वि० ॥

अग्नेः पक्षतिर्वायोर्निपक्षतिरिन्द्रस्य तृतीया
सोमस्य चतुर्थ्यादित्यै पचमीन्द्राण्यै षष्ठी मरु-
तांशसप्रमी बृहस्पतेरष्टम्यर्यम्णो नवमी धातुर्द-
शमीन्द्रस्यैकादशी वरुणास्य द्वादशी यमस्य
त्रयोदशी ॥ ४ ॥

अग्नेः । पक्षतिः । वायोः । निपक्षतिरिति निऽपक्षतिः ।
इन्द्रस्य । तृतीया । सोमस्य । चतुर्थी । अदित्यै । पंच-
मी । इन्द्राण्यै । षष्ठी । मरुताम् । सप्तमी । बृहस्पतेः ।
अष्टमी । अर्यम्णः । नवमी । धातुः । दशमी । इन्द्रस्य
एकादशी । वरुणस्य । द्वादशी । यमस्य । त्रयोदशी-
ति त्रयःऽदशी ॥ ४ ॥

पदार्थः—(अग्नेः) पावकस्य (पक्षतिः) पक्षस्य परिग्र-
हस्य मूलम् (वायोः) पवनस्य (निपक्षतिः) निश्चितस्य
मूलम् (इन्द्रस्य) सूर्यस्य (तृतीया) त्रयाणां पूरणा
क्रिया (सोमस्य) चन्द्रस्य (चतुर्थी) चतुर्णां पूरणा (अ-
दित्यै) अन्तरिक्षस्य (पञ्चमी) पञ्चानां पूरणा (इन्द्रा-
ण्यै) इन्द्रस्य विद्युद्गुणस्य स्त्रीव वर्त्तमानायै दीप्त्यै (ष-
ष्ठी) षण्णां पूरणा (मरुतां) वायूनाम् (सप्तमी)
सप्तानां पूरणा (बृहस्पतेः) बृहतां पालकस्य महत्त्व-
स्य (अष्टमी) अष्टानां पूरणा (अर्यम्णः) अर्याणां
स्वामिनां सत्कर्तुः (नवमी) नवानां पूरणा (धातुः)
धारकस्य (दशमी) दशानां पूरणा (इन्द्रस्य) ऐश्वर्यव-
तः (एकादशी) एकादशानां पूरणा (वरुणस्य) श्रेष्ठ-
स्य (द्वादशी) द्वादशानां पूरणा (यमस्य) न्याया-
धीशस्य (त्रयोदशी) त्रयोदशानां पूरणा ॥ ४ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या युष्माभिरग्नेः पक्षतिर्वायोर्निपक्षतिरिन्द्रस्य
तृतीया सोमस्य चतुर्थ्यादित्यै पञ्चमीन्द्राण्यै षष्ठी मरुतां सप्तमी
बृहस्पतेरष्टम्यर्यम्णो नवमी धातुर्दशमीन्द्रस्यैकादशी वरुणस्य द्वादशी
यमस्य त्रयोदशी च क्रियाः कर्त्तव्याः ॥ ४ ॥

भावार्थः—हे मनुष्या युष्माभिः क्रियाविज्ञानसाधनैरग्न्यादीनां गुणान् विदित्वा सर्वाणि कार्याणि साधनीयानि ॥ ४ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो तुम को (अग्नेः) अग्नि की (पत्नतिः) सब आरे से ग्रहण करने योग्य व्यवहार की मूल (वायोः) पवन की (निपत्नतिः) निश्चित विषय का मूल (इन्द्रस्य) सूर्य की (तृतीया) तिन को पूरा करने वाली क्रिया (सोमस्य) चन्द्रमा की (चतुर्थी) चार को पूरा करने वाली (अदितेः) अन्तरिक्ष की (पञ्चमी) पांचमी (इन्द्राण्यै) स्त्री के समान वर्तमान जो बिजुलीरूप अग्नि की लपट उस की (षष्ठी) छठी (मरुताम्) पवनों की (सप्तमी) सातवीं (बृहस्पतेः) बड़ों की पालना करने वाले महत्त्व की (अष्टमी) आठमी (अर्धमणः) स्वापी जनों का सत्कार करने वाले की (नवमी) नवीं (धातुः) धारण करने वाले की (दशमी) दशमी (इन्द्रस्य) ऐश्वर्यवान् की (एकादशी) ग्यारहवीं (वरुणस्य) श्रेष्ठ पुरुष की (द्वादशी) बाहरवीं और (यमस्य) न्यायाधीश राजा की (त्रयोदशी) तेरहवीं क्रिया करनी चाहिये ॥ ४ ॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! तुम को क्रिया के विशेष ज्ञान और साधनों से अग्नि आदि पदार्थों के गुणों को जान कर सब कार्यों की सिद्धि करनी चाहिये ॥ ४ ॥

इन्द्राग्न्योरित्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । इन्द्रादयो देवताः ।

स्वराह्विकृतिरछन्दः । मध्यम स्वरः ॥

पुनः किमर्था का भवतीत्याह ॥

फिर किस के अर्थ कौन होती है इस वि० ॥

इन्द्राग्न्योः पञ्चतिः सरस्वत्यै निपत्नतिर्मित्रस्य तृतीयाऽपां चतुर्थी निऋत्यै पञ्चम्यग्नीषोमयोः षष्ठी सर्पाणां सप्तमी विष्णोरष्टमी पूष्णो नवमी त्वष्टुर्दशमीन्द्रस्यैकादशी वरुणस्य द्वादशी यम्यै त्रयोदशी द्यावापृथिव्योर्दाक्षिणं पार्श्वं विश्वेषां देवानामुत्तरम् ॥ ५ ॥

इन्द्राग्न्योः । पक्षतिः । सरस्वत्यै । निपक्षतिरिति
निऽपक्षतिः । मित्रस्य । तृतीया । अपाम् । चतुर्थी ।
तिर्ऋत्याऽइति निऽऋत्यै । पञ्चमी । अग्नीषोमयोः ।
षष्ठी । सर्पाणाम् । सप्तमी । विष्णोः । अष्टमी । पूष्णः ।
नवमी । त्वष्टुः । दशमी । इन्द्रस्य । एकादशी । वरु-
णास्य । द्वादशी । यम्यै । त्रयोदशीति त्रयः ऽदशी ।
द्यावापृथिव्योः । दक्षिणाम् । पार्श्वम् । विश्वेषाम्
देवानाम् । उत्तरम् ॥ ५ ॥

पदार्थः—(इन्द्राग्न्योः) वायुपावकयोः (पक्षतिः) (सर-
स्वत्यै) (निपक्षतिः) (मित्रस्य) सख्युः (तृतीया)
(अपाम्) जलानाम् (चतुर्था) (तिर्ऋत्यै) भूम्यै
(पञ्चमी) (अग्नीषोमयोः) शीतोष्णकारकयोर्जला-
ग्न्योः (षष्ठी) (सर्पाणाम्) (सप्तमी) (विष्णोः)
(व्यापकस्य) (अष्टमी) (पूष्णः) पोषकस्य (नवमी)
(त्वष्टुः) प्रदीप्तस्य (दशमी) (इन्द्रस्य) जीवस्य
(एकादशी) (वरुणस्य) श्रेष्ठजनस्य (द्वादशी) (यम्यै)
यमस्य न्यायकर्तुः स्त्रियै (त्रयोदशी) (द्यावापृथिव्योः)
प्रकाशभूम्योः (दक्षिणम्) (पार्श्वम्) (विश्वेषाम्)
सर्वेषाम् (देवानाम्) विदुषाम् (उत्तरम्) ॥ ५ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यूयमिन्द्राग्न्योः पक्षतिः सरस्वत्यै निपक्ष-
तिर्मित्रस्य तृतीयाणां चतुर्थी तिर्ऋत्यै पञ्चम्याग्नीषोमयोः षष्ठी
सर्पाणां सप्तमी विष्णोरष्टमी पूष्णो नवमी त्वष्टुर्दशमीन्द्रस्यैकादशी
वरुणस्य द्वादशी यम्यै त्रयोदशी च क्रिया द्यावापृथिव्योर्दक्षिणं
पार्श्वं विश्वेषां देवानामुत्तरं च विजानीत ॥ ५ ॥

भावार्थः—मनुष्यैरेतेषां विज्ञानाय विविधाः क्रियाः कृत्वा कार्या-
णि साधनीयानि ॥ ५ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! तुम लोग जो (इन्द्रान्योः) पवन और अग्नि की
(पक्षतिः) सब ओर से ग्रहण करने योग्य व्यवहार की मूल पहिली (सर-
स्वत्यै) वाणी के लिये (निपक्षतिः) निश्चित पक्ष का मूल दूसरी (मित्रस्य)
मित्र की (तृतीया) तीसरी (अपाम्) जलों की (चतुर्थी) चौथी (निर्ऋत्यै)
भूमि की (पञ्चमी) पांचवी (अग्निषोमयोः) गर्मी सरदी को उत्पन्न करने
वाले अग्नि तथा जल की (षष्ठी) छठी (सर्पाणाम्) साँपों की (सप्तमी)
सातवीं (विष्णोः) व्यापक ईश्वर की (अष्टमी) आठमी (पूष्याः) पुष्टि
करने वाले की (नवमी) नवमी (त्वष्टुः) उत्तम दिपते हुए की (दशमी)
दशमी (इन्द्रस्य) जीव की (एकादशी) ग्यारहवीं (वरुणस्य) श्रेष्ठ जन की
(द्वादशी) बारहवीं और (यम्यै) न्याय करने वाले की स्त्री के लिये (त्रयो-
दशी) तेरहवीं क्रिया है उन सब को तथा (द्यावापृथिव्योः) प्रकाश और
भूमि के (दक्षिणम्) दक्षिण (पार्श्वम्) ओर को और (विश्वेषाम्) सब
(देवानाम्) विद्वानों के (उत्तरम्) उत्तर ओर को जानो ॥ ५ ॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि इन उक्त पदार्थों के विशेष ज्ञान के लिये
अनेक क्रियाओं को करके अपने २ कामों को सिद्ध करें ॥ ५ ॥

मरुतामित्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । मरुतादयो देवताः ।

निचृदतिधृतिश्छन्दः । पङ्कः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

मरुतास्कन्धा विश्वेषां देवानां प्रथमा
कीकसा रुद्राणां द्वितीयादित्यानां तृतीया वायोः
पुच्छं सुग्नीषोमयोर्भासदौ क्रुञ्चौ श्रोणिभ्या-

मिद्राबृहस्पती ऊरुभ्यां मित्रावरुणावल्गाभ्या-
माक्रमणस्थूराभ्यां बलकुष्ठाभ्याम् ॥ ६ ॥

मरुताम् । स्कन्धाः । विवेषाम् । देवानाम् । प्रथमा ।
कीकसा । रुद्राणाम् । द्वितीया । आदित्यानाम् ।
तृतीया । वायोः । पुच्छम् । अग्नीषोमयोः । भासदौ ।
क्रुञ्चौ । श्रोणिभ्यामिति श्रोणिभ्याम् । इन्द्राबृहस्प-
ती इतिन्द्राबृहस्पती । ऊरुभ्यामित्यूरुभ्याम् । मित्रा-
वरुणौ । अल्गाभ्याम् । आक्रमणमित्याऽक्रमणम् ।
स्थूराभ्याम् । बलम् । कुष्ठाभ्याम् ॥ ६ ॥

पदार्थः— (मरुताम्) मनुष्याणाम् (स्कन्धाः) भुजदण्डमू-
लानि (विवेषाम्) (देवानाम्) विदुषाम् (प्रथमा) आदिमा
(कीकसा) भृशं शासनानि (रुद्राणाम्) (द्वितीया) ताडनक्रि-
या (आदित्यानाम्) अखण्डितन्यायाथीशानाम् (तृतीया)
न्यायक्रिया (वायोः) (पुच्छम्) पशोरवयवम् (अग्नीषो-
मयोः) (भासदौ) यौ भासं प्रकाशं दद्यातां तो (क्रुञ्चौ)
पक्षिविशेषौ (श्रोणिभ्याम्) कटिप्रदेशाभ्याम् (इन्द्रा बृह-
स्पती) वायुसूर्यौ (ऊरुभ्याम्) जानुनऊर्ध्वाभ्यां पादावय-
वाभ्याम् (मित्रावरुणौ) प्राणोदानौ (अल्गाभ्याम्) अलं
गन्तृभ्याम् । अत्र छान्दसो वर्णलोप इति टिलोपः । आ-
क्रमणम् (स्थूराभ्याम्) स्थूलाभ्याम् । अत्र कपिलका-
दित्वाल्लुत्वविकल्पः (बलम्) (कुष्ठाभ्याम्) निष्कर्षा-
भ्याम् ॥ ६ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या युष्माभिर्मरुतां स्कन्धा विश्वेषां देवानां प्रथमा कीकसारुद्राणां द्वितीयाऽऽदित्यानां तृतीया वायोः पुच्छमग्नीषोमगोर्भासदौ क्रुञ्चौ श्रोणिभ्यामिन्द्रावृहस्पती ऊरुभ्यां मित्रावरुणावल्गाभ्यां क्रमणं कुष्टाभ्यां स्थूराभ्यां बलं च निष्पादनीयम् ॥ ६ ॥

भावार्थः—मनुष्यैर्भुजबलं स्वाङ्गपुष्टिदुष्टनाशनं न्यायप्रकाशादीनि च कर्माणि सदा कर्तव्यानि ॥ ६ ॥

पदार्थः— हे मनुष्यो ! तुम को (मरुताम्) मनुष्यों के (स्कन्धाः) कंधा (विश्वेषाम्) सब (देवानाम्) विद्वानों की (प्रथमा) पहिली क्रिया और (कीकसा) निरन्तरशिखावटें (रुद्राणाम्) रूताने हारे विद्वानों की (द्वितीया) दूसरी ताडन रूप क्रिया (आदित्यानाम्) अखण्डित न्याय करने वाले विद्वानों की (तृतीया) तीसरी न्याय क्रिया (वायोः) पवनसम्बन्धी (पुच्छम्) पशु की पूँछ अर्थात् जिससे पशु अपने शरीर को पवन देता (अग्नीषोमयोः) अग्नि और जल सम्बन्धी (भासदौ) जो प्रकाश को देवें वे (क्रुञ्चौ) कोई विशेष पक्षी वा सारस (श्रोणिभ्याम्) चूतड़ों से (इन्द्रावृहस्पती) पवन और सूर्य (ऊरुभ्याम्) जाँघों से (मित्रावरुणौ) प्राण और उदान (अल्गाभ्याम्) परिपूर्ण चलने वाले प्राणियों से (आक्रमणम्) चाल तथा (कुष्टाभ्याम्) निचोड़ और (स्थूराभ्याम्) स्थूल पदार्थों से (बलम्) बल को सिद्ध करना चाहिये ॥ ६ ॥

भावार्थः— मनुष्यों को भुजाओं का बल अपने अंग की पुष्टि, दुष्टों को ताड़ना और न्याय का प्रकाश आदि काम सदा करने चाहिये ॥ ६ ॥

पूषणमित्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । पूषादंयो देवताः ।

निचृदाष्टिश्छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

पूषणं वनिष्ठुनान्धाहीन्स्थूलगुदयां सर्पान् गुदा-
भिर्विचृतान्त्रैरपो वस्तिनावृषणमाण्डाभ्यां

वाजिनश्च शेषेन प्रजाश्च रेतसा चाषान् पित्तेन प्रदरान् प्रायुना कूश्माञ्छकपिण्डैः ॥ ७ ॥

पूषणम् । वनिष्ठुना । अन्धाहीनित्यन्धऽअहीन् । स्थूलगुदयेति स्थूलऽगुदया । सर्पान् । गुदाभिः । विञ्हुत इतिविञ्हुतः । आन्त्रैः । अपः । वस्तिना । वृषणम् । आण्डाभ्याम् । वाजिनम् । शेषेन । प्रजामिति प्रऽजाम् । रेतसा । चाषान् । पित्तेन । प्रदरानिति प्रऽदरान् । प्रायुना । कूश्मान् । शकपिण्डैरिति शकऽपिण्डैः ॥ ७ ॥

पदार्थः— (पूषणम्) पुष्टिकरम् (वनिष्ठुना) याचनेन (अन्धाहीन्) अन्धान् सर्पान् (स्थूलगुदया) स्थूलया गुदया सह (सर्पान्) (गुदाभिः) (विञ्हुतः) विशेषेण कुटिलान् (आन्त्रैः) उदरस्थैर्नाडीविशेषैः (अपः) जलानि (वस्तिना) नाभेरधोभागेन (वृषणम्) वीर्याधारम् (आण्डाभ्याम्) अण्डाकाराभ्यां वृषणावयवाभ्याम् (वाजिनम्) अश्वम् (शेषेन) लिंगेन (प्रजाम्) सन्ततिम् (रेतसा) वीर्येण (चाषान्) भक्षणानि (पित्तेन) (प्रदरान्) उदरावयवान् (प्रायुना) एतदिन्द्रियेण (कूश्मान्) शासनानि । अत्र कशधातोर्मकपृत्ययोऽन्येषामपीति दीर्घश्च (शकपिण्डैः) शक्तेः संघातैः ॥ ७ ॥

अन्वयः— हे मनुष्या यूयं वनिष्ठुना पूषणं स्थूलगुदया सह वर्त्तमानानन्धाहीन् गुदाभिः सहितान् विञ्हुतः सर्पानान्त्रैरपो वस्तिना

वृषणमारुडाभ्यां वाजिनं शेषेन रेतसा प्रजां पित्तेन चापान् प्रदरान्
पायुना शकपिएडैः कूष्मान् निगृहीत ॥ ७ ॥

भावार्थः—येन येन यत्कार्यं सिध्येत्तेन तेनांगेन पदार्थेन वा
तत्तत्साधनीयम् ॥ ७ ॥

पदार्थः— हे मनुष्यो! तुम (वनिष्ठुना) मांगने से (वृषणम्) पुष्टि करने
वाले को (स्थूलगुदया) स्थूल गुदेन्द्रिय के साथ वर्तमान (अन्धाहीन) अन्य
सांपों को (गुदाभिः) गुदेन्द्रियों के साथ वर्तमान (विन्हुतः) विशेष कुटिल
(सर्पान्) सर्पों को (आन्त्रैः) आंतों से (अपः) जंतों को (वस्तिना) नाभि
के नीचे के भाग से (वृषणम्) अण्डकोष को (अण्डाभ्याम्) आंडों से (वा
जिनम्) घोड़ों को (शेषेन) लिङ्ग और (रेतसा) वीर्य से (प्रजाम्) स-
न्तान को (पित्तेन) पित्त से (चापान्) भोजनों को (प्रदरान्) पेट के अंगों
को (पायुना) गुदेन्द्रिय से और (शकपिएडैः) शक्तियों से (कूष्मान्) शि-
खावटों को निरन्तर लेओ ॥ ७ ॥

भावार्थः— जिस २ से जो २ काम सिद्ध हो उस २ अङ्ग वा पदार्थ से
बह २ काम सिद्ध करना चाहिये ॥ ७ ॥

इन्द्रस्येत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । इन्द्रादयो देवता ।

निचृदभिकृतिश्छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

पुनः कस्य कस्य गुणाः पशुषु सन्तीत्याह ॥

फिर किस २ के गुण पशुओं में है इस वि० ॥

इन्द्रस्य क्रोडोऽदित्यै पाजस्यं दिशां जत्रवोऽदि-
त्यै भसज्जीमूतान् हृदयौपशेनान्तरिक्षं पुरीत-
तानभ उदर्येण चक्रवाको मत्सनाभ्यां दिवंबृक्का-

गिरीन् प्लाशिभिरुपलान् प्रीह्ना वल्मीकान् क्लो-
मभिर्ग्लोभिर्गुल्मान् हिराभिः स्रवन्तीर्हृदान्
कुक्षिभ्यां समुद्रमुदरेण वैश्वानरं भस्मना ॥८॥

इन्द्रस्य । क्रोडः । अदित्यै । पाजस्यम् । दिशाम् ।
जत्रवः । अदित्यै । भसत् । जीमूतान् । हृदयौपशने ।
अन्तरिक्षम् । पुरीतता । पुरिततेति पुरिऽतता । नभः ।
उदरेण । चक्रवाकाविति चक्रऽवाकौ । मतस्नाभ्याम् ।
दिवम् । वृक्षाभ्याम् । गिरीन् । प्लाशिभिरिति प्लाशिऽभिः ।
उपलान् । प्लीह्ना । वल्मीकान् । क्लोमभिरिति क्लो-
मऽभिः । ग्लोभिः । गुल्मान् । हिराभिः । स्रवन्तीः ।
हृदान् । कुक्षिभ्यामिति कुक्षिऽभ्याम् । समुद्रम् ।
उदरेण । वैश्वानरम् । भस्मना ॥ ८ ॥

पदार्थः— (इन्द्रस्य) विद्युत्तः (क्रोडः) निमज्जनम् (अ-
दित्यै) पृथिव्यै (पाजस्यम्) पाजस्वन्नेषु साधु (दिशाम्)
(जत्रवः) सन्धयः (अदित्यै) दिवे प्रकाशाय । अदिति-
र्दाविति प्रमाणात् (भसत्) दीपनम् (जीमूतान्) मे-
घान् । अत्र जेषूद चोदात्त इत्यनेनायं सिद्धः । (हृदयौप-
शने) यो हृदये आसभन्तादुपशेते स हृदयौपशो जीव-
स्तेन (अन्तरिक्षम्) अवकाशम् (पुरीतता) हृदयस्थया
नाड्या (नभः) उदकम् (उदरेण) उदरे भवेन (चक्र-
वाकौ) पक्षिविशेषाविव (मतस्नाभ्याम्) ग्रीवोभयभा-
गाभ्याम् (दिवम्) प्रकाशम् (वृक्षाभ्याम्) याभ्यां

वर्जन्ति ताभ्याम् (गिरीन्) शैलान् (प्लाशिभिः) प्रक-
र्षणाशनक्रियाभिः (उपलान्) मेघान् । उपल इति मे-
घना० निघ० १ । १० (प्लीहा) हृदयस्थावयवेन (वल्मी-
कान्) मार्गान् (क्लोमभिः) क्लेदनैः (ग्लौंभिः) हर्षक्षयैः
(गुल्मान्) दक्षिणपार्श्वोदरस्थितान् (हिराभिः) वृद्धि-
भिः (स्रवन्तीः) नदीः (हृदान्) जलाशयान् (कुक्षि-
भ्याम्) (समुद्रम्) (उदरेण) (वैश्वानरम्) सर्वेषां
प्रकाशकम् (भस्मना) दग्धशेषेण निस्सारेण ॥ ८ ॥

अन्वयः-हे मनुष्या युष्माभिः प्रयत्नेन्द्रस्य क्रोडंऽदित्यै पाजस्यं
दिशां जत्रवोऽदित्यै भस्मन्न विलेयाः । जीमूतान् हृदयोपशेन पुरीत-
ताऽन्तरिक्षमुदर्येण नभश्चक्रवाकौ मतस्नाभ्यां दिवं वृक्षाभ्यां गिरीन्
प्लाशिभिरुपलान् प्लीहा वल्मीकान् क्लोमभिर्ग्लौंभिश्चगुल्मान् हिराभिः
स्रवन्तीर्हृदान् कुक्षिभ्यां समुद्रमुदरेण भस्मना च वैश्वानरं गृह्यं
विजानीत ॥ ८ ॥

भावार्थः- यदि मनुष्या अनंक्रान् विद्याबाधान प्राप्यं युक्ताहार-
विहारैः सर्वाण्यङ्गानि संपोष्य रोगान्निवारयेयुस्तर्हि ते धर्मार्थकाम-
मोक्षानामुयुः ॥ ८ ॥

पदार्थः- हे मनुष्यो ! तुम को उत्तम यत्न के साथ (इन्द्रस्य) धिजुली का
(क्रोडः) डूबना (अदित्यै) पृथिवी के लिये (पाजस्यम्) अत्रों में जो उत्तम
वह (दिशाम्) दिशाओं की (जत्रवः) सन्धि अर्थात् उन का एक दूसरे से
मिलना (अदित्यै) अखण्डित प्रकाश के लिये (भस्मत्) लपट ये सब पदार्थ
जानने चाहिये तथा (जीमूतान्) मेघों को (हृदयोपशेन) जो हृदय में
सोता है उस जीव से (पुरीतता) हृदयस्थ नाडी से (अन्तरिक्षम्) हृदय के
अवकाश को (उदर्येण) उदर में होते हुए व्यवहार से (नभः) जल और
(चक्रवाकौ) चकई चक्रवा पक्षियों के समान जो पदार्थ उन को (मतस्नाभ्याम्)

गले के दोनों ओर के भागों से (दिवम्) प्रकाश कों (वृक्षाभ्याम्) जिन क्रियाओं से अपगुणों का त्याग होता है उन से (गिरीन्) पर्वतों को (प्लाशिभिः) उत्तम भोजन आदि क्रियाओं से (उंयलान्) दूसरे प्रकार के भेषों को (प्लीहना) हृदयस्थ छिदा अंग से (वल्मीकान्) मागा को (क्लोमभिः) गीलपन और (ग्लोभिः) हर्ष तथा ग्लानियों से (गुल्मान्) दाहिनी ओर उदर में स्थित जो पदार्थ उन को (हिराभिः) वहतियों से (स्रवन्तीः) नदियों को (रुदान्) छोटे बड़े जलाशयों को (कुक्षिभ्याम्) कोखों से (समुद्रम्) अच्छे प्रकार जहां जल जाता उस समुद्र को (उदरेण) पेट और (भस्मना) जले हुए पदार्थ का जो शेष भाग उस राख से (वैश्वानरम्) सब के प्रकाश करने हारे अग्नि को तुम लोग जानो ॥ ८ ॥

भावार्थः—जो मनुष्य अनेक विद्याबोधों को प्राप्त हो कर ठीक २ यथोचित आहार और विहारों से सब अंगों को अच्छे प्रकार पुष्ट कर रोगों की निवृत्ति करें तो वे धर्म अर्थ काम और मोक्ष को अच्छे प्रकार प्राप्त होंगे ॥ ८ ॥

विधृतिमित्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । पूषादयो देवताः ।

भुरिगत्यष्टिश्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनः कन किं भवतीत्याह ॥

फिर किस से क्या होता है इस वि० ॥

विधृतिं नाभ्यां घृतं रसेनापो यूष्णा मरीची-
विप्रुड्भिर्नीहारमूष्मणां शीलं वसंथा पुष्वाअश्रुभि-
र्द्वादुनीर्दूषीकाभिश्स्ना रक्षांसि चित्राण्यङ्गैर्नक्ष-
त्राणि रूपेण पृथिवीं त्वचा जुम्बकाय स्वाहा ॥९॥

विधृतिमितिविधृतिम् । नाभ्यां । घृतम् । रसेन ।
अपः । यूष्णा । मरीचीः । विप्रुड्भिरिति विप्रुड्भिः । नीहारम् ।

ऊष्मणां । शीनम् । वसया । पुष्वाः । अश्रुभिरित्यश्रु-
भिः । ऋदुनीः । दूर्षीकाभिः । अस्ना । रक्षांसि ।
चित्राणि । अद्गैः । नक्षत्राणि । रूपेण । पृथिवीम् ।
त्वचा । जुम्बकायं । स्वाहा ॥ ९ ॥

पदार्थः—(विधृतिम्) विशेषेण धारणात् (नाश्या)
शरीरस्य मध्यावयवेन (घृतम्) आज्यम् (रसेन) (अपः)
जलानि (यूष्णा) क्लथितेन रसेन (मरीचीः) किरणान्
(विप्रुडभिः) विशेषेण पूर्णैः (नीहारम्) प्रभातसमये सोम-
वद्वर्त्तमानम् (ऊष्मणा) ऊष्णतया (शीनम्) संकुचितं
घृतम् (वसया) निवासहेतुना जीवनेन (पुष्वाः)
पुष्णान्ति सिंचन्ति याभिस्ताः (अश्रुभिः) रोदनैः (ऋ-
दुनीः) शब्दानामव्यक्तोच्चारणाक्रियाः (दूर्षीकाभिः)
विक्रियाभिः (अस्ना) रुधिराणि (रक्षांसि) पालयि-
तव्यानि (चित्राणि) अद्गुतानि (अद्गैः) अवयवैः
(नक्षत्राणि) (रूपेण) (पृथिवीम्) भूमिम् (त्वचा)
मांसरुधिरादीनां संवरकेणेन्द्रियेण (जुम्बकाय) अतिवेग-
वते (स्वाहा) सत्यां वाचम् ॥ ९ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यूषं नाभ्या विधृतिं घृतं रसेनापो यूष्णा
मरीचीविप्रुडभिर्नीहारसूष्मणा शीनं वसया पुष्वा अश्रुभिर्ऋदुनीर्दू-
षीकाभिश्चित्राणि रक्षांस्यस्त्रद्गैरूपेण नक्षत्राणि त्वचा पृथिवीं वि-
दित्वा जुम्बकाय स्वाहा प्रशुङ्ध्वम् ॥ ९ ॥

भावार्थः—मनुष्यैर्धारणादिभिः कर्मभिर्दुर्न्यसनानि रोगांश्च निवा-
र्य सत्यभाषणादिधर्मलक्षणानि विचार्य प्रवर्त्तनीयम् ॥ ९ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यों ! तुम लोग (नाभ्या) नाभि से (विधृतिः) विशेष करके धारणा को (घृतम्) घी को (रसेन) रस से (अपः) जलों को (यूष्णा) काथ किये रस से (मरीचीः) किरणों को (विषुद्भिः) विशेषतर पूरण पदार्थों से (नीहारम्) कुहर को (ऊष्मणा) गरमी से (शीनम्) जमे हुए घी को (वसया) निवासहेतु जीवन से (षुष्वाः) जिनसे सींचते हैं उन क्रियाओं को (अश्रुभिः) आंसुओं से (द्वादुनीः) शब्दों की अपकट उच्चारण क्रियाओं को (दूषीकाभिः) विकाररूप क्रियाओं से (चित्राणि) चित्र निचित्र (रक्षांसि) पालना करने योग्य (अस्ना) रुधिरादि पदार्थों को (अङ्गैः) अङ्गों और (रूपेण) रूप से (नक्षत्राणि) तारागणों को और (त्वचा) मांस रुधिर आदि को ढांपने वाली खाल आदि से (पृथिवीम्) पृथिवी को जान कर (जुम्भकाय) अतिवेगवान् के लिये (स्वाहा) सत्य वाणी का प्रयोग अर्थात् उच्चारण करो ॥ ६ ॥

भावार्थः—मनुष्यों को धारणा आदि क्रियाओं से खोटे आचरण और रोगों की निवृत्ति और सत्यभाषण आदि धर्म के लक्षणों का विचार कर प्रवृत्त करना चाहिये ॥ ६ ॥

हिरण्यगर्भ इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । हिरण्यगर्भो देवता ।

त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अथ परमात्मा कीदृशोऽस्तीत्याह ॥

अथ परमात्मा कैसा है इस वि० ॥

हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रै भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् । स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥ १० ॥

हिरण्यगर्भ इति हिरण्यगर्भः । सम् । अवर्त्तत । अग्रै । भूतस्य । जातः । पतिः । एकः । आसीत् ।

सः । दाधार । पृथिवीम् । द्याम् । उत । इमाम् ।
कस्मै । देवाय । हविषा । विधेम ॥ १० ॥

पदार्थः— (हिरण्यगर्भः) हिरण्यानि सूर्यादितेजांसि गर्भे
यस्य स परमात्मा (सम्) (अवर्त्तत) वर्त्तमान आसीत्
(अग्रे) भूम्यादिसृष्टेः प्राक् (भूतस्य) उत्पन्नस्य (जातः) प्रा-
दुर्भूतस्य । अत्र षष्ठ्यर्थे प्रथमा (पतिः) पालकः (एकः) अस-
हायः (आसीत्) अस्ति (सः) (दाधार) धरति (पृथिवीम्)
आकर्षणेन भूमिम् (द्याम्) प्रकाशम् (उत) अपि (इमाम्)
सृष्टिम् (कस्मै) सुखकारकाय (देवाय) द्योतमानाय (हविषा)
होतव्येन पदार्थेन (विधेम) परिचरेम ॥ १० ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यथा वयं यो हिरण्यगर्भो जानो जानस्य
भूतस्यैकोऽग्रे पतिरासीत्सर्वप्रकाशकोऽवर्त्तत स पृथिवीमुत द्यां संदा-
धार । य इमां सृष्टिं कृतवाँस्तस्मै कस्मै देवाय परमेश्वराय हविषा
विधेम तथा यूयमपि विधत्त ॥ १० ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—हे मनुष्या येन परमेश्वरेण सूर्यादि
सर्वं जगन्निर्मितं स्वसामर्थ्येन धृतं च तस्यैवोपासनां कुरुत ॥ १० ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग जो (हिरण्यगर्भः) सूर्यादि तेज वाले
पदार्थ जिस के भीतर हैं वह परमात्मा (जातः) प्रादुर्भूत और (भूतस्य)
उत्पन्न हुए जगत् का (एकः) असहाय एक (अग्रे) भूमि आदि सृष्टि से
पहिले भी (पतिः) पालन करने हारा (आसीत्) है और सब का प्रकाश
करने वाला (अवर्त्तत) वर्त्तमान हुआ (सः) वह (पृथिवीम्) अपनी
आकर्षण शक्ति से पृथिवी (उत) और (द्याम्) प्रकाश को (सम्, दाधार)

अच्छे प्रकार करता है तथा जो (इमाम्) इस सृष्टि को बनाया हुआ अर्थात् जिस ने सृष्टि की उस (कस्मै) सुख करने हारे (देवाय) प्रकाशमान परमात्मा के लिये (हविषा) होम करने योग्य पदार्थ से (विधेम) सेवन का विधान करें वैसे तुम लोग भी सेवन का विधान करो ॥ १० ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो! जिस परमात्मा ने अपने सामर्थ्य से सूर्य आदि समस्त जगत् को बनाया और धारण किया है उसी की उपासना किया करो ॥ १० ॥

यः प्राणत इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । ईश्वरो देवता ।

त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकद्राजा जगतो
बभूव । य ईषे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय
हविषा विधेम ॥ ११ ॥

यः । प्राणतः । निमिषत इति निऽमिषतः । महित्वे-
ति महित्वा । एकः । इत् । राजा । जगतः । बभूव ।
यः । ईषे । अस्य । द्विपदइति द्विऽपदः । चतुष्पदः ।
चतुःपद इतिचतुःऽपदः । कस्मै । देवाय । हविषा । वि-
धेम ॥ ११ ॥

पदार्थः—(यः) सूर्यः (प्राणतः) प्राणिनः (निमिषतः)
चेष्टां कुर्वतः (महित्वा) महत्त्वेन (एकः) असहायः (इत्)
एव (राजा) प्रकाशकः (जगतः) संसारस्य (बभूव) भवति

(यः) (ईशे) ऐश्वर्यं करोति (अस्य) (द्विपदः) द्वौ पा-
दौ यस्य तस्य मनुष्यादेः (चतुष्पदः) चत्वारः पादा यस्य
गवादेस्तस्य (कस्मै) सुखकारकाय (देवाय) दीपकाय
(हविषा) आदानेन (विधेम) सेवेमहि ॥ ११ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यथा वयं यः प्राणतो निमिपतो जगतो म-
हित्वैक इद्राजा बभूव योऽस्य द्विपदश्चतुष्पद ईशे तस्मै कस्मै देवाय
हविषा विधेम तथा ययमप्यनुतिष्ठत ॥ ११ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०— यदि सूर्यो न स्यात्तर्हि स्थावरं
जङ्गमं च जगत्स्वकार्यं कर्तुमसमर्थं स्यात् । यः सर्वेभ्यो महान् सर्व-
ेषां प्रकाशक ऐश्वर्यप्राप्तिहेतुरस्ति स सर्वैर्युक्त्या सेवनीयः ॥ ११ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग (यः) जो सूर्य (प्रातः) श्वास लेते
हुए प्राणी और (निमिपतः) चेट्टा करते हुए (जगतः) संसारका (महित्वा)
बड़ेपन से (एकः) असहाय एक (इत्) ही (राजा) प्रकाश करने वाला
(बभूव) होता है (यः) तथा जो (अस्य) इस (द्विपदः) दोर पग वाले
मनुष्यादि और (चतुष्पदः) चारर पग वाले गौ आदि पशुरूप जगत् का (ईशे)
प्रकाश करता है उस (कस्मै) सुख करने हारे (देवाय) प्रकाशक जगदीश्वर के
लिये (हविषा) ग्रहण करने योग्य पदार्थ वा व्यवहार से (विधेम) सेवन करें
वैसे तुम लोग भी अनुष्ठान किया करो ॥ ११ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो सूर्य न हो तो स्थावर वृक्ष आदि और
जङ्गम मनुष्यादि जगत् अपना र काम देने को समर्थ न हो । जो सब से बड़ा सब का
प्रकाश करने वाला और ऐश्वर्य की प्राप्ति का हेतु है वह ईश्वर सब को युक्ति के साथ
सेवने योग्य है ॥ ११ ॥

यस्येत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । ईश्वरो देवता स्वराट्

पद्भक्तिरुक्तः । पञ्चमः स्वरः ॥

पुनः सूर्यवर्णनविषयमाह ॥

फिर सूर्य के वर्णन वि० ॥

यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रश्च सर्या
सहाहुः । यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहू कस्मै
देवाय हविषा विधेम ॥ १२ ॥

यस्य । इमे । हिमवन्त इति हिमवन्तः । महित्वे-
ति महित्वा । यस्य । समुद्रम् । सर्या । सह । आहुः ।
यस्य । इमाः । प्रदिश इति प्रदिशः । यस्य । बाहू इति
बाहू । कस्मै । देवाय । हविषा । विधेम ॥ १२ ॥

पदार्थः—(यस्य) (इमे) (हिमवन्तः) हिमाल-
यादयः पर्वताः (महित्वा) महत्त्वेन (यस्य) (समुद्रम्)
अन्तरिक्षम् (सर्या) स्नेहनेन (सह) (आहुः) कथ-
यन्ति (यस्य) (इमाः) (प्रदिशः) दिशो विदिशश्च
(यस्य) (बाहू) भुजवद्वर्त्तमानाः (कस्मै) सुखरूपाय
(देवाय) कमनीयाय (हविषा) हवनयोग्येन पदार्थेन
(विधेम) परिचरेम ॥ १२ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यस्य सूर्यस्य महित्वा महत्त्वेनेमे हिमवन्त
आकर्षिताः प्रकाशिताः सन्ति यस्य सर्या सह समुद्रमाहुर्यस्येमा
दिशो यस्य प्रदिशश्च बाहू इवाहुस्तस्मै कस्मै देवाय हविषा वयं वि-
धेम, एवं यूयमपि विधन्त ॥ १२ ॥

भावार्थः—हे मनुष्या यः सर्वेभ्यो महान् सर्वप्रकाशकः सर्वेभ्यो रसस्य हर्ता यस्य प्रतापेन दिशामुपदिशां च विभागो भवति स सवितृलोको युक्त्या सेवितव्यः ॥ १२ ॥

पदार्थ — हे मनुष्यो ! (यस्य) जिस सूर्य के (महित्वा) बड़ेपन से (इमे) ये (हिमवन्तः) हिमालय आदि पर्वत आकर्षित और प्रकाशित हैं (यस्य) जिस के (सरया) स्नेहके (सह) साथ (समुद्रम्) अच्छे प्रकार जिस में जल ठहरते हैं उस अन्तरिक्ष को (आहुः) करते हैं तथा (यस्य) जिस की (इमाः) इन दिशा और (यस्य) जिस की (प्रदिशः) विदिशाओं को (वाहू) भुजाओं के समान वर्तमान कहते हैं उस (कस्मै) मुखरूप (देवाय) मनोहर सूर्यमण्डल के लिये (हविषा) होम करने योग्य पदार्थ से हम लोग (विधेम) सेवन का विधान करें ऐसे ही तुम भी विधान करो ॥ १२ ॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो सब से बड़ा सब का प्रकाश करने और सब पदार्थों से रस का लेनेहारा जिस के प्रताप से दिशा और विदिशाओं का विभाग होता है, वह सूर्यलोक युक्ति के साथ सेवन करने योग्य है ॥ १२ ॥

य आत्मदा इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । परमात्मा देवता ।

निचृत् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनरुपासित ईश्वरः किं ददातीत्याह ॥

फिर उपासना किया ईश्वर क्या देता है इस वि० ॥

य आत्मदा बलदा यस्य विश्वंऽरुपासते प्र-
शिषं यस्य देवाः । यस्यच्छायाऽमृतं यस्य मृत्युः
कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ १३ ॥

यः । आत्मदा इत्यात्मदाः । बलदा इति बलदाः ।
यस्य । विश्वे । उपासते इत्युपासते । प्रशिषमिति
प्रशिषम् । यस्य । देवाः । यस्य । छाया । अमृतम् ।
यस्य । मृत्युः । कस्मै । देवाय । हविषा । विधेम ॥ १३ ॥

पदार्थः—(यः) (आत्मदाः) य आत्मानं ददाति सः
(बलदाः) यो बलं ददाति सः (यस्य) (विश्वे) (उ-
पासते) (प्रशिषम्) प्रशासनम् (यस्य) (देवाः) वि-
द्वांसः (यस्य) (छाया) आश्रयः (अमृतम्) (यस्य)
(मृत्युः) (कस्मै) (देवाय) (हविषा) (विधेम) ॥ १३ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या य आत्मदा बलदा यस्य प्रशिषं विश्वे देवा
उपासने यस्य सकाशात्सर्वे व्यवहारा जायन्ते यस्यच्छायाऽमृतं य-
स्याज्ञाभङ्गो मृत्युस्तस्मै कस्मै देवाय ययं हविषा विधेम ॥ १३ ॥

भावार्थः—हे मनुष्या यस्य जगदीश्वरस्य प्रशासने कृतायां मर्यादायां
सूर्यादयो लोका नियमनं वर्तन्ते येन सूर्येण विना वर्षा आयुः क्षयरच-
न जायन्ते स येन निर्मितस्तस्यैव उपासनां सर्वे मिलित्वा कुर्वन्तु ॥ १३ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यः) जो (आत्मदाः) आत्मा को देने और (बलदाः)
बल देने वाला (यस्य) जिस को (प्रशिषम्) उत्तम शिक्षा को (विश्वे)
समस्त (देवाः) विद्वान् लोग (उपासते) सेवते (यस्य) जिस के समीप से
सब व्यवहार उत्पन्न होते (यस्य) जिस का (छाया) आश्रय (अमृतम्) अ-
मृतस्वरूप और (यस्य) जिस की आज्ञा का भंग (मृत्युः) मरण के तुल्य
हे उस (कस्मै) मुखरूप (देवाय) स्तुति के योग्य परमात्मा के लिये हम लोग
(हविषा) दोगने के पदार्थ से (विधेम) सेवा का विधान करें ॥ १३ ॥

भावार्थः हे मनुष्यो! जिस जगदीश्वर की उत्तम शिक्षा में की हुई मर्यादा में सूर्य आदि लोक नियम के साथ वर्तमान हैं, जिस सूर्य के बिना जल की वर्षा और अवस्था का नाश नहीं होता वह सवितृमण्डल जिस ने बनाया है उसी की उपासना सब मिल कर करें ॥ १३ ॥

आ न इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । यज्ञो देवता ।

निचृज्जगती छन्दः । निपादः स्वरः ॥

पुनर्मनुष्यैः किमेष्टव्यमित्याह ॥

फिर मनुष्यों को किस की इच्छा करनी चाहिये इस वि० ॥

आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतोऽदब्धा-
सो अपरीतास उद्भिदः । देवा नो यथा सदमिद्
धे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे ॥ १४ ॥

आ । नः । भद्राः । क्रतवः । यन्तु । विश्वतः । अद-
ब्धासः । अपरीतास इत्यपरिऽइतासः । उद्भिद इत्युत्-
ऽभिदः । देवाः । नः । यथा । सदम् । इत् । वृधे ।
असन् । अप्रायुव इत्यप्रऽआयुवः । रक्षितारः । दिवे-
दिवेऽइति दिवेदिवे ॥ १४ ॥

पदार्थः—(आ) (नः) अस्मान् (भद्राः) कल्याण-
कराः (क्रतवः) यज्ञाः प्रज्ञावा (यन्तु) प्राप्नुवन्तु (वि-
श्वतः) सर्वतः (अदब्धासः) अहिंसिताः (अपरीता-
सः) अन्यैरव्याप्ताः (उद्भिदः) य उद्भिन्दन्ति (देवाः)
पृथिव्यादय इव विद्वांसः (नः) अस्माकम् (यथा) (स-
दम्) सीदन्ति प्राप्नुवन्ति यस्यां ताम् (इत्) एव (वृ-
धे) वृद्धये (असन्) भवन्तु (अप्रायुवः) अनष्टायुषः
(रक्षितारः) रक्षकाः (दिवेदिवे) प्रतिदिनम् ॥१४ ॥

अन्वयः—हे विद्वांसो यथा नोऽस्मान् विश्वतो भद्रा अदब्धासोऽ
परीतास उद्भिदः क्रतव आ यन्तु यथानः सदं प्राप्ता अप्रायुवो देवा
इदिवेदिवे वृधे रक्षितारोऽसन् तथाऽनुतिष्ठन्तु ॥ १४ ॥

भावार्थः—सर्वमनुष्यैः परमेश्वरस्य विज्ञानाद्विदुषां सङ्गेन पुष्कलाः
प्रज्ञाः प्राप्य सर्वतो धर्ममाचर्य नित्यं सर्वेषां रक्षकैर्भवितव्यम् ॥१४॥

पदार्थः— हे विद्वानो जैसे (नः) हमलोगों को (विश्वतः) सब ओर
से (भद्राः) कल्याण करने वाले (अदब्धासः) जो विनाश को न प्राप्त हुए
(अपरीतासः) औरों ने जो न व्याप्त किये अर्थात् सबकार्यों से उत्तम (उद्भिदः)
जो दुःखों को विनाश करते वे (क्रतवः) यज्ञ वा बुद्धि बल (आ, यन्तु)
अच्छे प्रकार प्राप्त हों (यथा) जैसे (नः) हमलोगों की (सदम्) उस सभा
को कि जिस में स्थित होते हैं प्राप्त हुए (अप्रायुवः) जिन की अवस्था नष्ट
नहीं होती वे (देवाः) पृथिवी आदि पदार्थों के समान विद्वान् जन (इत्) ही
(दिवेदिने) प्रतिदिन (वृधे) वृद्धि के लिये (रक्षितारः) पालना करने वाले
(असन्) हों वैसा आचरण करो ॥ १४ ॥

भावार्थः— सब मनुष्यों को परमेश्वर के विज्ञान और विद्वानों के संग से बहुत
बुद्धियों को प्राप्त होकर सब ओर से धर्म का आचरण कर नित्य सब की रक्षा करने वाले
होना चाहिये ॥ १४ ॥

देवानामित्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । विद्वांसोः देवताः ।

जगती छन्दः । निपादः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

देवानां भद्रा मुमतिर्ऋजूयतां देवानां रति-
रभि नो निर्वर्त्तताम् । देवानां सख्यमुपसेदिमा
वयं देवा न आयुः प्रतिरन्तु ज्विसै ॥ १५ ॥

देवानाम् । भद्रा । सुमतिरिति सुऽमतिः । ऋजूय-
ताम् । ऋजूयतामित्यृजुऽयताम् । देवानाम् । रातिः ।
अभि । नः । नि । वर्त्तताम् । देवानाम् । सख्यम् ।
उप । सेदिम् । आ । वयम् । देवाः । नः । आयुः ।
प्र । तिरन्तु । जीवसे ॥ १५ ॥

पदार्थः— (देवानाम्) विदुषाम् (भद्रा) कल्याणकरी
(सुमतिः) शोभना प्रज्ञा (ऋजूयताम्) सरलीकुर्वताम्
(देवानाम्) दातृणाम् (रातिः) विद्यादिदानम् (अभि)
सर्वतः (नः) अस्मान् (नि) (वर्त्तताम्) (देवानाम्)
विदुषाम् (सख्यम्) मित्रत्वम् (उप) (सेदिम्) प्राप्नु-
याम (आ) (वयम्) (देवाः) विद्वांसः (नः) अस्मा-
कम् (आयुः) प्राणधारणम् (प्र) (तिरन्तु) पूर्णं
भोजयन्तु (जीवसे) जीवितुम् ॥ १५ ॥

अन्वयः— हे मनुष्या यथा देवानां भद्रा सुमतिरस्मान् ऋजूयतां दे-
वानां रातिर्नोऽस्मानभिनिवर्त्ततां वयं देवानां सख्यमुपसेदिम् देवानो
जीवस आयुः प्रतिरन्तु तथा युष्मान्प्रतिवर्त्तन्ताम् ॥ १५ ॥

भावार्थः— सर्वैर्मनुष्यैराप्तानां विदुषां सकाशात्प्रज्ञाः प्राप्य ब्रह्मच-
र्येणायुः संवर्धय सदैव धार्मिकैः सह मित्रता रक्षणीया ॥ १५ ।

पदार्थः— हे मनुष्यो ! जैसे (देवानाम्) विद्वानों की (भद्रा) कल्याण
करने वाली (सुमतिः) उत्तम बुद्धि हम लोगों को और (ऋजूयताम्) कठिन
विषयों को सरल करते हुए (देवानाम्) देने वाले विद्वानों का (रातिः) विद्या
आदि पदार्थों का देना (नः) हम लोगों को (अभि, नि, वर्त्तताम्) सब
ओर से सिद्ध करे सब गुणों से पूर्ण करे (वयम्) हम लोग (देवानाम्)

विद्वानों की (सख्यम्) मित्रता को (उगा, सेदिम) अच्छे प्रकार पावें (देवाः)
विद्वान् (नः) हम को (जीवसे) जीने के लिये (आयुः) जिस से प्राण का
धारण होता उस आयुर्दा को (प्र, तिरन्तु) पूरी भुगावें वैसे तुम्हारे प्रति
वर्त्ताव रखें ॥ १५ ॥

भावार्थः—सब मनुष्यों को चाहिये कि पूर्ण शास्त्रवेत्ता विद्वानों के समीप से उत्तम
बुद्धियों को पाकर ब्रह्मचर्य आश्रम से आयु को बढ़ा के सदैव धार्मिक जनों के
साथ मित्रता रखें ॥ १५ ॥

तान्पूर्वपेतपस्य प्रजापतिर्ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः ।

जगती छन्दः । निपादः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

तान्पूर्वया निविदा हूमहे वयं भगं मित्रमदितिं
दक्षमस्त्रिधम् । अर्यमणं वरुणं सोममश्विना
सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् ॥ १६ ॥

तान् । पूर्वया । निविदेति निऽविदा । हूमहे । वयम् ।
भगम् । मित्रम् । अदितिम् । दक्षम् । अस्त्रिधम् ।
अर्यमणम् । वरुणम् । सोमम् । अश्विना । सरस्वती ।
नः । सुभगेति सुऽभगा । मयः । करत् ॥ १६ ॥

पदार्थः—(तान्) पूर्वोक्तान् (पूर्वया) पूर्वेः स्वीकृतया
(निविदा) वेदवाचा । निविदिति वाङ्ना० निधं० १ । ११ ।
(हूमहे) स्पर्द्धेमहि (वयम्) (भगम्) ऐश्वर्यकारकम्

(मित्रम्) सर्वस्य सुहृदम् (अदितिम्) अखण्डितप्रज्ञम्
 (दक्षम्) चतुरम् (अस्त्रिधम्) अहिंसनीयम् (अर्यमणम्)
 प्रजायाः पालकम् (वरुणम्) श्रेष्ठम् (सोमम्) ऐश्वर्य-
 वन्तम् (अश्विना) अध्यापकोपदेशकौ (सरस्वती)
 सर्वाविद्यायुक्ता (नः) अस्मभ्यम् (सुभगा) सुष्ट्वैश्वर्या
 (मयः) सुखम् (करतु) कुर्यात् ॥ १६ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यथा वयं पूर्वया निविदा दक्षमर्यमणमस्त्रिधं
 भगं मित्रमादिते वरुणं सोममश्विना हूमहे यथा सुभगा सरस्वती
 नो युष्मभ्यं च मयस्करत्तथा तान् यूयमप्याह्वयत कुरुत च ॥ १६ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०-मनुष्यैर्यद्यद्वेदोक्तं कर्म तत्तदेवानुष्ठेयं
 यथा सद्विद्यार्थिनः स्पर्द्धया विद्यां वर्द्धयन्ति तथैव सर्वविद्या
 वर्द्धनीया । यथा पूर्णाविद्यामाता सन्तानान्सुशिक्षया विद्याः प्रापस्य
 वर्द्धयति तथैव सर्वैः सर्वस्मै सुखं दत्त्वा सर्वे वर्द्धनीयाः ॥ १६ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो जैसे (वयम्) हम लोग (पूर्वया) अगले सज्जनों ने
 स्वाकार की हुई (निविदा) वेदवाणी से (दक्षम्) चतुर (अर्यमणम्) प्रजा-
 पालक (अस्त्रिधम्) न विनाश करने योग्य (भगम्) ऐश्वर्य कराने वाले
 (मित्रम्) सब के मित्र (अदितिम्) जिस की बुद्धि कभी खण्डित नहीं होती
 उस (वरुणम्) श्रेष्ठ (सोमम्) ऐश्वर्यवान् तथा (अश्विना) पढ़ाने और
 पढ़ने वाले को (हूमहे) परस्पर हिरस करते हुए चाहते हैं । जैसे (सुभगा)
 सुन्दर ऐश्वर्य वाली (सरस्वती) समस्त विद्याओं से पूर्ण वेदवाणी (नः)
 हमारे और तुम्हारे लिये (मयः) सुख को (करतु) करे वैसे (तान्) उन
 उक्त सज्जनों को तुम भी चाहो और सुख करो ॥ १६ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमा० । मनुष्यों को चाहिये कि जो २ वेद
 में कहा हुआ काम है उस २ का ही अनुष्ठान करें । जैसे अच्छे विद्यार्थी दूसरे

की हिरस से अपनी विद्या को बढ़ाते हैं वैसे ही सब को विद्या बढ़ानी चाहिये । जैसे परिपूर्ण विद्यायुक्त माता अपने सन्तानों को अच्छी शिक्षा दे, विद्याओं की प्राप्ति करा, उन की विद्या बढ़ाती है वैसे ही सब को सब के लिये सुख दे कर सब की वृद्धि करनी चाहिये ॥ १६ ॥

तन्न इत्यस्य गोतम ऋषिः । वायुर्देवता । भुरिक्
त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥
पुनः कः किं कुर्यादित्याह ॥
फिर कौन क्या करे इस वि० ॥

तन्नो वातो मयोभु वातु भेषजं तन्माता पृ-
थिवी तत्पिता द्यौः । तद्ग्रावाणः सोमसुतो
मयोभुवस्तदश्विना शृणुतं धिष्ण्या युवम् ॥१७॥

तत् । नः । वातः । मयोभिवति मयःऽभु । वातु ।
भेषजम् । तत् । माता । पृथिवी । तत् । पिता । द्यौः ।
तत् । ग्रावाणः । सोमसुत इति सोमऽसुतः । मयोभुव
इति मयःऽभुवः । तत् । अश्विना । शृणुतम् । धिष्ण्या ।
युवम् ॥ १७ ॥

पदार्थः—(तत्) (नः) अस्मभ्यम् (वातः) वायुः
(मयोभु) सुखकारि (वातु) प्रापयतु (भेषजम्) औ-
षधम् (तत्) (माता) मान्यप्रदा (पृथिवी) विस्तीर्णा
भूमिः—(तत्) (पिता) पालनहेतुः (द्यौः) सूर्यः (तत्)
(ग्रावाणः) मेघाः (सोमसुतः) ओषध्यै श्वर्योत्पादकाः
(मयोभुवः) सुखं भावुकाः (तत्) (अश्विना) अध्या-
पकोपदेशकौ (शृणुतम्) (धिष्ण्या) भूमिवहुत्तारौ
(युवम्) युवाम् ॥ १७ ॥

अन्वयः—हे अश्विना धिष्ण्या युवमस्माभिरधीतं शृणुतं यथा नो वातस्तन्मयोभु भेषजं वातु तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौरवातु तत्सोमसुतो मयोभुवो ग्रावाणो वान्तु तद्युष्मभ्यमप्यस्तु ॥१७॥

भावार्थः—यस्य पृथिवीव माता द्यौरिव पिता भवेत्स सर्वतः कुशलीभूत्वा सर्वानरोगान्चतुरान् कर्यात् ॥ १७ ॥

पदार्थः—हे (अश्विना) पढ़ाने और पढ़ने हारे सज्जनों ! (धिष्ण्या) भूमि के समान धारण करने वाले (युवम्) तुम दोनों हम लोगों ने जो पढ़ा है उस को (शृणुतम्) सुनो । जैसे (नः) हम लोगों के लिये (वातः) पवन (तत्) उस (मयोभु) सुख करने हारी (भेषजम्) औषधि की (वातु) प्राप्ति करे (तत्) उस औषधि को (माता) मान्य देने वाली (पृथिवी) विस्तारयुक्त भूमि तथा (तत्) उस को (पिता) पालना का हेतु (द्यौः) सूर्यमण्डल प्राप्त करे तथा (तत्) उस को (सोमसुतः) औषधि और ऐश्वर्य को उत्पन्न करने और (मयोभुवः) सुख की भावना कराने हारे (ग्रावाणः) मेघ प्राप्त करें (तत्) यह सब व्यवहार तुम्हारे लिये भी होवे ॥ १७ ॥

भावार्थः—जिस की पृथिवी के समान माता और सूर्य के समान पिता हो वह सब ओर से कुशली सुखी हो कर सब को नीरोग और चतुर करे ॥ १७ ॥

तमीशानमित्यस्य गोतम ऋषिः । ईश्वरो देवता ।

भुरिक् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वर ॥

पुनरीश्वरः कीदृशः किमर्थ उपासनीय इत्याह ॥

फिर ईश्वर कैसा है और किस लिये उपासना के योग्य है इस वि० ॥

तमीशानं जगत्स्तस्थुषस्पतिं धियं जिन्वमवसे
हूमहे वयम् । पूषा नो यथा वेदसामसंहृधे रक्षि-
ता प्रायुरदब्धः स्वस्तये ॥ १८ ॥

तम् । ईशानम् । जगतः । तस्थुषः । पतिम् । धि-
यंजिन्वमिति धियम्ऽजिन्वम् । अवसे । हूमहे । व-
यम् । पूषा । नः । यथा । वेदसाम् । असत् । वृधे ।
रक्षिता । पायुः । अदब्धः । स्वस्तये ॥ १८ ॥

पदार्थः—(तम्) (ईशानम्) ईशानशीलम् (जगतः)
जङ्गमस्य (तस्थुषः) स्थावरस्य (पतिम्) पालकम्
(धियंजिन्वम्) यो धियं पूजां जिन्वति प्रीणाति तम्
(अवसे) रक्षणादाय (हूमहे) स्तुम् : (वयम्) (पूषा)
पृष्टिकर्ता (नः) अस्माकम् (यथा) (वेदसाम्) धना-
मम् (असत्) भवेत् (वृधे) वृद्धये (रक्षिता) रक्षण-
कर्ता (पायुः) सर्वस्य रक्षकः (अदब्धः) अहिंसकः
(स्वस्तये) सुखाय ॥ १८ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या वयमवसे जगतस्तस्थुषस्पतिं धियंजिन्वं
तमीशानं हूमहे स यथा नो वेदसां वृधे पूषा रक्षिता स्वस्तये पायु-
रदब्धोऽसत्तथा यूयं कुरुत स च युष्मभ्यमप्यस्तु ॥ १८ ॥

भावार्थः—सर्वे विद्वांसः सर्वान्प्रत्येवमुपादिशेयुर्यस्य सर्वशक्ति-
मतो निराकारस्य सर्वत्र व्यापकस्य परमेश्वरस्योपासनं वयं कुर्मस्त-
मेव सुखैश्वर्यवर्धकं जानीमस्तस्यैवोपासनं यूयमपि कुरुत तमेव स-
र्वोन्नतिकरं च विजानीत ॥ १८ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (वयम्) हम लोग (अवसे) रक्षा आदि के लिये
(जगतः) चर और (तस्थुषः) अचर जगत् के (पतिम्) रक्षक (धियं-
जिन्वम्) बुद्धिकों वृत्त प्रसन्न वा शुद्ध करने वाले (तम्) उस अखण्ड (ई-

शानम्) सब का वश-में रखने वाले सब के स्वामी परमात्मा की (दूमहे)
 स्तुति करते हैं वह (यथा) जैसे (नः) हमारे (वेदसाम्) धनों की (वृथे)
 वृद्धि के लिये (पूषा) पुष्टिकर्ता तथा (रक्षिता) रक्षा करने द्वारा (स्वस्तये)
 सुख के लिये (पायुः) सब का रक्षक (अदब्धः) नहीं मारने वाला (असन्)
 होवे वैसे तुम लोग भी उस की स्तुति करो और वह तुम्हारे लिये भी रक्षा
 आदि का करने वाला होवे ॥ १८ ॥

भावार्थः—सब विद्वान् लोग सब मनुष्यों के प्रति ऐसा उपदेश करें कि जिस
 सर्वशक्तिमान् निराकार सर्वत्र व्यापक परमेश्वर की उपासना हम लोग करें तथा उसी
 को सुख और ऐश्वर्य का बढ़ाने वाला जानें, उसी की उपासना तुम लोग भी करो और
 उसी को सब की उन्नति करने वाला जानो ॥ १८ ॥

स्वस्ति न इत्यस्य गोतम ऋषिः । ईश्वरो देवता ।

स्वराद् वृद्धती छन्दः । मध्यमः स्वरः ।

पुनर्मनुष्यैः किमेष्टव्यमित्याह ॥

फिर मनुष्यों को किस की इच्छा करनी चाहिये इस वि० ॥

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा
 विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्तार्क्ष्योऽरिष्टनेमिः
 स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ १९ ॥

स्वस्ति । नः । इन्द्रः । वृद्धश्रवा इति वृद्धऽश्रवाः ।
 स्वस्ति । नः । पूषा । विश्ववेदा इति विश्वऽवेदाः ।
 स्वस्ति । नः । तार्क्ष्यः । अरिष्टनेमिरित्यरिष्टऽनेमिः ।
 स्वस्ति । नः । बृहस्पतिः । दधातु ॥ १९ ॥

पदार्थः—(स्वस्ति) सुखम् (नः) अस्मभ्यम् (इन्द्रः)
 परमैश्वर्यवान् ईश्वरः (वृद्धश्रवाः) वृद्धं श्रवः श्रवणं यस्य
 सः (स्वस्ति) (नः) (पूषा) सर्वतः पोषकः (विश्व-
 वेदाः) विश्वं सर्वं जगद्वेदो धनं यस्य सः (स्वस्ति) (नः)
 (ताक्ष्यः) अश्वइव । ताक्ष्य इत्यश्वनाम निघं० १ । १४
 (अरिष्टनेमिः) योऽरिष्टानि सुखानि प्रापयति सः ।
 अत्रारिष्टोपपदाण्णीञ् प्रापणे धातोरौणादिको मिः प्र-
 त्ययः । (स्वस्ति) (नः) (बृहस्पतिः) बृहतां महत्त-
 त्वादीनां स्वामी पालकः (दधातु) ॥ १६ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यो वृद्धश्रवा इन्द्रो नः स्वस्ति यो विश्ववे-
 दाः पूषा नः स्वस्ति यस्ताक्ष्य इवारिष्टनेमिः सन्नः स्वस्ति यो बृहस्प-
 तिर्नः स्वस्ति दधातु स शुभभ्यमपि सुखं दधातु ॥ १६ ॥

भावार्थः—मनुष्यैर्यथा स्वार्थं सुखमेष्टव्यं तथाऽन्यार्थमप्येषितव्यं
 यथा कश्चिदपि स्वार्थं दुःखं नेच्छति तथा परार्थमपि नैषितव्यम् ॥ १६ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जो (वृद्धश्रवाः) बहुत सुनने वाला (इन्द्रः) परम
 ऐश्वर्यवान् ईश्वर (नः) हमारे लिये (स्वस्ति) उत्तम सुख जो (विश्ववेदाः)
 समस्त जगत् में वेद ही जिस का धन है वह (पूषा) सब का पुष्टि करने वा-
 ला (नः) हम लोगों के लिये (स्वस्ति) सुख जो (ताक्ष्यः) घोड़े के समान
 (अरिष्टनेमिः) सुखों की प्राप्ति कराता हुआ (नः) हम लोगों के लिये (स्वस्ति)
 उत्तम सुख तथा जो (बृहस्पतिः) महत्तत्त्व आदि का स्वामी वा पा-
 लना करने वाला परमेश्वर (नः) हमारे लिये (स्वस्ति) उत्तम सुख को (द-
 धातु) धारण करे वह तुम्हारे लिये भी सुख को धारण करे ॥ १६ ॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि जैसे अपने सुख को चाहें वैसे और के लिये भी चाहें। जैसे कोई भी अपने लिये दुःख नहीं चाहता वैसे और के लिये भी न चाहें॥१९॥

पृषदश्वा इत्यस्य गोतम ऋषिः । विद्वांसो देवताः ।

जगती छन्दः । निपादः स्वरः ॥

पुनः के किं कुर्युरित्याह ॥

फिर कौन क्या करें इस वि० ॥

पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभंयावानो
विदथेषु जग्मयः। अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो
विश्वे नो देवा अवसागमन्निह ॥ २० ॥

पृषदश्वा इति पृषत्ऽअश्वाः । मरुतः । पृश्निमातर
इति पृश्निऽमातरः । शुभंयावान् इति शुभम्ऽयावानः ।
विदथेषु । जग्मयः । अग्निजिह्वा इत्यग्निऽजिह्वाः । म-
नवः । सूरचक्षस इति सूरऽचक्षसः । विश्वे । नः । देवाः ।
अवसा । आ । अगमन् । इह ॥ २० ॥

पदार्थः—(पृषदश्वाः) पृषतः पुण्ड्यादिना संसिक्ताङ्गा
अश्वा येषान्ते(मरुतः)मनुष्याः(पृश्निमातरः)पृश्निरन्तरिक्षं
माता येषां वायूनां ते इव (शुभंयावानः) ये शुभं कल्याणं
यान्ति प्राप्नुवन्ति ते। अत्र वाच्छन्दसि सर्वे विधयो भव-
न्तीति द्वितीयाया अलुक् (विदथेषु) संग्रामेषु (जग्मयः)

संगन्तारः (अग्निजिह्वाः) अग्निरिव सुप्रकाशिता जिह्वा
वाणी येषान्ते । जिह्वेति वाङ्मना० निघं० १।११ । (मनवः)
मननशीलाः (सूरचक्षसः) सूरपेश्वर्ये प्रेरणे वाचक्षोदर्श-
नं येषारते (विश्वे) सर्वे (नः) अस्मान् (देवाः)
विद्वांसः (अवसा) रक्षणाद्येन सह (आ) (अगमन्)
प्राप्नुवन्तु (इह) अस्मिन्संसारे वर्त्तमानसमये वा ॥२०॥

अन्वयः—ये पृथ्निमातर इव पृषदश्वा मरुतो विदथेषु शुभयावा-
नो जग्मयोऽग्निजिह्वाः सूरचक्षसो विद्वे देवा मनवोऽवसा सहव-
त्सन्ते त इह नोऽस्मानागमन् ॥ २० ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु० । मनुष्यैर्विदुषां सङ्गः सदैव प्रार्थनीयो
यथाऽस्मिन्नजगति सर्वे वायवः सर्वेषां जीवनहेतवः सन्ति तथात्र
जग्मेषु विद्वांसः सन्ति ॥ २० ॥

पदार्थः— जो (पृथ्निमातरः) जिनको मान्य देने वाला अन्तरिक्ष माता
के तुल्य है उन वायुओं के समान (पृषदश्वाः) जिन के पुष्टि आदि से सींचे
अङ्गों वाले घोड़े हैं वे (मरुतः) मनुष्य तथा (विदथेषु) संग्रामों में (शुभया-
वानः) जो उत्तम सुख को प्राप्त होने और (जग्मयः) संग करने वाले (अ-
ग्निजिह्वाः) जिन की अग्नि के समान प्रकाशित वाणी और (सूरचक्षसः)
जिन का ऐश्वर्य वा प्रेरणा में दर्शन होवे ऐसे (विश्वे) समस्त (देवाः) वि-
द्वान् (मनवः) जन (अवसा) रक्षा आदि के साथ वर्त्तमान हैं वे लोग (इह)
इस संसार वा इस समय में (नः) हम लोगों को (आ, अगमन्) प्राप्त हों ॥२०॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु० । मनुष्यों को विद्वानों का संग सदैव प्रार्थना
करने योग्य है । जैसे इस जगत् में सब वायु आदि पदार्थ सब मनुष्यों वा प्राणियों के
जीवन के हेतु हैं वैसे इस जगत् में चेतनों में विद्वान् हैं ॥ २० ॥

भद्रमित्यस्य गोतम ऋषिः । विद्वांसो देवताः ।

निचृत् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनर्मनुष्यैः किं कर्तव्यमित्याह ॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस वि० ॥

भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्ष-
भिर्यजत्राः । स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशे-
महि देवहितं यदायुः ॥ २१ ॥

भद्रम् । कर्णेभिः । शृणुयाम् । देवाः । भद्रम् । प-
श्यम् । अक्षभिरित्यक्षऽभिः । यजत्राः । स्थिरैः । अङ्गैः ।
तुष्टुवांसः । तुष्टुवांसस्तुष्टुवांसः । तनूभिः ।
वि।अशेमहि। देवहितमिति देवऽहितम् । यत् । आयुः ॥ २१ ॥

पदार्थः—(भद्रम्) सत्यलक्षणकरं वचः (कर्णेभिः) श्रो-
त्रैः (शृणुयाम) (देवाः) विद्वांसः (भद्रम्) कल्याणम्
(पश्येम) (अक्षभिः) चक्षुर्भिः (यजत्राः) संगन्तारः (स्थिरैः)
दृढैः (अङ्गैः) अवयवैः (तुष्टुवांसः) स्तुवन्तः (तनूभिः)
शरीरैः (वि, अशेमहि) प्राप्नुयाम (देवहितम्) देवेषु
विद्वद्भ्यो हितम् (यत्) (आयुः) जीवनम् ॥ ११ ॥

अन्वयः—हे यजत्रा देवा विद्वांसो भवत्सङ्गेन वयं कर्णेभिर्भद्रं
शृणुयामाक्षभिर्भद्रं पश्येम स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसः सन्तस्तनूभिर्व्यशे-
तमायुस्तद् व्यशेमहि ॥ २१ ॥

भावार्थः—यदि मनुष्या विद्वत्सङ्गेन विद्वांसो भूत्वा सत्यं शृणुयुः सत्यं पश्येयुर्जगदीश्वरं स्तुयुस्तर्हि ते दीर्घायुषो भवेयुः । मनुष्यैरस-
त्यश्रवणं क्रुद्दानं मिथ्यास्तुतिर्व्याभिचारश्च कदापिनैव कृत्तव्यः ॥२१॥

पदार्थः—हे (यजत्राः) संग करने वाले (देवाः) विद्वानो! आप लोगों के साथ से हम (कर्णोभिः) कानों से (भद्रम्) जिस से सत्यता जानी जावे उस वचन को (शृणुयाम) सुनें (अक्षभिः) आंखों से (भद्रम्) कल्याण को (पश्येम) देखें (स्थिरैः) दृढ़ (अंगैः) अवयवों से (तुष्टुवांसः) स्तुति करते हुए (तनूभिः) शरीरों से (यत्) जो (देवहितम्) विद्वानों के लिये सुख करने वाली (आयुः) अवस्था है उस को (वि, अशेमहि) अच्छे प्रकार प्राप्त हों ॥ २१ ॥

भावार्थः—जो मनुष्य विद्वानों के साथ से विद्वान् हो कर सत्य सुनें, सत्य देखें और जगदीश्वर की स्तुति करें तो वे बहुत अवस्था वाले हों । मनुष्यों को चाहिये कि असत्य का मुनना, खोंटा देवना, झूठी स्तुति प्रार्थना प्रशंसा और व्यभिचार कभी न करें ॥२१॥

शतमित्यस्य गोतम ऋषिः । विद्वांसो देवताः ।

त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः-स्वरः ॥

पुनरस्पदर्थं के किं कुर्युरिवाह ॥

• फिर हमारे लिये कौन क्या करें इस वि० ॥

शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रानश्चक्रा जरसं
तनूनाम् । पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानौ
मृध्या रौरिषतायुर्गन्तौः ॥ २२ ॥

शतम् । इत् । नु । शरदः । अन्ति । देवाः । यत्र ।
 नः । चक्र । जरसम् । तनूनाम् । पुत्रासः । यत्र ।
 पितरः । भवन्ति । मा । नः । मध्या । रीरिषत् ।
 रीरिषतेति रिरिषत् । आयुः । गन्तोः ॥ २२ ॥

पदार्थः—(शतम्) शतवार्षिकम् (इत्) एव (नु) स-
 द्यः (शरदः) शरदृत्वन्तानि (अन्ति) अन्तिके (देवाः)
 विद्वांसः (यत्र) यस्मिन् । अत्रनिपातस्यच्चेति दीर्घः । (नः)
 अस्माकम् (चक्र) कुर्वन्तु । अत्र द्व्यचोऽतस्तिङ् इति दी-
 र्घः (जरसम्) जराः (तनूनाम्) शरीराणाम् (पुत्रा-
 सः) बृद्धावस्थाजन्यदुःखात्प्रातारः (यत्र) (पितरः) पि-
 तर इव वर्त्तमानाः (भवन्ति) (मा) (नः) अस्माकम्
 (मध्या) पूर्णायुषो भोगस्य मध्ये (रीरिषत्) घ्नत (आयुः)
 जीवनम् (गन्तोः) गमनम् ॥ २२ ॥

अन्वयः—हे देवा भवदन्ति स्थितामां नोऽस्माकं यत्र तनूनां जरसं
 शतं शरदः स्युस्तन्न चक्र । यत्र पुत्रास इत्पितरो भवन्ति तन्नो गन्तो-
 रायुर्मध्या मा रीरिषत् ॥ २२ ॥

भावार्थः—मनुष्यैर्दीर्घमष्टचत्वारिंशद्वर्षपरिमितं ब्रह्मचर्यं सदा से-
 वनीयम् । येन पितृषु विद्यमानेषु पुत्रा अपि पितरो भवेयुः । यदा
 शतवार्षिकमायुर्व्यतोयान्तदैव शरीराणां जराऽवस्था भवेत् । यदि
 ब्रह्मचर्यं सह न्यूनान् न्यूनानि पञ्चविंशतिवर्षाणि व्यतीतानि स्यु-
 स्ततः पश्चादप्यतिमैथुनेन ये वीर्यक्षयं कुर्वन्ति तर्हि ते सरोगा निर्बु-
 ढयो भूत्वा दीर्घायुषः कदापि न भवन्ति

पदार्थः— हे (देवाः) विद्वानों ! आप के (अन्ति) समाप स्थित (नः , हम लोगों के (यत्र) जिस व्यवहार में (तनूनाम्) शरीरों की (जरसम्) वृद्धावस्था और (शतम्) सौ (शरदः) वर्ष पूरे हों उस व्यवहार को (नु) शीघ्र (चक्र) करो ' यत्र) जहां (पुत्रासः) बुढ़ापे के दुःखों से रक्षा करने वाले लड़के (इत) ही (पितरः) पिता के समान वर्त्तमान (भवन्ति) होते हैं उस (नः) हम लोगों की (गन्तोः) चाल और (आयुः) अवस्था को (मध्या) पूरी अवस्था भोगने के बीच (मा, रीरेषत) मत नष्ट करो ॥ २२ ॥

भावार्थः—मनुष्यों को सदा दीर्घकाल अर्थात् अढ़तालीस वर्ष प्रमाणे ब्रह्मचर्य सेवना चाहिये । जिस से पिता आदि के विद्यमान होते ही लड़के भी पिता हो जायें अर्थात् उन के भी लड़के हो जायें । और जब सौवर्ष आयु बीते तभी शरीरों की वृद्धावस्था होने । जो ब्रह्मचर्य के साथ कम से कम पचीस वर्ष व्यतीत होवें उस से पीछे भी आतिमैथुन करके जो लोग बर्ष का नाश करते हैं तो वे रोगसहित निर्वृद्धि होके अधिक अवस्था वाले कभी नहीं होते ॥ २२ ॥

आदितिरित्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । द्यौरित्यादयो देवताः ।

त्रिष्टुप् छन्दः । ध्रुवतः स्वरः ॥

अथादितिशब्दस्यानेकाऽर्थाः सन्तीत्याह ॥

अब अदिति शब्द के अनेक अर्थ हैं इस वि० ॥

अदितिर्द्यौरदितिर्ऋन्तारिक्षमदितिर्माता स पिता
स पुत्रः । विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदि-
तिर्जातमदितिर्जनित्वम् ॥ २३ ॥

अदितिः । द्यौः । अदितिः । अन्तरिक्षम् । अदितिः ।
माता । सः । पिता । सः । पुत्रः । विश्वे । देवाः । अदितिः ।

पञ्च । जनाः । अदितिः । जातम् । अदितिः । जनि-
त्वमिति जनित्वम् ॥ २३ ॥

पदार्थः— (अदितिः) अखण्डिता (द्यौः) कारण-
रूपेण प्रकाशः (अदितिः) अविनाशि (अन्तरिक्षम्)
आकाशम् (अदितिः) विनाशरहिता (माता) सर्वस्य
जगती जननी प्रकृतिः (सः) परमेश्वरः (पिता) नि-
त्यपालकः (सः) (पुत्रः) ईश्वरस्य पुत्रइवाविनाशी
(विश्वे) सर्वे (देवाः) दिव्यगुणादियुक्ताः पृथिव्यादयः
(अदितिः) कारणरूपेण नाशरहिता (पञ्च) एतत्संख्या-
काः (जनाः) मनुष्याः प्राणा वा (अदितिः) स्वात्मरू-
पेण नित्यम् (जातम्) यत्किञ्चिदुत्पन्नं कार्यम् (अ-
दितिः) कारणरूपेणनित्यम् (जनित्वम्) उत्पत्त्य-
मानम् ॥ २३ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या युष्माभिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स
पिता स पुत्रश्चादितिर्विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जात-
व्रजनित्वञ्चादितिरस्तीति वेद्यम् ॥ २३ ॥

भावार्थः— हे मनुष्या भवन्तो यत् किञ्चित् कार्यं जगत् पश्य-
न्ति तददृष्टकारणं विजानन्तु जगन्निर्मातारं परमात्मानं जीवं पृथि-
व्यादीनि तत्त्वानि यज्जातं यच्च जनिष्यते या च प्रकृतिस्तत्सर्वं स्वरू-
पेण नित्यमस्ति न कदाप्यस्याभावो भवति न चाऽभावाद्भावोत्पत्ति-
र्भवतीति विज्ञेयम् ॥ २३ ॥

पदार्थः— हे मनुष्यो तुमको (द्यौः) कारणरूप से जो प्रकाश वह (अ-
दितिः) अखण्डित (अन्तरिक्षम्) अन्तरिक्ष (अदितिः) अविनाशी

(माता) सब जगत् की उत्पन्न करने वाली प्रकृति (सः) वह परमेश्वर (पिता) नित्य पालन करने हारा और (सः) वह (पुत्रः) ईश्वर के पुत्र के समान वर्तमान (अदितिः) कारणरूप से अविनाशी संसार (विश्वे) समस्त (देवाः) दिव्य गुण वाले पृथिवी आदि पदार्थ (अदितः) कारण रूप से विनाशरहित (पंच) पांच (जनाः) मनुष्य वा प्राण (अदितिः) कारणरूप से अविनाशी तथा (जातम्) जो कुछ उत्पन्न हुआ कार्यरूप जगत् और (जनित्रम्) जो उत्पन्न होने वाला वह सब (अदितिः) कारण रूप से नित्य है यह जानना चाहिये ॥ २३ ॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! आप लोग जितने कुछ कार्यरूप जगत् को देखते हो वह अदृष्ट कारण रूप जानो । जगत् का बनाने वाला परमात्मा, जीव, पृथिवी आदि तत्त्व जो उत्पन्न हुआ वा जो होगा और जो प्रकृति वह सब स्वरूप से नित्य है कभी इस का अभाव नहीं होता और यह भी जानना चाहिये कि अभाव से भाव की उत्पत्ति कभी नहीं होती ॥ २३ ॥

मा न इत्यस्य गोतम ऋषिः । मित्रादयो देवताः ।

मिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वर ॥

पुनः केऽस्माकं किञ्च कुर्युरित्याह ॥

फिर कौन हम लोगों के किस काम को न करें इस वि० ॥

मा नो मित्रो वरुणा अर्यमायुरिन्द्रं ऋभुक्षा
मरुतः परिख्यन् । यद्वाजिनो देवजातस्य सप्तैः
प्रवक्ष्यामो विदथे वीर्याणि ॥ २४ ॥

मा । नः । मित्रः । वरुणाः । अर्यमा । आयुः । इन्द्रः ।
ऋभुक्षाः । मरुतः । परिख्यन् । यत् । वाजिनः । देवजा-
तस्येति देवजातस्य । सप्तैः । प्रवक्ष्याम इति प्रवक्ष्यामः ।
विदथे । वीर्याणि ॥ २४ ॥

पदार्थः—(मा) निषेधे (नः) अरमाकम् (मित्रः)
 प्राण इव सखा (वरुणः) उदानइव श्रेष्ठः (अर्यमा)
 न्यायाधीश इव नियन्ता (आयुः) जीवनम् (इन्द्रः)
 राजा (ऋभुक्षाः) महान्तः (मरुतः) मनुष्याः (परि-
 ख्यन्) वर्जयेयुः (यत्) यानि (वाजिनः) वे गवतः (देव-
 जातस्य) देवैर्दिव्यैर्गुणैः प्रसिद्धस्य (सप्तैः) अश्वस्य
 (प्रवक्ष्यामः) प्रवदिष्यामः (विदथे) युद्धे (वीर्याणि)
 बलानि ॥ २४ ॥

अन्वयः—हे विद्वांसो यथा मित्रो वरुणोऽर्यमेन्द्रश्च ऋभुक्षा
 मरुतो न आयुर्मा परिक्रियन् । येन वर्यं देवजातस्य वाजिनः सप्तैरिव
 विदथे यद्वीर्याणि प्रवक्ष्यामस्तानि मा परिक्रियन् । तथा घूयसु-
 पदिशत ॥ २४ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—यथा सर्वे मनुष्याः स्वेषां बलानि वर्द्ध-
 यितुमिच्छेद्युस्तथैवान्येषामपि वर्द्धयितुमिच्छन्तु ॥ २४ ॥

पदार्थः—हे विद्वानो ! जैसे (मित्रः) प्राण के समान मित्र (वरुणः)
 उदान के समान श्रेष्ठ (अर्यमा) और न्यायाधीश के समान नियम करने
 वाला (इन्द्रः) राजा तथा (ऋभुक्षाः) महात्मा (मरुतः) जन (नः) हम
 लोगों की (आयुः) आयुर्दा को (मा) मत (परिक्रियन्) विनाश करावें
 जिस से हम लोग (देवजातस्य) दिव्यगुणों से प्रसिद्ध (वाजिनः) वेगवान् (सप्तैः)
 घोड़ा के समान उत्तम वीर पुरुष के (विदथे) युद्ध में (यत्) जिन (वीर्याणि)
 बलों को (प्रवक्ष्यामः) कहें उन का मत विनाश करावें, वैसा आप लोग उपदेश
 करें ॥ २४ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु० । जैसे सब मनुष्य अपने बलों को बढ़ाना
 चाहें वैसे औरों के भी बल को बढ़ाने की इच्छा करें ॥ २४ ॥

यन्निर्णिजेत्यस्य गोतम ऋषिः । विद्वांसो देवताः ।

निचृत् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनर्मनुष्याः किं कुर्युरित्याह ॥

फिर मनुष्य क्या करें. इस वि० ॥

यन्निर्णिजा रेक्णसा प्रावृतस्य रातिं गृभीता-
ममुखतो नयन्ति । सुप्राडिजो मेम्यद्विश्वरूप इ-
न्द्रापूष्णोः प्रियमप्येति पाथः ॥ २५ ॥

यत् । निर्णिजा । निर्निजेति निःऽनिजा । रेक्णा-
सा । प्रावृतस्य । रातिम् । गृभीताम् । मुखतः । न-
यन्ति । सुप्राडिति सुऽप्राड् । अजः । मेम्यत् । विश्व-
रूप इति विश्वऽरूपः । इन्द्रापूष्णोः । प्रियम् । अपि ।
एति । पाथः ॥ २५ ॥

पदार्थः—(यत्) ये (निर्णिजा) सुरूपेण (रेक्णसा)
धनेन । रेक्ण इति धनना० निघं० २ । १० (प्रावृतस्य)
युक्तस्य (रातिम्) दानम् (गृभीताम्) गृहीताम् (मु-
खतः) अग्रतः (नयन्ति) प्रापयन्ति (सुप्राड्) यः सुष्ठु
पृच्छति सः (अजः) जन्मादिरहितः (मेम्यत्) प्राप्नु-
वन् (विश्वरूपः) विश्वं रूपं यस्य सः (इन्द्रापूष्णोः)
विद्युद्वायवोः (प्रियम्) कमनीयम् (अपि) (एति)
प्राप्नोति (पाथः) अन्वम् ॥ २५ ॥

अन्वयः—यन्मनुष्या निर्णिजा रेक्णसा प्रावृतस्य रातिं गृ-
भीतां सतीं मुखतो नयन्ति यो मेम्यत्सुप्राड् विश्वरूपोऽज इन्द्रापू-
ष्णोः प्रियं पाथोऽप्येति ते स च सुखमाप्नुवन्ति ॥ २५ ॥

भावार्थः—वे धनं प्राप्य सत्कर्मसु व्ययं कुर्वन्ति ते सर्वान् का-
मानाप्नुवन्ति ॥ २५ ॥

पदार्थः—(यत्) जो मनुष्य (निर्णिजा) सुन्दररूप और (रेक्णसा)
धन से (प्रावृतस्य) युक्त जन की (रातिम्) देनी वा (गृभीताम्) ली हुई
वस्तु को (मुखतः) आगे से (नयन्ति) प्राप्त कराते, तथा जो (मेम्यत्) प्राप्त
होता हुआ (सुप्राड्) अच्छे प्रकार पढ़ने वाला (विश्वरूपः) संसार जिस का
रूप वह (अजः) जन्म और मरण आदि दोषों से रहित अविनाशी जीव
(इन्द्रापूष्णोः) विजुली और पवन संबन्धी (प्रियम्) मनोहर (पाथः) अन्न
को (अप्येति) सब और से पाता है वे मनुष्य और वह जीव सब आनन्द को
प्राप्त होते हैं ॥ २५ ॥

भावार्थः—जो मनुष्य धन को पाकर अच्छे कामों में खर्च करते हैं वे सब का-
मनाओं को पाते हैं ॥ २५ ॥

एषइत्यस्य गोतम ऋषिः । यज्ञो देवता ।

निचृज्जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥

पुनः केन सह के पालनीया इत्याह ॥

फिर किस के साथ कौन पालना करने योग्य है इस वि० ॥

एष छागः पुरो अश्वेन वाजिना पूष्णो भागो
नीयते विश्वदेव्यः । अभिप्रियं यत्पुरोडाशमर्वता
त्वष्ट्रेदेन सौश्रवसाय जिन्वति ॥ २६ ॥

एषः । छागः । पुरः । अश्वेन । वाजिना । पूष्णाः ।
भागः । नीयते । विश्वदेव्य इति विश्वऽदेव्यः । अ-
भिप्रियमित्यभिऽप्रियम् । यत् । पुरोडाशम् । अर्वता ।
त्वष्ट्रा । इत् । एनम् । सौश्रवसाय । जिन्वति ॥ २६ ॥

पदार्थः—(एषः) (छागः) छेदकः (पुरः) पुरस्तात्
 (अश्वेन) (वाजिना) (पूष्णः) पोषकस्य (भागः) सेव-
 नीयः (नीयते) प्राप्यते (विश्वदेव्यः) विश्वेषु सर्वेषु
 देवेषु साधुः (अभिप्रियम्) सर्वतः कर्मनीयम् (यत्) यम्
 (पुरोडाशम्) (अर्वता) मंत्रा (त्वष्टा) तनूकर्त्ता (इत्)
 (एनम्) पूर्वोक्तम् (सौश्रवसाय) शोभनं श्रवः कीर्ति-
 र्यस्य स सुश्रवास्तस्य भावाय (जिन्वति) प्रीणाति ॥ २६ ॥

अन्वय—विद्वद्भिर्ग एष पुरो विश्वदेव्यः पूष्णो भागश्छागो
 वाजिनाश्वेन सह नीयते यदभिप्रियं पुरोडाशमर्वता सह त्वष्ट्रैर्न
 सौश्रवसायेज्जिन्वति स सदा पालनीयः ॥ २६ ॥

भावार्थः—यद्यश्वदिभिः सहान्यानजादीन्पशून् वर्धयेद्युस्तर्हि
 ते मनुष्याः सुखमुन्नयेयुः ॥ २६ ॥

पदार्थः—विद्वानों को चाहिये कि जो (एषः) यह (पुरः) प्रथम
 (विश्वदेव्यः) सब विद्वानों में उत्तम (पूष्णः) पुष्टि करने वाले का (भागः)
 सेवने योग्य (छागः) पदार्थों को छिन्न भिन्न करता हुआ प्राणी (वाजिना)
 वेगवान् (अश्वेन) घोड़े के साथ (नीयते) प्राप्त किया जाता और (यत्)
 जिस (अभिप्रियम्) सब ओर से मनोहर (पुरोडाशम्) पुरोडाश नामक
 यज्ञभाग को (अर्वता) पहुंचाते हुए घोड़े के साथ (त्वष्टा) पदार्थों को सूक्ष्म
 कर्मवाला (एनम्) उक्त भाग को (सौश्रवसाय) उत्तम कीर्तिमान होने के
 लिये (इत्) ही (जिन्वति) पाकर प्रसन्न होता है वह सदैव पालने
 योग्य है ॥ २६ ॥

भावार्थः—यदि अश्वदिकों के साथ अन्य बकरी आदिपशुओं को बढ़ावे तो वे
 मनुष्य सुख की उन्नति करें ॥ २६ ॥

यद्धविष्यमित्यस्य मजापतिर्ऋषिः । यज्ञो देवता ।

त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनः केन के किं कुर्वन्तीत्याह ॥

फिर किस से कौन क्या करते हैं इस वि० ॥

यद्धविष्यमृतुशो देवयानं त्रिर्मानुषाः पर्यश्वन्न-
यन्ति । अत्रां पूषाः प्रथमो भाग एति यज्ञन्दे-
वेभ्यः प्रतिवेदयन्नजः ॥ २७ ॥

यत् । हविष्यम् । ऋतुश इत्यृतुशः देवयानमिति-
देवयानम् । त्रिः । मानुषाः । परि । अश्वम् । नयन्ति ।
अत्र । पूषाः । प्रथमः । भागः । एति । यज्ञम् । देवेभ्यः ।
प्रतिवेदयन्निति प्रतिवेदयन् । अजः ॥ २७ ॥

पदार्थः—(यत्) ये (हविष्यम्) हविभ्यो हितम्
(ऋतुशः) ऋत्वर्हम् (देवयानम्) देवानां प्रापणसाधनम्
(त्रिः) त्रिवारम् (मानुषाः) (परि) सर्वतः (अश्वम्)
आशुगामिनम् (नयन्ति) प्राप्नुवन्ति (अत्र) अस्मिन् ।
अत्र ऋचितुनुघ० इति दीर्घत्वम् । (पूषाः) पुष्टेः (प्रथमः)
आदिमः (भागः) सेवनीयः (एति) प्राप्नोति (यज्ञम्)
(देवेभ्यः) विद्वद्भ्यः (प्रतिवेदयन्) विज्ञापयन् (अजः)
पशुविशेषः ॥ २७ ॥

अन्वयः—यद्ये मानुषा ऋतुशो हविष्यं देवयानामश्वं त्रिः परिन-
यन्ति योऽत्र पूषाः प्रथमो भागो देवेभ्यो यज्ञं प्रतिवेदयन्नजं एति
स सदा रक्षणीयः ॥ २७ ॥

भावार्थः— ये प्रत्यूत्वाहारविहारन्कुर्वन्त्यश्वाजादिपशुभ्यः संगतानि कार्याणि कुर्वन्ति तेऽत्यन्तं सुखं लभन्ते ॥ २७ ॥

पदार्थः— (यत्) जो (मानुषाः) मनुष्य (ऋतुशः) ऋतुर के योग्य (हविष्यम्) होम में चढ़ाने के पदार्थों के लिये हितकारी (देवयानम्) दिव्य गुण वाले विद्वानों की प्राप्ति कराने हारे (अश्वम्) शीघ्रगामी प्राणी को (त्रिः) तीनवार (परि, नयन्ति) सब ओर पहुंचाते हैं वा जो (अत्र) इस संसार में (पूणाः) पुष्टिसंबन्धी (प्रथमः) प्रथम (भागः) सेवने योग्य (देवेभ्यः) विद्वानों के लिये (यज्ञम्) सत्कार को (प्रातिवेदयन्) जनाता हुआ (अंजः) विशेष पशु बकरा (एति) प्राप्त होता है वह सदा रक्षा करने योग्य है ॥२७॥

भावार्थः— जो मनुष्य ऋतुर के प्रति उन के गुणों के अनुकूल आहार विहारों को करते तथा घोड़ा और बकरा आदि पशुओं से संगत हुए कामों को करते हैं वे अत्यन्त सुख को पाते हैं ॥ २७ ॥

होतेत्यस्य गोतम ऋषिः । यज्ञो देवता । निचृत् त्रिष्टुप् छन्दः ।

धैवत स्वरः ॥

पुनर्मनुष्याः किं कुर्युरित्याह ॥

फिर मनुष्य क्या करें इस वि० ॥

होताध्वर्युरावया अग्निमिन्धो ग्रावग्राभ उत
शस्ता सुविप्रः । तेन यज्ञेन स्वरङ्कृतेन स्वि-
ष्टेन वक्षणाऽआ पूणाध्वम् ॥ २८ ॥

होता । अध्वर्युः । आवयाइत्याऽवयाः । अग्निमि-
न्ध इत्यग्निम्ऽइन्धः । ग्रावग्राभ इति ग्रावऽग्राभः ।
उत । शस्ता । सुविप्र इति सुऽविप्रः । तेन । यज्ञेन ।
स्वरङ्कृतेनेति सुऽस्वरङ्कृतेन । स्विष्टेनेति सुऽइष्टेन ।
वक्षणाः । आ । पूणाध्वम् ॥ २८ ॥

पदार्थः— (होता) आदाता (अध्वर्युः) अहिंसायज्ञमि-
च्छुः (आवयाः) येनावयजन्ति सः (अग्निमिन्धः) अग्निप्रदी-
पकः (ग्रावग्राभः) यो ग्रावाणं मेघं गृह्णाति सः (उत) (शंस्ता)
प्रशंसकः (सुविप्रः) शोभना विप्रा मेधाविनो यस्मिन् सः
(तेन) (यज्ञेन) संगतेन (स्वरङ्कृतेन) सुष्ठुलङ्कृतेन । अत्र
कपिलकादित्वाद्देफः । (स्विष्टेन) शोभनेनेष्टेन (वक्षणाः)
नदीः । वक्षणा इति नदीना० निघ० १ । १३ (आ) (पृण-
ध्वम्) समन्तात्सुखयत ॥ २८ ॥

श्रान्वयः— हे मनुष्या यथाहोताऽऽवया अग्निमिन्धो ग्रावग्राभः
शंस्तोत सुविप्रोऽध्वर्युर्येन स्वरङ्कृतेन स्विष्टेन यज्ञेन वक्षणा अलङ्करो-
ति तथा तेन धूमप्यापृणध्वम् ॥ २८ ॥

भावार्थः— अत्र वाचकलु० । ये मनुष्या सुगन्ध्यादिसुसंस्कृतानां
हविषां वद्भौ प्रक्षेपेण वायुवर्षाजलादीनि शोधयित्वा नद्यादिजला-
नि शोधयन्ति ते सदा सुखयन्ति ॥ २८ ॥

पदार्थः— हे मनुष्यो ! जैसे (होता) ग्रहण करने हारा वा (आवयाः)
जिस से अच्छे प्रकार यज्ञ संग और दान करते वह वा (अग्निमिन्धः) अग्नि
को प्रदीप्त करने हारा वा (ग्रावग्राभः) मेघ को ग्रहण करने हारा वा (शंस्ता)
प्रशंसा करने हारा (उत) और (सुविप्रः) जिसके समीप अच्छे २ बुद्धिमान
हैं वह (अध्वर्युः) अहिंसा यज्ञ का चाहने वाला उत्तम जन जिस (स्वरङ्कृतेन)
सुन्दर सुशोभित किये (स्विष्टेन) सुन्दर भाव से चाहें और (यज्ञेन) मिले
हुए यज्ञ आदि उत्तम काम से (वक्षणाः) नदियों को पूर्ण करता अर्थात् यज्ञ
करने से पानी वर्षा उस वर्षे हुए जल से नदियों को भरता वैसे (तेन) उस
काम से तुम लोग भी (आ, पृणध्वम्) अच्छे प्रकार सुख भोगो ॥ २८ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—जो मनुष्य सुगन्धि आदि से उत्तम बना-
वे हुए होम करने योग्य पदार्थों के अग्नि में छोड़ने से पवन और वर्षाजल आदि पदा-
र्थों को शोध कर नदी नद आदि के जलों की शुद्धि करते हैं वे सदैव सुख भोगते हैं ॥२८॥

यूपत्रस्काइत्यस्य गोतम ऋषिः । यज्ञो देवता ।

धुरिक् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनस्ते किं कुर्युरित्याह ॥

फिर वे क्या करें इस वि० ॥

यूपत्रस्काऽ उत ये यूपवाहाश्चषालं ये अश्व-
यूपाय तक्षति । ये चार्वते पचनम् सम्भरन्त्युतो
तेषामभिर्गूर्तिर्नऽइन्वतु ॥ २९ ॥

यूपत्रस्का इति यूपऽत्रस्काः । उत । ये । यूपवाहा
इति यूपऽवाहाः । चषालम् । ये । अश्वयूपायेति अ-
श्वऽयूपाय । तक्षति । ये । च । चार्वते । पचनम् । स-
म्भरन्तीति सम्भरन्ति । उतोऽ इत्युतो । तेषाम् ।
अभिर्गूर्तिरित्यभिऽर्गूर्तिः । नः । इन्वतु ॥ २९ ॥

पदार्थः—(यूपत्रस्काः) यूपस्य स्तम्भस्य छेदकाः (उत)
अपि (ये) (यूपवाहाः) ये यूपं वहन्ति ते (चषालम्)
यूपावयवम् (ये) (अश्वयूपाय) अश्वस्य बन्धनार्थाय
स्तम्भाय (तक्षति) तक्षन्ति तनूकुर्वन्ति । अत्र वचनव्य-

त्वयेनैकवचनम् (ये) (च) (अर्वाते) अश्वाय (प-
चनम्) पाकसाधनम् (सम्भरन्ति) सम्यग्धरन्ति पुष्णन्ति
वा (उतो) अपि (तेषाम्) (अभिगूर्तिः) अभ्युद्यमः
(नः) अस्मान् (इन्वतु) व्याप्नोतु प्राप्नोतु ॥ २६ ॥

अन्वयः—ये यूपत्रस्का उतापि ये यूपवाहा अश्वयूपाय चपालं
तक्षति ये चार्वाते पचनं सम्भरन्ति उतो ये प्रयतन्ते तेषामभिगूर्ति-
र्न इन्वतु ॥ २६ ॥

भावार्थः—ये शिल्पिनोऽश्वबन्धनादीनि काष्ठविशेषजानि वस्तू-
नि निर्मिते ये च वैद्या अश्वादीनामौषधानि सम्भारांश्च संगृह्ण-
न्ति ते सदोद्यमिनः सन्तोऽस्मान् प्राप्नुवन्तु ॥ २६ ॥

पदार्थः—(ये) जो (यूपत्रस्काः) यज्ञ खंभा के छेदने बनाने (उत)
और (ये) जो (यूपवाहाः) यज्ञस्तम्भ को पहुंचाने वाले (अश्वयूपाय)
घोड़ा के बांधने के लिये (चपालम्) खम्भा के खण्ड को (तक्षति) काटते
छांटते (ये, च) और जो (अर्वाते) घोड़ा के लिये (पचनम्) जिस में पाक
किया जाय उस काम को (सम्भरन्ति) अच्छे प्रकार धारण करते वा पुष्ट क-
रते (उतो) और जो उत्तम यज्ञ करते हैं (तेषाम्) उन का (अभिगूर्तिः) सब प्र-
कार से उद्यम (नः) हम लोगों को (इन्वतु) व्याप्त और प्राप्त होवे ॥ २६ ॥

भावार्थः—जो कारुक शिल्पी जग घोड़ा के बांधने आदि काम के काठों से विशेष
काम बनाते और जो वैद्य घोड़े आदि पशुओं की औषधि और उनकी सजावट की सा-
मग्रियों को इकट्ठा करते हैं वे सदा उद्यम करते हुए हम लोगों को प्राप्त होवें ॥ २६ ॥

उप प्रागादित्यस्य गोतम ऋषिः । विद्वांसो देवताः ।

त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनः के केषां सकाशात् किं गृह्णीयुरित्याह ॥

फिर कौन किन से क्या लेवें इस वि० ॥

उप प्रागात्सुमन्मेधायिमन्म देवानामाशाऽ-
उप वीतपृष्ठः । अन्वेनं विप्रा ऋषयो मदन्ति
देवानां पुष्टे चक्रमा सुबन्धुम् ॥ ३० ॥

उप । प्र । अगात् । सुमदिति सुऽमत् । मे । अ-
धायि । मन्म । देवानाम् । आशाः । उप । वीतपृष्ठ
इतिवीतऽपृष्ठः । अनु । एनम् । विप्राः । ऋषयः । मद्-
न्ति । देवानाम् । पुष्टे । चक्रम् । सुबन्धुमिति सुऽब-
न्धुम् ॥ ३० ॥

पदार्थः—(उप) सामीप्ये (प्र) (अगात्) प्राप्नुयात्
(सुमत्) स्वयम् (मे) मम (अधायि) ध्रियंते (मन्म)
विज्ञानम् (देवानाम्) विदुषाम् (आशाः) दिशः (उप)
(वीतपृष्ठः) वीतं व्याप्तं पृष्ठं यस्य सः (अनु) (एन-
म्) (विप्राः) मेधाविनः (ऋषयः) मंत्रार्थविदः (नद्-
न्ति) कामयन्ते (देवानाम्) विदुषाम् (पुष्टे) पुष्टे जने
(चक्रम्) कुर्याम् । अत्र संहितायामिति दीर्घः । (सुबन्धु-
म्) शोभना बन्धवो भ्रातरो यस्य तम् ॥ ३० ॥

अन्वयः—येन सुमत्स्वयं देवानां वीतपृष्ठो यज्ञोऽधायियेनैतेषां मे
न मन्माशाश्चोपप्रागाद्यमेनमनुदेवानां पुष्टे ऋषयो विप्रा उपमदान्ति
तं सुबन्धु वयं चक्रम् ॥ ३० ॥

भावार्थः—हे विदुषां सकाशाद्विज्ञानं प्राप्यर्पयो भवन्ति ते सर्वा-
न् विज्ञानदानेन पोषयन्ति येऽन्योन्यस्यान्नतिं विधाय सिद्धकामा
भवन्ति ते जगद्धितैषिणो जायन्ते ॥ ३० ॥

पदार्थः—जिस ने (सुमत्) आप ही (देवानाम्) विद्वानों का (वीतपृष्ठः)
जिस का पिछला भाग व्याप्त वह उत्तम व्यवहार (अध्यायि) धारण क्रिया का
जिस से इन के और (भे) मेरे (मन्य) विज्ञान को तथा (आशाः) दिशा दिशान्त-
रों को (उप, प्र, अगात्) प्राप्त हो वा जिस (एनम्) इस प्रत्यक्ष व्यवहार
के (अनु) अनुकूल (देवानाम्) विद्वानों के बीच (पुष्टे) पुष्ट बलवान् जन
के निमित्त (ऋषयः) मंत्रों का अर्थ जानने वाले (त्रिषाः) धीरबुद्धि पुरुष
(उप, मदन्ति) समीप हो कर आनन्द को प्राप्त होते हैं उस (सुवन्धुम्)
सुन्दर २ भाइयों वाले जन को हम लोग (चकृम) उत्पन्न करें ॥ ३० ॥

भावार्थः—जो विद्वानों के समीप में उत्तम ज्ञान को पाके ऋषि होते हैं वे मन्त्र के
विज्ञान देने से पुष्ट करते हैं जो परस्पर एक दूसरे की उन्नति कर परिपूर्ण काम वाले
होते हैं वे जगत् के हितैषी होते हैं ॥ ३० ॥

यद्वाजिन इत्यस्य गोतम ऋषिः । यज्ञो देवता ।

त्रिपृष्ण् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनः के कैः किं कुर्युरित्याह ॥

फिर कौन किन से क्या करें इस वि० ॥

यद्वाजिनो दाम् सन्दानमर्वतो या शीर्षिण्या
रशना रज्जुरस्य । यद्वा घास्य प्रभृतमास्ये तृ-
णश्च सर्वा ता ते अपि देवेष्वस्तु ॥ ३१ ॥

यत् । वाजिनः । दाम । सन्दानमिति सम्दानम् ।
अर्वतः । या । शीर्षण्या । रशना । रज्जुः । अस्य । यत्
वा । घ । अस्य । प्रभृतमिति प्रभृतम् । आस्ये ।
तृणम् । सर्वा । ता । ते । अपि । देवेषु । अस्तु ॥ ३१ ॥

पदार्थः—(यत्) (वाजिनः) प्रशस्तवेगवतः (दाम)
उदरबन्धनम् (सन्दानम्) पादादिवन्धनादीनि (अ-
र्वतः) बलिष्ठस्याश्वस्य (या) (शीर्षण्या) शिरसि भ-
वा (रशना) व्याप्नुवती (रज्जुः) (अस्य) (यत्)
(वा) (घ) एव (अस्य) (प्रभृतम्) प्रकर्षणा धृ-
तम् (आस्ये) मुखे (तृणम्) घासविशेषम् (सर्वा)
सर्वाणि (ता) तानि (ते) तव अपि (देवेषु) विद्वत्सु
(अस्तु) ॥ ३१ ॥

अन्वयः—हे विद्वन् वाजिनोऽस्यार्वतो यद्यस्य सन्दानं या शीर्षण्या
रशना रज्जुर्यगाऽस्यास्ये तृणं प्रभृतं ता सर्वा ते सन्तु । एतत्सर्वं घ
देवेष्वप्यस्तु ॥ ३१ ॥

भावार्थः—येऽश्वान् सुशिक्ष्य सर्वावयवबन्धनानि सुन्दराणि भ-
क्ष्यं भोज्यं पयं च श्रेष्ठमौषधमुत्तमं च कुर्वन्ति ते विजयादीनि का-
र्याणि साङ्गं शक्नुवन्ति ॥ ३१ ॥

पदार्थः—हे विद्वन् ! (वाजिनः) प्रशस्त वेग वाले (अस्य) इस (अर्वतः)
बलवान् घोड़े का (यत्) जो (दाम) उदरबन्धन अर्थात् तंगी और (सन्दा-
नम्) श्रगादी पछादी पैर आदि में बांधने की रस्सी वा (या) जो (शीर्षा-

श्या)शिर में होने वाली (रशना) मुह में व्याप्त (रज्जुः) रस्सी मुदेरा आदि (यत्, वा) अथवा जो (अस्य) इस घोड़े के (आस्ये) मुख में (तृणम्) घास दूब आदि विशेष तृण (प्रभृतम्) उत्तमता से धरी हो (ता) वे (सर्वा) सब पदार्थ (ते) तेरे हों और यह उक्त समस्त वस्तु (य) ही (देवेषु) विद्वानों में (अपि) भी (अस्तु) हो ॥ ३१ ॥

भावार्थः—जो पुरुष घोड़ों को अच्छी शिक्षा कर उन के सब अंगों के बन्धन सुन्दर २ तथा खाने पीने के श्रेष्ठ पदार्थ और उत्तम २ औपध करते हैं वे शत्रुओं को जीतना आदि काम सिद्ध कर सकते हैं ॥ ३१ ॥

यदश्वस्येत्यस्य गोतम ऋषिः । यज्ञो देवता ।

निचृत् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनः कथं के रक्षया इत्याह ॥

फिर कैसे कौन रक्षा करने योग्य हैं इस वि० ॥

यदश्वस्य क्रविषो मक्षिकाश यद्वा स्वरौ स्व-
धितौ रिप्प्रमस्ति । यद्धस्तयोः शमितुर्यन्नखेषु स-
र्वा ता ते अपि देवेष्वस्तु ॥ ३२ ॥

यत् । अश्वस्य । क्रविषः । मक्षिका । आश । यत् ।
वा । स्वरौ । स्वधिताविति स्वधितौ । रिप्प्रम् । अस्ति ।
यत् । हस्तयोः । शमितुः । यत् । नखेषु । सर्वा । ता ।
ते । अपि । देवेषु । अस्तु ॥ ३२ ॥

पदार्थः—(यत्) यां (अश्वस्य) आशुंगामिनः (क्रवि-
षः) गन्तुः (मक्षिका)(आश) अशनाति (यत्)यौ(वा)(स्वरौ)

(स्वधितौ) वज्रवद्वर्तमानौ (रिप्तम्) प्राप्तम् (अस्ति)
 (यत्) (हस्तयोः) (शमितुः) यज्ञस्य कर्तुः (यत्)
 (नखेषु) (सर्वा) सर्वाणि (ता) तानि (ते) तव (अ-
 पि) (देवेषु) विद्वत्सु (अस्तु) ॥ ३२ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यथा मक्षिका ऋविषोऽश्वस्याऽऽश वा
 यत्स्वरौ स्वधितौ स्तः शमितुर्हस्तयोर्यद्रिप्तं यच्च नखेषु रिप्तमस्ति
 ता सर्वा ते सन्तु । एतत्सर्वं देवेष्वप्यस्तु ॥ ३२ ॥

भावार्थः—मनुष्यैरीदृशायां शालायामश्वान् बन्धनीयां यत्रै-
 षां रुधिरादिकं मक्षिकादयो न पिवेयुः । यथा यज्ञकर्तुर्हस्तयोर्लिप्तं
 हविः प्रक्षालनादिना निवारयन्ति तथैवाश्वादीनां शरीरे लिप्तानि
 धूल्यादीनि नित्यं निवारयन्तु ॥ ३२ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! (यत्) जो (मक्षिका) मक्खी (ऋविषः) चलते
 हुए (अश्वस्य) शीघ्र जाने वाले घोड़े का (आश) भोजन करती अर्थात्
 कुछ मल रुधिर आदि खाती (वा) अथवा (यत्) जो (स्वरौ) स्वर (स्व-
 धितौ) वज्र के समान वर्तमान हैं वा (शमितुः) यज्ञ करने हारे के (हस्तयोः)
 हाथों में (यत्) जो वस्तु (रिप्तम्) प्राप्त और (यत्) जो (नखेषु) नखों
 में प्राप्त (अस्ति) है (ता) वे (सर्वा) सब पदार्थ (ते) तुम्हारे हों तथा यह
 समस्त व्यवहार (देवेषु) विद्वानों में (अपि) भी (अस्तु) होवे ॥ ३२ ॥

भावार्थः—मनुष्यों को ऐसी घुड़शाल में घोड़े बांधने चाहिये जहां इन का रुधिर
 आदि मांछि आदि न पीवें । जैसे यज्ञ करने हारे के हाथ में लिपटे हुए हवि को धो-
 ने आदि से छुड़ाते हैं वैसे ही घोड़े आदि पशुओं के शरीर में लिपटी धूलि आदि-
 को नित्य छुड़ावें ॥ ३२ ॥

यद्वृध्यमित्यस्य गोतमं ऋषिः । यज्ञो देवता ।

निचृत् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ।

पुनः के किमर्थं किं न कुर्युरित्याह ॥

फिर कौन किस लिये क्या न करें इस वि० ॥

यद्वृध्यमुदरस्यापवाति य आमस्य ऋविषो
गन्धोऽस्ति । सुकृता तच्छमितारः कृण्वन्तू-
त मेधं शृतपाकं पचन्तु ॥ ३३ ॥

यत् । ऊर्ध्वम् । उदरस्य । अपवातीत्यप-
वाति । यः । आमस्य । ऋविषः । गन्धः । अ-
स्ति । सुकृतेति सुकृता । तत् । शमितारः । कृण्वन्तु ।
उत । मेधम् । शृतपाकमिति शृतपाकम् । पचन्तु ॥ ३३ ॥

पदार्थः—(यत्) (ऊर्ध्वम्) मलीनम् (उदरस्य)
उदरस्य सकाशात् (अपवाति) अपगच्छति (यः)
(आमस्य) अपरिपकस्य (ऋविषः) भक्षितस्य (गन्धः)
(अस्ति) (सुकृता) सुकृतं सुष्ठुसंस्कृतम् । अत्राका-
रादेशः (तत्) (शमितारः) शान्तिकराः (कृण्वन्तु)
कुर्वन्तु (उत) अपि (मेधम्) पवित्रम् (शृतपाकम्)
शृतः पक्कः पाको यस्य तत् (पचन्तु) ॥ ३३ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या उदरस्य यद्वृध्यमपवाति य आमस्य ऋविषो
गन्धोऽस्ति तच्छमितारः सुकृता कृण्वन्तूतापि मेधं शृतपाकं प-
चन्तु ॥ ३३ ॥

भावार्थः—ये जना यज्ञं कर्तुमिच्छेद्युक्ते दुर्गन्धयुक्तं द्रव्यं विहाय सुगन्धादियुक्तं सुसंस्कृतं पाकं कृत्वाऽग्नौ जुहुयुक्ते जगद्धितैषिणो भवन्ति ॥ ३३ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! (उदरस्य) पेट के कोष्ठ से (यत्) जो (ऊवध्यम्) मलिन मल (अपवाति) निकलता और (यः) जो (आमस्य) न पचे कच्चे (ऋविपः) खाये हुए पदार्थ का (गन्धः) गन्ध (अस्ति) है (तत्) उस को (शमितारः) शान्ति करने अर्थात् आराम देने वाले (सुकृता) अच्छा सिद्ध (कृण्वन्तु) करें (उत) और (मेधम्) पवित्र (शृतपाकम्) जिस का सुन्दर पाक बने उस को (पचन्तु) पकावें ॥ ३३ ॥

भावार्थः—जो लोग यज्ञ करना चाहें वे दुर्गन्धयुक्त पदार्थ को छोड़ सुगन्धि आदि युक्त सुन्दरता से बनाया पाक कर अग्नि में होम करें वे जगत् का हित चाहने वाले होते हैं ॥ ३३ ॥

यत्ते गात्रादित्यस्य गोतम ऋषिः । यज्ञो देवता ।

धुरिक् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनर्मनुष्यैः केन किं निस्सारणीयमित्याह ॥

फिर मनुष्यों को किस से क्या निकाला चाहिये इस वि० ॥

यत्ते गात्रादग्निना पच्यमानादभि शूलं निहतस्यावधावति । मा तद्भूम्यामाश्रिषन्मा तृणेषु देवेभ्यस्तदुशद्भ्यो शतमस्तु ॥ ३४ ॥

यत् । ते । गात्रात् । अग्निना । पच्यमानात् । अभि । शूलम् । निहतस्येति निःहतस्य । अवधावतीत्यवधावति । मा । तत् । भूम्याम् । आ । श्रिषत् । मा । तृणेषु । देवेभ्यः । तत् । उशद्भ्यः इत्युशत्भ्यः । शतम् । अस्तु ॥ ३४ ॥

पदार्थः—(यत्) यदा (ते) तव (गात्रात्) अङ्गात्
 (अग्निना) अन्तःकरणरूपेण तेजसा (पच्यमानात्)
 (अभि) (शूलम्) शु शीघ्रं लाति बोधं गृह्णाति येन
 तद्वचः । पृषोदरादित्वात्सिद्धम् (निहतस्य) निश्चयेन
 कृतश्रमस्य (अवधावति) गच्छति (मा) (तत्) (भू-
 म्याम्) (आ, श्रिषत्) आश्रयति (मा) (तृणेषु)
 (देवेभ्यः) विद्वद्भ्यः (तत्) (उशद्भ्यः) सत्पुरुषेभ्यः
 (रातम्) दत्तम् (अस्तु) ॥ ३४ ॥

अन्वयः—हे मनुष्य निहतस्य तेतवाग्निना पच्यमानाद्गात्राद्-
 यच्छूलमभ्यवधावति तद्भूम्यां मा श्रिषत् । तत्तृणेषु माश्रिषत् किन्तु
 तच्चोशद्भ्यो देवेभ्यो रातमस्तु ॥ ३४ ॥

भावार्थः—हे मनुष्या यानि ज्वरादिपीडितान्यङ्गानि भवे-
 युस्तानि वैद्येभ्यो नीरोगाणि कार्याणि तैर्यदौषधं दीयेत तद्रोगिभ्यो
 हितकरं भवति ॥ ३४ ॥

पदार्थः—हे मनुष्य ! (निहतस्य) निश्चय से श्रम किये हुए (ते) तेरे
 (अग्नि) अन्तःकरणरूप तेज से (पच्यमानात्) पकाये जाते (गात्रात्) अंग
 से (यत्) जो (शूलम्) शीघ्र बोध का हेतु वचन (अभि, अवधावति) चारों
 ओर से निकलता है (तत्) वह (भूम्याम्) भूमि पर (मा, आ, श्रिषत्)
 नहीं आता है तथा (तत्) वह (तृणेषु) तृणों पर (मा) नहीं आता किन्तु वह
 तो (उशद्भ्यः) सत्पुरुष (देवेभ्यः) विद्वानों के लिये (रातम्) दिया
 (अस्तु) होवे ॥ ३४ ॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो ज्वर आदि से पीडित अंग हों उन को वैद्य जनों से नीरोग
 कराना चाहिये क्योंकि उन वैद्य जनों से जो औषध दिया जाता है वह रोगी जन के लिये
 हितकारी होता है ॥ ३४ ॥

ये वाजिनमित्यस्य गोतम ऋषिः । विश्वे देवा देवताः ।

स्वराद् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनः के निरोद्धव्या इत्याह ॥

फिर कौन रोकने योग्य हैं इस वि० ॥

ये वाजिनं परिपश्यन्ति पक्कं य ईमाहुः सुर-
भिर्निर्हरेति । ये चर्वतो मांसमिक्षामुपासंत
उतो तेषामभिगूर्तिर्न इन्वतु ॥ ३५ ॥

ये । वाजिनम् । परिपश्यन्तीति परिपश्यन्ति ।
पक्कम् । ये । ईम् । आहुः । सुरभिः । निः । हर । इति ।
ये । च । अर्वतः । मांसमिक्षामिति मांसमिक्षाम् ।
उपासंतइत्युपऽआसते । उतो इत्युतो । तेषाम् । अ-
भिगूर्तिरित्यभिऽगूर्तिः । नः । इन्वतु ॥ ३५ ॥

पदार्थः—(ये) (वाजिनम्) वेगवन्तमश्वम् (परि-
पश्यन्ति) सर्वतोऽन्वीक्षन्ते (पक्कम्) परिपक्कस्वभावम्
(ये) (ईम्) प्राप्तम् (आहुः) (सुरभिः) सुगन्धः
(निः) नितराम् (हर) निस्सारय (इति) (ये) (च)
(अर्वतः) अश्वस्य (मांसमिक्षाम्) मांसयाचनाम्
(उपासते) (उतो) अपि (तेषाम्) (अभिगूर्तिः)
अभ्युद्यमः (नः) अस्मान् (इन्वतु) प्राप्नोतु ॥ ३५ ॥

अन्वयः—येऽसर्वतो मांसमिक्षामुपासते च येऽश्वमीं हन्तव्यमा-
हुस्तान्निर्हर दूरे प्रक्षिप । ये वाजिनं पक्कं परिपश्यन्ति उतो अपि
तेषां सुरभिरभिगूर्तिर्न इन्वत्विति ॥ ३५ ॥

भावार्थः—येऽश्वादिश्रेष्ठानां पशूनां मांसमत्तुमिच्छेयुस्ते राजा-
दिभिः श्रेष्ठैर्निरोद्धव्या यतो मनुष्याणामुद्यमसिद्धिः स्यात् ॥ ३५ ॥

पदार्थः— (ये) जो (अर्बतः) घोड़े के (मांसमिच्छाम्) मांस के मांगने
की (उपासते) उपासना करते (च) और (ये) जो घोड़ा को (ईम्) पाया
हुआ मारने योग्य (आहुः) कहते हैं उनको (नि, हर) निरन्तर हरो दूर
पहुंचाओ (ये) जो (वाजिनम्) वेगवान् घोड़ों को (पकम्) पका सिखा
के (परिपश्यन्ति) सब और से देखते हैं (उतो) और (तेषाम्) उन का
(सुरभिः) अच्छा सुगन्ध और (अभिगृत्तिः) सब ओर से उद्यम (नः)
हम लोगों को (इन्वतु) प्राप्त हो उनके अच्छे काम हमको प्राप्त हों (इति) इस
प्रकार दूर पहुंचाओ ॥ ३५ ॥

भावार्थः— जो घोड़े आदि उत्तम पशुओं का मांस खाना चाहें वे राजा आदि
श्रेष्ठ पुरुषों को रोकने चाहियें जिस से मनुष्यों का उद्यम सिद्ध हो ॥ ३५ ॥

यन्नीक्षणमित्यस्य गोतम ऋषिः । यज्ञो देवता ।

भुरिक् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

पुनः केन किं निरीक्षणीयमित्याह ॥

फिर किस को क्या देखना चाहिये इस वि० ॥

यन्नीक्षणां मांसं स्पचन्त्या उखाया या पात्राणि
यूष्णा आसेचनानि । ऊष्मण्याऽपिधानां चरु-
णामङ्गाः सूनाः परिभूषन्त्यश्वम् ॥ ३६ ॥

यत् । नीक्षणमिति निऽईक्षणम् । मांसं स्पचन्त्या
इति मांसं स्पचन्त्याः । उखायाः । या । पात्राणि ।
यूष्णः । आसेचनानीत्याऽसेचनानि । ऊष्मण्या ।
अपिधानेत्यापिऽधानां । चरुणाम् । अङ्गाः । सूनाः ।
परि । भूषन्ति । अश्वम् ॥ ३६ ॥

पदार्थः—(यत्) (नीक्षणम्) निकृष्टं तदीक्षणं दर्शनं
 च तत् (मांसपचन्याः) मांसं पचन्ति यस्यां तस्याः
 (उखायाः) स्थाल्याः (या) यानि (पात्राणि) (यू-
 णः) वटुकस्य (आसेचनानि) समन्तात् सिचन्ति
 यैस्तानि (ऊष्मण्या) ऊष्मसु साधूनि (अपिधाना)
 आच्छादनानि (चरुणाम्) पात्राणाम् (अङ्काः) ल-
 क्षिताः (सूनाः) प्रसूताः (परि) सर्वतः (भूषन्ति)
 अलङ्कुर्वन्ति (अश्वम्) ॥ ३६ ॥

अन्वयः—या ऊष्मण्याऽपिधानाऽऽसेचनानि पात्राणि यन्मांसप-
 चन्या उखाया नीक्षणं चरुणामङ्काः सूना यूष्णोऽश्वं परिभूषन्ति
 तानि स्वीकृतव्यानि ॥ ३६ ॥

भावार्थः—यदि केचिदश्वादीनामुपकारिणां पशूनां शुभानां प-
 क्षिणां मांसाहारं कुर्युस्तर्हि तेभ्यो दण्डो यथापराधं दातव्य एव ॥ ३६ ॥

पदार्थः—(या) जो (ऊष्मण्या) गरमियों में उत्तम (अपिधाना)
 ढांपने (आसेचनानि) और सिचाने हारे (पात्राणि) पात्र वा (यत्) जो
 (मांसपचन्याः) मांस जिस में पकाया जाय उस (उखायाः) बटलेई का
 (नीक्षणम्) निकृष्ट देखना वा (चरुणाम्) पात्रों के (अङ्काः) लक्षण
 किये हुए (सूनाः) प्रसिद्ध पदार्थ तथा (यूष्णः) बढ़ाने वाले के (अश्वम्)
 घोड़े को (परि, भूषन्ति) सब ओर से सुशोभित करते हैं वे सब स्वीकार
 करने योग्य हैं ॥ ३६ ॥

भावार्थः— यदि कोई घोड़े आदि उपकारी पशुओं और उत्तम पक्षियों का
 मांस खावे तो उन को यथापराध अवश्य दण्ड देना चाहिये ॥ ३६ ॥

मात्रेत्यस्य गोतम ऋषिः । विद्वांसो देवताः । स्वराद्

पदक्तिरछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

पुनर्मनुष्यैर्मांसभक्षणं न कर्तव्यमित्याह ॥

फिर मनुष्यों को मांस न खाना चाहिये इस वि० ॥

मा त्वाग्निध्वनयीधूमगन्धिर्मोखाभ्राजन्त्य-
भि विक्त जघ्निः । इष्टं वीतमभिगूर्त्तं वर्षदकृतं
तं देवासः प्रति गृभ्णन्त्यश्वम् ॥ ३७ ॥

मा । त्वा । अग्निः । ध्वनयीत् । धूमगन्धिरिति धू-
मऽगन्धिः । मा । उखा । भ्राजन्ती । अभि । विक्त ।
जघ्निः । इष्टम् । वीतम् । अभिगूर्त्तमित्यभिऽगूर्त्तम् ।
वर्षदकृतमिति वर्षदऽकृतम् । तम् । देवासः । प्रति ।
गृभ्णन्ति । अश्वम् ॥ ३७ ॥

पदार्थः—(मा) (त्वा) तम् (अग्निः) पावकः (ध्व-
नयीत्) शब्दयेत् (धूमगन्धिः) धूमे गन्धो यस्य सः
(मा) (उखा) स्थाली (भ्राजन्ती) प्रकाशमाना (अ-
भि) सर्वतः (विक्त) विजानीत (जघ्निः) जिघृति य-
स्याः सा (इष्टम्) अभीप्सितम् (वीतम्) प्राप्तम् (अ-
भिगूर्त्तम्) अभितः कृतोद्यमम् (वर्षदकृतम्) क्रिया-
सिद्धम् (तम्) (देवासः) विद्वांसः (प्रति) (गृभ्णन्ति)
गृह्णन्ति (अश्वम्) वेगवन्तम् ॥ ३७ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यथा देवासो यमिष्टं वीतमभिगूर्त्तं वर्षद-
कृतमश्वं प्रतिगृभ्णन्ति तं घूयमाभि विक्त त्वा तं धूमगन्धिरग्निर्मा
ध्वनयीत् जघ्निर्भ्राजन्त्युखा मा ध्वनयीत् ॥ ३७ ॥

भावार्थः—हे मनुष्या यथा विद्वांसो मांसाहारिणो निवार्याऽश्वा-
दीनां वृद्धिं रक्षां च कुर्वन्ति तथा घूयमपि कुरुत । अग्न्यादिवि-
घ्नेभ्यः पृथग्रक्षत ॥ ३७ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे (देवासः) विद्वान् जन जिस (इष्टम्) चाहे
हुए (वीतम्) प्राप्त (अभिगूर्त्तम्) चारों ओर से जिस में उन्नम क्रिया गया
(वषट्कृतम्) ऐसे क्रिया से सिद्ध हुए (अश्वम्) वंगवान घोड़े को प्रति
(गृह्णन्ति) प्रतीति से ग्रहण करते उस को तुम (अभि) सब ओर से (वित्त)
जानो (त्वा) उस को (धूमगन्धिः) धुंआ में गन्ध जिस का वह (आग्निः)
आग्नि (मा) मत (ध्वनयीत्) शब्द करे वा (तम्) उस को (जाधिः) जिस से
किसी वस्तु को संघते हैं वह (भ्राजन्ती) चमकती हुई (उखा) बटलोई (मा)
मत हिसावे ॥ ३७ ॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान् मांसाहारियों को निवृत्त कर घोड़ा आदि पशुओं
की वृद्धि और रक्षा करते हैं वैसे तुमभी करो और आग्नि आदि के विघ्नोंसे अलग रखो ॥ ४७ ॥

निक्रमणमित्यस्य गोतम ऋषिः । यज्ञो देवता ।

विराट्पङ्क्तिरङ्गन्दः । पञ्चमःस्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयगाह ॥

फिर उसी वि० ॥

निक्रमणं निषदंनं विवर्त्तनं यच्च पडवींशमवतः ।
युच्च पपौ यच्च घ्रासिजघास सर्वा ता ते अपि
देवेष्वस्तु ॥ ३८ ॥

निक्रमणमिति निऽक्रमणम् । निषदंनम् । निसदंन-
मिति निऽसदंनम् । विवर्त्तनमिति विऽवर्त्तनम् । यत् ।

च । पड्डीशम् । अर्वतः । यत् । च । पपौ यत् । च । घासिम् ।
जघास । सर्वा । ता । ते । अपि । देवेषु । अस्तु ॥ ३८ ॥

पदार्थः—(निक्रमणम्) निरन्तरंक्रमते यस्मिँस्तत् (निपद-
नम्) नितरां सीदन्ति यस्मिँस्तत् (विवर्त्तनम्) विशेषेण
वर्त्तन्ते यस्मिँस्तत् (यत्) (च) (पड्डीशम्) ग्रपादिषु विशति
तत् (अर्वतः) अश्वस्य (यत्) (च) पपौ पिवति (यत्)
(च) (घासिम्) अदनम् (जघास) अत्ति (सर्वा)
सर्वाणि (ता) तानि (ते) तव अपि (देवेषु) दिव्येषु गु-
णेषु (अस्तु) ॥ ३८ ॥

अन्वयः—हे विद्वन् यत्तेऽर्वतो निक्रमणं निपदनं विवर्त्तनं यच्च पड्डी-
शं यच्चायं पपौ यच्च घासिं जघास ता सर्वा युक्तया सन्तु तद्देवेष्वप्यस्तु
॥ ३८ ॥

भावार्थः—हे मनुष्या भवन्तोऽश्वादीनां सुशिक्षणेन भक्ष्यपेयदा-
नेन सर्वाणि कार्याणि साधुवन्तु ॥ ३८ ॥

पदार्थः—हे विद्वान् जो (ते) तेरे (अर्वतः) घोड़े का (निक्रमणम्) निकलना
(निपदनम्) बैठना (विवर्त्तनम्) विशेष करवर्त्ताव वर्त्तना (च) और (यत्)
जो (पड्डीशम्) पछाड़ी (यत्, च) और जो यह (पपौ) पीता (यत्) च और जो
(घासिम्) घास (जघास) खाता (ता) वे (सर्वा) सब काम गुक्ति के साथ
हैं और यह सब (देवेषु) दिव्य उत्तम गुण वालों में (अपि) भी (अस्तु)
होवे ॥ ३८ ॥

भावार्थः—हे मनुष्यो! आप घोड़े आदि पशुओं को अच्छी शिक्षा तथा खान पान
कं देने से अपने सब कामों को सिद्ध किया करो ॥ ३८ ॥

यदश्वायेत्यस्य गोतम ऋषिः । विद्वांसो देवताः ।

विराद् पङ्क्तिश्छन्दः । पंचमः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

यदश्वाय वासं उपस्तृणन्त्यधीवासंया हिर-
ण्यान्यस्मै । सुन्दानमर्वन्तं पङ्कीशं प्रिया देवेषु
यामयन्ति ॥ ३९ ॥

यत् । अश्वाय । वासः । उपस्तृणन्तीत्युपस्तृणन्ति ।
अधीवासम् । अधिवासमित्यधिवासम् । या । हिर-
ण्यानि । अस्मै । सुन्दानमिति समुदानम् । अर्वन्तम् ।
पङ्कीशम् । प्रिया । देवेषु । आ । यामयन्ति । यमय-
न्तीति यमयन्ति ॥ ३९ ॥

पदार्थः—(यत्) (अश्वाय) (वासः) वस्त्रम् (उपस्तृण-
न्ति) आच्छादयन्ति (अधीवासम्) उपरिस्थापनीयम् (या)
ग्रानि (हिरण्यानि) हिरण्यैर्निर्मितानि आभूषणादीनि (अस्मै)
(सुन्दानम्) शिरोबन्धनादि (अर्वन्तम्) गच्छन्तम्
(पङ्कीशम्) पङ्क्तिर्विशन्तम् (प्रिया) प्रियाणि (देवेषु)
विद्वत्सु (आ) समन्तात् (यामयन्ति) नियमयन्ति ॥३९॥

अन्वयः—हे मनुष्या भवन्तोऽस्मा अश्वाय यद्वासोऽधीवासं सु-
न्दानं या हिरण्यान्युपस्तृणन्ति यं पङ्कीशमर्वन्तमायामयन्ति तानि
सर्वाणि देवेषु प्रियाः सन्तु ॥ ३९ ॥

भावार्थः—यदि मनुष्या अश्वादीन् पङ्कान् यथावद्रक्षयित्वोपकारं
गृहीयुस्तर्हि बहुकार्यसिद्धयपकृताः स्युः ॥ ३९ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो! आप (अस्मै) इस (अरवाय) घोड़े के लिये (यत्) जो (वासः) वस्त्र (अथीवासम्) चारजामा (सन्दानम्) मुहेरा आदि और (या) जिन (हिरण्यानि) सुवर्ण के बनाये हुए आभूषणों को (उपस्तृणन्ति) हपाते वा जिस (पद्वीशम्) पैरों से प्रवेश करते और (अर्चन्तम्) जाते हुए घोड़े को (आ, यामयन्ति) अच्छे प्रकार नियममें रखते हैं वे सब पदार्थ और काम (देवेषु) विद्वानों में (मिया) प्रीति देने वाले हों ॥ ३६ ॥

भावार्थः—जो मनुष्य घोड़े आदि पशुओं की यथावत् रक्षा करके उपकार ले-
वे तो बहुत कार्यों की सिद्धि से उपकारयुक्त हों ॥ ३६ ॥

यत् इत्यस्य गोतम ऋषिः । यज्ञो देवता ।

भुरिक् ऋषिः छन्दः । धैवत स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

यत्ते सादे महसा शूकृतस्य पाण्य्यां वा कशया
वा तुतोद । स्रुचेव ता हविषो अध्वरेषु सर्वा ता
ते ब्रह्मणा सूदयामि ॥ ४० ॥

यत् । ते । सादे । महसा । शूकृतस्य । पाण्य्यां । वा ।
कशया । वा । तुतोद । स्रुचेवेति स्रुचाऽइव । ता । हविषः ।
अध्वरेषु । सर्वा । ता । ते । ब्रह्मणा । सूदयामि ॥ ४० ॥

पदार्थः—(यत्) यतः (ते) तव (सादे) स्थित्यधि-
करणे (महसा) महावेन (शूकृतस्य) शीघ्रं शिक्षितस्य ।
श्रिवति क्षिप्रना० निघं० २।१५ (पाण्य्यां) पार्थिणषु कक्षासु
साधूनि (वा) (कशया) ताडनसाधनेन (वा) (तुतोद)
तुदात् (स्रुचेव) यथा स्रुचा प्रेरयन्ति तथा (ता) तानि
(हविषः) हांतुमहंस्य (अध्वरेषु) अहिंसनीयेषु यज्ञेषु (सर्वा)
सर्वाणि (ता) तानि (ते) तु भ्यम् (ब्रह्मणा) धनेन (सू-
दयामि प्रापयामि ॥ ४० ॥

अन्वयः— हे विद्वान्स्ते सादे महसा शुकृतस्य कश्या वा यत्पा-
ष्यर्ष्या वा तुतोद ता तान्यध्वरेषु हविषः श्रुचेव करोषि ता सर्वा ते
ब्रह्मणाऽहं सूदयामि ॥ ४० ॥

भावार्थः— अत्रोपमालं०—यथा यज्ञसाधनैर्हवीष्यग्नौ प्रेरयन्ति
तथैवाश्वादीनि मुशिक्षारीत्या प्रेरयेयुः ॥ ४० ॥

पदार्थः— हे विद्वन् ! (ते) आपके (सादे) बैठने के स्थान में (महसा)
बढ़प्पन से (वा) अथवा (शुकृतस्य) जल्दी सिखाये हुए घोड़े के (कश्या)
कोड़े से (यत्) जिस कारण (पाष्यर्ष्या) पशुओं आदि स्थान (वा) वा
कक्षाओं में जो उत्तम ताड़ना आदि कामवा (तुतोद) साधारण ताड़ना देना
(ता) उन सब को (अध्वरंषु) यज्ञों में (हान्वेषः) होमने योग्य पदार्थ संव-
न्धी (श्रुचेव) जैसे श्रुचा प्रेरणा देती वैसे करते हो (ता) वे (सर्वा) सब काम
(ते) तरे लिये (ब्रह्मणा) धन से (सूदयामि) प्राप्त करता हूँ ॥ ४० ॥

भावार्थः— इस मंत्र में उपमालं०—जैसे यज्ञ के साधनों से होमने योग्य पदार्थों
को प्रेरणा देते हैं वैसे ही घोड़े आदि पशुओं को अच्छी सिखावट की रीति से प्रेरणा
देवें ॥ ४० ॥

चतुस्त्रिंशदित्यस्य गोतममृषिः । यज्ञो देवता ।

त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनस्तमेव त्रिषयमाह

फिर उसी वि० ॥

चतुस्त्रिंशद्वाजिनो देवबन्धोर्वङ्कीरश्वस्य
स्वधितिस्समेति । अच्छिद्रा गात्रा वयुना कृणोतु
परुष्परुरनुघुष्या वि शस्त ॥ ४१ ॥

चतुस्त्रिंशदिति चतुःऽत्रिंशत् । वाजिनः । दे-
वबन्धोरिति देवऽबन्धोः । वङ्क्रीः । अश्वस्य । स्व-
धित्तिरिति स्वऽधितिः । सम् । एति । अच्छिद्रा ।
गात्रा । वयुना । कृणोतु । परुष्परुः । परुःपरुरिति
परुःऽपरुः । अनुघुष्येत्यनुऽघुष्य । वि । शस्त ॥४१॥

पदार्थः— (चतुस्त्रिंशत्) शिक्षणानि (वाजिनः) वेगवतः
(देवबन्धोः) देवा विद्वांसो बन्धुवद्वस्य तस्य (वङ्क्रीः)
कुटिला गतीः (अश्वस्य) (स्वधितिः) वज्रइव वर्त्तमानः
(सम्) सम्यक् (एति) गच्छति (अच्छिद्रा) छिद्ररहितानि
(गात्रा) गात्राणि (वयुना) वयुनानि पूजानानि (कृणोतु)
(परुष्परुः) मर्ममर्म (अनुघुष्य) आनुकूल्येन घोषयित्वा ।
अत्रसंहितायामिति दीर्घः (वि) विशेषेण (शस्त) छिन्त ॥४१॥

अन्वयः—हे मनुष्या यथाऽश्वशिक्षको देवबन्धोर्वाजिनो-
श्वस्य चतुस्त्रिंशद्वङ्क्रीः समेत्यच्छिद्रा गात्रा वयुना कृणोतु तस्य
परुष्परुः अनुघुष्य स्वधित्तिरिव रोगान् यूयं विनास्त ॥ ४१ ॥

भावार्थः—हे मनुष्या यथा चतुरोऽश्वशिक्षकश्चतुस्त्रिंशदि-
च्छिद्रागतीरश्वं नयति वैद्यश्चारोगिणं करोति तथैवान्येषां पशूनां
रक्षणेनोन्नतिः कार्या ॥ ४१ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे घुड़चढा चाबुकी जन (देवबन्धोः) जिस के
दिहान् बन्धु के सगान उस (वाजिनः) वेगवान् (अश्वस्य) घोड़े की (चतु-
स्त्रिंशत्) चौतीस (वङ्क्रीः) टेढ़ी बंढी चालों को (सम्, एति) अच्छे

मकार प्राप्त होता और (अच्छिद्रा) छेद भेदरहित (गात्रा) अङ्ग और (वयु-
ना) उत्तम हानों को (कृणोतु) करे वैसे उसके (परुष्परुः) प्रत्येक मर्म स्थान
को (अनुशुष्य) अनुकूलता से बजाकर (स्वधितिः) बज्र के समान वर्तमान
तुम लोग रोगों को (वि, शस्त) विशेषता से छिन्न भिन्न करो ॥ ४१ ॥

भावार्थः— हे मनुष्यो ! जैसे घोड़ों को मिल्खाने वाला चतुर जन चौंतीस चित्र विधि-
प्र गतियों को घोड़े को पहुंचाता और वैद्य जन प्राणियों को नीरोग करता है वैसे ही
और पशुओं की रक्षा से उन्नति करना चाहिये ॥ ४१ ॥

एकस्त्वष्टुरित्यस्य गोतम ऋषिः । यजमानो देवता ।

स्वराद् पक्ष्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

पुनः कथं पशवः शिञ्जणीया इत्याह ।

किंरं किस प्रकार पशु मिल्खाने चाहिये इस वि० ॥

एकस्त्वष्टुरश्वस्या विशस्ता द्वा यन्तारा भव-
तुस्तथऽऋतुः । या ते गात्राणामृतुथा कृणोमि
ताता पिण्डानां प्र जुहोम्यग्नी ॥ ४२ ॥

एकः । त्वष्टुः । अश्वस्य । विशस्तेति विशस्ता । द्वा ।
यन्तारा । भवतः । तथा ऋतुः । या । ते । गात्राणाम् ।
ऋतुथेत्पृतुथा । कृणोमि । तातेति ताता । पिण्डानाम् ।
प्र । जुहोमि । अग्नी ॥ ४२ ॥

पदार्थः— (एकः) असहायः (त्वष्टुः) प्रदीप्तस्य (अ-
श्वस्य) तुरङ्गस्य । अत्र संहितायामिति दीर्घः (विशस्ता)
विच्छेदकः (द्वा) द्वौ (यन्तारा) नियामकौ (भवतः)

(तथा) तेन प्रकारेण (ऋतुः) वसन्तादिः (या) यानि
 (ते) तव (गात्राणाम्) अङ्गानाम् (ऋतुथा) ऋतोः
 (कृणोमि) (ताता) तानि तानि (पिण्डानाम्) (प्र) (जु-
 होमि) (अग्नौ) पावके ॥ ४२ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यथैक ऋतुस्त्वस्त्वरश्वस्य विशस्ना भवति
 यौ द्वा यन्तारा भवतस्तथा या ते गात्राणां पिण्डानामृतुथा वस्तून्यहं
 कृणोमि ताताऽग्नौ प्रजुहोमि ॥ ४२ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—यथाऽश्वशिक्षकाः प्रतृत्वश्वान् सु-
 शिक्षयन्ति तथा गुरवो विद्यार्थिनां चेष्टाकरणानि शिक्षयन्ति ।
 यथाऽग्नौ पिण्डान् हुत्वा वायुं शोधयन्ति तथा विद्याऽग्नावविद्या-
 भ्रमान् हुत्वाऽऽत्मनः शोधयन्ति ॥ ४२ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे (एकः) अकेला (ऋतुः) वसन्त आदि ऋतु
 (त्वष्टुः) शोभायमान (अश्वस्य) घोड़े का (विशस्ता) विशेष करके रूपादि
 का भेद करने वाला होता है वा जो (द्वा) दो (यन्तारा) नियम करने वाले
 (भवतः) होते हैं (तथा) वैसे (या) जिन (ते) तुम्हारे (गात्राणाम्)
 अंगों वा (पिण्डानाम्) पिण्डों के (ऋतुथा) ऋतु सम्बन्धी पदार्थों को मैं
 (कृणोमि) करता हूँ (ताता) उन २ को (अग्नौ) आग में (प्र, जुहोमि)
 होमता हूँ ॥ ४२ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु० । जैसे घोड़ों के सिखाने वाले ऋतु २ के
 प्रति घोड़ों को अच्छा सिखलाते हैं वैसे गुरु जन विद्यार्थियों को क्रिया करना सिखलाते
 हैं वा जैसे अग्नि में पिण्डों का होम कर पवन की शुद्धि करते हैं वैसे विद्यारूपी अग्नि में
 अविद्यारूप भ्रमों को होम के आत्माओं की शुद्धि करते हैं ॥ ४२ ॥

मात्स्वेत्यस्य गोतम ऋषिः । आत्मा देवता ।

निचृत् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनर्मनुष्यैरात्मादयः कथं शोधनीया इत्याह ।

फिर मनुष्यों को आत्मादि पदार्थ कैसे शुद्ध करने चाहिये इस वि० ॥

मा त्वा तपत् प्रिय आत्मापियन्तं मा स्वधि-
तिस्तन्व आ तिष्ठिपत्ते । मा ते गृध्नुश्विशस्ता-
तिहाय छिद्रा गात्राण्यसिना मिथू कः ॥ ४३ ॥

मा । त्वा । तपत् । प्रियः । आत्मा । अपियन्तमि-
त्यपिऽयन्तम् । मा । स्वधिति रिति स्वऽधितिः । तन्वः ।
आ । तिष्ठिपत् । तिस्थिपदिति तिस्थिपत् । ते । मा । ते ।
गृध्नुः । अविशस्तेत्यविऽशस्ता । अतिहायेत्यतिहाय ।
छिद्रा । गात्राणि । असिना । मिथू । कुरिति कः ॥ ४३ ॥

पदार्थः—(मा) निषेधे (त्वा) त्वाम् (तपत्) तपेत्
(प्रियः) यः प्रीणाति कामयत आनन्दयति वा (आत्मा)
स्वस्वरूपम् (अपियन्तम्) योऽप्येति तम् (मा) (स्व
धितिः) वज्रः (तन्वः) शरीरस्य मध्ये (आ) (ति-
ष्ठिपत्) समन्तात्स्थापयेत् (ते) तव (मा) (ते) तव
(गृध्नुः) अभिकांक्षकः (अविशस्ता) अविच्छेदकः
(अतिहाय) अत्यन्तं त्यक्त्वा (छिद्रा) छिद्राणि (गात्रा-
णि) अङ्गानि (असिना) खड्गेन (मिथू) मिथः (कः)
कुर्यात् ॥ ४३ ॥

अन्वयः—हे विद्वंस्ते प्रिय आत्माऽपियन्तं त्वा त्वामतिहाय
मा तपत्स्वधितिस्ते तन्वो मा तिष्ठिपत्ते छिद्रा गात्राण्यविशस्ता
गृध्नुर्मा तिष्ठिपदसिना मिथू मा कः ॥ ४३ ॥

ते । युञ्जा । पृषती इति पृषती । अभूताम् । उप ।
अस्थात् । वाजी । धुरि । रासभस्य ॥ ४४ ॥

पदार्थः— (न) निषेधे (वै) निश्चयेन (उ) इति वितर्के
(एतत्) विज्ञानं प्राप्य (त्रियसे) (न) (रिष्यसि) हन्सि
(देवान्) विदुषः (इत्) एव (ऐषि) (पथिभिः) मार्गैः (सु-
गोभिः) सुष्ठुगच्छन्ति येषु तैः (हरी) हरणाशीलौ (ते) तव
(युञ्जा) योजकौ (पृषती) स्थूलौ (अभूताम्) भवेताम्
(उप) (अस्थात्) उपतिष्ठेत् (वाजी) वेगवान् (धुरि) धार-
णे (रासभस्य) अश्वसम्बन्धस्य ॥ ४४ ॥

अन्वयः— हे विद्वन् यद्येतद्विज्ञानं प्राप्नोषि तर्हि न त्वं त्रियसे
न वै रिष्यसि सुगोभिः पथिभिर्देवानिदेषि यदि ते पृषती युञ्जा
हरी अभूतासु तर्हि वाजी रासभस्य धुर्युपास्थात् ॥ ४४ ॥

भावार्थः— यथा विद्यया संपुक्तैर्वायुजलाग्निभिर्युक्ते रथे स्थित्वा
मार्गान्सुखेन गच्छन्ति तथैवात्मज्ञानेन स्वस्वरूपं नित्यं बुद्ध्या मरण-
हिंसात्रासं विहाय दिव्यानि सुखानि प्राप्नुयुः ॥ ४४ ॥

पदार्थः— हे विद्वन्! यदि (एतत्) इस पूर्वोक्त विज्ञान को पाते हो तो
(न) न तुम (त्रियसे) मरते (न) न (वै) ही (रिष्यसि) मारते हो किंतु
(सुगोभिः) सुगम (पथिभिः) मार्गों से (देवान्) विद्वानों (इत्) ही को
(एषि) प्राप्त होते हो यदि (ते) आप के (पृषती) स्थूल शरीरयुक्त
(युञ्जा) योग करने हारे घोड़े (हरी) पहुंचानेवाले (अभूताम्) हों (उ)
तो (वाजी) वेगवान् एक घोड़ा (रासभस्य) अश्वजाति से संबन्ध रखने
वाले खिच्चर की (धुरि) धारणा के निमित्त (उप, अस्थात्) उपस्थित हो ॥४४॥

भावार्थः— जैसे विद्या से अच्छे प्रकार जिन का प्रयोग किया उन पवन जल और अग्नि से युक्त रथ में स्थित होके मार्गों को सुख से जाते हैं वैसे ही आत्मज्ञान से अपने स्वरूप को नित्य जान के मरण और हिंसा के डर को छोड़ दिव्य सुखों को प्राप्त हों ॥ ४४ ॥

सुगव्यमित्यस्य गोतमऋषिः । प्रजा देवता ।

स्वराट् पङ्क्तिश्चन्द्रः । पञ्चमः स्वरः ॥

कैराज्योन्नतिः स्यादित्याह ॥

किन से राज्य की उन्नति होवे इस वि० ॥

सुगव्यं नो वाजी स्वश्व्यं पुंसः पुत्रान् ॥ ४५ ॥
उत विश्वापुषं रयिम् । अनागास्त्वं नोऽदितिः
कृणोतु क्षत्रं नोऽश्वो वनता हविष्मान् ॥ ४५ ॥

सुगव्यमिति सुगव्यम् । नः । वाजी । स्वश्व्यमिति
सुऽअश्व्यम् । पुंसः । पुत्रान् । उत । विश्वापुषम् । वि-
श्वपुषमिति विश्वऽपुषम् । रयिम् । अनागास्त्वमित्य-
नागऽत्वम् । नः । अदितिः । कृणोतु । क्षत्रम् । नः ।
अश्वः । वनताम् । हविष्मान् ॥ ४५ ॥

पदार्थः— (सुगव्यम्) सुष्ठु गोशयो हितम् (नः) अस्मा-
कम् (वाजी) अश्वः (स्वश्व्यम्) शोभनेष्वश्वेषु भवम्
(पुंसः) पुंस्वयुक्तान् पुरुषार्थिनः (पुत्रान्) (उत) अपि
(विश्वपुषम्) समग्रपुष्टिकरम् (रयिम्) धनम् (अनागा-
स्त्वम्) अनापराधत्वम् (नः) अस्मान् (अदितिः) कारण-
रूपेणाविनाशिनी भूमिः (कृणोतु) (क्षत्रम्) राज्यम् (नः)
अस्माकम् (अश्वः) व्याप्तिशीलः (वनताम्) संभजताम्
(हविष्मान्) प्रशस्तानि हवींषि सुखदानानि यस्मिन् संः ४५

अन्वयः—यो नो वाजी सुगव्यं स्वश्व्यङ्करोति यो विद्वान् पुंसः पुत्रानुत विश्वापुषं रयिञ्च प्राप्नोति यथाऽदितिर्नाऽनागास्त्वङ्करोति तथा भवान् कृणोतु । यथा हविष्मानश्वो नः क्षत्रं वनतान्तथा स्वं सेवस्व ॥ ४५ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—ये जितेन्द्रिया ब्रह्मचर्येण वीर्यवन्तोऽश्वइवाऽमोघवीर्याः पुरुषार्थेन धनं प्राप्नुवन्तो न्यायेन राज्यमुन्नयेयुस्ते सुखिनः स्युः ॥ ४५ ॥

पदार्थः—जो (नः) हमारा (वाजी) घोड़ा (सुगव्यम्) सुन्दर गौओं के लिये सुखस्वरूप (स्वश्व्यम्) अच्छे घोड़ों में प्रसिद्ध हुए काम को करता है वा जो विद्वान् (पुंसः) पुरुषपन से युक्त पुरुषार्थी (पुत्रान्) पुत्रों (उत) और (विश्वापुषम्) समग्र पुष्टि करने वाले (रयिम्) धन को प्राप्त होता वा जैसे (अदितिः) कारणरूप से अविनाशी भूमि (नः) हमारे लिये (अनागास्त्वम्) अपराधरहित होने को करती है वैसे आप (कृणोतु) करें वा जैसे (हविष्मान्) प्रशंसित सुख देने जिस में है वह (अश्वः) व्याप्तिशील प्राणी (नः) हम लोगों के (क्षत्रम्) राज्य को (वनताम्) सेवे वैसे आप सेवा किया करो ॥ ४५ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—जो जितेन्द्रिय और ब्रह्मचर्य से वीर्यवान् घोड़ों के समान अमोघ वीर्य पुरुषार्थ से धन पाये हुए न्याय से राज्य को उन्नति दें वे सुखी हों ॥ ४५ ॥

इमानुकमित्यस्य गोतम अपिः । विश्वे देवा देवताः ।

भुरिच्छकरी छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनः के श्रन्मन्तो भवन्तीत्याह ॥

फिर कौन धनवान् होते हैं इस वि० ॥

इमा नु कं भुवना सीषधमिन्द्रश्च विश्वे च देवाः । आदित्यैरिन्द्रः सर्गणो मरुद्भिरस्मभ्यं मे-

षुजा करत् । यज्ञं च नस्तन्वुं च प्रजां चादि-
त्यैरिन्द्रः सह सीपधाति ॥ ४६ ॥

इमा । नु । कम् । भुवना । सीपधाम् । सीपधा-
मेति सीसधाम् । इन्द्रः । च । विश्वे । च । देवाः । आ-
दित्यैः । इन्द्रः । सगण इति सऽगणः । मरुद्भिरिति
मरुत्ऽभिः । अस्मभ्यम् । भेषजा । करत् । यज्ञम् ।
च । नः । तन्वुम् । च । प्रजामिति प्रऽजाम् । च । आ-
दित्यैः । इन्द्रः । सह । सीपधाति । सिसधातीति सि-
सधाति ॥ ४६ ॥

पदार्थः—(इमा) इमानि (नु) सद्यः (कम्) सुख-
म् (भुवना) भुवनानि (सीपधाम) साधयेम (इन्द्रः)
परमैश्वर्यवान् राजा (च) (विश्वे) सर्वे (च) (देवाः)
विद्वांसः सभासदः (आदित्यैः) मासैः (इन्द्रः) सूर्यः
(सगणाः) गणैः सह वर्तमानः (मरुद्भिः) मनुष्यैः स-
ह (अस्मभ्यम्) (भेषजा) भेषजानि (करत्) कु-
र्यात् (यज्ञम्) विद्वत्सत्कारादिकम् (च) (नः) (अस्मा-
कम्) (तन्वुम्) शरीरम् (च) (प्रजाम्) सन्तानादि-
कम् (च) (आदित्यैः) उत्तमैर्विद्वद्भिः सह (इन्द्रः)
ऐश्वर्यकारी सभेशः (सह) (सीपधाति) साधयेत् ॥ ४६ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यथेन्द्रश्च विश्वे देवाश्चेमा विश्वा भुवना
धरन्ति तथा वयं कं नु सीपधाम । यथा सगण इन्द्र आदित्यैः सह
सर्वैर्लोकान् प्रकाशयति तथा मरुद्भिः सह वैशोऽस्मभ्यं भेषजा
करत् । यथाऽऽदित्यैः सहेन्द्रो नो यज्ञं च तन्वुं च प्रजां च सीपधाति
तथा वयं साधुयाम ॥ ४६ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु० —ये मनुष्याःसूर्यवन्नियमेन वर्तित्वा शरीरमरोगमात्मानं विद्वांसं संसाध्य पूर्णं ब्रह्मचर्यं कृत्वा स्वयं वृतां हृद्यां स्त्रियं स्वीकृत्य तत्र प्रजा उत्पाद्य सुशिक्ष्य विदुषीः कुर्वन्ति ते श्रियः पतयो जायन्ते ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे (इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् राजा (च) और (विश्वे) सव (देवाः) विद्वान् लोग (च) भी (इमा) इन समस्त (भुवना) लोकों को धारण करते जैसे हम लोग (कम्) सुख को (नु) शिघ्र (सीपधाम) सिद्ध करें वा जैसे (सगणः) अपने सहचारी आदि गणों के साथ वर्तमान (इन्द्रः) सूर्य (आदित्यैः) महीनों के साथ वर्तमान समस्त लोकों को प्रकाशित करता जैसे (मरुद्भिः) मनुष्यों के साथ वैद्य जन (अस्मभ्यम्) हम लोगों के लिये (भेषजा) औषधियां (कुरुत्) करे जैसे (आदित्यैः) उत्तम विद्वानों के (सह) साथ (इन्द्रः) परमेश्वर्यवान् सभापति (नः) हम लोगों के (यज्ञम्) विद्वानों के सत्कार आदि उत्तम काम (च) और (तन्वम्) शरीर (च) और (प्रजाम्) सन्तान आदि को (च) भी (सीपधाम) सिद्ध करे जैसे हम लोग सिद्ध करें ॥ ४६ ॥

भावार्थः—इस में वाचकलु०—जो मनुष्य सूर्य के तुल्य नियम से वर्ताव रखके शरीर को निरोग और आत्मा को विद्वान् बना तथा पूर्ण ब्रह्मचर्य कर स्वयंवरविधि से हृदय को प्यारी स्त्री को स्वीकार कर उसमें सन्तानों को उत्पन्न कर और अच्छी शिक्षा देके विद्वान् करते हैं वे धनपति होते हैं ॥ ४६ ॥

अग्ने त्वमित्यस्य गोतम ऋषिः । अग्निर्देवता ।

शुक्ली छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनः के सत्कर्त्तव्याः सन्तीत्याह ॥

फिर कौन सत्कार करने योग्य हैं इस वि० ॥

अग्ने त्वन्नो अन्तम उत त्राता शिवो भवा वरूथ्यः ।

वसुरग्निर्वसुश्रवा अच्छां नक्षिद्युमत्तं रयिन्दाः ॥ ४७ ॥

अग्ने । त्वम् । नः । अन्तमः । उत । त्राता । शिवः ।
 भव । वरूथ्युः । वसुः । अग्निः । वसुश्रवा इति वसु-
 श्रवाः । अच्छ । नक्षि । द्युमत्तमिति द्युमत्तः तमम् । रयिम् ।
 दाः ॥४७॥

पदार्थः—(अग्ने) वेदविदध्यापकोपदेशक (त्वम्) (नः)
 अस्माकम् (अन्तमः) निकटस्थः (उत) अपि (त्राता)
 पालकः (शिवः) कल्याणकारी (भव) अत्र दृश्यचोऽतस्तिष्ठ
 इति दीर्घः (वरूथ्युः) वरूथेषु गृहेषु साधुः (वसुः) विद्यासु
 वासयिता (अग्निः) पावकइव (वसुश्रवाः) वसूनि धनाग्नि
 श्रवणे यस्य सः (अच्छ) । अत्र निपातस्य चेति दीर्घः (नक्षि)
 प्राप्नोषि णक्षधातोरयं प्रयोगः (द्युमत्तम्) अतिशयेन
 प्रकाशवन्तम् (रयिम्) धनम् (दाः) दद्याः ॥ ४७ ॥

अन्वयः—हे अग्ने त्वमग्निरिव नोऽन्तमस्त्राता शिव उत वरूथ्यो
 वसुश्रवा वसुर्भव । यो द्युमत्तमं रयिमस्मभ्यमच्छ दाः ॥ अस्मान्नक्षि स
 त्वमस्माभिः सत्कर्त्तव्योऽसि ॥ ४७ ॥

भावार्थः—मनुष्यैः सर्वोपकारिणो वेदादिशास्त्रवेत्तारोऽध्यापको-
 पदेशका विद्वंसः सदैव सत्कर्त्तव्याः । ते च सत्कृताः सन्तः सर्वेभ्यः
 सदुपदेशार्हन्तमगुणान् धनादिकं च सदा प्रयच्छेयुः । येन परस्परस्य
 प्रीत्युपकारेण महान् सुखलाभः स्यादिति ॥ ४७ ॥

पदार्थः—हे (अग्ने) वेदवेत्ता पदाने और उपदेश करने हारे विद्वान् आप
 (अग्निः) अग्नि के समान (नः) हम लोगों के (अन्तमः) समीपस्थ

(भाता) रक्षा करने वाले (शिवः) कल्याणकारी (उत) और (वरुध्यः) घरों में उत्तम- (वसुश्रवाः) जिन के श्रवण में बहुत धन और (वसुः) विद्याओं में बसाने हारे हो ऐसे (भव) हूजिये जो (द्युमत्तमम्) अतीव प्रकाशवान् (रथिम्) भन हम लोगों के लिये (अरुद्ध, दाः) भलीभांति देखो तथा हम को (न-त्ति) प्राप्त होते हो सो (त्वम्) आप हम लोगों से सत्कार पान योग्य हो ॥४७॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि सब के उपकारी वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता अध्यापक उपदेशक विद्वानों का सदैव सत्कार करें और वे सत्कार को प्राप्त हुए विद्वान् लोग भी सब के लिये उत्तम उपदेशादि अच्छे गुणों और धनादि पदार्थों को सदा देवें जिस से परस्पर प्रीति और उपकार से बड़े २ सुखों का लाभ होवे ॥ ४७ ॥

तन्त्वेत्यस्य गोतस ऋषिः । विद्वान् देवता ।

भुरिग्वृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

पुनर्मनुष्यैरिह कथं वर्तितव्यमित्याह ॥

फिर मनुष्यों को इस जगत् में कैसे-वर्तना चाहिये इस वि० ॥

तं त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे
सखिभ्यः । स नो बोधि श्रुधी हवमुरुष्याणां
अघायतः समस्मात् ॥ ४८ ॥

तम् । त्वा । शोचिष्ठ । दीदिव इति दीदिऽवः । सु-
म्नाय । नूनम् । ईमहे । सखिभ्य इति सखिऽभ्यः ।

सः । नः । बोधि । श्रुधी । हवम् । उरुष्य । नः ।

अघायतः । अघयत इत्यघऽयतः । समस्मात् ॥ ४८ ॥

पदार्थः—(तम्) (त्वा) त्वाम् (शोचिष्ठ) सद्गुणैः
 प्रकाशमान (दीदिवः) विद्यादिगुणैः शोभावन् (सुम्नाय]
 सुखाय (नूनम्) निश्चितम् (ईमहे) याचामहे (सखि-
 भ्यः) मित्रेभ्यः (सः) (नः) अस्मान् (घोधि) बो-
 धय (श्रुधी) शृणु (हवम्) आह्वानम् (उरुष्य) र-
 क्ष (नः) अस्माकम् (अघायतः) आत्मनोऽघमाचरतः
 (समस्तात्) अधर्मेण तुल्यगुणकर्मस्वभावात् ॥ ४८ ॥

अन्वयः—हे शोचिष्ठ दीदिवो विद्वन् यस्त्वं नो घोधि तन्वा सु-
 म्नाय सखिभ्यो नूनं वयमीमहे । स त्वन्नो ह्वं श्रुधी समस्माद्घाय-
 त उरुष्य च ॥ ४८ ॥

अन्वयः—विद्यार्थिनोऽध्यापकान् प्रत्येवं वदेयुर्भवन्तो यदस्मा-
 भिरधीतं तत्परीक्षन्ताम् । अस्मान् दृष्टाचारात् पृथगचन्तु यतो वयं
 सर्वैः सह मित्रवद्वर्त्तेमहि ॥ ४८ ॥

अस्मिन्नध्याये सृष्टिस्थपदार्थगुणवर्णनं पश्वादिप्राणिनां शिक्षार-
 क्षणं स्वाङ्गरक्षणं परमेश्वरप्रार्थनं यज्ञप्रशंसा प्रज्ञाप्रापणं धर्मेच्छाऽश्व-
 गुणकथनं तच्छिक्षणमात्मज्ञानधनप्रापणयोर्विधानं चोक्तमत एतद-
 ध्यायोक्तार्थस्य पूर्वाध्यायोक्तार्थेन सह सद्गतिरस्तीति वेद्यम् ॥

पदार्थः—हे (शोचिष्ठ (उत्तम गुणों से प्रकाशमान (दीदिवः) विद्यादि
 गुणों से शोभायुक्त विद्वन् जो आप (नः) हम लोगों को (बोधि) बोध
 कराते (तम्) उन (त्वा) आप को (सुम्नाय) सुख और (सखिभ्यः)
 मित्रों के लिये (नूनम्) निश्चय से हम लोग (ईमहे) याचते हैं (सः) सो

आप (नः) हम लोगों के (हवम्) पुकारने को (क्षुधी) सुनिये और (सम-
स्मात्) अशर्म के तुल्य गुण कर्म स्वभाव वाले (अघायतः) आत्मा के अपराध
का आचरण करते हुए दुष्ट डाकू चोर लम्पट से हमारी (उरुष्य) रक्षा की-
जिये ॥ ४८ ॥

भावार्थः—विद्यार्थी लोग पढ़ाने वालों के प्रति ऐसे कहें कि आप जो हम लोगों
ने पढ़ा है उस की परीक्षा लीजिये और हम को दुष्ट आचरण से पृथक् रखिये जिस
से हम लोग सब के साथ मित्र के समान वर्त्ताव रखें ॥ ४८ ॥

इस अध्याय में संसार के पदार्थों के गुणों का वर्णन, पशु आदि प्राणियों
को सिखलाना पालना, अपने शत्रुओं की रक्षा, परमेश्वर की प्रार्थना, यज्ञ की
प्रशंसा, बुद्धि का देना, धर्म में इच्छा, घोड़े के गुण कहना, उस की चाल
आदि सिखलाना, आत्मा का ज्ञान और धन की प्राप्ति होने का विधान कहा
है इस से इस अध्याय में कहे अर्थ की पिछले अध्याय में कहे हुए अर्थ के साथ
एकता जाननी चाहिये ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां श्रीसुतपरम-
विदुषां विरजामन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण
परमहंसपरिव्राजकाचार्येण श्रीमद्दयानन्दस-
रस्वतीस्वामिना विरचिते संस्कृतार्यभा-
षाभ्यां समन्विते सुप्रमाणयुक्ते
यजुर्वेदभाष्ये पञ्चविंशो-
ऽध्यायः समाप्तः ॥

अथ षड्विंशोऽध्याय आरभ्यते ॥

—:—

विद्वांसि देवसवितर्दुरितानि परासुव ।

यद्भद्रं तन्न आ सुव ॥ १ ॥

अग्निरित्यस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः । अग्न्यादयो देवताः ।

अभिकृतिश्छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

अथ मनुष्यैस्तत्वेभ्य उपकारा यथावत्संग्राह्या इत्याह ॥

अब छुब्बीसवें अध्याय का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को तत्वों

से यथावत् उपकार लेने चाहिये इस विषय का वर्णन किया है ॥

अग्निश्च पृथिवी च सन्नते ते मे सन्नमतामदो
वायुश्चान्तरिक्षं च सन्नते ते मे सन्नमतामदऽआ-
दित्यश्च द्यौश्च सन्नते ते मे सन्नमतामदऽआपश्च
वरुणश्च सन्नते ते मे सन्नमतामदः । सप्त सुधस-
दो अष्टमी भूतसाधनी । सकामाँ २॥५ अध्वन-
स्कुरु संज्ञानमस्तु मेऽमुना ॥ १ ॥

अग्निः । च । पृथिवी । च । सन्नतेऽ इति सम्-
नते । ते इति ते । मे । सम् । नमताम् । अदः । वायुः । च ।
अन्तरिक्षम् । च । सन्नते इति सम् नते । ते इति ते । मे । सम् ।

नमताम् । अदः । आदित्यः । च । द्यौः । च । सन्नते इति
 सम्ऽनते । ते इति ते । मे । सम् । नमताम् । अदः ।
 आपः । च । वरुणाः । च । सन्नते इति सम्ऽनते । ते
 इति ते । मे । सम् । नमताम् । अदः । सप्त । स ५
 सद इति सम्ऽसदः । अष्टमी । भूतसाधनीति भूतऽसा-
 धनी । सकामानिति सऽकामान् । अध्वनः । कुरु । सं-
 ज्ञानमिति सम्ऽज्ञानम् । अस्तु (मे) अमुना ॥ १ ॥
 पदार्थः— (अग्निः) पावकः (च) (पृथिवी) (च) (सन्नते)
 (ते) (मे) मह्यम् (सम्) सम्यक् (नमताम्) अनुकूलं कु-
 र्वाताम् (अदः) (वायुः) (च) (अन्तरिक्षम्) (च) (सन्नते)
 अनुकूले (ते) (मे) मह्यम् (सम्) (नमताम्) (अदः)
 (आदित्यः) सूर्यः (च) (द्यौः) तत्प्रकाशः (च)
 (सन्नते) (ते) (मे) मह्यम् (सम्) (नमताम्) (अदः)
 (आपः) जलानि (च) (वरुणः) तदवयवो (च) (स-
 न्नते) (ते) (मे) मह्यम् (सम्) (नमताम्) (अदः)
 (सप्त) (संसदः) सम्यक् सीदन्ति यासु ताः (अष्टमी)
 अष्टानां पूरणां (भूतसाधनी) भूतानां साधिकां (सका-
 मान्) समानस्तुल्यः कामो येषां तान् (अध्वनः) मार्गा-
 न् (कुरु) (संज्ञानम्) सम्यग्ज्ञानम् (अस्तु) (मे)
 मह्यम् (अमुना) एवं प्रकारेण ॥ १ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यथा ये मेऽग्निश्च पृथिवी च सन्नते ते
 अदः सन्नमतां ये मे वायुश्चान्तरिक्षं च सन्नते तस्ते अदः
 सन्नमताम् । ये मे आदित्यश्च द्यौश्च सन्नते ते अदः सन्नमतां ये म

आपञ्च वरुणश्च सन्नते श्चस्तेऽदः सन्नमताम् । या अष्टमी भूतसाधनी स-
प्त संसदः सकामानध्वनः कुर्ष्यात् तथा कुरु । अमुना मे संज्ञानमस्तु स-
द्यैतत्सर्वं युष्माकमप्यस्तु ॥ १ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—यद्यग्न्यादिपञ्चभूतानि यथावद्विज्ञाय कश्चि-
त्प्रयुञ्जीत तर्हि तानि वर्तमानमदः सुखं प्रापयन्ति ॥ १ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो! जो जैसे (मे) मेरे लिये (अग्निः) अग्नि (च)
और (पृथिवी) भूमि (च) भी (सन्नते) अनुकूल हैं (ते) वे (अदः)
इस को (सन्नमताम्) अनुकूल करें जो (मे) मेरे लिये (वायुः) पवन (च)
और (अन्तर्िक्षम्) आकाश (च) भी (सन्नते) अनुकूल हैं (ते) वे
(अदः) इस को (सन्नमताम्) अनुकूल करें जो (मे) मेरे लिये (आ-
दित्यः) सूर्य (च) और (द्यौः) उस का प्रकाश (च) भी (सन्नते)
अनुकूल हैं (ते) वे (अदः) इस को सन्नमताम् अनुकूल करें जो (मे)
मेरे अर्थ (आपः) जल (च) और (वरुणः) जल जिस का अवयव है
वह (च) भी (सन्नते) अनुकूल हैं (ते) वे दोनों (अदः) इस को (स-
न्नमताम्) अनुकूल करें जो (अष्टमी) आठमी (भूतसाधनी) प्राणियों
के कार्यों की सिद्ध करने वाली वा (सप्त) सात (संसदः) वे सभा जिन
में अच्छे प्रकार स्थिर होते (सकामान्) समान कामना वाले (अध्वनः)
मार्गों की करे जैसे तुम (कुरु) करो (अमुना) इस प्रकार से (मे) मेरे
लिये (संज्ञानम्) उत्तम ज्ञान (अस्तु) प्राप्त होवे वैसेही यह सब तुम लोगों के
लिये भी प्राप्त होवे ॥ १ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—यदि अग्नि आदि पंचतत्त्वों को यथावत्
ज्ञान के कोई उन का प्रयोग करे तो वे वर्तमान उस अत्युत्तम सुख की प्राप्ति कराते हैं ॥ १ ॥

यथेनामित्यस्य लीनाक्षिर्त्तपि: । ईश्वरो देवता ।

स्वराहृत्यष्टिप्रलन्द: । गान्धार: स्वर: ॥

अथेश्वर: सर्वेभ्यो मनुष्येभ्यो वेदपठनश्रवणाधिकारं ददातीत्याह ॥

अधिकार देता हैं इस वि० ॥

अत्र ईश्वर सब मनुष्यों के लिये वेद के पढ़ने और सुनने का

यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनैभ्य: ।

ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्थाय च स्वाय चार-

णाय । प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह भूया-

समयं मे कामः समृध्यतामुप मादो नमतु ॥ २ ॥

यथा । इमाम् । वाचम् । कल्याणीम् । आवदा-

नीत्याऽवदानि । जनैभ्यः । ब्रह्मराजन्याभ्याम् । शू-

द्रायं । च । अर्थाय । च । स्वाय । च । अरणाय ।

प्रियः । देवानाम् । दक्षिणायै । दातुः । इह । भूयांसम् ।

अयम् । मे । कामः । सम् । ऋध्यताम् । उप । मा ।

अदः । नमतु ॥ २ ॥

पदार्थः—(यथा) येन प्रकारेण (इमाम्) प्रत्यक्षीकृताम्

(वाचम्) वेदचतुष्टयीं वाणीम् (कल्याणीम्) कल्या-

णानिमित्ताम् (आवदानि) समन्तादुपदिशेयम् (जनैभ्यः)

मनुष्येभ्यः (ब्रह्मराजन्याभ्याम्) ब्रह्म ब्राह्मणश्च रा-

जन्यः क्षत्रियश्च ताभ्याम् (शूद्राय) चतुर्थवर्णाय (च)

(अर्थाय) वैश्वाय । अर्थः स्वामिवैश्वर्योरिति पाणिनि-

सूत्रम् (च) (स्वाय) स्वकीयाय (च) (अरणाय)

सल्लक्षणाय प्राप्तायान्त्यजाय (प्रियः) कमनीयः (देवानाम्) विदुषाम् (दक्षिणायै) दानाय (दातुः) दानकर्त्तुः (इह) अस्मिन् संसारे (भूयासम्) (अयम्) (मे) मम (कामः) (सम्) (ऋध्यताम्) वर्द्धताम् (उप) (मा) माम् (अदः) परोक्षसुखम् (नमतु) प्राप्नोतु ॥२॥

अन्वयः—हे मनुष्या यथाऽहमीश्वरो ब्रह्मराजन्याभ्यामर्याय शूद्राय च स्वाय चारणाय च जनेभ्य इहेमां कल्याणीं वाचनावदानि तथा भवन्तोऽप्यावदन्तु । यथाऽहं दातुर्देवानां दक्षिणायै प्रियो भूयासं मेऽयं कामः सृध्यतां माऽद उपनमतु तथा भवन्तोऽपि भवन्तु तद्भवतामप्यस्तु ॥ २ ॥

भावार्थः—अत्रोपमालंकारः—परमात्मा सर्वान्मनुष्यान्प्रतीदमुपदिशतीत्यं वेदचतुष्टयी वाक् सर्वमनुष्याणां हिताय मधोपदिष्टा नाऽत्रकस्याप्यधिकारोऽस्तीति । यथाऽहं पक्षपातं विहाय सर्वेषु मनुष्येषु वर्त्तमानः सन् प्रियोऽस्मि तथा भवन्तोऽपि भवन्तु । एवञ्चकृते युष्माकं सर्वे कामाः सिद्धा भविष्यन्तीति ॥ २ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो मैं ईश्वर जैसे (ब्रह्मराजन्याभ्याम्) ब्राह्मण क्षत्रिय (अर्याय) वैश्य (शूद्राय) शूद्र (च) और (स्वाय) अपने स्त्री सेवक आदि (च) और (अरणाय) और उत्तम लक्षणयुक्त प्राप्त हुए अन्त्यज के लिये (च) भी (जनेभ्यः) इन उक्तसब मनुष्यों के लिये (इह) इस संसार में (इमां) इस प्रगट की हुई (कल्याणीम्) सुख देने वाली (वाचम्) चारों वेदरूप वाणीका (आवदानि) उपदेश करता हूं वैसे आप लोग भी अच्छे प्रकार उपदेश करें । जैसे मैं (दातु) दान देने वाले के संसर्गी (देवानाम्) विद्वानों की (दक्षिणायै) दक्षिणा अर्थात् दान आदि के लिये (प्रियः) मनोहर पियारा (भूयासम्) होऊँ और (मे) मेरी (अयम्) यह (कामः) कामना (सृध्यताम्) उत्तमता से बढ़े तथा (मा)

मुझे (अदः) वह परोक्षसुख (उप.नमतु) प्राप्त हो जैसे आप लोग भी होंगे और वह कामना तथा सुख आप को भी प्राप्त होवे ॥ २ ॥

भावार्थः— इस मंत्र में उपमालंकार हैं - परमात्मा सब मनुष्यों के प्रति हम उपदेश को करता है कि यह चारों वेदरूप कल्याण कारिणी वाणी सब मनुष्यों के हित के लिये मैं ने उपदेश की है इस में किसी को अनधिकार नहीं है जैसे मैं पक्षपात को छोड़ के सब मनुष्यों में वर्तमान हुआ पियारा हूँ वैसे आप भी होओ । ऐसे करने से तुम्हारे सब काम सिद्ध होंगे ॥ २ ॥

बृहस्पत इत्यस्य गृत्समद ऋषिः । ईश्वरो देवता ।

भुरिगत्यण्टिश्छन्दः । गान्धारःस्वरः ॥

पुनः स ईश्वरः किं करोतीत्याह ॥

किं वह ईश्वरः क्या करता है इस वि० ॥

बृहस्पतेअति यदयोअर्हाद् द्युमद्विभाति क्र-
तुमज्जनेषु । यद्दीदयुच्छवसऽऽमृतप्रजात तद-
स्मासु द्रविणं धेहि चित्रम् । उपयामगृहीतोऽसि
बृहस्पतये त्वेष ते योनिर्बृहस्पतये त्वा ॥ ३ ॥

बृहस्पते । अति । यत् । अर्यः । अर्हात् । द्युमदि-
ति द्युऽमत् । विभातीति विऽभाति । क्रतुमदिति क्रतु-
ऽमत् । जनेषु । यत् । दीदयत् । शवसा । ऋतप्रजा-
तेत्यतऽप्रजात । तत् । अस्मासु । द्रविणम् । धेहि ।
चित्रम् । उपयामगृहीत इत्युपयामऽगृहीतः । असि ।
बृहस्पतये । त्वा । एषः । ते । योनिः । बृहस्पतये ।
त्वा ॥ ३ ॥

पदार्थः—(बृहस्पते) बृहतां प्रकृत्यादीनां जीवानां च पालकेश्वरः (अति) (यत्) (अर्यः) स्वामीश्वरः । अर्यः स्वामिवैश्वर्ययोः । अर्य इतीश्वरना०—निघं० २ । २२ (अर्हात्) योग्यात् (द्युमत्) प्रशस्तप्रकाशयुक्तं मनः (विभाति) विशेषतया प्रकाशते (क्रतुमत्) प्रशस्तप्रज्ञाकर्मयुक्तम् (जनेषु) मनुष्येषु (यत्) (दीदयत्) प्रकाशयत्सत् (शत्रसा) बलेन (ऋतपूजात्) ऋतं सत्यं प्रजातं यस्मान्त्तत्संबुद्धौ (तत्) (अस्मासु) (द्रविणम्) धनं यशश्च (धेहि) (चित्रम्) आश्रयम् (उपयामगृहीतः) उपगतयमैर्विदितः (असि) (बृहस्पतये) बृहत्या वाचः पालनाय (त्वा) त्वाम् (एषः) (ते) तव (योनिः) पूमाणम् (बृहस्पतये) बृहताभाप्तानां पालकाय (त्वा) त्वाम् ॥ ३ ॥

अन्वयः—हे बृहस्पते यस्त्वमुपयामगृहीतोऽसि तं त्वा बृहस्पतये यस्यैष ते योनिरस्ति तस्मै बृहस्पतये त्वा वयं स्वीकुर्मः । हे ऋतप्रजातार्यस्त्वं जनेष्वर्हाद्यद्द्वयमत् क्रतुमदतिविभाति यच्छत्रसा दीदयदस्ति तच्चित्रं विज्ञानं द्रविणं चास्मासु धेहि ॥ ३ ॥

भावार्थः— हे मनुष्या यस्मान्महान्दयालुन्यायकार्यं नीयान्कश्चिदपि पदार्थो नास्ति येन वेदाविर्भावद्वाग सर्वं मनुष्या भूषिता येनाद्भुतं विज्ञानं धनं च विस्तारितं यो योगाभ्यासगम्योऽस्ति स एवेश्वरोऽस्माभिः सर्वैरुपासनीयतमोऽस्तीति विजानीत ॥ ३ ॥

पदार्थः—हे (बृहस्पते) बड़े २ प्रकृति आदि पदार्थों और जीवों के पालने हारे ईश्वर जो आप (उपयामगृहीतः) प्राप्त हुए यम नियमादि

योग साधनों से जाने गये (असि) हैं उन भाप को (बृहस्पतये) बड़ी वेद वाणी की पालना के लिये तथा त्विन् (ते) आप का (एयः) यह (योनिः) प्रमाण है उन (बृहस्पतये) यहे २ आप विद्वानों की पालना करने वाले के लिये (त्वा) भाप को हम लोग स्वीकार करते हैं । हे भगवन् (ऋतप्रजात) त्विन् से सत्य उत्तमता से उत्पन्न हुआ वे (अर्यः) परमात्मा आय (जनेषु) मनुष्यों में (अर्हात्) योग्य काम से (यत्) जो (द्युमत्) प्रशंसित प्रकाश युक्त मन (क्रतुमत्) वा प्रशंसित बुद्धि और कर्मयुक्त मन (अति विभाति) विशेष कर प्रकाशमान है वा (यत्) जो (शवसा) बल से दीदयत् प्रकाशित होता हुआ वर्तमान है (तत्) तत् (चित्रम्) आश्चर्यरूप ज्ञान (द्रविणम्) धन और यश को (अश्मासु) हम लोगों में (चेहि) धारण स्थापन कोजिये ॥ ३ ॥

भावार्थः—हे मनुष्यो जिस से बड़ा दयावान् न्यायकारी और अत्यन्त मूढ़म कोई भी पदार्थ नहीं वा जिस ने वेद प्रकट करने द्वारा सब मनुष्य सुशोभित किये वा जिस ने अद्भुत ज्ञान और धन जगत् में विस्तृत किया और जो योगाभास से प्राप्त होने योग्य है वही ईश्वर हमसेव लोगों को अति उपासना करने योग्य है यह तुम जानो ॥ ३ ॥

इन्द्रेत्यस्य रम्याक्षी ऋषिः । इन्द्रो देवता ।

स्वराड् जगती छन्दः । निपादः स्वरः ॥

पुनर्मनुष्याः किं कुर्युरित्याह ॥

फिर मनुष्य क्या करें इस वि० ॥

इन्द्र गोमन्त्रिहा यांही पिवा सोमं ५ शतक्रतो
विद्यद्भिर्ग्रावभिः सुतम् । उपयामगृहीतोसिन्द्राय
त्वागोमन्तएष ते योनिरिन्द्राय त्वागोमन्ते ॥ ४ ॥

इन्द्रं । गोमन्निति गोऽमन् । इह । आ । याहि ।
 पिब । सोमम् । शतक्रतो इति शतऽक्रतो । विद्यद्भिरि-
 ति विद्यत्ऽभिः । ग्रावभिरिति ग्रावऽभिः । सुतम् । उ-
 पयामगृहीत इत्युपयामऽगृहीतः । असि । इन्द्राय ।
 त्वा । गोमन्तु इति गोऽमन्ते । एषः । ते । योनिः ।
 इन्द्राय । त्वा । गोमन्तु इति गोऽमन्ते ॥ ४ ॥

पदार्थः—(इन्द्र) विद्वन् मनुष्य (गोमन्) प्रशस्ता गौ-
 र्वाणी विद्यते यस्य तत्संबुद्धौ (इह) अस्मिन् संसारे (आ)
 (याहि) प्राप्नुहि (पिब) अत्र दूयचोऽतस्तिड इति दी-
 र्घः (सोमम्) रसम् (शतक्रतो) शतमसंख्यः क्रतुः प्र-
 ज्ञा यस्य तत्संबुद्धौ (विद्यद्भिः) विद्यमानैः । अत्र व्य-
 त्ययेन परस्मैपदम् (ग्रावभिः) मेघैः (सुतम्) निष्पन्नम्
 (उपयामगृहीतः) उपयामैर्गृहीतानि जितानि इन्द्रि-
 याणि येन सः (असि) (इन्द्राय) ऐश्वर्याय (त्वा)
 त्वाम् (गोमन्ते) प्रशस्तपृथिवीराज्ययुक्ताय (एष) (ते)
 (योनिः) निमित्तम् (इन्द्राय) प्रशस्तैश्वर्यवते (त्वा)
 त्वाम् (गोमन्ते) प्रशस्तवाग्वते ॥ ४ ॥

अन्वयः—हे शतक्रतो गोमन्निन्द्र त्वन्निहा याहि विद्यद्भिर्ग्रावभिः सुतं
 सोमं पिब यतस्त्वमुपयामगृहीतोऽसि तस्माद्गोमन्तु इन्द्राय त्वा यस्यैव ते
 योनिरस्ति तस्मै गोमन्तु इन्द्राय त्वा च वयं सत्कुर्मः ॥ ४ ॥

भावार्थः—ये वैद्यकशास्त्रविद्यासिद्धानि मेघेनोत्पन्नान्यौषधानि सेवन्ते
 योगं प्राप्नुवन्ति ते सुतैश्वर्ययुक्ता जायन्ते ॥ ४ ॥

पदार्थः—हे (शतक्रतो) जिस की सैकड़ों प्रकार की बुद्धि और (गोमन्) प्रशंसित वाणी हैं सो ऐसे हे (इन्द्र) विद्वन् पुरुष आप (आ. याहि) आह्वये (इह) इस संसार में (विद्यद्भिः) विद्यमान (ग्रावभिः) मेघों से (सुतम्) उत्पन्न हुए (सोमम्) सोमयज्ञी आदि ओषधियों के रस को (पिब) पियो जिस से आप (उपयामगृहीतः) यमनियमों से इन्द्रियों को ग्रहण किये अर्थात् इन्द्रियों को जीते हुए (असि) ही इस लिये (गोमते) प्रशस्त पृथिवी के राज्य से युक्त पुरुष के लिये और (इन्द्राय) उत्तम ऐश्वर्य के लिये (त्वा) आप को और जिन (ते) आप का (एयः) यह (योनिः) निमित्त है उस (गोमते) प्रशंसित वाणी और (इन्द्राय) प्रशंसित ऐश्वर्य से युक्त पुरुष के लिये (त्वा) आप का हम लोग मत्कार करते हैं ॥ ४ ॥

भावार्थः—जो वैद्यकशास्त्र विद्या से और सिद्ध मेघों से उत्पन्न हुई ओषधियों का सेवन और योगाभ्यास करते हैं वे सुख तथा ऐश्वर्ययुक्त होते हैं ॥ ४ ॥

इन्द्रेत्यस्य रम्याक्षी ऋषिः । सूर्यो देवता ।

भुरिक् ऋषिः । घैवतः स्वरः ॥

पुनर्मनुष्यैः किं क्रियेत इत्याह ॥

फिर मनुष्य क्या करें इस वि० ॥

इन्द्रायाहि वृत्रहन् पिवा सोमं शतक्रतो ।
गोमद्भिः ग्रावभिःसुतम् । उपयामगृहीतोऽसी-
न्द्राय त्वा गोमंतऽण्ण ते योनिरिन्द्राय त्वा गो-
मते ॥ ५ ॥

इन्द्रं । आ । याहि । वृत्रहन्निति वृत्रऽहन् । पिब ।
सोमम् । शतक्रतो इति शतऽक्रतो । गोमद्भिरिति गो-
मत्ऽभिः । ग्रावभिरिति ग्रावऽभिः । सुतम् । उपयामगृहीत

यामऽगृहीतः । असि । इन्द्राय । त्वा । गोमते इति
गोऽमते । एषः । ते । योनिः । इन्द्राय । त्वा । गोमते
इति गोऽमते ॥ ५ ॥

पदार्थः—(इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त (आ) समन्तात् (या-
हि) गच्छ (वृत्रहन्) यो वृत्रं मेघं हन्ति स सूर्यस्तद्वत् (पि-
ब) अत्र द्वयचोऽस्ति इति दीर्घः (सोमम्) ऐश्वर्यका-
रकं रसम् (शतक्रतो) बहुप्रज्ञाकर्मयुक्त (गोमद्भिः) ब-
हवो गावः किरणा विद्यन्ते येषु सैः (ग्रावभिः) गर्जना-
युक्तैर्मघैः (सुतम्) निष्पादितम् (उपयामगृहीतः)
सुनियमैर्निगृहीतारमा (असि) (इन्द्राय) ऐश्वर्याय
(त्वा) त्वाम् (गोमते) बहुधेन्वादियुक्ताय (एषः)
(ते) तव (योनिः) गृहम् (इन्द्राय) ऐश्वर्यमिच्छुकाय (त्वा)
त्वाम् (गोमते) प्रशस्तभूमिराज्ययुक्ताय ॥ ५ ॥

अन्वयः— हे शतक्रतो वृत्रहन्निन्द्र एवं गोमद्भिर्ग्रावभिः सहा याहि सुतं
सोमं पिब । यतस्त्वां गोमत इन्द्रायोपयामगृहीतोऽसि तं एवा यस्यैव ते
गोमत इन्द्राय योनिरस्ति तं त्वा च वयं अत्फुर्याम ॥ ५ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०— हे मनुष्य! यथा मेघहन्ता सूर्यः सर्वस्य ज-
गतो रसं पीत्वा वर्षयित्वा सर्वं जनत्प्रीणाति तथैव त्वं लह्वीषधिरसान् पिब
ऐश्वर्योन्नतये प्रयतस्व च ॥ ५ ॥

पदार्थः— हे (शतक्रतो) बहुत बुद्धि और कर्मयुक्त (वृत्रहन्) मेघ
हन्ता सूर्य के समान शत्रुओं के हनने वाले (इन्द्र) परमैश्वर्यायुक्त विद्वन्
आप (गोमद्भिः) जिनमें बहुत बलवती हुई किरणें विद्यमान उन पदार्थों

और (ग्रावभिः) गर्जनाओं से गर्जते हुए मेघों के साथ (आ, याहि) आ-
इये और (सुतम्) उत्पन्न हुए (सोमम्) ऐश्वर्य करने वाले रस को (पिब)
पीओ जिस कारण आप (गोमते) बहुत दूध देती हुई गीओं से युक्त
(इन्द्राय) ऐश्वर्य के लिये (उपयामगृहीतः) अच्छे नियमों से आत्मा
को ग्रहण किये हुए (असि) हैं उन (त्वा) आप को तथा जिन (ते)
आप का (एषः) यह (गोमते) प्रशंसित भूमि के राज्य से युक्त (इन्द्रा-
य) ऐश्वर्य चाहने वाले के लिये (योनिः) घर है उन (त्वा) आप का
एक लोग सत्कार करें ॥ ५ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—हे मनुष्य! जैसे मेघ हन्ता सूर्य सब जगत् से
रस पी के और वर्षा के सब जगत् को प्रसन्न करता है वैसे ही तू चड़ीर ओषधियों के
रसको पी तथा ऐश्वर्य की उन्नतिके लिये अच्छे प्रकार यत्न किया कर ॥ ५ ॥

ऋतावानमित्यस्य प्रादुराक्षिर्ऋपिः । वैश्वानरो देवता ।

जगती छन्दः । निपादः स्वरः ॥

पुनर्मनुष्यैः किं कर्त्तव्यमित्याह ।

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस वि० ॥

ऋतावानं वैश्वानरमृतस्य ज्योतिषरूपतिम् ।
अजस्रं धर्ममीमहे । उपयामगृहीतोऽसि वैश्वा-
नराय त्वेष ते योनिर्वैश्वानराय त्वा ॥ ६ ॥

ऋतावानम् । ऋतवानमित्यृतस्वानम् । वैश्वानरम् ।
ऋतस्य । ज्योतिषः । पतिम् । अजस्रम् । धर्मम् । ईमहे ।
उपयामगृहीत इत्युपयामऽगृहीतः । असि । वैश्वानराय ।
त्वा । एषः । ते । योनिः । वैश्वानराय । त्वा ॥ ६ ॥

पदार्थः—(ऋतवानाम्) य ऋतं जलं वनति संभजति तम् (वैश्वानरम्) विश्वेषां नराणां मध्ये राजमानम् (ऋतस्य) जलस्य (ज्योतिषः) प्रकाशस्य (पतिम्) पालकम् (अजस्रम्) निरन्तरम् (घर्मम्) प्रतापम् (ईमहे) याचामहे (उपयाम-गृहीतः) सुनियमैर्निगृहीतान्तःकरणः (असि) (वैश्वानराय) विश्वस्य नायकाय (त्वा) (एयः) (ते) (योनिः) गृहम् (वैश्वानराय) (त्वा) त्वाम् ॥ ६ ॥

अन्वयः— हे मनुष्या यथा वयसृतावानं वैश्वानरसृतस्य ज्योतिषरूपतिं घर्ममजस्रमीमहे तथा यूपमप्येनं याचन । यस्त्वं वैश्वानरायोपयामगृहीतोऽसि तं त्वा यस्यैष ते योनिरस्ति तं त्वा च वैश्वानराय सत्कुर्मस्तथा यूपमपि कुरुत ॥ ६ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलुः—योऽग्निर्जलादीनि सूक्तानि द्रव्याणि स्वतेजसा भिनत्ति निरन्तरं जलमाकर्षति च तं विदित्वा मनुष्याः सर्वत्सु सुखकारकं गृहमलंकुर्युः ॥ ६ ॥

पदार्थः— हे मनुष्यो! जैसे हम लोग (ऋतवानाम्) जो जल का सेवन करता उस (वैश्वानरम्) समस्त मनुष्यों में प्रकाशमान (ऋतस्य) जल और (ज्योतिषः) प्रकाश की (पतिम्) पालना करने वाले (घर्मम्) प्रताप की (अजस्रम्) निरन्तर (ईमहे) मांगते हैं जैसे तुम उस को मांगो जो आप (वैश्वानराय) संसार के नायक के लिये (उपयामगृहीतः) अच्छे नियमों से मन को जीते हुये (असि) हैं उन (त्वा) आपको तथा जिन (ते) आप का (एयः) यह (योनिः) घर है उन (त्वा) आप को (वैश्वानराय) समस्त संसार के हित के लिये सत्कार गुरु करते हैं जैसे तुम भी करो ॥ ६ ॥

भावार्थः— इस मन्त्र में वाचकलु०—जो अग्नि जल आदि मूर्तिमान् पदार्थों को अपने तेज से छिन्न भिन्न करता और निरन्तर जल खींचता है उसको, जान के मनुष्य सब ऋतुओं में सुख करने हारे घर को पूर्ण करें बनावें ॥ ६ ॥

वैश्वानरस्येत्यस्य कुत्सऋषिः । वैश्वानरोऽग्निर्देवता ।

जगती छन्दः । निषाद स्वरः ॥

पुनर्मनुष्याः किं कुर्युरित्याह ॥

फिर मनुष्य क्या करें इस वि० ॥

वैश्वानरस्यं सुमत्तौ स्याम राजा हि कं भु-
वनानामभिःश्रीः । इतो जातो विश्वमिदं विचष्टे
वैश्वानरो यतते सूर्येण । उपयामगृहीतोऽसि वै-
श्वानराय त्वेष ते योनिर्वैश्वानराय त्वा ॥७॥

वैश्वानरस्यं । सुमत्ताविति । सुऽमत्तौ । स्याम ।
राजा । हि । कम् । भुवनानाम् । अभिःश्रीरित्यभिः-
श्रीः । इतः । जातः । विश्वम् । इदम् । वि । चष्टे ।
वैश्वानरः । यतते । सूर्येणा । उपयामगृहीतइत्युपयामऽ-
गृहीतः । असि । वैश्वानराय । त्वा । एषः । ते ।
योनिः । वैश्वानराय । त्वा ॥ ७ ॥

पदार्थः—(वैश्वानरस्य) विश्वस्य नायकस्य (सुमत्तौ) शो-
भनायां बुद्धौ (स्याम) भवेम (राजा) प्रकाशमानः (हि)
खलु (कम्) सुखम् (भुवनानाम्) (आभिःश्रीः) अभितः
सर्वतः श्रियो यस्य सः (इतः) अस्मात् कारणात् (जातः)
प्रकटः सन् (विश्वम्) सर्वं जगत् इदम्) (वि, चष्टे) प्रकाशयति

(वैश्वानरः) विदुदग्निः (यतते) (सूर्येण) सूर्यमण्ड-
लेन (उपयामगृहीतः) सुनियमैः स्वीकृतः (असि) (वै-
श्वानराय) अग्नये (त्वा) त्वाम् (एषः) (ते) तव
(योनिः) गृहम् (वैश्वानराय) अग्निकार्यसाधनाय
(त्वा) त्वाम् ॥ ७ ॥

अन्वयः—वयं यथा राजा भुवनानामभिप्रीः कं हि साधनोति इतो
जातः सन् विश्वमिदं विचष्टे यथा सूर्येण मह वैश्वानरो यतते तथा वयं
वैश्वानरस्य सुमती स्याम । हे विद्वन् ! यतस्त्वमुपयामगृहीतोऽसि तस्माद्वै-
श्वानराय त्वा यस्यैष ते योनिरस्ति तं त्वा च वैश्वानराय सत्करोमि ॥ ७ ॥

भावार्थः—यथा सूर्येण सह चन्द्रमा रात्रिं सुभूषयति तथा सुराणां प्रजा
प्रकाशिता भवति विद्वान् शिल्पिजनश्च वह्निना सर्वोपयोगीनि कार्याणि
साधनोति ॥ ७ ॥

पदार्थः—हम लोग जैसे (राजा) प्रकाशमान् (भुवनानाम्) लोकों
के बीच (अभिप्रीः) सब ओर से ऐश्वर्य की शोभा से युक्त सूर्य (कम्)
हुल को (हि) ही सिद्ध करता है और (इतः) इस कारण (जातः) प्र
सिद्ध हुआ (इदम्) इस (त्रिश्वम्) विश्व को (वि, चष्टे) प्रकाशित
करता है वा जैसे (सूर्येण) सूर्य के साथ (वैश्वानरः) विजुली रूप अग्नि
(यतते) यत्नवान् है जैसे हम लोग (वैश्वानरस्य) संसार के नायक पर
मेश्वर वा उत्तम सभापति की (सुमती) अति उत्तम देश काल को जा-
नने हारी कपट झलादि दोष रहित बुद्धि में (स्याम) होंगे हे विद्वान् जि-
ससे आप (उपयामगृहीतः) सुन्दर नियमों से स्वीकृत (असि) हैं इस से
(वैश्वानराय) अग्नि के लिये (त्वा) आप को तथा जिस (ते) आप का
(एषः) यह (योनिः) घर है उन (त्वा) आप को भी (वैश्वानराय)
अग्नि साध्य कार्य साधने के लिये सत्कार करता हूँ ॥ ७ ॥

भावार्थः—जैसे सूर्य के साथ चन्द्रमा रात्रि को सुशोभित कर्चा है वैसे उत्तम राजा से प्रजा प्रकाशित होती है और विद्वान् शिल्पी जन सर्वोपयोगी कार्यों को सिद्ध करता है ॥ ७ ॥

वैश्वानरइत्यस्य कुत्स ऋषिः । वैश्वानरो देवता ।

जगती छन्दः । निपादः स्वरः ॥

पुनर्मनुष्याः किंवत् किं कुर्युरित्याह ॥

फिर मनुष्य किस के समान क्या करें इस वि० ॥

वैश्वानरो न ऊतयऽआ प्रयातु परावतः । अग्नि
रुक्थेन वाहसा । उपयामगृहीतोऽसि वैश्वानराय
त्वेष ते योनिर्वैश्वानराय त्वा ॥ ८ ॥

वैश्वानरः । नः । ऊतये । आ । प्र । यातु । परावतः ।
अग्निः । रुक्थेन । वाहसा । उपयामगृहीतइत्युपयाम-
ऽगृहीतः । असि । वैश्वानराय । त्वा । एषः । ते ।
योनिः । वैश्वानराय । त्वा ॥ ८ ॥

पदार्थः—(वैश्वानरः) विश्वेषु नायकेषु विद्वत्सु राज-
मानः (नः) अस्माकम् (ऊतये) रक्षणाद्याय (आ)
(प्र, यातु) गच्छतु (परावतः) दूरदेशात् (अग्निः)
पावकवद्वर्त्तमानः (रुक्थेन) प्रशंसनीयेन (वाहसा)
प्रापणेन (उपयामगृहीतः) विद्याविचारसंयुक्तः (असि)
(वैश्वानराय) प्रकणशमानाय (त्वा) त्वाम् (एषः) (तं)
तव (योनिः) गृहम् (वैश्वानराय) (त्वा) त्वाम् ॥८॥

अन्वयः—यथा वैश्वानरः परावतो न ऊतये आ प्रयातु तथाऽग्निरुक्थेनवा-
हसा सहाप्नोतु यस्त्वं वैश्वानरायोपयामगृहीतोऽसि तं त्वा यस्यैष ते वैश्वान-
नराय योनिरस्ति तं त्वा च स्वीकुर्मः ॥ ८ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—यथा सूर्यो दूरदेशात्स्वप्रकाशेन दूरस्थान् पदार्थान्
प्रकाशयति तथा विद्वांसः स्वसूपदेशेन दूरस्थान् जिज्ञासून् प्रकाशयन्ति ॥ ८ ॥

पदार्थः—जैसे (वैश्वानरः) तमस्त नायक जनों में प्रकाशमान विद्वान्
(परावतः) दूर से (नः) हमारी (ऊतये) रक्षा के लिये (आ , प्र, यातु)
अच्छे प्रकार आवे जैसे (अग्निः) अग्नि के समान तेजस्वी अनुष्य (उक्थे न)
प्रशंसा करने योग्य (वाहसा) व्यवहार के साथ प्राप्त हो जो आप (वैश्वा-
नराय) प्रकाशमान के लिये (उपयामगृहीतः) विद्या के विचार से युक्त
(असि) हैं उन (त्वा) आप को तथा जिन (ते) आपका (एषः)
यह घर (वैश्वानराय) समस्तनायकों में उत्तम के लिये (योनिः) है उन (त्वा)
आप को भी हम लोग स्वीकार करें ॥ ८ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—जैसे सूर्य दूर देश से अपने प्रकाश से दूरस्थ
पदार्थों को प्रकाशित करता है जैसे ही विद्वान् जन अपने सुन्दर उपदेश से दूरस्थ जिज्ञा-
सुत्रों को प्रकाशित करते हैं ॥ ८ ॥

अग्निरित्यस्य कुत्स ऋषिः । वैश्वानरो देवता ।

जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥

पुनः कैः कस्मात् किं याचनीयमित्याह ।

फिर किन को किस से क्या मांगना चाहिये इस वि० ॥

अग्निर्ऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः ।

तमीमहे महागयम् ॥ उपयामगृहीतोऽस्यग्नये त्वा

वर्चस एष ते योनिरग्नये त्वा वर्चसे ॥ ९ ॥

अग्निः । ऋषिः । पवमानः । पाञ्चजन्य इति पाञ्च-
 जन्यः । पुरोहित इति पुरःऽहितः । तम् । ईमहे । महा-
 गयमिति महाऽगयम् । उपयामगृहीत इत्युपयामऽगृ-
 हीतः । असि अग्नये । त्वा । वर्चसे । एषः । ते ।
 योनिः । अग्नये । त्वा । वर्चसे ॥ ९ ॥

पदार्थः—(अग्निः) पावकवद्विद्यया प्रकाशितः (ऋषिः)
 मन्त्रार्थवेत्ता (पवमानः) पवित्रः (पाञ्चजन्यः) पञ्चानां प-
 ञ्चसु वा जनेषु साधुः (पुरोहितः) पुरस्ताद्धितकारि (तम्)
 (ईमहे) याचामहे (महागयम्) महान्तो गया गृहाणि
 प्रजा धनं वा यस्य तम् । गयमिति गृहना० निघं० ३ । ४।
 अपत्यना० निघं० । २ । २ धनना० च निघं० २ । १०
 (उपयामगृहीतः) (असि) (अग्नये) विदुणे (त्वा)
 त्वाम् (वर्चसे) अध्यापनाय (एषः) ते (योनिः) निमि-
 त्तम् (अग्नये (त्वा) त्वाम् (वर्चसे) विद्याप्रकाशाय ॥९॥

अन्वयः—हे मनुष्या य! पाञ्चजन्य! पुरोहितः पवमान ऋषिरस्मिन्निरस्ति
 तं महागयं यथा वयमीसहे तथा त्वं वर्चसेऽग्नये उपयामगृहीतोऽसि तस्मात्त्वा
 यस्थैष ते योनिर्वर्चसेऽग्नयेऽस्ति तं त्वा च वयमीसहे तथैतं यूयसपीहध्वञ्च ॥९॥

भावार्थः—सर्वमनुष्यैर्वेदशास्त्रविद्भ्यो विद्भ्यः सदाविद्याप्राप्तिं यांच
 नीया येन महत्त्वं प्राप्नुयुः ॥ ९ ॥

पदार्थः—हेमनुष्यो ! जो (पाञ्चजन्यः) पांच जनों वा प्राणों की क्रिया में
 उत्तम (पुरोहितः) पहिले हित करने हारा (पवमानः) पवित्र (ऋषिः)

मंत्रार्थवेत्ता और (अग्निः) अग्नि के समान विद्या से प्रकाशित है (तम्) उस (महागयम्) बड़े २ घर सन्तान वा धन वाले की जैसे हम लोग (ई-सहे) याचना करें जैसे आप (वर्चसे) पढ़ाने हारि और (अग्नये) विद्वान् के लिये (उपग्रामगृहीतः) समीप के नियमों से ग्रहण किये हुए (असि) हैं इस से (त्वा) आप को तथा जिन (ते) आप का (एषः) यह (यो-निः) निमित्त (वर्चसे) विद्याप्रकाश और (अग्नये) विद्वान् के लिये है उन (त्वा) आप की हम लोग प्रार्थना करते हैं जैसे तुम भी चेष्टा करो ॥९॥

भावार्थः—सब मनुष्यों को चाहिये कि वेदवेत्ता विद्वानों से सदा विद्याप्राप्ति की प्रार्थना किया करें जिस से वे सब मनुष्य महत्त्व को प्राप्त हों ॥ ९ ॥

महानित्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता ।

निचृज्जगती छन्दः । निपादः स्वरः ॥

अथ राजसत्कारमाह ॥

अथ राजा के सत्कार वि० ॥

महाँशः॥इन्द्रो वज्रहस्तः षोडशी शर्म यच्छ-
तु हन्तुं प्राप्मानं गोऽस्मान् द्वेष्टि । उपग्रामगृ-
हीतोऽसि महेन्द्राय त्वेष ते योनिर्महेन्द्राय त्वा ॥ १० ॥

महान् । इन्द्रः । वज्रहस्त इति वज्रऽहस्तः । षोड-
शी । शर्म । यच्छतु । हन्तुं । प्राप्मानम् । यः । अस्मा-
न् । द्वेष्टि । उपग्रामगृहीत इत्युपग्रामऽगृहीतः । असि ।
महेन्द्रायेति महाऽइन्द्राय । त्वा । एषः । ते । योनिः ।
महेन्द्रायेति महाऽइन्द्राय । त्वा ॥ १० ॥

पदार्थः—(महान्) बृहत्तमः (इन्द्रः) परमैश्वर्ययु-
क्तो राजा (वज्रहस्तः) वज्रो हस्तयोर्यस्य सः (षोड-

शी) षोडशकलायुक्तः(शर्म) शृण्वन्ति दुःखानि यस्मि-
 न् तद्गृहम् । शर्मेति गृहना० निघं ३ । १४ (यच्छतु)
 ददातु (हन्तु) (पाप्मानम्) दुष्टकर्मकारिणम् (यः)
 (अस्मान्) (द्वेषि) अप्रीतयति (उपयामगृहीतः)
 (असि) (महेन्द्राय) महद्गुणविशिष्टाय (त्वा)
 त्वाम् (एषः) (ते) (योनिः) निमित्तम् (महेन्द्राय)
 (त्वा) त्वाम् ॥ १० ॥

अन्वयः—हे मनुष्या ! वज्रहस्तः षोडशी महानिन्द्रः शर्म यच्छतु योऽस्मान्
 द्वेषि तं पाप्मानं हन्तु यस्त्वं महेन्द्रायोपयामगृहीतोऽसितं त्वा यस्यैव ते
 महेन्द्राय योनिरस्ति तं त्वा च वयं सत्कुर्याम ॥ १० ॥

भावार्थः—हे प्रजाजना यो पुढमभ्यं सुखं दद्यात् दुष्टान् हन्यान्महेश्वर्यं
 बद्धयेत्स ऽस्माभिः सदा सत्कर्त्तव्यः ॥ १० ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! (वज्रहस्तः) जिस के हाथों में वज्र (षोडशी) सो-
 छह कलायुक्त (महान्) बड़ा (इन्द्रः) और परम ऐश्वर्यवान् राजा (श-
 र्म) जिस में दुःख विनाश को प्राप्त होते हैं उस घर को (यच्छतु) देवे
 (यः) जो (अस्मान्) हम लोगों को (द्वेषि) वैरभाव व चाहता उस
 (पाप्मानम्) पापात्मा खीटे कर्म करने वाले को (हन्तु) मारे । जो आ-
 प (महेन्द्राय) बड़े २ गुणों से युक्त के लिये (उपयामगृहीतः) प्राप्त हुए
 नियमों से ग्रहण किये हुए (असि) हैं उन (त्वा) आप को तथा जि-
 न (ते) आप का (एषः) यह (महेन्द्राय) उत्तम गुण वाले के लिये (यो-
 निः) निमित्त है उन (त्वा) आप का भी हम लोग सत्कार करें ॥ १० ॥

भावार्थः—हे प्रजाजनो ! जो तुम्हारे लिये सुख देवे, दुष्टों को मारे और महान् ऐ-
 श्वर्य को बढ़ावे वह तुम लोगों को सदा सत्कार करने योग्य है ॥ १० ॥

तं व इत्यस्य नोथा गोतम ऋषिः । अग्निर्देवता ।

विराडनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वस्ः ॥

पुना राजा किं कुर्यादित्याह ॥

फिरं. राजा क्या करे इस वि० ॥

तं वो दस्ममृतीषहं वसोर्मन्दानमन्धसः ।
अभि वत्सन्न स्वसरेषु धेनवइन्द्रं गीर्भिरिति
महे ॥ ११ ॥

तम् । वः । दस्मम् । ऋतीषहम् । ऋतिसहमित्यृ-
त्तिऽसहम् । वसोः । मन्दानम् । अन्धसः । अभि ।
वत्सम् । न । स्वसरेषु । धेनवः । इन्द्रम् । गीर्भिरिति
गोऽभिः । नवामहे ॥ ११ ॥

पदार्थः— (तम्) (वः) युष्मभ्यम् (दस्मम्) दुःखो-
पक्षयितारम् (ऋतीषहम्) गतिसहम् । अत्र संहिता-
यामिति दीर्घः (वसोः) धनस्य (मन्दानम्) आनन्दन्तम्
(अन्धसः) अन्नस्य (अभि) सर्वतः (वत्सम्) (न)
इव (स्वसरेषु) दिनेषु (धेनवः) गावः (इन्द्रम्) परमैश्व-
र्यवन्तम् (गीर्भिः) वाग्भिः (नवामहे) स्तुवीमहे ॥ ११ ॥

अन्वयः— हे मनुष्या वयं स्वसरेषु धेनवो वत्सं न यं दस्ममृतीषहं व-
सोर्मन्धसो मन्दानसिन्द्रं वो गीर्भिरभि नवामहे तथा तं भवन्तोऽपि सदा
प्रीतिभावेन स्तुवन्तु ॥ ११ ॥

भावार्थः— अत्रोपमालङ्कारः—यथा गावः प्रतिदिनं स्वं स्वं वत्सं पाल-
यन्ति तथैव प्रजारक्षकः पुरुषः प्रजा नित्यं रक्षेत् प्रजायै धनधान्यैः सुखा-
नि वर्धयेत् ॥ ११ ॥

पदार्थः— हे मनुष्यो ! हम लोग (स्वसरेषु) दिनों में (धेनवः) गौएं
(वत्सम्) जैसे बछड़े को (न) वैसे जिस (दस्मम्) दुःखविनाशक (ऋ-

तीघहम्) चाल को सहने वाले (वसोः) धन और (अग्निः) अग्नि के (सन्दानम्) आनन्द को पाए हुए (इन्द्रम्) परमेश्वर्यवान् सभापति की (वः) तुम्हारे लिये (गीर्भिः) वाणियों से (अभि, नयामहे) नम्र और से स्तुति करते हैं वैसे ही (तम्) उक्त सभापति की आप लोग भी मदा प्रीतिभाव से स्तुति कीजिये ॥ ११ ॥

भावार्थः— इस मंत्र में उपमालं०—जैसे गायं प्रति दिन अपेक्षर वृद्धों को पालती हैं वैसे ही प्रजा जनों की रक्षा करने वाला पुरुष प्रजा की नित्य रक्षा करे और प्रजा के लिये धन और अन्न आदि पदार्थों से गृहों को नित्य बढ़ाया करे ॥ ११ ॥

यद्वाहिष्ठमित्यम्य नोथा गोतम ऋषिः । अग्निदेवता ।

विराद् गायत्री छन्दः । पदत्रयः स्वराः ॥

पुनः सा राज्ञी किं कुर्यादित्याह ॥

फिर वह रानी क्या करे इस धि० ॥

यद्वाहिष्ठन्तदग्नये बृहद्वर्च विभावसो । महि-
षीव त्वद्वयिस्त्वद्वाजा उदीरते ॥ १२ ॥

यत् । वाहिष्ठम् । तत् । अग्नये । बृहत् । अर्च ।
विभावसो इति विभस्वसो । महिषीवेति महिषीऽ
इव । त्वत् । रयिः । त्वत् । वाजाः । उत् । ईरते ॥ १२ ॥

पदार्थः—(यत्) (वाहिष्ठम्) अतिशयेन वाहयितारम्
(तत्) (अग्नये) पावकाय (बृहत्) महत् (अर्च)
सत्कुरु (विभावसो) प्रकाशितधन (महिषीव) यथा
राज्ञितथा (त्वत्) तव सत्काशात् (रयिः) धनम् (त्वत्)
(वाजाः) अन्नादीनि (उत्) अपि (ईरते) प्राप्नुवन्ति ॥ १२ ॥

अन्वयः—हे विभावसो अग्नये यद्बृहद्वाहिष्मस्ति तदर्चं तद्वयमप्यर्चम
महिषीव त्वद्रयिस्त्वद्वाजाश्चोदीरते तं वयं सत्कुर्याम ॥ १२ ॥

भावार्थः—यथा राज्ञी सुखप्रापिका सहाधनप्रदा भवति तथैव राज्ञः
सकाशात्सर्वे धनमन्यान्पुत्रमानि वस्तूनि च प्राप्नुयुः ॥ १२ ॥

पदार्थः—हे (विभावसो) प्रकाशित धन वाले विद्वन्! (अग्नये) अग्निके लिये
(यत्) जो (बृहत) बड़ा और (वाहिष्म) अत्यन्त पहुंचाने हारा है उस का
(अर्चं) सत्कार करो (तत्) उसका हम भी सत्कार करें (महिषीव, और राज्ञी
के समान (त्वत्) तुम से (रयिः) धन और (त्वत्,) तुम से (वाजाः) अन्न
आदि पदार्थ (उत्, ईरते) भी प्राप्त होते हैं उन आपका हम लोग सत्कार
करें ॥ १२ ॥

भावार्थः—जैसे राजी सुख पहुंचाती और बहुत धन देने वाली होती है वैसे ही राजा
के समीप से सब लोग धन और अन्य उत्तम २ वस्तुओं को पावें ॥ १२ ॥

एहीत्यस्य भारद्वाज ऋषिः । अग्निर्देवता ।

विराड् गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

विद्वद्भिः किं कार्यमित्याह ॥

विद्वानों को क्या करना चाहिये इस वि० ॥

एह्येषु ब्रवाणि तेऽग्नं इत्थेतरा गिरः । एभिर्व-
र्द्धास इन्दुभिः ॥ १३ ॥

आ । इहि । ऊँ इत्थूँ । सु । ब्रवाणि । ते । अग्ने ।
इत्था । इतराः । गिरः । एभिः । वर्द्धासे । इन्दुभिरि-
तीन्दुऽभिः ॥ १३ ॥

पदार्थः—(आ) समन्तात् (इहि) प्राप्नुहि (उ) वितर्के
(सु) शोभने (ब्रवाणि) उपदिशेयम् (ते) तुभ्यम् (अग्ने)

प्रकाशितप्रज्ञ (इत्था) अस्माद्धेतोः (इतरा) त्वयाऽज्ञाताः
(गिर) वाचः (एभिः) (वर्द्धासे) वृद्धां भव (इन्दुभिः) ज-
लादिभिः ॥ १३ ॥

अन्वयः-हे अग्नेऽहमित्था त इतरा गिरः सु ब्रवाणि यतस्त्वमेता एहि-
उ एभिरिन्दुभिर्वर्द्धासे ॥ १३ ॥

भावार्थः-यथा शिक्षया विद्यार्थिनो विज्ञानेनवर्द्धंस्तामेव विद्वांस्त
उपदिशेयुः ॥ १३ ॥

पदार्थः-हे (अग्ने) प्रकाशित बुद्धि वाले विद्वन्! मैं (इत्था) इस हेतु से (ते)
आप के लिये (इतराः) जिन को तुम ने नहीं जाना है उन (गिरः) वा-
णियों का (सु, ब्रवाणि) सुंदर प्रकार से उपदेश करूँ कि जिस से आप इन
वाणियों को (आ, इहि) अच्छे प्रकार प्राप्त हूँजिये (उ) और (एभिः) इन
(इन्दुभिः) जलादि पदार्थों से (वर्द्धासे) वृद्धि को प्राप्त हूँजिये ॥ १३ ॥

भावार्थः-जिस शिक्षा से विद्यार्थी लोग विज्ञान से बढ़ें उन्हीं शिक्षा का विद्वान् लोग
उपदेश किया करें ॥ १३ ॥

ऋतव इत्यस्य भारद्वाज ऋषिः । संवत्सरो देवता ।

भुरिगृहती छन्दः । निपादः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

ऋतवस्ते यज्ञं वितन्वन्तु मासां रक्षन्तु ते हविः ।

संवत्सरस्ते यज्ञं दधातु नः प्रजां च परिपातु नः ॥ १४ ॥

ऋतवः । ते । यज्ञम् । वि । त्वन्तु । मासां । रक्षन्तु ।

ते । हविः । संवत्सरः । ते । यज्ञम् । दधातु । नः । प्रजा-

मिति प्रऽजाम् । च । परि । पातु । नः ॥ १४ ॥

पदार्थः—(ऋतवः) वसन्ताद्याः (ते) तव (यज्ञम्)
सत्कारादिव्यवहारम् (वि) (तन्वन्तु) विस्तृणन्तु
(मासाः) कार्तिकादयः (रक्षन्तु) (ते) तव (हविः)
होतव्यं वस्तु (संवत्सरः) (ते) तव (यज्ञम्) (दधा-
तु) (नः) अस्माकम् (प्रजाम्) (च) (परि) (पा-
तु) रक्षतु (नः) अस्माकम् ॥ १४ ॥

अन्वयः—हे विद्वंस्ते यज्ञसूतवो वितन्वन्तु ते हविर्मासा रक्षन्तु ते यज्ञं
नः संवत्सरो दधातु नः प्रजां च परिपातु ॥ १४ ॥

भावार्थः—विद्वद्भिर्मनुष्यैः सर्वाभिः सामग्रीभिर्विद्यावर्द्धको व्यवहारः
सदा वर्द्धनीयो न्यायेन प्रजाश्च पालनीयाः ॥ १४ ॥

पदार्थः—हे विद्वन् ! (ते) आप के (यज्ञम्) सत्कार आदि व्यवहार
को (ऋतवः) वसन्तादि ऋतु (वि, तन्वन्तु) विस्तृत करें (ते) आप के
(हविः) होमने योग्य वस्तु की (मासाः) कार्तिक आदि महीने (रक्षन्तु)
रक्षा करें (ते) आप के (यज्ञम्) यज्ञ को (नः) हमारा (संवत्सरः) वर्ष
(दधातु) पुष्ट करें (च) और (नः) हमारी (प्रजां) प्रजा की (परि, पातु)
सब ओर से आप रक्षा करो ॥ १४ ॥

भावार्थः—विद्वान् मनुष्यों को योग्य है कि सब सामग्री से विद्यावर्द्धक व्यवहार
को सदा बढ़ावें और न्याय से प्रजा की रक्षा किया करें ॥ १४ ॥

उपहृर इत्यस्य वत्स ऋषिः । विद्वान् देवता ।

विराड् गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

उपहृरे गिरीणां संज्ञमे च नदीनाम् । धि-
या विप्रो अजायत ॥ १५ ॥

उपह्वर इत्युऽह्वरे । गिरीणाम् । सङ्गमे इति सम्-
गमे। च । नदीनाम् । धिया । विप्रः । अजायत ॥ १५ ॥

पदार्थः—(उपह्वरे) निकटे (गिरीणाम्) शैलाना-
म् (सङ्गमे) मेलने (च) (नदीनाम्) (धिया) प्रज्ञ-
या कर्मणा वा (विप्रः) मेधावी । विप्र इति मेधाविनाम
निघं०३ । १५ (अजायत) जायते ॥ १५ ॥

अन्वयः—यो मनुष्यो गिरीणामुपह्वरे नदीनां च सङ्गमे योगिनेश्वरं
विचारेण विद्यां चोपासीत स धिया विप्रो अजायत ॥ १५ ॥

भाष्यार्थः—यो विद्वांसः पठित्वैकान्ते विचारयन्ति ते योगिन इव
प्राज्ञा भवन्ति ॥ १५ ॥

पदार्थः—जो मनुष्य (गिरीणाम्) पर्वतों के (उपह्वरे) निकट
(च) और (नदीनाम्) नदियों के (सङ्गमे) मेल में योगाभ्यास से ईश्वर
की और विचार से विद्या की उपासना करे वह (धिया) उत्तम बुद्धि वा
कर्म से युक्त (विप्रः) विचारशील बुद्धिमान् (अजायत) होता है ॥ १५ ॥

भाष्यार्थः—जो विद्वान् लोग पढ़ के एकान्त में विचार करते हैं वे योगियों के
तुल्य उत्तम बुद्धिमान् होते हैं ॥ १५ ॥

उच्चेत्यस्य सहीयव ऋषिः । अग्निदेवता ।

निचृद्गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

उच्चा ते जातमन्धसो द्विवि सङ्गम्याददे ।
उग्रं शर्म महि श्रवः ॥ १६ ॥

उच्चा । ते । जातम् । अन्धसः । दिवि । सत् । भूमि ।
आ । ददे । उग्रम् । शर्म । महि । श्रवः ॥ १६ ॥

पदार्थः—(उच्चा) उच्चम् (ते) तव (जातम्) नि-
ष्पन्नम् (अन्धसः) अन्नात् (दिवि) प्रकाशे (सत्)
वर्त्तमानम् (भूमि) अत्र सुपां सुलुगिति विभक्तेर्लुक्
(आ, ददे) ग्रह्णामि (उग्रम्) उत्कृष्टम् (शर्म) गृहम्
(महि) महत् (श्रवः) प्रशंसनीयम् ॥ १६ ॥

अन्वयः—हे विद्वन्नहं ते यदुच्चाऽन्धसो जातं दिवि सदुग्रं महि श्रवः
शर्माददे तद्भूमीव भवतु ॥ १६ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—विद्वद्भिर्मनुष्यैः सूर्यकिरणवायुमन्त्यन्नादियुक्ता-
नि महान्मनुष्यानि गृहाणि रचयित्वा तत्र निवासेन सुखं भोक्तव्यम् ॥ १६ ॥

पदार्थः— हे विद्वन् ! मैं (ते) आप के जिस (उच्चा) ऊंचे (अन्धसः)
अन्न से (जातम्) प्रसिद्ध हुए (दिवि) प्रकाश में (सत्) वर्त्तमान (उग्रम्)
उत्तम (महि) बड़े (श्रवः) प्रशंसा के योग्य (शर्म) घर को (आ, ददे)
अच्छे प्रकार ग्रहण करता हूँ वह (भूमि) पृथिवी के तुल्य दृढ़ हो ॥ १६ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—विद्वान् मनुष्यों को चाहिये कि सूर्य का
प्रकाश और वायु जिस में पहुँचा करे ऐसे अन्नादि से युक्त बड़े ऊँचे घरों को बना के
उन में बसने से सुख भोगें । १६ ॥

स न इत्यस्य महीयव ऋषिः । इन्द्रो देवता ।

निचृद् गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुद्भ्यः ।
वरिवोवित्परिं स्व ॥ १७ ॥

सः । नः । इन्द्राय । यज्यवे । वरुणाय । मरुद्भ्य इति
 मरुत्भ्यः । वरिवोवित् वरिवःऽवित् । परि । स्रव ॥ १७ ॥
 पदार्थः—(सः) (नः) अस्माकम् (इन्द्राय) पर-
 मेश्वर्याय (यज्यवे) संगताय (वरुणाय) श्रेष्ठाय (म-
 रुद्भ्यः) मनुष्येभ्यः (वरिवोवित्) परिचरणवेत्ता (परि)
 (स्रव) प्राप्नुहि ॥ १७ ॥

अन्वयः—हे विद्वन्त्सं मरुद्भ्यो न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय वरिवो-
 वित् संस्त्वं परिस्त्रव ॥ १७ ॥

भावार्थः—येन विदुषा यावत्सामर्थ्यं प्राप्येत तेन तावता सर्वेषां सुखं
 वर्द्धनीयम् ॥ १७ ॥

पदार्थः—हे विद्वन् ! (सः) सो (मरुद्भ्यः) मनुष्यां के लिये (नः)
 हनारे (इन्द्राय) परमेश्वर्य की (यज्यवे) संगति और (वरुणाय) श्रेष्ठ
 जन के लिये (वरिवोवित्) सेवा कर्म को जानते हुए आप (परिस्त्रव) मय
 ओर से प्राप्त हुआ करो ॥ १७ ॥

भावार्थः—जिस विद्वान् ने जितना सामर्थ्य प्राप्त किया है उस को चाहिये कि
 उस सामर्थ्य से सब का सुख बढ़ाया करे ॥ १७ ॥

एनेत्यस्य महीयव ऋषिः । विद्वान् देवता ।

स्वराह् गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

ईश्वरः कथमुपास्य इत्याह ॥

ईश्वर की उपासना कैसे करनी चाहिये इम वि० ॥

एना विश्वान्युर्य आ दृश्वानि मानुषाणाम् ।
 सिषासन्तो वनामहे ॥ १८ ॥

एना । विश्वानि । अर्यः । आद्युम्नानि । मानुषाणाम् ।
सिषासन्तः । सिषासन्तुऽइति सिषाऽसन्तः । वना-
महे ॥ १८ ॥

पदार्थः—(एना) एनानि (विश्वानि) सर्वाणि (अर्यः)
ईश्वरः (आ) (द्युम्नानि) प्रदीप्तानि यशांसि (मानुषाणाम्)
मनुष्याणाम् (सिषासन्तः) सेवितुमिच्छन्तः (वनामहे)
याचामहे ॥ १८ ॥

अन्वयः—योग्यो मानुषाणामेना विश्वानि द्युम्नानि शास्ति तं सिषासन्तो
वयं सुखान्यावनामहे ॥ १८ ॥

भावार्थः—येनेस्वरेण मनुष्याणां सुखाय धनानि वेदा भोज्यादीनि वस्तूनि
चोत्पादितानि तस्यैवोपासना सर्वैर्मनुष्यैः सदा कर्तव्या ॥ १८ ॥

पदार्थः—जो (अर्यः) ईश्वर (मानुषाणाम्) मनुष्यों की (एना) इन
(विश्वानि) सब (द्युम्नानि) शोभायमान कीर्तियों की शिक्षा करता है उस
की (सिषासन्तः) सेवा करने की इच्छा करते हुए हम लोग (आ, वनामहे)
सुखों को मांगते हैं ॥ १८ ॥

भावार्थः—जिस ईश्वर ने मनुष्यों के सुख के लिये धनों, वेदों और खाने
पीने योग्य वस्तुओं को उत्पन्न किया है उसी की उपासना सब मनुष्यों को
सदा करनी चाहिये ॥ १८ ॥

अनुवीरैरित्यस्य मुद्गल ऋषिः । त्रिद्वान्मो देवताः ।

त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनर्मनुष्यैः किं कर्तव्यमित्याह ॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस वि० ॥

अनु वीरैरनु पुष्यास्म गोभिरन्वश्वैरनु सर्वै-
ण पुष्टैः । अनु द्विपदानु चतुष्पदा वयन्देवा नो
यज्ञमृतुथा नयन्तु ॥ १९ ॥

अनु । वीरैः । अनु । पुष्यास्म । गोभिः । अनु ।
 अश्वैः । अनु । सर्वेणा । पुष्टैः । अनु । द्विपदेति द्वि-
 ऽपदा । अनु । चतुष्पदा । चतुःपदेति चतुःऽपदा । वयम् ।
 देवाः । नः । यज्ञम् । ऋतुथेत्यंतुऽथा । नयन्तु ॥१९॥
 पदार्थः—(अनु) (वीरैः) प्रशस्तवलैः (अनु) (पुष्या-
 स्म) पुष्टा भवेम (गोभिः) धेनुभिः (अनु) (अश्वैः)
 (अनु) (सर्वेण) (पुष्टैः) (अनु) (द्विपदा) मनुष्यादिना (अनु)
 (चतुष्पदा) गवादिना (वयम्) (देवाः) विद्वांसः (नः)
 अस्माकम् (यज्ञम्) धर्म्यव्यवहारम् (ऋतुथा) ऋतुभिः
 (नयन्तु प्रापयन्तु ॥१९॥

अन्वयः—हे विद्वांसो यथा वयं पुष्टैर्वीरेणु पुष्यास्म पुष्टैर्गोभिः नुपु
 ष्याम पुष्टैरश्वैरेणुपुष्याम सर्वेणानु पुष्याम द्विपदाऽनुपुष्याम चतुष्पदानु
 पुष्याम तथा देवा नो यज्ञमृतुथा नयन्तु ॥ १९ ॥

भावार्थः—मनुष्यैर्वीरपुरुषान् पशून् सम्प्रीप्यानुषीयणीयम् । सदा
 ऋत्वनुकूलो व्यवहारः कर्तव्यश्च ॥ १९ ॥

पदार्थः—हे विद्वांन् लोगो ! जैसे (वयम्) हम लोग (पुष्टैः) पुष्ट (वीरैः)
 प्रशस्त बल वाले वीरपुरुषों की (अनु, पुष्यास्म) पुष्टि से पुरे हों । बलवती
 (गोभिः) गौओं की पुष्टि से (अनु) पुष्ट हों । बलवान् (अश्वैः) घोड़े आदि की
 पुष्टि से (अनु) पुष्ट हों (सर्वेण) सब की पुष्टि से (अनु) पुष्ट हों (द्विपदा)
 दो पग वाले मनुष्य आदि प्राणियों की पुष्टि से (अनु) पुष्ट हों और (च-
 तुष्पदा) चार पग वाले गौ आदि की (अनु) पुष्टि से पुष्ट हों वैसे (देवाः)
 विद्वांन् लोग (नः) हमारे (यज्ञम्) धर्मयुक्त व्यवहार को (ऋतुथा) ऋतुओं
 से (नयन्तु) प्राप्त करें ॥ १९ ॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि वीरपुरुषों और पशुओं को अच्छे प्रकार पुष्ट करके पश्चात् आप पुष्ट हों । और सदा वसन्तादि ऋतुओं के अनुकूल व्यवहार किया करें ॥ १६ ॥

अग्न इह्यस्य मेधातिथिऋषिः । विद्वान् देवता ।

गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

कथमपत्यानि प्रशस्तानि स्यु रित्याह ॥

सन्तान कैसे उत्तम हों इस वि० ॥

**अग्ने पत्नीरिहा वह देवानामुशतीरुप । त्व-
ष्टारम् सोमपीतये ॥ २० ॥**

अग्ने । पत्नीः । इह । आ । वह । देवानाम् । उ-
शतीः । उप । त्वष्टारम् । सोमपीतय इति सोमऽ
पीतये ॥ २० ॥

पदार्थः— (अग्ने) अध्यापकाऽध्यापिके वा (पत्नीः)
(इह) (आ) (वह) प्रापय (देवानाम्) विदुषाम्
(उशतीः) कामयमानाः (उप) (त्वष्टारम्) देदीप्यमा-
नम् (सोमपीतये) सोमस्य पानाय ॥ २० ॥

अन्वयः—हे अग्ने त्वमिह स्वसदृशान् पतीरुशतीर्देवानां पत्नीः सोम-
पीतये त्वष्टारमुपा वह ॥ २० ॥

भावार्थः—यदि मनुष्याः कन्याः सुशिक्ष्य विदुषीः कृत्वा स्वयंचतान्
हृद्यान् पतीन् प्रापय प्रेम्णा सन्तानानुत्पादयेयुस्तर्हि तान्यपत्यान्वतीव
प्रशंसितानि भवन्ति ॥ २० ॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अध्यापक वा अध्यापिके ! तू (इह) इस गृहाग्रम
में अपने तुल्य गुण वाले पतियों वा (उशतीः) कामनायुक्त (देवानाम्)

विद्वान् की (पत्नीः) स्त्रियों को और (सोनपीतये) उत्तम ओषधियों के रस को पीने के लिये (त्वष्टारम्) तेजस्वी पुरुष को (उप, आ, वह) अच्छे प्रकार समीप प्राप्त कर वा करें ॥ २० ॥

भावार्थः—जो मनुष्य कन्याओं को अच्छी शिक्षा दे विदुषी बना और मद्यंवर से प्रिय पतियों को प्राप्त करा के प्रेम से सन्तानों को उत्पन्न करावे तो वे सन्तान अत्यन्तप्रशंसित होते हैं ॥ २० ॥

अभीत्यस्य मेधातिथिर्हपिः । विद्वान् देवता ।

गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

के विद्वांसो भवेयुरित्याह ॥

कौन विद्वान् हों इस वि० ॥

अभि यज्ञं गृणीहि नो ग्नावो नेष्टुः पिवं
ऋतुना । त्वश्चि रत्नधा असि ॥ २१ ॥

अभि । यज्ञम् । गृणीहि । नः । ग्नावः । नेष्टुरि-
ति नेष्टुः । पिवं । ऋतुना । त्वम् । हि । रत्नधा इति
रत्नधाः । असि ॥ २१ ॥

पदार्थः—(अभि) आभिमुख्ये (यज्ञम्) प्रशस्तव्यवहा-
रम् (गृणीहि) ऋतुहि (नः) अस्माकम् (ग्नावः) प्रश-
स्तवाग्निम् । ग्नेति वाङ्ना० निघं० १। ११ । (नेष्टुः) नेतः
(पिव) (ऋतुना) वसन्ताद्येन सह (त्वम्) (हि)
(रत्नधाः) रमणीयवस्तुधर्ता (असि) ॥ २१ ॥

अन्वयः—हे ग्नावो नेष्टुस्त्वऋतुना सह नो यज्ञमभि गृणीहि यतस्त्वं
हि रत्नधा असि तस्मात्सदोषधिरसान् पिव ॥ २० ॥

भावार्थः— ये सुशिक्षिताया वाचः सङ्गतं व्यवहारं ज्ञातुमिच्छेयुस्ते विद्वांसो भवेयुः ॥ २१ ॥

पदार्थः— हे (ग्रावः) प्रशस्त वाणी वाले (नेष्टः) नायक जन आप (ऋतुना) वसन्त आदि ऋतु के साथ (नः) हमारे (यज्ञम्) उत्तम व्यवहार की (अभि, गृणीहि) सन्मुख स्तुति कीजिये जिस कारण (त्वं, हि) तुम ही (रक्षधाः) प्रसन्नता के हेतु वस्तु के धारण कर्ता (असि) हो इससे उत्तम औपधियों के रसों को (पिव) पी ॥ २१ ॥

भावार्थः— जो अच्छी शिक्षा को प्राप्त वाणी के संगत व्यवहार को जानने की इच्छा करें वे विद्वान् हों ॥ २१ ॥

द्रविणोदा इत्यस्य मेधातिथिर्ऋषिः । सोमो देवता ।

गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

पुनर्विं द्विर्निर्मुष्यैः किं कार्यामित्याह ॥

फिर विद्वान् मनुष्यों को क्या चाहिये इस वि० ॥

द्रविणोदाः पिपीषति जुहोत प्र च तिष्ठत ।
नेष्ट्राद्ऋतुभिरिष्यत ॥ २२ ॥

द्रविणोदाइति द्रविणःऽदाः । पिपीषति । जुहोत । प्र
च । तिष्ठत । नेष्ट्रात् । ऋतुभिरित्यूतुऽभिः । इष्यत ॥ २२ ॥

पदार्थः— (द्रविणोदाः) यो द्रविणो धनं यशो वा द-
दाति सः (पिपीषति) पातुमिच्छति (जुहोत) (प्र, च)
(तिष्ठत) प्रतिष्ठां लभध्वम् (नेष्ट्रात्) विनयात् (ऋतुभिः)
वसन्तादिभिः सह (इष्यत) प्राप्नुत ॥ २२ ॥

अन्वयः— हे मनुष्या यथा द्रविणोदा ऋतुभिः सह नेष्ट्राद्रसं पिपीषति
तथा यूयं रसमिष्यत जुहोत प्रतिष्ठत ॥ २२ ॥

भावार्थः— अत्र वाचकलु०—हे विद्वांसो मनुष्या यथा सद्द्वैद्याः पथ्येनो-
त्तमविद्यया स्वयमरोगाः सन्तोऽन्यान् रोगात्पृथक्कृत्यप्रशंसां लभन्ते तथैव
युस्माभिरप्याचरणीयम् । २२ ॥

पदार्थः— हे मनुष्यो ! जैसे (द्रविणोदाः) धन वा दश का देने वाला
जन (ऋतुभिः) वसन्तादि ऋतुओं के साथ (नेष्ट्रात्) विनय से रसको
(पिपीषति) पिया चाहता है वैसे तुम लोग रस को (इष्यत) प्राप्त होओ
(जुहोत) ग्रहण वा हवन करो (च) और (प्र, तिष्ठत) प्रतिष्ठा को प्राप्त
होओ ॥ २२ ॥

भावार्थः— इस मन्त्र में वाचकलु०—हे विद्वान् जैसे उत्तम वैद्य सुन्दर पथ्य भोजन और उत्तम
विद्या से आप रोगरहित हुए दूसरों को रोगों से पृथक् करके प्रशंसा को प्राप्त होते हैं
वैसे ही तुम लोगों को भी आचरण करना अवश्य चाहिये ॥ २२ ॥

तवायमित्यस्य मेधातिथिर्ऋषिः । विद्वान् देवता ।

भारिक् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

तवायं सोमस्त्वमेह्यर्वाङ् शश्वत्तमसुमना अस्य
पाहि । अस्मिन्यज्ञे बर्हिष्यानिषद्यां दधिष्वेमंज-
ठरऽइन्दुमिन्द्र ॥ २३ ॥

तव । अयम् । सोमः । त्वम् । आ । इहि । अर्वाङ् ।
शश्वत्तममिति शश्वत्ऽतमम् । सुमनाइति सुऽमनाः ।

अस्य । पाहि । अस्मिन् । यज्ञे । बर्हिषि । आ ।
निषद्य । निसद्येति निऽसद्य । दधिष्व । इमम् । जठरे ।
इन्दुम् । इन्द्र ॥ २३ ॥

पदार्थः— (तव) (अयम्) (सोमः) ऐश्वर्ययोगः
(त्वम्) (आ, इहि) समन्तात्प्राप्नुहि (अर्वाङ्) आ-
भिमुख्यं प्राप्तः (शश्वत्तमम्) अतिशयेन शश्वदनादिभू-
तम् (सुमनाः) धर्मकार्ये प्रसन्नमनाः (अस्य) (पाहि)
(अस्मिन्) (यज्ञे) संगन्तव्ये (बर्हिषि) उत्तमे सा-
धुनि (आ) (निषद्य) नितरां स्थित्वा । अत्र संहिता-
यामिति दीर्घः । (दधिष्व) धर (इमम्) (जठरे) उ-
दराग्नौ (इन्दुम्) रोगहरौषधिरसम् (इन्द्र) परमैश्वर्य-
मिच्छो ॥ २३ ॥

अन्वयः— हे इन्द्र विद्वन्व्यस्तवायं सोमोऽस्ति तं त्वमेहि सुमना अर्वाङ् स-
क्षस्य शश्वत्तमं पाहि । अस्मिन्बर्हिषि यज्ञे निषद्य जठर इममिन्दुं चा दधिष्व ॥ २३ ॥

भावार्थः— विद्वांसः सर्वैः सहाभिमुख्यं प्राप्य प्रसन्नमनसः सन्तः सनातनं
धर्मं विज्ञानञ्चोपदिशेयुः पथ्यमन्नादि सेवन् सदैव पुरुषार्थे प्रयतेरँश्च ॥ २३ ॥

पदार्थः— हे (इन्द्र) परम ऐश्वर्य की इच्छा वाले विद्वन् । जो (तव)
आप का (अयम्) यह (सोमः) ऐश्वर्य का योग है उस को (त्वम्) आप
(आ, इहि) अच्छे प्रकार प्राप्त कीजिये (सुमनाः) धर्म कार्यों में प्रसन्न चित्त
(अर्वाङ्) सम्मुख प्राप्त हुए (अस्य) इस अपने आत्मा के (शश्वत्तमम्)
अधिकतर अनादि धर्म की (रक्षा) पाहि कीजिये (अस्मिन्) इस (बर्हिषि)
उत्तम (यज्ञे) प्राप्त होने योग्य व्यवहार में (निषद्य) निरन्तर स्थित हो के

(जठरे) जाठराग्नि में (इमम्) इस प्रसन्न (इन्दुम्) रोगनाशक ओषधियों के रस को (आ, दधिष्व) अच्छे प्रकार धारण कीजिये ॥ २३ ॥

भावार्थः— विद्वान् लोग सब के साथ सदा सन्मुखता को प्राप्त होके प्रसन्न चित्त हुए सनातन धर्म तथा विज्ञान का उपदेश किया करें, पथ्य अन्न आदि का भोजन करें और सदा पुरुषार्थ में प्रवृत्त रहें ॥ २३ ॥

अमेवेत्यस्य गृत्समद ऋषिः । विद्वान् देवता ।

जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

अमेव नः सुहवा आ हि गन्तान् नि बर्हिषि
सदतना रणिष्टन । अथा मदस्व जुजुषाणां
अन्धसस्त्वष्ट्रदेवेभिर्जनिभिः सुमद्गणः ॥ २४ ॥

अमेवेत्यमाऽइव । नः । सुहवाऽइति सुहवाः । आ ।
हि । गन्तान् । नि । बर्हिषि । सदतन । रणिष्टन । अथ ।
मदस्व । जुजुषाणः । अन्धसः । त्वष्ट्रः । देवेभिः । जनि-
भिरिति जनिभिः । सुमद्गणा इति सुमत्गणः ॥ २४ ॥

पदार्थः— (अमेव) उत्तमं गृहमिव (नः) अस्मान्
(सुहवाः) शोभनाह्वानाः (आ) (हि) किल (गन्तान्)
गच्छत (नि) नितराम् (बर्हिषि) उत्तमे व्यवहारे
(सदतन) सीदत (रणिष्टन) वदत (अथ) अनन्त-
रम् । अत्र निपातस्य चेति दीर्घः (मदस्व) आनन्द
(जुजुषाणाः) प्रसन्नः सेवमानः (अन्धसः) अन्नादे-
र्मध्ये (त्वष्ट्रः) देदीप्यमानः (देवेभिः) दिव्यगुणैः (ज-
निभिः) जन्मभिः (सुमद्गणाः) सुहर्षगणः ॥ २४ ॥

अन्वयः— हे त्वष्टी जुजुषाणः सुमद्गण संस्तवां देवेभिर्जनिभिः सहाऽ-
न्धसो मदस्वाथाऽमेवान्याजानन्दय । हे विद्वांसः सुहवा यूयममेव ब्रह्मिणि
न आ गन्तन । अत्र हि निपदतन रणिष्टन च ॥ २४ ॥

भावार्थः— अत्रोपमालं०—ये स्वयमुत्तमे व्यवहारे स्थित्वाऽन्यान् स्थाप-
येयुस्ते सदाऽऽनन्देयुः । स्त्रीपुरुषाः प्रीत्या संयुज्य यान्यपत्यानि जनयेयुस्तानि
दिव्यगुणानि जायन्ते ॥ २४ ॥

पदार्थः— हे (त्वष्टः) तेजस्वि विद्वन् । (जुजुषाणः) प्रसन्नचित्त गुरु
आदि की सेवा करते हुए (सुमद्गणः) सुन्दर प्रसन्न मण्डली वाले आप
(देवेभिः) उत्तम गुण (जनिभिः) जन्मों के साथ (अन्धसः) अन्नादि
उत्तम पदार्थों की प्राप्ति में (मदस्व ; आनन्दित हूजिये (अथ) इस के
अनन्तर (अमेव) उत्तम घर के तुल्य औरों को आनन्दित कीजिये । हे
विद्वान् लोगो ! (सुहवाः) सुन्दर प्रकार बुलाने हारे तुम लोग उत्तम घर
के समान (ब्रह्मिणिः) उत्तम व्यवहार में (नः) हमको (आ, गन्तन)
अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये । इस स्थान में (हि) निश्चित होकर (निः^१सद-
तन) निरन्तर बैठिये और (रणिष्टन) अच्छा उपदेश कीजिये ॥ २४ ॥

भावार्थः— इस मन्त्र में उपमालं०—जो आप उत्तम व्यवहार में स्थित हो के
औरों को स्थित करें वे सदा आनन्दित हों । स्त्री पुरुष उत्कण्ठापूर्वक संयोग करके
जिन सन्तानों को उत्पन्न करें वे उत्तम गुण वाले होते हैं ॥ २४ ॥

स्वादिष्टयेत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । सोमो देवता ।

मिष्ट्रायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

स्वादिष्टया मदिष्टया पवंस्व सोम धारया ।
इन्द्राय पातवे सुतः ॥ २५ ॥

स्वादिष्टया । मदिष्टया । पवस्व । सोम । धार-
या । इन्द्राय । पातवे । सुतः ॥ २५ ॥

पदार्थः—(स्वादिष्टया) अतिशयेन स्वादुयुक्तया (म-
दिष्टया) अतिशयेनानन्दप्रदया (पवस्व) पवित्रो भव
(सोम) ऐश्वर्ययुक्त (धारया) धारणकर्त्र्या (इन्द्राय)
ऐश्वर्याय (पातवे) पातुं रक्षितुम् (सुतः) निष्पादितः ॥ २५ ॥

अन्वयः—हे सोम विद्वंस्त्वं य इन्द्राय पातवे सुतोऽस्ति तस्य स्वादिष्टया म-
दिष्टया धारया पवस्व ॥ २५ ॥

भावार्थः—ये विद्वंसो मनुष्याः सर्वरोगप्रणाशकमानन्दमदमोषधिरसं
पत्वा शरीरात्मानौ पवित्रयन्ति ते धनाढ्या जायन्ते ॥ २५ ॥

पदार्थः—हे (सोम) ऐश्वर्ययुक्त विद्वन् ! आप जो (इन्द्राय) संपत्ति की
(पातवे) रक्षा करने के लिये (सुतः) निकाला हुआ उत्तम रस है उस की
(स्वादिष्टया) अतिस्वादयुक्त (मदिष्टया) अतिआनन्द देने वाली (धारया)
धारण करने वाली क्रिया से (पवस्व) पवित्र हूजिये ॥ २५ ॥

आद्यार्थः—जो विद्वान् मनुष्य सब रोगों के नाशक आनन्द देने वाले ओषधियों
के रस को पी के अपने शरीर और आत्मा को पवित्र करते हैं वे धनाढ्य होते हैं ॥ २५ ॥

रक्षोहेत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । अग्निर्देवता ।

गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

रक्षोहा विश्वचर्षणिभ्यो योनिमपाहते । द्रो-
णो मधस्थमासदत् ॥ २६ ॥

रक्षोहेति रक्षःऽहा । विश्वर्चर्षणिरिति विश्वऽर्चर्षणिः
अभि । योनिम् । अपःऽहते । द्रोणे । सधस्थमिति सध-
ऽस्थम् । आ । असदत् ॥ २६ ॥

पदार्थः—(रक्षोहा) यो रक्षांसि दुष्टान् प्राणिनो हन्ति
सः (विश्वर्चर्षणिः) विश्वस्योऽखिलस्य प्रकाशकः (अभि)
अभितः (योनिम्) गृहम् (अपोहते) अपसा सुवर्णेन प्राप्ते ।
आप इति हिरण्यना० निघ० १।२। (द्रोणे) पात्रविशेषे
(सधस्थम्) समानस्थानम् (आ) (असदत्) तिष्ठेत् ॥ २६ ॥

अन्वयः—यो रक्षोहा विश्वर्चर्षणिविहानपोहते द्रोणे सधस्थं योनिमभ्या-
सदत्स सर्वं सुखमाप्नुयात् ॥ २६ ॥

भावार्थः—येऽविद्याहन्तारो विद्याप्रकाशकाः सर्वसुखकरेषु सुवर्णादियुक्तेषु
गृहेषु स्थित्वा विचारं कुर्युस्ते सुखिनो जायन्त इति ॥ २६ ॥

अस्मिन्नध्याये पुरुषार्थफलवर्णनं सर्वेषां मनुष्याणां वेदपठनश्रवणाधिकाराः
परमेश्वरविद्वत्सत्यनिरूपणमग्न्यादिपदार्थकथनं यज्ञवर्णनं सुन्दरगृहनिर्माणमुत्तम-
स्थाने स्थितिश्चोक्ताऽत एतदर्थस्य पूर्वाध्यायोक्तार्थेन सह संगतिरस्तीति वेद्यम् ॥

पदार्थः—जो (रक्षोहा) दुष्टप्राणियों को मारने हारा (विश्वर्चर्षणिः) सब
संसार का प्रकाशक विद्वान् (अपोहते) सुवर्ण से प्राप्त हुए (द्रोणे) बीस सेर
अन्न रखने के पात्र में (सधस्थम्) समान स्थिति वाले (योनिम्) घर में (अ-
भि, आ, असदत्) अच्छे प्रकार स्थित होवे वह संपूर्ण सुख को प्राप्त
होवे ॥ २६ ॥

भावार्थः—जो अविद्या अज्ञान के नाशक विज्ञान के प्रकाशक सब ऋतुओं में सुखकारी सुवर्ण आदि से युक्त घरों में बैठ के विचार करें वे सुखी होते हैं ॥ २६ ॥

इम अध्याय में पुरुषार्थ के फल, सब मनुष्यों को वेद पढ़ने सुनने का अधिकार, परमेश्वर, विद्वान् और सत्य का निरूपण, अन्यादि पदार्थ, यज्ञ, सुन्दर घरों का बनाना और उत्तम स्थान में स्थिति आदि कही हैं इस से इम अध्याय के अर्थ की पूर्व अध्याय में कहे अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां श्रीपरमविट्ठुपां विरजा-

नन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण श्रीमत्परमहंसपरिव्राजका

चार्येण श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिने संस्कृ-

तार्यभाषाभ्यां समन्विते सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वेदभाष्ये

षाड्विंशोऽध्यायः पूर्तिमगात् ॥ २६ ॥

ओ३म्

अथ सप्तविंशोऽध्याय आरभ्यते ॥

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव ।
यद्भद्रं तन्न आ सुव ॥

समा इत्यस्याग्निऋषिः । अग्निर्देवता । त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अथाहुः कथमाचरणीयमित्याह ॥

अब सप्ताहसर्वे अध्याय का आरम्भ है इस के प्रथम मन्त्र में
आप्तों को कैसा आचरण करना चाहिये इस वि० ॥

समास्त्वांऽग्ने ऋतवो वर्द्धयन्तु संवत्सराऽ-
ऋषयो यानि सत्या । सं दिव्येन दीदिहिरोच-
नेन विश्वा आ भाहि प्रदिशश्चतस्रः ॥ १ ॥

समाः । त्वा । अग्ने । ऋतवः । वर्द्धयन्तु । संवत्स-
राः । ऋषयः । यानि । सत्या । सम् । दिव्येन । दी-
दिहि । रोचनेन । विश्वाः । आ । भाहि । प्रदिश इ-
ति प्रदिशः । चतस्रः ॥ १ ॥

पदार्थः—(समाः) वर्षाणि (त्वा) त्वाम् (अग्ने)
विद्वन् (ऋतवः) शरदादयः (वर्द्धयन्तु) (संवत्सराः)
(ऋषयः) मंत्रार्थविदः (यानि) (सत्या) सत्सु साधू-

नि त्रैकाल्यावाध्यानि कर्माणि (सम्) (दिव्येन) अ-
तिशुद्धेन (दीदिहि) कामय (रोचनेन) प्रदीपनेन (वि-
श्वाः) अखिलाः (आ) समन्तात् (भाहि) प्रकाशय
(प्रदिशः) प्रकृष्टगुणयुक्ता दिशः (चतस्रः) एतत्संख्या-
प्रमिताः ॥ १ ॥

अन्वयः—हे अग्ने ! समा ऋतवः संवत्सरा ऋषयो यानि सत्या सन्ति
ते त्वा वर्द्धयन्तु । यथाऽग्निर्दिव्येन रोचनेन विश्वाश्चतस्रः प्रदिशः प्रकाश-
यति तथा विद्यां संदीदिहि । न्याय्यं धर्ममा भाहि ॥ १ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—आप्तैः सर्वदा सत्या विद्याः कर्माणि शोपदि-
श्य सर्वेषां शरीरिणामारोग्यपुष्टीर्विद्या सुशीले च वर्द्धनीये । यथा सूर्यः स्व-
संनिहिताग्रप्रकाशयति तथा सर्वे मनुष्याः सुशिक्षया सदैवानन्दयितव्याः ॥१॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वन् ! (समाः) वर्ष (ऋतवः) शरद् आदि ऋतु
(संवत्सराः) प्रभवादि संवत्सर (ऋषयः) संज्ञों के अर्थ जानने वाले विद्वा-
न् और (यानि) जो (सत्या) सत्य कर्म हैं वे (त्वा) आप को (वर्द्धय-
न्तु) बढ़ावें । जैसे अग्नि (दिव्येन) शुद्ध (रोचनेन) प्रकाश से (विश्वा)
सब (प्रदिशः) उत्तमगुणयुक्त (चतस्रः) चार दिशाओं को प्रकाशित करता
है वैसे विद्या की (सं, दीदिहि) सुन्दर प्रकार कामना कीजिये और श्या-
ययुक्त धर्म का (आ, भाहि) अच्छे प्रकार प्रकाश कीजिये ॥ १ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—आप्तपुरुषों को चाहिये कि सब काल में सत्य
विद्या और उत्तम कामों का उपदेश करके सब शरीरधारियों के आरोग्य, पुष्टि, विद्या
और सुशीलता को बढ़ावें जैसे सूर्य अपने सन्मुख के पदार्थों को प्रकाशित करता है वैसे
सब मनुष्यों को शिक्षा से सदैव आनन्दित किया करें ॥ १ ॥

संचेत्यस्यापिर्त्तृषिः । सामिधेन्यो देवताः ।

त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

विद्वांसएवोत्तमाधिकारे योजनीया इत्याह ॥

विद्धानों को ही उत्तम अधिकार पर नियुक्त करना चाहिये इस वि० ॥

सं च्चध्यस्वाग्ने प्र च्च बोधयै नमुच्चं तिष्ठ महते
सौभगाय । मा च्च रिषदुपसत्ता ते अग्ने ब्रह्मा-
गास्ते यशसः सन्तु माऽन्ये ॥ २ ॥

सम् । च्च । इध्यस्त्रं । अग्ने । प्र । च्च । बोधय । एनम् ।
उत् । च्च । तिष्ठ । महते । सौभगाय । मा । च्च । रि-
पत् । उपसत्तेत्युपऽसत्ता । ते । अग्ने । ब्रह्माणः । ते ।
यशसः । सन्तु । मा । अन्ये ॥ २ ॥

पदार्थः—(सम्) सम्यक् (च्च) (इध्यस्व) प्रदीप्तो भव(अग्ने)
अग्निवद्धर्त्तमान (प्र) (च्च) (बोधय) (एनम्) जिज्ञासुम्
(उत्) (च्च) (तिष्ठ) (महते) (सौभगाय) शोभनस्य भगस्यै-
श्वर्यस्य भावाय (मा) (च्च) (रिषत्) हिंस्यात् (उपसत्ता)
य उपसीदति सः (ते) तव (अग्ने) (ब्रह्माणः) चतुर्बेदविदः
(ते) (यशसः) कीर्त्तः (सन्तु) (मा) निषेधे (अन्ये) ॥ २ ॥

अन्वयः—हे अग्ने त्वं समिध्यस्वैनं प्रबोधय च महते सौभगाय चोत्तिष्ठ । उप-
सत्ता भवान् सौभगं मा रिषत् । हे अग्ने ते ब्रह्माणोऽन्ये च मा सन्तु ते यशस
उन्नतिं च मा रिषत् ॥ २ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—ये विद्वद्भ्यो भिन्नाञ्जनानुत्तमाऽधिकारे न योजयन्ति सदोन्नतये प्रयतन्तेऽन्यायेन कंचिन्न हिंसन्ति च ते कीर्तिंश्वर्य-युक्ता भवन्ति ॥ २ ॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वी विद्वन् आप (सम्, इध्य-स्व) अच्छे प्रकार प्रकाशित हूजिये (च) और (एनम्) इस जिज्ञासु जनको (प्रबोधय) अच्छा बोध कराइये (च) और (महते) बड़े (सौभगाय) सौ-भोग्य होने के लिये (उत्, तिष्ठ) उद्यत हूजिये तथा (उपसत्ता) समीप बैठने वाले आप सौभाग्य को (मा रिषत) मत विगाड़िये । हे (अग्ने) तेजस्वि जन ! (ते) आप के (ब्रह्माणः) चारों वेद के जानने वाले (अन्ये) भिन्न बुद्धि वाले (च) भी (मा, सन्तु) न हो जावें (च) और (ते) आप अपने (यशंसः) यश कीर्ति की उन्नति को न विगाड़िये ॥ २ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो विद्वानों से भिन्न इतर जनों को उत्तम अधिकार में नहीं युक्त करते सदा उन्नति के लिये प्रयत्न करते और अन्याय से किसी को नहीं मारते हैं वे कीर्ति और ऐश्वर्य से युक्त हो जाते हैं ॥ २ ॥

त्वामित्यस्याग्निर्ऋषिः । अग्निर्देवता ।

विराट् त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

जिज्ञासुभिः किं कर्तव्यमित्याह ॥

जिज्ञासु लोगों को क्या करना चाहिये इस वि०॥

त्वामग्ने वृणते ब्राह्मणा इमे शिवो अग्ने
सुवरणे भवा नः । सपत्नहा नो अभिमातिजि-
च्च स्वे गये जागृह्यप्रयुच्छन् ॥ ३ ॥

त्वाम् । अग्ने । वृणते । ब्राह्मणाः । इमे । शिवः ।
अग्ने । संवरण इति संवरणे । भव । नः । सपत्नहेति ।
सपत्नऽहा । नः । अभिमातिजिदित्यभिमातिऽजित् ।
च । स्वे । गये । जागृहि । अप्रयुच्छन्नित्यप्रऽयुच्छन् ॥ ३ ॥

पदार्थः—(त्वाम्) (अग्ने) विद्वन् (वृणते) स्वी-
कुर्वन्ति (ब्राह्मणाः) ब्रह्मविदः (इमे) (शिवः) मं-
ङ्गलकारी (अग्ने) पावकवत् प्रकाशमान (संवरणे)
सम्यक् स्वीकरणे (भव) अत्र द्व्यचोऽतस्तिङ् इति
दीर्घः (नः) अस्माकम् (सपत्नहा) शत्रुदोषहन्ता (नः)
अस्मान् (अभिमातिजित्) अभिमानजित् (च) (स्वे)
स्वकीये (गये) गृहे (जागृहि) (अप्रयुच्छन्) प्रमाद-
मकुर्वन् ॥ ३ ॥

अन्वयः—हे अग्ने पावकवद्वर्त्तमान य इमे ब्राह्मणास्त्वां वृणते तान् प्रति
त्वं संवरणे शिवो भव नोऽस्माकं सपत्नाहा भव । हे अग्नेऽप्रयुच्छन्नभिमातिजि-
च्च त्वं स्वे गये जागृहि नोऽस्माँश्च जागृतान्कुरु ॥ ३ ॥

भावार्थः—यथा विद्वांसो ब्रह्म स्वीकृत्य मङ्गलमाप्नुवन्ति दोषान् धनन्ति
तथा जिज्ञासवो ब्रह्मविदः प्राप्य मङ्गलाचरणाः सन्तः कुशीलतां धनन्तर्बालस्यं
विहाय विद्यामुन्नयन्तु च ॥ ३ ॥

पदार्थः—हे (अग्ने) तेजस्वि विद्वन् ! आग्नि के समान वर्त्तमान जो (इमे) ये
(ब्राह्मणाः) ब्रह्मवेत्ता जन (त्वाम्) आप को (वृणते) स्वीकार करते हैं

उन के प्रति आप (संवरणे) सम्यक् स्वीकार करने में (शिवः) मङ्गलकारी (भव) हूजिये (नः) हमारे (सपत्नहा) शत्रुओं के दोषों के हनन कर्त्ता हूजिये । हे (अग्ने) अग्निवत् प्रकाशमान ! (अप्रयुच्छन्) प्रमाद नहीं करते हुए (च) और (अभिमातिजित्) अभिमान को जीतने वाले आप (स्वे) अपने (गये) घर में (जागृहि) जागो अर्थात् गृह कार्य करने में निद्रा आलस्यादि को छोड़ो (नः) हम को भी चेतन करो ॥ ३ ॥

भावार्थः—जैसे विद्वान् लोग ब्रह्म को स्वीकार करके आनन्द मङ्गल को प्राप्त होते और दोषों को निर्मूल नष्ट कर देते हैं वैसे जिज्ञासु लोग ब्रह्मवेत्ता विद्वानों को प्राप्त हो के आनन्द मङ्गल का आचरण करते हुए बुरे स्वभावोंके मूल को नष्ट करें और आलस्य को छोड़ के विद्या की उन्नति किया करें ॥ ३ ॥

इहैवेत्यस्याग्निर्ऋषिः । अग्निर्देवता । स्वराद्

त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अथ राजधर्मविषयमाह ॥

अथ राज धर्म विषय अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

इहैवाग्नेऽ अधि धारया रयि मा त्वा निक्र-
न्पूर्वचितो निकारिणः । क्षत्रमग्ने सुयममस्तु तु-
भ्यमुपसत्ता वृद्धतां ते ऽनिष्टतः ॥ ४ ॥

इह । एव । अग्ने । अधि । धारय । रयिम् । मा ।
त्वा । नि । क्रन् । पूर्वचित इति पूर्वऽचितः । निकारिण
इति निऽकारिणः । क्षत्रम् । अग्ने । सुयममिति
सुऽयमम् । अस्तु । तुभ्यम् । उपसत्तेत्युपऽसत्ता । व-
ृद्धताम् । ते । अनिष्टतः । अनिस्तृतइत्यनि ऽस्तृतः ॥४॥

पदार्थः—(इह) अस्मिन्संसारं (एव) (अग्ने)विदु-
 द्ब्रूतं मान (अधि) उपरिभावे (धारय) अत्र संहिता-
 यामिति दीर्घः (रयिम्) श्रियम् (मा) (त्वा) त्वाम्
 (नि) नीचैः (क्रन्) कुर्युः (पूर्वचितः) पूर्वैः प्राप्त-
 विज्ञानादिभिर्वृद्धाः (निकारिणः) नितरां कर्तुं स्वभावाः
 (क्षत्रम्) धनं राज्यं वा (अग्ने) विनयप्रकाशित (सुयमम्)
 सुष्ठु यमा यस्मात्तत् (अस्तु) (तुभ्यम्) (उपसत्ता) उपसीदन्
 (वर्द्धताम्) (ते) तव (अनिष्टृतः) अनुपहिंसितः ॥ ४ ॥

अन्वयः—हे अग्ने त्वमिह रयिं धारय पूर्वचितो निकारिणस्त्वा
 मा नि क्रन् । हे अग्ने ते सुयमं क्षत्रमस्तु येनोपसत्ता सन्ननिष्टृती
 भूत्वैव भवान्नाधिवर्द्धताम् । तुभ्यं क्षत्रं सुखदातुं भवतु ॥ ४ ॥

भात्रार्थः—हे राजन्नेवं विनयं धर्येण पूर्ववृद्धा जनास्त्वां बह्वमन्ये-
 रन् । राज्ये सुनियमान् पवर्त्तय येन स्वयं स्वराज्यं च विधनविगहं भूत्वा
 सर्वतो वर्द्धत भवन्तं सर्वोपरि प्रजा मन्येत च ॥ ४ ॥

पदार्थः—हे (अग्ने) त्रिजुली के समान वर्त्तमान विद्वन् ! आप (इह)
 इस संसार में (रयिम्) लक्ष्मी को (धारय) धारण कीजिये (पूर्वचितः)
 प्रथम प्राप्त किये विज्ञानादि से श्रेष्ठ (निकारिणः) निरन्तर कर्म करने
 के स्वभाव वाले जन (त्वा) आप को (मा, नि, क्रन् नीच गति को प्राप्त
 न करें । हे (अग्ने) विनय से शोभायमान सभापते (ते) आप का
 (सुयमम्) सुन्दर नियम जिस से चले वह (क्षत्रम्) धन वा राज्य (अस्तु)
 होवे जिस से (उपसत्ता) समीप बैठते हुए (अनिष्टृतः) हिंसा वा विधन
 को नहीं प्राप्त हो के (एव) ही आप (अधि, वर्द्धताम्) अधिकता से
 वृद्धि को प्राप्त कीजिये (तुभ्यम्) आप के लिये राज्य वा धन सुख दायी
 होवे ॥ ४ ॥

भावार्थः-हे राजन् ! आप ऐसे उत्तम विनय को धारण कीजिये जिस से प्राचीन वृद्ध जन आप को बड़ा माना करें । राज्य में अच्छे नियमों को प्रवृत्त कीजिये जिस से आप और आप का राज्य विघ्न से रहित हो कर सब ओर से बड़े और पूजा जन आप को सर्वोपरि माना करें ॥ ४ ॥

क्षत्रेणेत्यस्याग्निर्हृदिः । अग्निर्देवता । स्वराट्

पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ।

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उगी वि० ॥

क्षत्रेणाग्ने स्वायुः स्रभस्व मित्रेणाग्ने
मित्रधेये यतस्व । सजातानां मध्यमस्थाणधि
राज्ञामग्ने विहव्ये दीदिहि ॥ ५ ॥

क्षत्रेण । अग्ने । स्वायुरिति सुऽआयुः । सम् । रभस्वा ।
मित्रेण । अग्ने । मित्रधेय इति मित्रऽधेये । यतस्व ।
सजातानामिति सऽजातानाम् । मध्यमस्था इति मध्य-
मऽस्थाः । णधि । राज्ञाम् । अग्ने । विहव्यइति विऽहव्यः ।
दीदिहि । इह ॥ ५ ॥

पदार्थः-(क्षत्रेण) राज्येन धनेन वा (अग्ने) पावक वत्ते-
जस्विन् (स्वायुः) शोभनं चतदायुश्च (सम्) सम्यक् (रभस्व)
आरम्भं कुरु (मित्रेण) धार्मिकैर्विद्वद्भिर्मित्रैः सह (अग्ने) विद्या-
विनयप्रकाशक (मित्रधेये) मित्रैर्धत्तव्ये व्यवहारे (यतस्व)
(सजातानाम्) समानजन्मनाम् (मध्यमस्थाः) मध्ये भवा

मध्यमा पक्षपातरहितास्तेषु तिष्ठतीति (एधि) भव (राज्ञाम्) धार्मिकाणां राजाधिराजानां मध्ये (अग्ने) न्यायप्रकाशक (विहव्यः) विशेषेण स्तुतुं योग्यः (दीदिहि) प्रकाशितो भव (इह) अस्मिन् संसारे राज्याधिकारे वा ॥ ५ ॥

अन्वयः—हे अग्ने ! त्वमिह क्षत्रेण सह स्वायुः संरभस्व । हे अग्ने ! मित्रेण सह मित्रधेये यतस्व । हे अग्ने ! सजातानां राज्ञां मध्ये मध्यमस्था एधि ऋष्यव्यः सन् दीदिहि च ॥ ५ ॥

भावार्थः—राजा सदा ब्रह्मचर्येण दीर्घायुः सत्यधर्मप्रियैरमात्यैः सह मंत्रयिताऽन्यैराजभिः सह सुसन्धिः पक्षपातं विहाय न्यायाधीशः सर्वैः सुलक्षणैर्युक्तः सन् दुष्टव्यसनविरहो भूत्वा धर्मार्थकाममोक्षान् धैर्येण शान्त्याऽप्रमादेन च शनैः शनैः साधयेत् ॥ ५ ॥

पादार्थः— हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वि विद्वन् ! आप (इह) इस जगत् में वा राज्याधिकार में (क्षत्रेण) राज्य वा धन के साथ (स्वायुः) सुन्दर गृहाऽवस्था का (सम्, रभस्व) अच्छे प्रकार आरम्भ कीजिये । हे (अग्ने) विद्या और विनय से शोभायमान राजन् ! (मित्रेण) धर्मात्मा विद्वान् मित्रों के साथ (मित्रधेये) मित्रों से धारण करने योग्य व्यवहार में (यतस्व) प्रयत्न कीजिये । हे (अग्ने) न्यायका प्रकाश करने वाले सभापति ! (सजातानाम्) एक साथ उत्पन्न हुए बराबर की अवस्था वाले (राज्ञाम्) धर्मात्मा राजाधिराजों के बीच (मध्यमस्थाः) मध्यस्थ —वादिप्रतिवादि के साक्षि (एधि) हूजिये और (विहव्यः) विशेष कर स्तुति के योग्य हुए (दीदिहि) प्रकाशित हूजिये ॥ ५ ॥

भावार्थः—सभापति राजा सदा ब्रह्मचर्य से दीर्घायु, सत्य धर्म में प्रीति रखने वाले मंत्रियों के साथ विचारकर्त्ता अन्य राजाओं के साथ अच्छी सन्धि रखने वाला,

पक्षपात को छोड़ न्यायाधीश सब शत्रु लक्षणों से युक्त हुआ दुष्ट व्यसनों से पृथक् हो के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को धीरे-धीरे शान्ति अप्रमाद से धीरे-धीरे सिद्ध करे ॥ ५ ॥

अति निह इत्यस्याग्निर्ऋषिः । अग्निर्देवता ।

भुरिगृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

अति निहो अति सिधोऽत्यचिन्तिमत्यराति-
मग्ने । विश्वा ह्यग्ने दुरिता सहस्वाथाऽस्मभ्यं
सहवीराथ रयिन्दाः ॥ ६ ॥

अति । निहः । अति । सिधः । अति । अचिन्तिम्
अति । अरातिम् । अग्ने । विश्वा । हि । अग्ने ।
दुरितेति दुःऽइता । सहस्व । अथ । अस्मभ्यम् ।
सहवीरामिति सहऽवीराम् । रयिम् । दाः ॥ ६ ॥

पदार्थः—(अति) अतिशयेन (निहः) योऽसत्यं नि-
तरां जहाति सः (अति) (सिधः) दुष्टाचारान् (अति)
अतिक्रम्य (अचिन्तिम्) अज्ञानम् (अति) (अरातिम्)
अदानम् (अग्ने) तेजस्विन्सभापते (विश्वा) सर्वाणि
(हि) खलु (अग्ने) दृढविद् (दुरिता) दुष्टाचरणानि
(सहस्व) (अथ) (अस्मभ्यम्) (सहवीराम्) वीरैः
सह वर्तमानां सेनाम् (रयिम्) धनम् (दाः) दद्याः ॥६॥

अन्वयः—हे अग्ने! त्वमति निहः सन् स्त्रिधोऽति सहस्वाचिचित्तमत्यरातिं सहस्र । हे अग्ने त्वं हि विश्वा दुरिताऽतिसहस्वाऽथाऽस्मभ्यंसहवीरां रथिं च दाः ॥ ६ ॥

भावार्थः—ये दुष्टाचारत्याग्निनेः कुत्सितानां निरोधका अज्ञानमदानं च पृथक् कुर्वाणा दुर्व्यसनेभ्यः पृथग्भूताः सुखदुःखयोः सौदारो वीरसेनाप्रिया यथागुणानां जनानां योग्यां सत्कारं कुर्वन्तः सन्तो न्यायेन राज्यं पालयेयुस्ते सदा सुखिनो भवेयुरिति ॥ ६ ॥

पदार्थः—हे (अग्ने) तेजस्वि सभापते! आप (अति, निहः) निश्चय करके असत्य को छोड़ने वाले होते हुए (स्त्रिधः) दुष्टाचारियों को (अति, सहस्व) अधिक सहन कीजिये (अचित्तिम्) अज्ञान का (अति) अतिक्रमण कर (अरातिम्) दान के निषेध को सहन कीजिये। (हे अग्ने! दृढ विद्या वाले तेजस्वि विद्वन्! आप (हि) ही (विश्वा) सब (दुरिता) दुष्ट आचरणों का (अति) अधिक सहन कीजिये (अथ) इस के पश्चात् (अस्मभ्यम्) हमारे लिये (सहवीराम्) वीरपुरुषों से युक्त सेना और (रथिम्) धन को (दाः) दीजिये ॥ ६ ॥

भावार्थः—जो दुष्ट आचारों के त्यागी कुत्सित जनों के रोकने वाले अज्ञान तथा अदान को पृथक् करते और दुर्व्यसनों से पृथक् हुए, सुख दुःख के सहने और वीरपुरुषों की सेना से प्रीति करने वाले गुणों के अनुकूल जनों का ठीक सत्कार करते हुए न्याय से राज्य पालें सदा सुखी हों ॥ ६ ॥

अनाधृष्य इत्यस्याग्निर्हृदिः । अग्निर्देवता ।

निघृज्जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

अनाधृष्यो जातवेदा अनिष्टृतो विराडग्ने क्षत्र-
भृद्दीहिहीह । विश्वा आशाः प्रमुञ्चन्मानुषीभिर्यः
शिवेभिरथ परि पाहि नो वृधे ॥ ७ ॥

अनाधृष्यः । जातवेदाऽ इति जातवेदाः । अनिष्टृतः ।
 अनिस्तृत इत्यनिऽस्तृतः । विराडिति विराट् । अग्ने ।
 क्षत्रभृदिति क्षत्रभृत् । दीदिहि । इह । विश्वाः ।
 आशाः । प्रमुञ्चन्निति प्रमुञ्चन् । मानुषीः । भियः ।
 शिवेभिः । अद्य । परि । पाहि । नः । वृधे ॥ ७ ॥

पदार्थः—(अनाधृष्यः) अन्यैर्धर्षि तुमयोग्यः (जातवेदाः)
 जातविदः (अनिष्टृतः) दुःखात्पृथग्भूतः (विराट्) वि-
 शेणेण राजमानः (अग्ने) सुसंगृहीतराजनीते (क्षत्रभृत्)
 यः क्षत्रं राज्यं विभक्तिं सः (दीदिहि) कामय (इह)
 अस्मिन् राज्यव्यवहारे (विश्वाः) सकलाः (आशाः)
 दिशः (प्रमुञ्चन्) प्रकर्णेण मुक्ता कुर्वन् (मानुषीः)
 मनुष्यसम्बन्धिनीः (भियः) रोगदोषादिकाः (शिवेभिः)
 कल्याणकारिभिः सभ्यैः (अद्य) इदानीम् (परि) सर्वतः
 (पाहि) रक्ष (नः) अस्मान् (वृधे) वर्धनाय ॥ ७ ॥

अन्वयः—हे अग्ने योऽद्येह मानुषीर्भियो नाशय शिवेभिश्च सहानिष्ट-
 तोऽनाधृष्यो जातवेदा विराट् क्षत्रभृदस्ति स त्वं नो दीदिह विश्वा आशाः
 प्रमुञ्चस्त्वं नो वृधे परि पाहि ॥ ७ ॥

भावार्थः—ये राजराजपुरुषाः प्रजाः सन्तीत्य मङ्गलाचरणाः सर्ववि-
 द्यान्यायप्रियाः सन्तः प्रजाः पालयेयुस्ते सर्वदिक्प्रवृत्ताकीर्त्तयः स्युः ॥ ७ ॥

पदार्थः—हे (अग्ने) अच्छे प्रकार राजनीति का संग्रह करने वाले राजन् ! जो आप (अद्य) इस समय (इह) इस राजा के व्यवहार में (मानुषीः) मनुष्य सम्बन्धी (भियः) रोगशोकादि भयों को नष्ट कीजिये (शिवेभिः) कल्याणकारी सभ्य सज्जनों के साथ (अनिष्टृतः) दुःख से पृथक् हुए (अनाधृष्यः) अन्यो से नहीं धमकाने योग्य (जातवेदाः) विद्या को प्राप्त (विराट्) विशेषकर प्रकाशमान (क्षत्रभृत्) राज्य के पोषक हैं सो आप (नः) हमारी (दी-दिहि) कानना कीजिये (विश्वाः) सब (आशाः) दिशाओं की (प्रमुञ्चन्) अच्छे प्रकार मुक्त करते हुए हमारी (वृधे) वृद्धि के लिये (परि, पाहि) सब ओर से रक्षा कीजिये ॥ ७ ॥

भावार्थः—जो राजा वा राजपुरुष प्रजाओं को सन्तुष्ट कर मंगलरूप आचरण करने और सब विद्याओं से युक्त न्याय में प्रसन्न रहते हुए प्रजाओं की रक्षा करें वे सब दिशाओं में प्रवृत्त कीर्ति वाले हों ॥ ७ ॥

बृहस्पत इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः ।

ऋष्टुष् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनस्त्रमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

बृहस्पते सवितर्बोधयैन्नसश्शितं चित्संतराध
सश्शिशधि । वर्धयैन्न महते सौभगाय विश्वं-
एनमनु मदन्तु देवाः ॥ ८ ॥

बृहस्पते । सवितः । बोधय । एनम् । सश्शितमिति
सम्शितम् । चित् । सन्तरामिति सम्तराम् । सम् ।
शिशधि । वर्धय । एनम् । महते । सौभगाय । वि-
श्वे । एनम् । अनु । मदन्तु । देवाः ॥ ८ ॥

पदार्थः—(वृहस्पते) वृहतां पालक (सवितः) वि-
 श्वैश्वर्ययुक्त (बोधय) सचेतनं कुरु (एनम्) राजानम्
 (संशितम्) तीक्ष्णबुद्धिस्वभावम् (चित्) (सन्तराम्) अ-
 तितराम् (सं, शिशाधि) सम्यक् शिक्षस्व (वर्धय) (एनम्)
 (महते) (सौभगाय) उत्तमैश्वर्यभावाय (विश्वे) सर्वे (ए-
 नम्) (अनु) पश्चात् (मदन्तु) आनन्दन्तु (देवाः) सुसभ्या
 विद्वांसः ॥ ८ ॥

अन्वयः—हे वृहस्पते ! सवितः पूर्णविद्योपदेशक त्वमेनं संशितं कुर्वन् बो-
 धय संशिक्षाधि चिदपि प्रजाः सन्तरां शिशाध्येनं महते सौभगाय वर्धय विश्वे
 देवा एनमनु मदन्तु ॥ ८ ॥

भावार्थः—यो राजसभोपदेशकः स एतान् दुर्व्यसनेभ्यो निवर्त्य सुशीलान्
 संपाद्य महैश्वर्यवृद्धये प्रवर्तयेत् ॥ ८ ॥

पदार्थः—हे (वृहस्पते) बड़े सज्जनों के रक्षक (सवितः) विद्या और
 ऐश्वर्य से युक्त संपूर्ण विद्या के उपदेशक आप (एनम्) इस राजा को (सं-
 शितम्) तीक्ष्ण बुद्धि के स्वभाव वाला करते हुए (बोधय) चेतनतायुक्त की
 जिये और (सं, शिशाधि) सम्यक् शिक्षा कीजिये (चित्) और (सन्तराम्)
 अतिशय करके प्रजा को शिक्षा कीजिये (एनम्) इस राजा को (महते) बड़े
 (सौभगाय) उत्तम ऐश्वर्य होने के लिये (वर्धय) बढ़ादिये और (विश्वे) सब
 (देवाः) सुन्दर सम्य विद्वान् (एनम्) इस राजा के (अनु, मदन्तु) अनुकूल
 प्रसन्न हों ॥ ८ ॥

भावार्थः—जो राजसभा का उपदेशक है वह इन राजादि को दुर्व्यसनों से पृथक् कर
 और सुशीलता को प्राप्त कराके बड़े ऐश्वर्य की वृद्धि के लिये प्रवृत्त करे ॥ ८ ॥

अमुत्रेत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । अश्व्यादयो देवताः ।

तिष्ठत् छन्दः । चैवतः स्वरः ॥

अथाध्यापकोपदेशकैः किं कार्यमित्याह ॥

अब अध्यापक और उपदेशकों को क्या करना चाहिये इस वि० ॥

अमुत्रभूयाद्ध यद्यमस्य बृहस्पतेऽभि-
शस्तेरमुञ्चः । प्रत्यौहतामश्विना मृत्युमस्माद्दे-
वानामग्ने भिषजा शचीभिः ॥ ६ ॥

अमुत्रभूयादित्यमुत्रभूयात् । अध । यत् । यमस्य ।
बृहस्पते । अभिशस्तेरित्यभिःशस्तेः । अमुञ्चः । प्र-
ति । औहताम् । अश्विना । मृत्युम् । अस्मात् । दे-
वानाम् । अग्ने । भिषजा । शचीभिः ॥ ९ ॥

पदार्थः—(अमुत्रभूयात्) परजन्मनि भाविनः । अत्रा-
मुत्रोपपदाद् भूधातोः क्यप् (अध) अथ (यत्) (यम-
स्य) नियन्तुः (बृहस्पते) महतां पालक (अभिशस्तेः)
सर्वतोऽपराधात् (अमुञ्चः) मुच्यः (प्रति) (औह-
ताम्) वितर्केण साधनुताम् (अश्विना) अध्यापकोपदे-
शकौ (मृत्युम्) (अस्मात्) (देवानाम्) (अग्ने)
सद्वैद्य (भिषजा) औषधानि (शचीभिः) कर्मभिः
प्रज्ञाभिर्वा ॥ ६ ॥

अन्वयः—हे बृहस्पते त्वममुत्रभूयादभिःशस्तेरेतन्मुञ्चः । अथ यद्यो यम-
स्य शासने तिष्ठेत्तस्य मृत्युममुञ्चः । हे अग्ने त्वं यथाऽश्विना शचीभिर्भि-
षजा प्रत्यौहतां तथाऽस्माद्देवानामारोग्यं सख्यादय ॥ ९ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—त एव श्रेष्ठा अध्यापकोपदेशका येऽत्र पर-
त्र च सुखाय सर्वान् सुशिक्षयेयुर्द्येन ब्रह्मधर्यादीनि कर्माणि सेवयित्वा मनुष्या
अल्पमृत्युमानन्दहानिं च नाप्नुयुः ॥ ९ ॥

पदार्थः—हे (बृहस्पते) बड़ों के रक्षक सिद्धन्! आप (अमुत्रभूयात्)
परजन्म में होने वाले (अभिशस्तेः) सब प्रकार के अपराध से (अमुञ्चः)
छूटिये (अध) इस के अनन्तर (यत्) जो (यमस्य) धर्मात्मा नियम क-
र्ता जन की शिक्षा में रहे उस के (मृत्युम्) मृत्यु की लुड़ाइये । हे (अ-
ग्ने) उत्तम वैद्य आप जैसे (अश्विना) अध्यापक और उपदेशक (शशी-
भिः) कर्म वा बुद्धियों से (भिषजा) रोगनिवारक पदार्थों को (प्रति, औ-
हताम्) विशेष तर्क से सिद्ध करें वैसे (अस्मात्) इस से (देवानाम्) वि-
द्वानों के आरोग्य की सिद्ध कीजिये ॥ ९ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—वेही श्रेष्ठ अध्यापक और उपदेशक हैं जो
इस लोक और परलोक में सुख होने के लिये सब को अच्छी शिक्षा करें जिस से ब्रह्म-
चर्यादि कर्मों का सेवन कर मनुष्य अल्पावस्था में मृत्यु और आनन्द की हानि को न प्रा-
प्त होवें ॥ ९ ॥

उद्दयमित्यस्यामिर्ऋषिः । सूर्यो देवता ।

विराडनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

अथेश्वरोपासनविषयमाह ॥

अत्र ईश्वर की उपासना का वि० ॥

उद्दयन्तमस्रपरि स्वः पश्यन्त उत्तरम् । देवं
देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् ॥ १० ॥

उत् । वयम् । तमसः । परि । स्वरिति स्वः । प-
श्यन्तः । उत्तरमित्युत्तरम् । देवम् । देवत्रेति देव-
त्रा । सूर्यम् । अगन्म । ज्योतिः । उत्तममित्युत्-
त्तमम् ॥ १० ॥

पदार्थः—(उत्) उत्कर्षे (वयम्) (तमसः) अन्ध-
कारात्पृथग्वर्त्तमानम् (परि) सर्वतः (स्वः) सुखसाध-
कम् (पश्यन्तः) प्रेक्षमाणाः (उत्तरम्) सर्वेषां लोका-
नामुत्तारकम् (देवम्) द्योतमानम् (देवत्रा) देवेषु व-
र्त्तमानम् (सूर्यम्) चराऽचरात्मानम् (अगन्म) प्राप्नुयाम
(ज्योतिः) प्रकाशमानम् (उत्तमम्) अतिश्रेष्ठम् ॥ १० ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यथा वयं तमसः पृथग्भूतं ज्योतिः सवितृमण्ड-
लं पश्यन्तः स्वरुत्तरं देवत्रोत्तमं सूर्यं जगदीश्वरं देवं पयुर्दगन्म तथा तं
यूयमपि प्राप्नुत ॥ १० ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०— ये मनुष्याः सूर्यमिवाऽविद्यान्धकारात्प्र-
थग्भूतं स्वप्रकाशं महादेवं सर्वोत्कृष्टं सर्वान्तर्यामिणं परमात्मानमेवोपासते
ते मुक्तिसुखमपि लभन्ते ॥ १० ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे (वयम्) हम लोग (तमसः) अन्धकार से
पृथक् वर्त्तमान (ज्योतिः) प्रकाशमान सूर्यमण्डल को (पश्यन्तः) देखते
हुए (स्वः) सुखके साधक (उत्तरम्) सब लोगों को दुःख से पार उतारने
वाले (देवत्रा) दिव्य पदार्थों वा विद्वानों में वर्त्तमान (उत्तमम्) अति-
श्रेष्ठ (सूर्यम्) चराचर के आत्मा (देवम्) प्रकाशमान जगदीश्वर को (प-
रि, उत्त, अगन्म) सद्य ओर से उत्कर्षपूर्वक प्राप्त हों वैसे उस ईश्वर को तुम
लोग भी प्राप्त होओ ॥ १० ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—जा मनुष्य सूर्य के समान अविद्यारूप
अन्धकार से पृथक् हुए स्वयं प्रकाशित बड़े देवता सब से उत्तम सब के अन्तर्यामी
परमात्मा की ही उपासना करते हैं वे मुक्ति के सुख को भी अवश्य निर्विघ्न प्रीतिपूर्-
वक प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥

ऊर्ध्वा इत्यस्याग्निर्ऋषिः । अग्निर्देवता ।

उष्णिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

अथाऽग्निः कीदृश इत्याह ॥

अत्र अग्नि कैसा है इस वि० ॥

ऊर्ध्वा अस्य समिधो भवन्त्यूर्ध्वा शुक्रा शो-
चीष्ण्यग्नेः । द्युमत्तमा सुप्रतीकस्य सूनोः ॥११॥

ऊर्ध्वाः । अस्य । समिध इति समुऽइधः । भवन्ति ।
ऊर्ध्वा । शुक्रा । शोचीष्णि । अग्नेः । द्युमत्तमेति द्यु-
मत्तमा । सुप्रतीकस्येति सुऽप्रतीकस्य । सूनोः ॥११॥

पदार्थः—(ऊर्ध्वाः) उत्तमाः (अस्प) (समिधः)
सम्यक् प्रदीपिकाः (भवन्ति) (ऊर्ध्वा) ऊर्ध्वानि (शु-
क्रा) शुद्धानि (शोचीष्णि) तंजांसि (अग्नेः) पावकस्य
(द्युमत्तमा) अतिशयेन प्रशस्तप्रकाशयुक्तानि (सुप्रती-
कस्य) शोभनानि प्रतीकानि प्रतीतिकराणि कर्माणि यस्य
तस्य (सूनोः) प्राणिगर्भविमोचकस्य ॥ ११ ॥

अन्वयः— हे मनुष्या यस्याऽस्य सुप्रतीकस्य सूनोरग्नेरूर्ध्वाः समिध-
ऊर्ध्वा द्युमत्तमा शुक्रा शोचीष्णि भवन्ति तं विजानीत ॥ ११ ॥

भावार्थः— हे मनुष्या योऽयसूर्ध्वगन्ता सर्वदर्शनहेतुः सर्वेषां पालननि-
मित्तोऽग्निरस्ति तं विज्ञाय कार्याणि सततं साधुत ॥ ११ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जिस (अस्य) इस (सुप्रतीकस्य) सुन्दर प्रतीति-
कारक कर्मों से युक्त (सूनोः) प्राणियों के गर्भों को लुड़ाने हारे (अग्नेः)

अग्नि की (उर्ध्वाः) उत्तम (सन्निधः) सम्बद्ध प्रकाश करने वाली सन्निधा तथा (ऊर्ध्वा) ऊपर की जाने वाले (द्युत्तमा) अतिउत्तम प्रकाशयुक्त (शुक्रा) शुद्ध (शीर्षीवि) तेज (भवन्ति होते हैं उस को तुम जानो ॥ ११ ॥

भावार्थः—हे मनुष्यो! जो यह ऊपर को उठने वाला सब के देखने का हेतु सब की रक्षा का निमित्त अग्नि है उस को जान के कार्यों को निरन्तर सिद्ध किया करो ॥ ११ ॥

तनूनपादित्थस्याऽग्निर्ऋषिः । विश्वेदेवा देवैताः ।

उष्णिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

अथ वायुः किंवात् कार्यसाधकोऽस्तीत्याह ॥

अथ वायु किस के समान कार्यसाधक है इस वि० ॥

तनूनपादसुरो विश्ववेदा देवो देवेषु देवः ।

पथो अनक्तु मध्वा घृतेन ॥ १२ ॥

तनूनपादिति तनूऽनपात् । असुरः । विश्ववेदा इ-
ति विश्ववेदाः । देवः । देवेषु । देवः । पथः । अनक्तु ।
मध्वा । घृतेन ॥ १२ ॥

पदार्थः—(तनूनपात्) यस्तनूषु शरीरेषु न पतति सः
(असुरः) प्रकाशरहितो वायुः (विश्ववेदाः) यो विश्वं
विन्दति सः (देवः) दिव्यगुणः (देवेषु) दिव्यगुणेषु व-
स्तुषु (देवः) कर्मनीयः (पथः) मार्गान् (अनक्तु)
(मध्वा) मधुरेण (घृतेन) उदकेन सह ॥ १२ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यो देवेषु देवोऽसुरो विश्ववेदास्तनूनपाद्देवो मध्वा
घृतेन सह पथोऽनक्तु तं यूपं विजानीत ॥ १२ ॥

भावार्थः—यथा परमेश्वरो महादेवो विश्वठयापी सर्वेषां सुखकरोऽस्ति
सथा वायुरप्यस्ति नह्यनेन विना कश्चिदपि कुत्रचिद्गन्तुं शक्नोति ॥ १२ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो! जो (देवेषु) उत्तम गुण वाले पदार्थों में (देवः)
उत्तम गुण वाला (असुरः) प्रकाशरहित वायु (विश्ववेदाः) सब को प्रा-
प्त होने वाला (तनून्पात्) जो शरीर में नहीं गिरता (देवः) कामना
करने योग्य (मध्वा) मधुर (घृतेन) जल के साथ (पयः) श्रीम्रादि के
सागों को (अनक्तु) प्रकट करे उस को तुन जानो ॥ १२ ॥

भावार्थः—जैसे परमेश्वर बड़ा देव सब में व्यापक और सब को सुख करने
हारा है वैसा वायु भी है क्योंकि इस वायु के विना कोई कहीं भी नहीं जासकता ॥ १२ ॥

मध्वेत्यस्याग्निर्ऋषिः । यज्ञो देवता । निपृदुष्णिकू

छन्दः । ऋषयः स्वरः ॥

पुनः कीदृशा जनाः सुखिनः स्युरित्याह ॥

फिर कैसे मनुष्य सुखी होंगे इस वि० ॥

मध्वा यज्ञं नक्षसे प्रीणानो नराशंसोऽअ-
ग्ने । सुकृद्देवः सविता विश्ववारः ॥ १३ ॥

मध्वा । यज्ञम् । नक्षसे । प्रीणानः । नराशंसोः ।
अग्ने । सुकृदिति सुकृत् । देवः । सविता । विश्व-
वार इति विश्ववारः ॥ १३ ॥

पदार्थः—(मध्वा) मधुरेण वचनेन (यज्ञम्) संगतं व्य-
वहारम् (नक्षसे) प्राप्नोषि (प्रीणानः) कामयमानः (नराशंसः)

यो नरान् शंसति सः (अग्ने) विद्वन् (सुकृत्) यः सुष्ठु
करोति सः (देवः) व्यवहर्ता (सविता) ऐश्वर्यमिच्छुकः
(विश्ववारः) यो विश्वं वृणोति सः ॥ १३ ॥

अन्वयः— हे अग्नेयो नराशंसः सुकृद्विश्ववारः प्रीणानः सविता देव-
स्त्वं मध्वा यज्ञं नक्षसे तं वयं प्रसादयेम ॥ १३ ॥

भावार्थः— ये मनुष्या यज्ञे सुगन्धादिहोमेन वायुजले शोधयित्वा सर्वान्
सुखयन्ति ते सर्वाणि सुखानि प्राप्नुवन्ति ॥ १३ ॥

पदार्थः—हे (अग्ने) विद्वन् जो (नराशंसः) मनुष्यों की प्रशंसा करने
(सुकृत्) उत्तम काम करने और (विश्ववारः) प्रशंसा को स्वीकार करने
वाले (प्रीणानः) चाहना करते हुए (सविता) ऐश्वर्य को चाहने वाले
(देवः) व्यवहार में चतुर आप (मध्वा) मधुर वचन से (यज्ञम्) संगत
व्यवहार को (नक्षसे) प्राप्त होते ही उन आप को हम लोग प्रसन्न करें ॥१३॥

भावार्थः— जो मनुष्य यज्ञ में सुगन्धादि पदार्थों के होम से वायु जल को शुद्ध
कर सबको सुखी करते हैं वे सब सुखों को प्राप्त होते हैं ॥ १३ ॥

अच्छेत्यस्याग्निर्ऋषिः । वह्निर्देवता । भुविगुणिणक्
रुन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

अथाऽग्निनोपकारो याज्ञ इत्याह ॥

अथ अग्नि से उपकार लेना चाहिये इस वि० ॥

अच्छायमेति शवंसा घृतेनेडानो वह्निर्नमसा ।
अग्नि ५ सचो अध्वरेषु प्रयत्सु ॥ १४ ॥

अच्छ । अयम् । णति । शवंसा । घृतेन । ईडानः ।
वह्निः । नमसा । अग्निम् । श्रुचः । अध्वरेषु । प्रयत्स्वि-
तिप्रयत्सु ॥ १४ ॥

पदार्थः— (अच्छ) (अयम्) (एति) गच्छति (शत्रसा)
बलेन (घृतेन) जलेन सह (ईडानः) स्तुवन् (वह्निः) विद्याया
बोढा(नमसा) पृथिव्यादयन्नेन (अग्निम्) पावकम् (सुचः)
होमसाधनानि (अध्वरेषु) अहिंसनीयेषु (प्रयत्सु) प्रयत्न-
साध्येषु वर्तमानेषु ॥ १४ ॥

अन्वयः— हे मनुष्या योऽयनीडानो वह्निः प्रयत्स्वध्वरेषु शत्रसा घृतेन
नमसा सह वर्तमानमग्निं श्रुचश्चाच्छेति तं यूयं सत्कुरुत ॥ १४ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—हे मनुष्या योऽग्निरिन्धनैर्जलेन युक्तो यानेषु
प्रयुक्तः सन् बलेन सद्यो गच्छति तं विज्ञायोऽकुरुत ॥ १४ ॥

पदार्थः— हे मनुष्यो ! जो (अयम्) यह (ईडानः) स्तुति करता हुआ
(वह्निः) विद्या का पहुचाने वाला विद्वान् जन (प्रयत्सु) प्रयत्न से सिद्ध
करने योग्य (अध्वरेषु) दिग्ग्यों से पृथक् वर्तमान यज्ञों में (शत्रसा) बल
(घृतेन) जल और (नमसा) पृथिवी आदि अन्न के साथ वर्तमान (अ-
ग्निम्) अग्नि तथा (सुचः) होम के साधन स्तुवा आदि को (अच्छ, एति)
अच्छे प्रकार प्राप्त होता है उसका तुम लोग सत्कार करो ॥ १४ ॥

भावार्थः— इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जो अग्नि इन्धनों और जल
से युक्त यानों में प्रयुक्त किया हुआ बल से शीघ्र चलाता है उसको जानके उपकार में
लाओ ॥ १४ ॥

सयत्तदित्यस्याग्निर्ऋषिः । वायुर्देवता । स्वरःष्टुष्णिक्

छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

युनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

स यक्षदस्य महिमानमग्नेः स ई मन्द्रा सु-
प्रयसः । वसुश्चेतिष्ठो वसुधातमश्च ॥ १५ ॥

सः । यक्षत् । अस्य । महिमानम् । अग्नेः । सः ।
ईम् । मन्द्रा सुप्रयसइति । सुऽप्रयसः । वसुः । चेतिष्ठः ।
वसुधातम इति वसुऽधातमः । च ॥ १५ ॥

पदार्थः—(सः) (यक्षत्) यजेत्सङ्गच्छेत (अस्य)
(महिमानम्) महत्त्वम् (अग्नेः) पावकस्य (सः) (ई-
म्) जलम् (मन्द्रा) आनन्दप्रदानि हवींषि (सुप्रयसः)
शोभनानि प्रयांसि प्रीतान्यन्त्रादीनि यस्मात्तस्य (वसुः)
वासयिता (चेतिष्ठः) अतिशयेन चेता संज्ञाता (वसु-
धातमः) योऽतिशयेन वसूनि दधाति सः (च)
समुच्चये ॥ १५ ॥

अन्वयः—स मनुष्यः सुप्रयसोऽस्याग्नेर्मेहिमानं यक्षत्स वसुचेतिष्ठो व-
सुधातमश्च सन्तो मन्द्रा यक्षत् ॥ १५ ॥

भावार्थः—य इत्यमग्नेर्मेहत्वंविजानीयात्सोऽतिधनी स्यात् ॥ १५ ॥

पदार्थः—(सः) यह पूर्वोक्तविद्वान् मनुष्य (सुप्रयसः) प्रीतिकारक
सुन्दर अन्नादि के हेतु (अस्य) इस (अग्नेः) अग्नि के (महिमानम्)
बहूप्यन को (यक्षत्) सम्यक् प्राप्त हो तथा (सः) वह (वसुः) निवास
का हेतु (चेतिष्ठः) अतिशय कर जानने वाला (च) और (वसुधातमः)
अत्यन्त धनों को धारण करने वाला हुआ (ईम्) जल तथा (मन्द्रा) आनन्द
दायक होने योग्य पदार्थों को प्राप्त होवे ॥ १५ ॥

भावार्थः—जो पुरुष इस प्रकार अग्नि के बहूप्यन को जाने सो अतिधनी
होवे ॥ १५ ॥

द्वारो देवीरित्यस्याऽग्निर्ऋषिः । देव्यो देवताः ।

निष्पदुष्णिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

द्वारो देवीरन्वस्य विश्वे व्रता ददन्ते अग्नेः ।
उरुव्यचसो धाम्ना पत्यमानाः ॥ १६ ॥

द्वारः । देवीः । अनु । अस्य । विश्वे । व्रता । दद-
न्ते । अग्ने । उरुव्यचस इत्युरुव्यचसः । धाम्ना ।
पत्यमानाः ॥ १६ ॥

पदार्थः—(द्वारः) द्वाराणि (देवीः) देदीप्यमानानि
(अनु) (अस्य) (विश्वे) सर्वे (व्रता) सत्यभाषा-
णादीनि (ददन्ते) (अग्नेः) पावकस्य (उरुव्यचसः)
बहुव्यापकस्य (धाम्ना) स्थानेन (पत्यमानाः) स्वामि-
त्वं कुर्वाणाः ॥ १६ ॥

अन्वयः—ये विश्वे पत्यमाना उरुव्यचसोऽस्याग्नेर्धाम्ना देवीद्वारो व्रता-
नु ददन्ते ते स्वैश्वर्यां जायन्ते ॥ १६ ॥

भावार्थः—येऽग्निविद्यायां द्वाराणि जानन्ति ते सत्याधाराः सन्तोऽनु-
मोदन्ते ॥ १६ ॥

पदार्थः—जो (विश्वे) सब (पत्यमानाः) मालिकपन करते हुए बि-
ज्ञान (उरुव्यचसः) बहुतों में व्यापक (अस्य) इस (अग्नेः) अग्नि के
(धाम्ना) स्थान से (देवीः) प्रकाशित (द्वारः) द्वारों तथा (व्रता) स-
त्यभाषणादि व्रतों का (अनु, ददन्ते) अनुकूल उपदेश देते हैं वे सुन्दर
ऐश्वर्य वाले होते हैं ॥ १६ ॥

भावार्थः—जो लोग अग्नि की विद्या के द्वारों को जानते हैं वे सत्य आचरण करते
हुए अति आनन्दित होते हैं ॥ १६ ॥

ते अस्येत्यस्याग्निर्ऋषिः । यज्ञीदेवता ।

विराडुष्णिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

पुनस्तमेवविषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

ते अस्य योषणो दिव्ये न योनौ उषासान-
क्ता । इमं यज्ञमवतामध्वरं नः ॥ १७ ॥

ते इति ते । अस्य । योषणे इति योषणो । दिव्ये इति
दिव्ये । न । योनौ । उषासानक्ता । उषसानक्तेत्युष-
सानक्ता । इमम् । यज्ञम् । अवताम् । अध्वरम् । नः ॥ १७ ॥

पदार्थः—(ते) (अस्य) (योषणे) भार्य्ये वर्तमाने
(दिव्ये) दिव्यस्वरूपे (न) इव (योनौ) गृहे (उषासा-
नक्ता) रात्रिन्दिवौ (इमम्) (यज्ञम्) (अवताम्)
रक्षेताम् (अध्वरम्) अहिंसनीयम् (नः) अस्माकम् ॥ १७ ॥

अन्वयः—हे मनुष्यास्ते उषासानक्ताऽस्य योनौ दिव्ये योषणे न नो य-
मिममध्वरं यज्ञमवतां तं यूयं विजानीत ॥ १७ ॥

भावार्थः—अत्रोपमालं०—यथा विदुषी पत्नी गृहकार्यानि साधनोति ।
तथा वन्दिना जाते राज्यही सर्वं व्यवहारं साधनुतः ॥ १७ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! (ते) वे (उषासानक्ता) रात्रि और दिन (अस्य)
इस पुरुष के (योनौ) घर में (दिव्ये) उत्तम रूप वाली (योषणे) दो
स्त्रियों के (न) समान वर्तमान (नः) हमारे जिस (इमम्) इस (अध्वरम्)
विनाश न करने योग्य (यज्ञम्) यज्ञ की (अवताम्) रक्षा करें उस की
तुम लोग जानो ॥ १७ ॥

भावार्थः— इस मन्त्र में उपमालं— जैसे विदुषी स्त्री घरके कार्यों को सिद्ध करती है वैसे अग्नि से उत्पन्न हुए रात्रि दिन सब व्यवहार को सिद्ध करते हैं ॥१७॥

दैव्येत्यस्याग्निर्ऋषिः । अग्निर्देवता ।

भुरिगायत्री छन्दः । बह्वृजः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

दैव्या होतारा ऊर्ध्वमध्वरं नोऽग्नेर्जिह्वामभि
गृणीतम् । कृणुतं नः स्विष्टिम् ॥ १८ ॥

दैव्या । होतारा । ऊर्ध्वम् । अध्वरम् । नः । अग्नेः ।
जिह्वाम् । अभि । गृणीतम् । कृणुतम् । नः । स्विष्टि-
मिति सुऽइष्टिम् ॥ १८ ॥

पदार्थः—(दैव्या) देवेषु विद्वत्सु भवौ विद्वांसौ (होतारा)
सुखस्य दातारौ (ऊर्ध्वम्) प्राप्नोन्नतिम् (अध्वरम्) अहिंस-
नीयं व्यवहारम् (नः) अस्माकम् (अग्नेः) पावकस्य (जि-
ह्वाम्) उवालाम् (अभि) गृणीतम् प्रशंसेताम् (कृणुतम्)
कुरुतम् (नः) (स्विष्टिम्) शोभना इष्टिर्यस्यान्ताम् ॥१८॥

अन्वयः— यौ दैव्या होतारा न ऊर्ध्वमध्वरमभियुणीतं तौ नः स्विष्टिमाने
जिह्वां कृणुतम् ॥१८॥

भावार्थः— यदि जिज्ञास्वध्यापकावन्निविद्यां जानीयातां तर्हि विश्व-
स्योन्नतिं कुर्याताम् ॥ १८ ॥

पदार्थः—जो (देव्या) विद्वानों में प्रसिद्ध हुए दो विद्वान् (होतारा)
सुख के देने वाले (नः) हमारे (ऊर्ध्वम्) उन्नति को प्राप्त (अध्वरम्)
महीं विगाड़ने योग्य व्यवहार की (अग्निः, गृणीतम्) सब ओर से प्रशंसा
करें वे दोनों (नः) हमारी (स्त्रिष्टिः) सुन्दर यज्ञ के निमित्त (अग्ने)
अग्नि की (जिह्वाम्) ज्वाला को (ऋणुतम्) सिद्ध करें ॥ १८ ॥

भावार्थः—जो विज्ञान और अव्यापक लोग अग्नि की विद्या को जानें तो
विश्व की उन्नति करें ॥ १८ ॥

तिस्रो देवीरित्यस्याऽग्निर्ह्यग्निः । इडादयो लिङ्गोक्ता देवताः ।

गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

पुनर्मनुष्यैः कीदृशी वाणी सेवनीया इत्याह ॥

फिर मनुष्यों को कैसी वाणी का सेवन करना चाहिये इस वि० ॥

तिस्रो देवीर्बृहिरिदं सदन्तिवडा सरस्वती भा-
रती । मही गृणाना ॥ १९ ॥

तिस्रः । देवीः । बृहिः । आ । इदम् । सदन्तु । इडा ।
सरस्वती । भारती । मही । गृणाना ॥ १९ ॥

पदार्थः—(तिस्रः) त्रित्वसंख्याकाः (देवीः) कमनी-
याः (बृहिः) अन्तरिक्षम् (आ) समन्तात् (इदम्)
(सदन्तु) प्राप्नुवन्तु (इडा) स्तोतुमर्हा (सरस्वती)
प्रशस्तविज्ञानवती (भारती) सर्वशास्त्रधारिणी (मही)
महती (गृणाना) स्तुवन्ती ॥ १९ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यूयं या मही गृणानेडा सरस्वती भारती च तिस्रो
देवीरिदं बृहिरासदन्तु ताः सन्यग्विजानीत ॥ १९ ॥

भावार्थः—ये मनुष्या व्यवहारकुशलां सर्वशास्त्रविद्यान्वितां सत्यादिव्य-
वहारधर्त्रीं वाणीं प्राप्नुयुस्ते स्तुत्याः सन्तो महान्तो भवेयुः ॥ १९ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! तू लो ग जो (नही) बड़ी (गृणाना) स्तुति क-
रती हुई (इडा) स्तुति करने योग्य (सरस्वती) प्रशस्त विज्ञान वाली और
(भारती) सब शास्त्रों को धारण करने हारी जो (तिस्रः) तीन (देवीः)
चाहने योग्य वाणी (इदम्) इस (बर्हिः) अन्तरिक्ष को (आ, सदन्तु)
अच्छे प्रकार प्राप्त हों उन तीनों प्रकार की वाणियों को सम्यक् जानो ॥ १९ ॥

भावार्थः—जो मनुष्य व्यवहार में चतुर सब शास्त्र की विधाओं से युक्त सत्या-
दि व्यवहारों को धारण करने हारी वाणी को प्राप्त हों वे स्तुति के योग्य हुए
महान् हों ॥ १९ ॥

तन्न इत्यस्याग्निर्ऋषिः । त्वष्टा देवता ।

निचूदुष्णिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

ईश्वरात् किं प्रार्थनीयमित्याह ॥

ईश्वर से क्या प्रार्थना करनी चाहिये इस वि० ॥

नन्नस्तुरीपमद्भुतं पुरुक्षु त्वष्टा सुवीर्यम् । रा-
यस्पोषं विष्यंतु नाभिमस्मे ॥ २० ॥

तम् । नः । तुरीपम् । अद्भुतम् । पुरुक्षु । त्वष्टा ।
सुवीर्यमिति सुवीर्यम् । रायः । पोषम् । वि । स्यंतु ।
नाभिमम् । अस्मेऽ इत्यस्मे ॥ २० ॥

पदार्थः—(तम्) प्रसिद्धम् (नः) अस्मान् (तुरीपम्)
यत्तुरः सद्य आप्नोति तम् (अद्भुतम्) आश्चर्यगुणकर्म-
स्वभावम् (पुरुक्षु) यत् पुरुषु बहुषु क्षियति वसति तत्
(त्वष्टा) विद्यया प्रकाशित ईश्वरः (सुवीर्यम्) सुष्ठु-
लम् (रायः) धनस्य (पोषम्) पुष्टिम् (वि, स्यंतु)
विमुञ्चतु (नाभिमम्) मध्यप्रदेशम् (अस्मे) अस्मा-
कम् ॥ २० ॥

अन्यथः—त्वष्टाऽस्मे नाभिं प्रति तुरीपमद्भुतं पुरुक्षु सुवीर्यं तं रायस्पोषं
ददातु नो दुःखाद्विष्यतु च ॥ २० ॥

भावार्थः—हे मनुष्या यच्छीघ्रकार्याश्चर्यभूतं बहुत्यापकं धनं बलं वा-
स्ति तद्यूपनीश्वरप्रार्थनया प्राप्यानन्दिता भवत ॥ २० ॥

पदार्थः—(त्वष्टा) विद्या से प्रकाशित ईश्वर (अस्मे) हमारे (नाभिम्)
मध्यप्रदेश के प्रति (तुरीपम्) शीघ्रता को प्राप्त होने वाले (अद्भुतम्) आ-
श्चर्यरूप गुण कर्म और स्वभावों से युक्त (पुरुक्षु) बहुत पदार्थों में वसने
वाले (सुवीर्यम्) सुन्दर बलयुक्त (तम्) उस प्रसिद्ध (रायः) धन को
(पोषम्) पुष्टि को देवे और (नः) हम लोगों को दुःख से (वि, स्यतु)
छुड़ावे ॥ २० ॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जो शीघ्रकारी आश्चर्यरूप बहुतों में व्यापक धन वा बल
है उस को तुम लोग ईश्वर की प्रार्थना से प्राप्त हो के आनन्दित होओ ॥ २० ॥

वनस्पत इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । विद्वांसो देवताः ।

विराडुष्णिक् छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

जिज्ञासुः कीदृशो भवेदित्याह ॥

जिज्ञासु कैसा हो इस वि० ॥

वनस्पतेऽव सृजा रराणस्तमनादिवेषु । अग्नि-
हृव्यश्च शमिता सूदयाति ॥ २१ ॥

वनस्पते । अव । सृज । रराणः । तमना । दिवेषु ।
अग्निः । हृव्यम् । शमिता । सूदयाति ॥ २१ ॥

पदार्थः—(वनस्पते) वनस्थ सम्भजनीस्य शास्त्रस्य
पालक (अव) (सृज) । अत्र द्वयचोऽतिस्तिङ् इतिदीर्घः ।
(रराणः) रममाणः (तमना) आत्मना (दिवेषु) दिव्यगुणेष्विव

विद्वत्सु (अग्निः) पावकः (हव्यम्) आदातुमर्हम् (शमिता) यज्ञसम्बन्धी (सूदयाति) सूक्ष्मीकृत्य वायौ प्रसारयति ॥ २१ ॥

अन्वयः—हे वनस्पते यथा शमिताऽग्निहृदयं सूदयाति तथा त्मना देवेषु ररणः सन् हव्यमवसृज ॥ २१ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—यथा दिव्येऽवन्तरिक्षादिषु कहीराजते तथा विद्वत्सु स्थितो जिज्ञासुः सुप्रकाशितात्मा भवति ॥ २१ ॥

पदार्थः—हे (वनस्पते) सेवने योग्य शास्त्र के रत्नक जिज्ञासु पुरुष ! जैसे (शमिता) यज्ञसम्बन्धी (अग्निः) अग्नि (हव्यम्) ग्रहण करने योग्य होम के द्रव्यों को (सूदयाति) सूक्ष्म कर वायु में प्रसारता है वैसे (त्मना) अपने आत्मा से (देवेषु) दिव्य गुणों के समान विद्वानों में (ररणः) रमण करते हुए ग्रहण करने योग्य पदार्थों को (अव, सृज) उत्तम प्रकार से बनाओ ॥ २१ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे शुद्ध आकाश आदि में अग्नि शोभायमान होता है वैसे विद्वानों में स्थित जिज्ञासु पुरुष सुन्दर प्रकाशित स्वरूप वाला होता है ॥ २१ ॥

अग्ने स्वाहा हव्यस्य प्रजापतिर्हविः । इन्द्रो देवता ।

निचृदुष्णिक् उन्दः । अथभः स्वरः ॥

पुनर्मुष्यैः किं कार्यनित्याह ॥

किं अनुष्यो को यथा करना चाहिये इस वि० ।

अग्ने स्वाहा कृणुहि जातवेद इन्द्राय हव्यम् । विश्वे देवा हविरिदं जुषन्ताम् ॥ २२ ॥

अग्ने । स्वाहा । कृणुहि । जातवेद इति जातवेदः । इन्द्राय । हव्यम् । विश्वे । देवाः । हविः । इदम् । जुषन्ताम् ॥ २२ ॥

पदार्थः—(अग्ने) विद्वन् (स्वाहा) सत्यां वाचम् (ऋणुहि)
कुरु (जातवेदः) प्रकटविद्य (इन्द्राय) परमैश्वर्याय (हव्यम्)
आदातुमर्हम् (विश्वे) सर्वे (देवाः) विद्वांसः (हविः) ग्राह्यं
वस्तु (इदम्) (जुषन्ताम्) सेवन्ताम् ॥ २२ ॥

अन्वयः—हे जातवेदोऽग्ने! त्वमिन्द्राय स्वाहा हव्यं ऋणुहि विश्वे देवा
वदं हविर्जुषन्ताम् ॥ २२ ॥

भावार्थः—यदि मनुष्या ऐश्वर्यवर्द्धनाय प्रयत्नेरंस्तर्हि सत्यां परमात्मानं
विदुषस्तु सेवेरन् ॥ २२ ॥

पदार्थः—हे (जातवेदः) विद्या में प्रसिद्ध (अग्ने) विद्वान् पुरुष ! आप
(इन्द्राय) उक्त ऐश्वर्य के लिये (स्वाहा) सत्य वाणी और (हव्यम्)
ग्रहण करने योग्य पदार्थ को (ऋणुहि) प्रसिद्ध कीजिये और (विश्वे) सब
(देवाः) विद्वान् लोग (इदम्) इस (हविः) ग्रहण करने योग्य उत्तम
वस्तु को (जुषन्ताम्) सेवन करें ॥ २२ ॥

भावार्थः—जो मनुष्य ऐश्वर्य वर्द्धाने के लिये प्रयत्न करें तो सत्य परमात्मा और
विद्वानों का सेवन किया करें ॥ २२ ॥

पीवो अन्नेत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । वायुर्देवता ।

निचृत्त्रिष्टुप् छन्दः । शैवतः स्वरः ॥

कीदृशं सन्तानं सुखयतीत्याह ॥

कैसा सन्तान मुखी करता है इस वि० ॥

पीवोअन्ना रयिवृधः सुमेधाः श्वेतः सिषक्ति
नियुतामभिःश्रीः । तेवायवे समनसो वितस्थुर्वि-
श्वेन्नरः स्वपत्यानि चक्रुः ॥ २३ ॥

पीवोअन्नेति पीवःऽअन्ना । रयिवृध इति रयिऽवृधः ।
 सुमेधा इति सुऽमेधाः । श्वेतः । सिषक्ति । सिसक्तीति
 सिसक्ति । नियुतामिति निऽयुताम् । अभिश्रीरित्याभि-
 ऽश्रीः । ते । वायवे । समनसः इति सऽमनसः । वि ।
 तस्थुः । विश्वा । इत् । नरः । स्वपत्यानीति सुऽअपत्या-
 नि । चक्रुः ॥ २३ ॥

पदार्थः—(पीवोअन्ना) पीवांसि पुष्टिकराण्यन्नानि येषु
 (रयिवृधः) ये रयिं वर्धयन्ति ते (सुमेधाः) शोभनामेधा
 प्रज्ञा येषान्ते (श्वेतः) गन्ता वर्द्धको वा (सिपक्ति) सि-
 ज्वति (नियुताम्) निश्चितगतीनाम् (अभिश्रीः) अभितः
 शोभा यस्य सः (ते) (वायवे) वायुविद्यायै (समनसः) स-
 मानविज्ञानाः (वि, तस्थुः) तिष्ठेयुः (विश्वा) अखिलानि
 (इत्) एव (नरः) नायकाः (स्वपत्यानि) शोभनानि च
 तान्यपत्यानि (चक्रुः) कुर्युः ॥ २३ ॥

अन्वयः—ये समनसो रयिवृधः सुमेधा नरः पीवोअन्ना विश्वा स्वपत्यानि
 चक्रुः । त इद्वायवे वितस्थुर्गदा नियुतामभिशीः श्वेतो वायुः सर्वान् सि-
 षक्ति तदा स श्रीमान् जायते ॥ २३ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०-यथा वायुः सर्वेषां जीवनमूलमस्ति तथोत्तमा-
 न्यपत्यानि सर्वेषां सुखनिमित्तानि जायन्ते ॥ २३ ॥

पदार्थः—जो (समनसः) तुल्य ज्ञान वाले (रयिवृधः) धन को बढ़ानेवाले
 (सुमेधाः) सुन्दर बुद्धिमान् (नरः) नायक पुरुष (पीवोअन्ना) पुष्टिकारक अन्न
 वाले (विश्वा) सब (स्वपत्यानि) सुन्दर सन्तानों को (चक्रुः) करें

(ते) वे (इत्) ही (वायवे) वायु की विद्या के लिये (वि, तस्थुः) विशेष कर स्थित हों जब (नियुताम्) निश्चित चलने हारे जनों का (अभिग्रीः) सब ओर से शोभायुक्त (श्वेतः) गमनशील वा उन्नति करने हारा वायु सब को (सिषक्ति) सींचता है तब वह शोभायुक्त होता है ॥ २३ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे वायु सब के जीवन का मूल है वैसे उत्तम सन्तान सब के मुख के निमित्त होते हैं ॥ २३ ॥

राय इत्पस्य वसिष्ठ ऋषिः । वायुर्देवता ।

त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनर्मनुष्येण किं कार्यमित्याह ॥

फिर मनुष्य को क्या करना चाहिये इस वि० ॥

राये नु यं जज्ञतु रोदसीमे राये देवी धिषणा
धाति देवम् । अर्धं वायुं नियुतः सश्चतु स्वा
उत श्वेतं वसुधितिं निरेके ॥ २४ ॥

राये । नु । यम् । जज्ञतुः । रोदसी इति रोदसी ।
इमेऽइतीमे । राये । देवी । धिषणा । धाति । देवम् ।
अर्धं । वायुम् । नियुत इति निऽयुतः । सश्चतु । स्वाः ।
उत । श्वेतम् । वसुधितिमिति वसुऽधितिम् । निरेके ॥ २४ ॥

पदार्थः—(राये) धनाय (नु) सद्यः (यम्) (ज-
ज्ञतुः) जनयतः (रोदसी) द्यावापृथिव्यौ (इमे) प्र-
त्यक्षे । अत्र वाच्छन्दसि सर्वे विधयो भवन्तीति प्रकृति-
भावाऽभावः (राये) धनाय (देवी) दिव्यगुणा (धि-

षणा) प्रज्ञेव वर्त्तमाना (धाति) दधाति (देवम्) दि-
व्यं पतिम् (अध) अथ (वायुम्) (नियुतः) निश्च-
येन मिश्रणाऽमिश्रणकर्त्तारः (सञ्चत) प्राप्नुवन्ति । अ-
त्र व्यत्ययः (स्वाः) सम्बन्धिनः (उत) (उवेंतम्) वृद्धम्
(वसुधितिम्) पृथिव्यादि वसूनां धितिर्यस्मात्तम् (निरे-
के) निर्गतशङ्के स्थाने ॥ २४ ॥

अन्वयः— हे मनुष्या इमे रोदसी राये यं जज्ञतुर्देवी धिषणा यं देवं
राये नु धाति । अध निरेके स्वा नियुतः श्वेतमुत्त वसुधितिं वायुं सञ्चत
तं यूयं विजानीत ॥ २४ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—हे मनुष्या भवन्तो बलादिगुणयुक्तं सर्वस्य
धर्तारं वायुं विज्ञाय धनप्रज्ञं वर्धयन्तु यद्येकान्ते स्थित्वाऽस्य प्राणस्य द्वारा
श्चात्मानं परमात्मानं च ज्ञातुमिच्छेषु स्तर्ह्यनयोः साक्षात्कारो भवति ॥ २४ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! (इमे) ये (रोदसी) आकाश भूमी (राये) धन
के अर्थ (यम्) जिस को (जज्ञतुः) उत्पन्न करें (देवी) उत्तम गुण वा-
ली (धिषणा) बुद्धि के समान वर्त्तमान स्त्री जिस (देवम्) उत्तम पति
को (राये) धन के लिये (नु) शीघ्र (धाति) धारण करती है (अध)
इस के अनन्तर (निरेके) निःशङ्क स्थान में (स्वाः) अपने सम्बन्धी
(नियुतः) निश्चय कर मिलाने वा पृथक् करने वाले जन (श्वेतम्) बृद्ध
(उत) और (वसुधितिम्) पृथिव्यादि वसुओं के धारण के हेतु (वायुम्)
वायु को (सञ्चत) प्राप्त होते हैं उस को तुम लोग जानो ॥ २४ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! आप लोग बल आदि गुणों से
युक्त सब के धारण करने वाले वायु को जान के धन और बुद्धि को बढ़ावें । जो ए-
कान्त में स्थित हो के इस प्राण के द्वारा अपने स्वरूप और परमात्मा को जाना चाहें
तो इन दोनों आत्माओं का साक्षात्कार होता है ॥ २४ ॥

आपइत्यस्य हिरण्यगर्भऋषिः । प्रजापतिर्देवता ।

स्वराट्त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

आपो ह यदबृहतीर्विश्वमायन् गर्भं दधाना
जनयन्तीरग्निम् । ततो देवानां ५ समवर्त्ततासु-
रेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ २५ ॥

आपः । ह । यत् । बृहतीः । विश्वम् । आयन् ।
गर्भम् । दधानाः । जनयन्तीः । अग्निम् । ततः । दे-
वानाम् । सम् । अवर्त्तत । असुः । एकः । कस्मै ।
देवाय । हविषा । विधेम ॥ २५ ॥

पदार्थः—(आपः) व्यापिकास्तन्मात्राः (ह) खलु (यत्) यम्
(बृहतीः) बृहत्यः (विश्वम्) कृतप्रवेशम् (आयन्) गच्छन्ति
(गर्भम्) मूलं प्रधानम् (दधानाः) धरन्त्यः सत्यः (जनयन्ति)
प्रकटयन्त्यः (अग्निम्) सूर्याद्याख्यम् (ततः) तस्मात् (देवा-
नाम्) दिव्यानां पृथिव्यादीनाम् (सम्) सम्यक् (अवर्त्तत)
वर्त्तये (असुः) प्राणः (एकः) असहायः कस्मै सुखनि-
मित्ताय (देवाय) दिव्यगुणाय (हविषा) धारणेन (विधेम)
परिचरेम ॥ २५ ॥

अन्वयः—बृहतीर्जनयन्तीर्यद्विश्वं गर्भं दधानाः सत्य आप आयँस्ततोऽ-
ग्निं देवानामेकोऽसुः समवर्त्तत तस्मै ह कस्मै देवाय वयं हविषा विधेम ॥ २५ ॥

भावार्थः-हे मनुष्या यानि स्थूलानि पञ्चतरुणानि दृश्यन्ते तानि सूक्ष्मा-
त्प्रकृतिकार्यात्पञ्चतन्मात्राख्यादुत्पन्नानि विजानीत येषां मध्ये य एकः
सूत्रात्मा वायुरस्ति न सर्वेषां धर्ता इति बुध्यध्वम् । यदि तद्वारा योगाभ्यासेन
परमात्मानं ज्ञातुमिच्छेत तर्हि तं साक्षाद्विजानीत ॥ २५ ॥

पदार्थः--(बृहतीः) महत् परिमाण वाली (जनयन्तीः) पृथिव्यादि
को प्रकट करने वाली (यत्) जिस (विश्वम्) सब में प्रवेश किये हुए (गर्भम्)
सब के मूल प्रधान को (दधानाः) धारण करती हुई (आपः) व्यापकजलों
की सूक्ष्ममात्रा (आयन्) प्राप्त हों (ततः) उस से (अग्निम्) सूर्यादि
रूप अग्नि को (देवानास्) उत्तम पृथिव्यादि पदार्थों का मध्यन्धी (एकः)
एक असहाय (असुः) प्राण (सम्, अद्यत्त) सम्यक् प्रवृत्त करे उस (ह)
ही (कस्मै) सुख के निमित्त (देवाय) उत्तम गुण युक्त ईश्वर के लिये
हमलोग (हविषा) धारण करने से (विधेम) सेवा करने वाले हों ॥ २५ ॥

भावार्थः-हे मनुष्यो ! जो स्थूल पञ्चतत्त्व देख पड़ते हैं उनका सूक्ष्म प्रकृति के
कार्य पञ्चतन्मात्र नामक से उत्पन्न हुए जानो जिनके बीच जो एक सूत्रात्मा वायु है वह
सब को धारण करता है यह जानो जो उस वायु के द्वारा योगाभ्यास से परमात्माको जानना
चाहो तो उसको साक्षात् जान सको ॥ २५ ॥

यश्चिद्वित्यस्य हिरण्यगर्भोऽपि । प्रजापतिर्देवता ।

त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

के जना मोदन्त इत्याह ॥

कौन मनुष्य आनन्दित होते हैं इस वि० ॥

यश्चिदापोमतिनापर्यपश्यदक्षं दधाना जन-
यन्तीर्यज्ञम् । यो देवेष्वधि देव एक आसीत्क-
स्मै देवाय हविषां विधेम ॥ २६ ॥

यः । चित् । आपः । महिना । पर्यपश्यदिति परिऽ-
अपश्यत् । दक्षम् । दधानाः । जनयन्तीः । यज्ञम् ।
यः । देवेषु । अधि । देवः । एकः । आसीत् । कस्मै ।
देवाय । हविषा । विधेम ॥ २६ ॥

पदार्थः—(यः) परमेश्वरः (चित्) (आपः) व्या-
प्तिशीलाः सूक्ष्मास्तन्मात्राः (महिना) स्वस्य महिम्ना
व्यापकत्वेन (पर्यपश्यत्) सर्वतः पश्यति (दक्षम्) व-
लम् (दधानाः) धरन्त्यः (जनयन्तीः) उत्पादयन्त्यः
(यज्ञम्) सङ्गतं संसारम् (यः) (देवेषु) प्रकृत्यादि-
जीवेषु (अधि) उपरिभावे (देवः) दिव्यगुणकर्मस्वभावः
(एकः) अद्वितीयः (आसीत्) अस्ति (कस्मै) सुख-
स्वरूपाय (देवाय) सर्वसुखप्रदाय (हविषा) तदाज्ञायो-
गाभ्यासधारणेन (विधेम) सेवेमहि ॥ २६ ॥

अन्वयः—यो महिना दक्षं दधाना यज्ञं जनयन्तीरापः सन्नि ताः प-
र्यपश्यद्यो देवेष्वेकोऽधि आसीत्कस्मै चित् कस्मै देवाय वयं हविषा
विधेम ॥ २६ ॥

भावार्थः—हे अनुष्ठा ये भवन्तः सर्वस्य द्रष्टारं धर्तारमद्वितीयमधिष्ठा-
तारं परमात्मानं ज्ञातुं योगं निरत्यसम्भ्यस्यन्ति त आनन्दिता भवन्ति ॥ २६ ॥

पदार्थः—(यः) जो परमेश्वर (महिना) अपने व्यापकपत्र के सहिमा
से (दक्षम्) बल की (दधानाः) धारण करती (यज्ञम्) सङ्गत संसार की
(जनयन्तीः) उत्पन्न करती हुई (आपः) व्याप्ति शील सूक्ष्म जल की
मात्रा हैं उन को (पर्यपश्यत्) सब ओर से देखता है (यः) जो ईश्वर (दे-
वेषु) उच्च गुण वाले प्रकृति आदि और जीवों में (एकः) एक (अधि, देवः)

उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाला (आशीत्) हे उस (चत्) ही (कर्मै)
सुखस्व रूप (देवाय) सब सुखों के दाता ईश्वर की हम लंग (हविया) आ-
ज्ञा पालन और योगाभ्यास के धारण से (यिधेम) सेवा करें ॥ २६ ॥

भावार्थ:-हे मनुष्यो ! जो आप लोग सब के द्रष्टा धर्ता कर्ता अद्वितीय अ-
धिष्ठाता परमात्मा के जानने को नित्य योगाभ्यास करते हैं वे आनन्दित होते हैं। २६॥

प्रयाभिरित्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । वायुर्देवता !

स्त्रराट् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्त्ररः ॥

विदुषा कथं भवितव्यमिष्याह ॥

विद्वान् को कैसा होना चाहिये इस वि० ॥

प्रयाभिर्यासि दाश्वांसम् अच्छानियुद्धिर्वायवि-
ष्टये दुरोगे । नि नो रयिं सुभोजसं युवस्व
नि वीरं गव्यमश्व्यं च राधः ॥ २७ ॥

प्र । याभिः । यासि । दाश्वांसम् । अच्छ । नियु-
द्धिरिति नियुत्सभिः । वायोइति वायो । इष्टये । दु-
रोगे । नि । नः । रयिम् । सुभोजसमिति सुभोजसम् ।
युवस्व । नि । वीरम् । गव्यम् । अश्व्यम् । च । राधः ॥ २७ ॥

पदार्थः-(प्र) (याभिः) कमनीयाभिः (यासि) प्रा-
प्नोषि (दाश्वांसम्) सुखस्य दातारम् (अच्छ) अत्र
निपातस्य चेति दीर्घः (नियुद्धिः) नियतैर्गुणैः (वायो)
वायुरिव वर्तमान (इष्टये) अभीष्टसुखाय (दुरौणे)
गृहे (नि) नितराम् (नः) अस्माकम् (रयिम्)
धनम् (सुभोजसम्) सुष्ठु भोजांसि भोजनानि यस्मात्तम्

(युवस्व) मिश्रयस्व (नि) (वीरम्) प्राप्तविज्ञ नादिगुणम्
(गव्यम्) गोभ्यो हितम् (अश्वयम्) अश्वेभ्यो हितम् (च)
(राधः) धनम् ॥ २७ ॥

अन्वयः—हे विद्वन् वायो वायुरिव त्वं प्रयाभिर्नियुद्भिरिष्टयेऽच्छ यासि
दुरीणे नः सुभोजसं दाश्वंसं रयिं नियुवस्व वीरं गव्यमश्वयं च राधो नि
युवस्व ॥ २७ ॥

भावार्थः— अत्र वाचकलु०—यथा वायुः सर्वाणि जीवनादीनीष्टानि
कर्माणि साधोति तथा विद्वानस्मिन् संसारे वर्त्तत ॥ २७ ॥

पदार्थः— हे (वायो) विद्वन् वायु के समान वर्त्तमान आप (प्र, या-
भिः) अच्छे प्रकार चाहने योग्य (नियुद्भिः) नियत गुणों से (इष्टये)
अभीष्ट सुख के अर्थ (अच्छ, यासि) अच्छे प्रकार प्राप्त होते ही (दुरीणे)
घर में (नः) हमारे (सुभोजसम्) सुन्दर भोगने के हेतु (दाश्वंसम्)
सुख के दाता (रयिम्) धन को (नि, युवस्व) निरन्तर मिश्रित कीजिये
(वीरम्) विज्ञानादि गुणों को प्राप्त (गव्यम् गौ के हितकारी (च)
तथा (अश्वयम्) घोड़े के लिये हितैषी (राधः) धन को (नि) निरन्तर
प्राप्त कीजिये ॥ २७ ॥

भावार्थः— हम में वाचकलु०—जैसे वायु सब जीवन आदि इष्ट कर्मों को सिद्ध
करता है वैसे विद्वान् पुरुष इस संसार में वर्त्त ॥ २७ ॥

आ न इत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । वायुर्देवता ।

त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयपाह ॥

फिर उसी वि० ॥

आ नो नियुद्भिः शतिनीभिरध्वर * संहस्त्रि-
णीभिरुप याहि यज्ञम् । वायो अस्मिन्त्सर्वनेः
मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ २८ ॥

आ । नः । नियुद्धिरिति नियुत्सभिः । शतिनीभिः ।
 अध्वरम् । सहस्रिणीभिः । उप । याहि । यज्ञम् ।
 वायो इति वायो । अस्मिन् । सर्वने । मादयस्व ।
 यूयम् । पात । स्वस्तिभिरिति स्वस्तिभिः । सदा ।
 नः ॥ २८ ॥

पदार्थः—(आ) (नः) अस्माकम् (नियुद्धिः) निश्चि-
 तैर्मिश्रणामिश्रणैर्गमनागमनैः (शतिनीभिः) शतं बहूनि
 कर्माणि विद्वन्ते यासु ताभिः (अध्वरम्) अहिंसनी-
 यम् (सहस्रिणीभिः) सहस्राण्यसंख्या वेगा विद्वन्ते
 यासु गतिषु ताभिः (उप) (याहि) प्राप्नुहि (यज्ञम्)
 सङ्गन्तव्यं व्यवहारम् (वायो) वायुरिव बलवान् विद्वन् !
 (अस्मिन्) (सर्वने) उत्पत्यधिकरणे जगति (मादय-
 स्व) आनन्दयस्व (यूयम्) (पात) रक्षत (स्वस्तिभिः)
 सुखैः सह (सदा) सर्वस्मिन् काले (नः) अस्मान् ॥ २८ ॥

अन्वयः—हे वायो यथानि वायुर्वद्भुद्भिश्शतिनीभिः सहस्रिणीभिर्गतिभि
 रस्मिन्सर्वने नोऽध्वरं यज्ञमुपगच्छति तथा त्वमेतमायाहि मादयस्व । हे द्विद्वां-
 सो यूयमेतद्दिद्यथा स्वस्तिभिर्नः सदा पात ॥ २८ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलुप-द्विद्वांसो यथा वायवो विविधाभिर्गतिभिः
 सर्वान् पुष्पन्ति तथैव सुशिक्षया सर्वान् पोषयन्तु ॥ २८ ॥

पदार्थः—हे (वायो) वायु के तुल्य बलवान् विद्वन् ! जैसे वायु (नियु-
 द्धिः) निश्चित सिली वा पृथक् जाने आने रूप (शतिनीभिः) बहुत कर्मा
 वाली (सहस्रिणीभिः) बहुत वेगों वाली गतियों से (अस्मिन्) इस (सर्वने) उत्पत्ति

के आधार जगत् में (नः) हमारे (अध्वरम्) न बिगाड़ने योग्य (यज्ञम्) सङ्गति के योग्य व्यवहार को (उप) निकट प्राप्त होता है जैसे आप (आ-याहि) अच्छे प्रकार प्राप्त हुईये (मादयस्व) और आनन्दित कीजिये। हे विद्वानो ! (यूथन्) आप लोग इस विद्या से (स्वस्तिभिः) सुखों के साथ (नः) हम लोगों को (सदा) सब काल में (पात) रक्षा कीजिये ॥ २८ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—विद्वान् लोग, जैसे वायु विविध प्रकार की चालों से सब पदार्थों को पुष्ट करते हैं वैसे ही अच्छी शिक्षा से सब को पुष्ट करें ॥ २८ ॥

नियुत्वानित्यस्य गृत्समद् ऋषिः । वायुर्देवता ।

निचृद् गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ।

अथेश्वरः कीदृश इत्याह ॥

अव ईश्वर कैसा है इस वि० ॥

नियुत्वान् वायुवा गह्ययथ् शुक्रो अयामि ते ।
गन्तासि सुन्वतो गृहम् ॥ २९ ॥

नियुत्वान् । वायोऽइति वायो । आ । गहि । अयम् ।
शुक्रः । अयामि । ते । गन्ता । असि । सुन्वतः । गृहम् ॥ ३९ ॥

पदार्थः—(नियुत्वान्) नियन्ता (वायो) पवन इव
(आ) (गहि) समन्तात् प्राप्नुहि (अयम्) (शुक्रः) प-
वित्रकर्त्ता (अयामि) प्राप्नोमि (ते) तव (गन्ता)
(असि) (सुन्वतः) अभिषवं कुर्वतः (गृहम्) ॥ २९ ॥

अन्वयः—हे वायो नियुत्वानीश्वरस्त्वं यथाऽयं शुक्रो गन्ता वायुः
सुन्वतो गृहं गच्छति तथा मामा गहि । यतस्त्वमीश्वरोऽसि तस्मात्ते स्वर-
रूपमहमयामि ॥ २९ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—यथा वायुः सर्वशोधकः सर्वत्र गन्ता सर्वं प्रियोजस्ति तथेश्वरोऽपि वर्त्तते ॥ २९ ॥

पदार्थः—हे (वायो) वायु के तुल्य शीघ्रगन्ता (नियुत्वान्) नियमकर्ता ईश्वर आप जैसे (अयम्) यह शुक्रः) पवित्रकर्ता (गन्ता) गमनशील वायु (सुन्वतः) रस खींचने वाले के (गृहम्) घर को प्राप्त होता है वैसे सुक्र को (आ, गहि) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये जिम से आप ईश्वर (असि) हैं इस से (ते) आप के स्वरूप को मैं (अयामि) प्राप्त होता हूँ ॥२९॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे वायु सब को शोधने और सर्वत्र पहुंचने वाला तथा सब को प्राण से भी प्यारा है वैसे ईश्वर भी है ॥२९॥

वायो शुक्रइत्यस्य पुरुमीढ ऋपिः । वायुर्देवता ।

अनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनर्मनुष्येण किं कार्यमित्याह ॥

फिर मनुष्य को क्या करना चाहिये इस वि० ॥

वायो शुक्रोऽत्रयामि ते मध्वोऽत्रग्रं दिवि-
ष्टिषु । आ याहि सोमपीतये स्पार्हो देव नियु-
त्वता ॥ ३० ॥

वायोऽइति वायो । शुक्रः ! अयामि । ते । मध्वः ।
अग्रम् । दिविष्टिषु । आ । याहि । सोमपीतय इति
सोमऽपीतये । स्पार्हः । देव । नियुत्वता ॥ ३० ॥

पदार्थः—(वायो) वायुरिव वर्त्तमान (शुक्रः) शुद्धि-
करः (अयामि) प्राप्नोमि (ते) तव (मध्वः) मधु-
रस्य (अग्रम्) उत्तमं भागम् (दिविष्टिषु) दिव्यासु
सङ्गतिषु (आ, याहि) (सोमपीतये) सद्यौषधिरसपा-
नाय (स्पार्हः) यः स्पृहयति तस्याऽयम् (देव) दिव्य-
गुणसम्पन्न (नियुत्वता) वायुना सह ॥ ३० ॥

अन्वयः—हे वायो यो वायुरिव शुक्रस्त्वससि ते सध्वोऽग्रं दिविष्टिष्वह-
मयानि । हे देव स्पार्हस्त्यं नियुत्वता सह सोमपीतये आयाहि ॥ ३० ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—हे मनुष्या यथा वायुः सर्वान् रसगन्धादीन् पी-
त्वा सर्वान् पोषयति तथा त्वां सर्वान् पुषाण ॥ ३० ॥

पदार्थः—हे (वायो) जो वायु के समान वर्तमान विद्वान् (शुक्रः) शुद्धि-
कारक आप हैं (ते) आप के (सध्वः) मधुर अन्न के (अग्रम्) उत्तम भागको
(दिविष्टियु) उत्तम संगतियों में मैं (अयानि) प्राप्त होता हूँ हे (देव) उ-
त्तम गुणयुक्त विद्वान् पुरुष (स्पार्हः) उत्तम गुणों की अभिलाषा से युक्त के
पुत्र आप (नियुत्वता) वायु के साथ (सोमपीतये) उत्तम ओषधियों का रस
पीने के लिये (आ, याहि) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये ॥ ३० ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जैसे वायु सब रस और गन्ध आदि
को पीके सब को पुष्ट करता है वैसे तू भी सब को पुष्ट किया कर ॥ ३० ॥

वायु रित्यस्याजसीढ ऋषिः । वायुर्देवता ।

गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

अथ विद्वद्भिः किं कार्यमित्याह ॥

अथ विद्वानों को क्या करना चाहिये इस वि० ॥

वायुरग्रेगा यज्ञप्रीः साकं गन्मनसा यज्ञम् ।
शिवो नियुद्धिः शिवाभिः ॥ ३१ ॥

वायुः । अग्रेगाऽ इत्यग्रेऽगाः । यज्ञप्रीरिति यज्ञऽप्रीः ।
साकम् । गन् । मनसा । यज्ञम् । शिवः । नियुद्धिरिति
नियुत्सभिः । शिवाभिः ॥ ३१ ॥

पदार्थः—(वायुः) पवनः (अग्नेगाः) योऽग्रे गच्छति
 सः (यज्ञप्रीः) यो यज्ञं प्राति पूरयति सः (साकम्)
 सह (गन्) गच्छति (मनसा) (यज्ञम्) (शिवः)
 मङ्गलमयः (नियुद्धिः) निश्चिताभिः क्रियाभिः (शि-
 वाभिः) मङ्गलकारिणीभिः ॥ ३१ ॥

अन्वयः—हे विद्वन् यथा वायुर्नियुद्धिः शिवाभिर्यज्ञं गन् तथा शिवोऽग्नेगा
 यज्ञप्रीः संस्त्वं मनसा साकं यज्ञमायाहि ॥ ३१ ॥

भावाः—अत्र वाचकलु०—अत्रायाहीति पदं पूर्वमन्त्रादनुवर्त्तते । यथा
 वायुरनेकैः पदार्थैस्सह गच्छत्यागच्छति तथा विद्वांसो धर्म्याणि कर्माणि विज्ञा-
 नेन प्राप्नुवन्तु ॥ ३१ ॥

पदार्थः—हे विद्वन् ! जैसे (वायुः) पवन (नियुद्धिः) निश्चित् (शिवाभिः)
 मंगलकारक क्रियाओं से (यज्ञम्) यज्ञ को (गन्) प्राप्त होता है वैसे (शिवः) मङ्-
 गलस्वरूप (अग्नेगाः) अग्रगामी (यज्ञप्रीः) यज्ञ को पूर्ण करने द्वारे हुए आप
 (मनसा) मन की वृत्ति के (साकम्) साथ यज्ञ को प्राप्त हूजिये ॥ ३१ ॥

भावाः—इस मन्त्र में वाचकलु०—इस मन्त्र में (आ, याहि) इस पद की अ-
 नुवृत्ति पूर्व मन्त्र से आती है । जैसे वायु अनेक पदार्थों के साथ जाता आता है वैसे
 विद्वान् लोग धर्मयुक्त कर्मों को विज्ञान से प्राप्त हों ॥ ३१ ॥

वाय इत्यस्य गृत्समद ऋषिः । वायुर्देवता ।

गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

वायो ये ते सहस्रिणो रथासस्तेभिरा गहि ।
 नियुत्वान्तसोमपीतये ॥ ३२ ॥

वायो इति वायो । ये । ते । सहस्रिणाः । रथासः ।
तेभिः । आ । गृहि । नियुत्वान् । सोमपीतय इति
सोमपीतये ॥ ३२ ॥

पदार्थः—(वायो) पवनवद्वर्त्तमान (ये) (ते)
तव (सहस्रिणः) प्रशस्ताः सहस्रं जना विद्यन्ते येषु ते
(रथासः) रमणीयानि यानानि (तेभिः) तैः (आ)
(गृहि) प्राप्नुहि (नियुत्वान्) समर्थः सन् (सोमपीतये)
सोमस्य पानाय ॥ ३२ ॥

अन्वयः—हे वायो वायुरिव वर्त्तमान विद्वन् । ये ते सहस्रिणी रथासः
सन्ति तेभिः सह नियुत्वात्संस्त्वं सोमपीतय आ गृहि ॥ ३२ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—हे मनुष्या यथा वायोऽसंख्य रमणीया ग-
तयः सन्ति तथा विविधाभिर्गतिभिः समर्था भूवैश्वर्यं भुङ्गध्वम् ॥ ३२ ॥

पदार्थः—हे (वायो) पवन के तुल्य वर्त्तमान विद्वन् । (ये) जो (ते)
आप के (सहस्रिणः) प्रशस्त सहस्रों मनुष्यों से युक्त (रथासः) सुन्दर
आराम देने वाले यान हैं (तेभिः) उन के सहित (नियुत्वान्) समर्थ हुए
आप (सोमपीतये) सोम ओषधि का रस पीने के लिये (आ, गृहि) आ-
इये ॥ ३२ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो । जैसे वायु की असंख्य रमण कर
योग्य गति हैं वैसे अनेक प्रकार की गतियों से समर्थ होके ऐश्वर्य को भोगो ॥ ३२ ॥

एकयेत्यस्य गृत्समद ऋषिः । वायुर्देवता ।

निचृत्त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनस्तमेवविषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

एकया च दशभिश्च स्वभूते द्वाभ्यामिष्टयै
विंशती च । तिसृभिश्च वहसे त्रिंशता च
नियुद्धिर्वायविह ता वि मुञ्च ॥ ३३ ॥

एकया । च । दशभिरिति दशऽभिः । च । स्वभूत-
 ऽइति स्वऽभूते । द्वाभ्याम् । इष्टये । विंशती । च ।
 तिसृभिरिति तिसृऽभिः । च । वहसे । त्रिंशता । च ।
 नियुद्धिरिति नियुत्ऽभिः । वायो इति वायो । इह ।
 ता । वि । मुञ्च ॥ ३३ ॥

पदार्थः—(एकया) गत्या (च) (दशभिः) दश-
 विधाभिर्गतिभिः (च) (स्वभूते) स्वकीयैश्वर्य (द्वा-
 भ्याम्) विद्यापुरुषार्थाभ्याम् (इष्टये) विद्यासङ्गतये
 (विंशती) चत्वारिंशत् (च) (तिसृभिः) (च) (व-
 हसे) प्राप्नोषि (त्रिंशता) एतत्संख्याकैः (च) (नियु-
 द्धिः) (वायो) (इह) (ता) तानि (वि, मुञ्च) विशे-
 षेण त्यज ॥ ३३ ॥

अन्वयः—हे स्वभूते वायो ! यथा पवन इहेष्टये एकया च दशभिश्च द्वाभ्या-
 मिष्टये विंशती च तिसृभिश्च त्रिंशता च नियुद्धिः सह यज्ञं वहति तथा वहसे स
 त्वं ता वि मुञ्च ॥ ३३ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—यथा वायुरिन्द्रियैः प्राणैरनेकाभिर्गतिभिः
 पृथिव्यादिलोकैश्च सह सर्वस्येष्टं साधनोति तथा विद्वांसोऽपि साधुषुः ॥ ३३ ॥

पदार्थः—हे (स्वभूते) अपने ऐश्वर्य से शोभायमान (वायो) वायु के तु-
 ल्य अर्थात् जैसे पवन (इह) इस जगत् में सङ्गति के लिये (एकया) एक
 प्रकार की गति (च) और (दशभिः) दशविध गतियों (च) और (द्वा-
 भ्याम्) विद्या और पुरुषार्थ से (इष्टये) विद्या की सङ्गति के लिये (विंशती)
 दो बीसी (च) और (तिसृभिः) तीन प्रकार की गतियों से (च) और (त्रिंशता)

तीस (च) और (नियुक्तिः) निश्चित नियमों के साथ यज्ञ को प्राप्त होता जैसे (वहसे) प्राप्त होते सो आप (ता) उन सब को (वि, मुञ्च) विशेष कर छोड़िये अर्थात् उन का उपदेश कीजिये ॥ ३३ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे वायु इन्द्रिय प्राण और अनेक गतियों और पृथिव्यादि लोकों के साथ सब के इष्ट को सिद्ध करता है वैसे विद्वान् भी सिद्ध करें ॥ ३३ ॥

तववाय इत्यस्याऽङ्गिरस ऋषिः । वायुर्देवता ।

अचृद् गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

अथ किंवद्वायुः स्वीकर्तव्य इत्याह ॥

अब किसके तुल्य वायु का स्वीकार करें इस वि० ॥

तव वायवृतस्पते त्वष्टृर्जामातरद्भुत । अवाध्रस्य
वृणीमहे ॥ ३४ ॥

तव । वायोऽङ्गिति वायो । ऋतस्पते । ऋतपतऽ इत्यृ-
तऽपते । त्वष्टुः । जामातः । अद्भुत । अवाध्रसि । आ ।
वृणीमहे ॥ ३४ ॥

पदार्थः—(तव) (वायो) बहुधल (ऋतस्पते) स-
त्यपालक (त्वष्टुः) विद्वया प्रदीप्तस्य (जामातः) कन्या-
पतिवद्वर्त्तमान (अद्भुत) आश्चर्यकर्मन् (अवांसि) रक्ष-
णादीनि (आ) (वृणीमहे) स्वीकुर्महे ॥ ३४ ॥

अन्वयः—हे ऋतस्पते जामातरद्भुत वायो वयं यानि त्वष्टुस्तवाऽवां-
स्या वृणीमहे तानि त्वमपि स्वीकुरु ॥ ३४ ॥

भावार्थः—यथा ज्ञानाताऽऽश्चर्यगुणः सत्यसेवकः स्वीकर्त्तव्योऽस्ति तथा वायुरपि वरणीयोऽस्ति ॥ ३४ ॥

पदार्थ—हे (ऋतस्पते) सत्य के रक्षक (ज्ञानातः) जमाई के तुल्य वर्त्मान (अद्भुत) आश्चर्यरूप कर्म करने वाले (वायो) बहुत बलयुक्त विद्वन् हम लोग जो (त्वष्टुः) विद्या से प्रकाशित (तव) आप के (अवांसि) रक्षा आदि कर्मों का (आ, वृणीमहे) स्वीकार करते हैं उन का आप भी स्वीकार करो ॥ ३४ ॥

भावार्थः—जैसे जमाई उत्तम आश्चर्य गुणों वाला सत्य ईश्वर का सेवक हुआ स्वीकार के योग्य होता है वैसे वायु भी स्वीकार करने योग्य है ॥ ३४ ॥

अभि त्वेत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । वायुर्देवता ।

स्वराडनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

अथ राजधर्मनाह ॥

अब राजधर्म विषय अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

अभि त्वां शूर नोनुमोऽदुग्धाइव धेनवः ।
ईशानमस्य जगतः स्वर्दृशमीशानामिन्द्र त-
स्थुषः ॥ ३५ ॥

अभि । त्वा । शूर । नोनुमः । अदुग्धाइवेत्यदुग्धाः-
इव । धेनवः । ईशानम् । अस्य । जगतः । स्वर्दृशमिति
स्वःऽदृशम् । ईशानम् । इन्द्र । तस्थुषः ॥ ३५ ॥

पदार्थः—(अभि) (त्वा) त्वाम् (शूर) निर्भय (नोनुमः)
भृशं सत्कुर्याम प्रशंसेम (अदुग्धाइव) अविद्यमानपयसइव
(धेनवः) गावः (ईशानम्) ईशानशीलम् (अस्य) जगतः

जङ्गमस्य (स्वर्दृशम्) सुखेन द्रष्टुं योग्यम् (ईशानम्)
(इन्द्र) सभेश (तस्थुषः) स्यावरस्य ॥ ३५ ॥

अन्वयः—हे शूरेन्द्र धेनवोऽदुग्धाइव वयमस्य जगतस्तस्थुष ईशानं स्वर्दृशमिवेशानं त्वाऽभिनोनुमः ॥ ३५ ॥

भावार्थः—अत्रोपमालं०—हे राजन्! यदि भवान् पक्षपातं विहायेश्वरवन्न्यायाधीशो भवेद्यदि कदाचिद्व्यं कर्मपि न दद्याम तथाऽप्यस्मान् रक्षेत्तर्हि तद्वन्तुकूला वयं सदा भवेम ॥ ३५ ॥

पदार्थः—हे (शूर) निभय (इन्द्र) सभापते (अदुग्धाइव) विना दूध की (धेनवः) गौओं के समान हमलोग (अस्य) इस (जगतः) चर तथा (तस्थुषः) अचर संसार के (ईशानम्) नियन्ता (स्वर्दृशम्) सुखपूर्वक देखने योग्य ईश्वर के तुल्य (ईशानम्) समर्थ (त्वा) आप को (अभि, नोनुमः) सन्मुख से सत्कार वा प्रशंसा करें ॥ ३५ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—हे राजन्! जो आप पक्षपात छोड़ के ईश्वर के तुल्य न्यायाधीश हों जो कदाचित् हम लोग कर भी न दें तो भी हमारी रक्षा करें तो आप के अनुकूल हम सदा रहें ॥ ३५ ॥

न त्वावानित्यस्य शम्युवार्हस्पत्य ऋषिः । परमेश्वरो देवता ।

स्वराट् पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

ईश्वर एवोपासनीय इत्याह ॥

ईश्वर ही उपासना करने योग्य है इस वि० ॥

न त्वावाँ २ ॥५ अन्यो दिव्यो न पार्थिवोन
जातो न जनिष्यते । अश्वायन्तो मघमन्निन्द्र
वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ ३६ ॥

न । त्वावानिति त्वाऽवान् । अन्यः । दिव्यः । न ।
 पार्थिवः । न । जात । न । जनिष्यते । अश्वायन्तः ।
 अश्वायन्त इत्यश्वायन्त । मघवन्निति मघऽवन् । इन्द्र ।
 वाजिनः । गव्यन्तः । त्वा । हवामहे ॥ ३३ ॥

पदार्थः—(न) (त्वावान्) त्वत्सदृशः (अन्यः) भिन्नः
 (दिव्यः) शुद्धः (न) (पार्थिवः) पृथिव्या विदितः (न)
 (जातः) उत्पन्नः (न) (जनिष्यते) उत्पत्स्यते (अश्वा-
 यन्तः) आत्मनोऽश्वमिच्छन्तः (मघवन्) परमपूजितैश्वर्य
 (इन्द्र) सर्वदुःखविदारक (वाजिनः) वेगवन्तः (गव्य-
 न्तः) गां वाणीं चक्षाणाः (त्वा) (हवामहे) स्तुवीमः ॥३६॥

अन्वयः—हे मघवन्निन्देश्वर वाजिनो गव्यन्तोऽश्वायन्तो वयं त्वा हवामहे
 यतः कार्श्चिदन्यः पदार्थो न त्वावान् दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते
 तस्माद्भवानेवाऽस्माकमुपास्यो देवोऽस्ति ॥ ३६ ॥

भावार्थः—न कोपि परमेश्वरेण सदृशः शुद्धो जातो वा जनिष्यमाणो वर्तमानो
 वाऽस्ति । अतएव सर्वैर्मनुष्यैरेतं विहायान्यस्य कस्याप्युपासनाऽस्य स्थाने नैव
 कार्या । इदमेव कर्महाऽमुत्र चानन्दप्रदं विज्ञेयम् ॥ ३६ ॥

पदार्थः—हे (मघवन्) पूजित उत्तम ऐश्वर्य से युक्त (इन्द्र) सब दुःखों के
 विनाशक परमेश्वर ! (वाजिनः) वेगवाले (गव्यन्तः) उत्तम वाणी बोलते
 हुए (अश्वायन्तः) अपने को शीघ्रता चाहते हुए हम लोग (त्वा) आप की
 (हवामहे) स्तुति करते हैं क्योंकि जिस कारण कोई (अन्यः) अन्य पदार्थ

(त्वावान्) आप के तुल्य (दिव्यः) शुद्ध (न) न कोई (पार्थिवः) पृथि-
वी पर प्रसिद्ध (न) न कोई (जातः) उत्पन्न हुआ और (न) न (जनि-
ष्यते) होगा इस से आपही हमारे उपास्य देव हैं ॥ ३६ ॥

भावार्थः—न कोई परमेश्वर के तुल्य शुद्ध हुआ, न होगा और न है इसी से सबम-
नुष्यों को चाहिये की इस को छोड़ अन्य किसी की उपासना इस के स्थान में कदापि-
न करें यही कर्म इस लोक परलोक में आनन्ददायक जावे ॥ ३६ ॥

त्वामिदित्यस्य शश्युर्बाह्वरूपस्य ऋषिः । इन्द्रो देवता ।

निषेदनुष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनाराजधर्मविषयमाह ॥

फिर राज धर्म विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥

त्वामिद्धि हवामहे सातौ वाजस्य कारवः ।
त्वांवृत्रेष्विन्द्र सत्पतिं नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः ॥ ३७ ॥

त्वाम् । इत् । हि । हवामहे । सातौ । वाजस्य ।
कारवः । त्वाम् । वृत्रेषु । इन्द्र । सत्पतिमिति सत्-
पतिम् । नरः । त्वाम् । काष्ठासु । अर्वतः ॥ ३७ ॥

पदार्थः—(त्वाम्) (इत्) एव (हि) (हवामहे) गृ-
ह्णीमः (सातौ) सङ्ग्रामे (वाजस्य) विद्याविज्ञानज-
न्यस्य कार्यस्य (कारवः) कर्तारः (त्वाम्) (वृत्रेषु)
घनेषु (इन्द्र) सूर्यइन्द्र जगत्पालक (सत्पतिम्) सत्यस्य
प्रचारेण पालकम् (नरः) नेतारः (त्वाम्) (काष्ठा-
सु) दिक्षु (अर्वतः) आशुगामिनोऽश्वस्येव ॥ ३७ ॥

अन्वयः—हे इन्द्र वाजस्य हि कारवो नरो वयं साती त्वां वृत्रेषु सूर्य-
निव सत्पतिं त्वामर्षत इव सेनायां पश्येम काष्ठासु त्वामिदृशामहे ॥ ३७ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—हे सेनासभेशी युवां सूर्यावन्न्यायाभयप्रका-
शकौ शिल्पिनां सद्गृहीतारौ सत्यस्य प्रचारकौ भवेः ॥ ३७ ॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) सूर्य के तुल्य जगत् के रक्षक राजन् ! (वाजस्य) वि-
द्या वा विज्ञान से हुए कार्य के (हि) द्यौ (कारवः) करने वाले (नरः)
नायक हम लोग (साती) रक्ष में (त्वाम्) आप को जैसे (वृत्रेषु) मेघों में
सूर्य को वैसे (सत्पतिम्) सत्य के प्रचार से रक्षक (त्वाम्) आप को अर्ष-
तः) शीघ्रगामी घोड़े के तुल्य सेना में देखें (काष्ठासु) दिशाओं में (त्वा-
म्) आप को (इत्) ही (इवामहे) ग्रहण करें ॥ ३७ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे सेना और सभा के पति ! तुम दोनों सूर्य
के तुल्य न्याय और अभय के प्रकाशक शिल्पियों का संग्रह करने और सत्य के
प्रचार करने वाले होओ ॥ ३७ ॥

स रघमित्यस्य शम्भुवार्हस्पत्य ऋषिः । इन्द्रो देवता ।

स्वराद्बृहती छन्दः । निषादः स्वरः ॥

विद्वान् किं करोतीत्याह ॥

विद्वान् क्या करता है इस वि० ॥

स त्वं नश्चित वज्रहस्त धृष्णुया महस्तवा-
नोऽत्रद्रिवः । गामश्वंश्चरथ्यमिन्द्र संकिर सत्रा
वाजं न जिग्युषे ॥ ३८ ॥

सः । त्वम् । नः । चित्र । वज्रहस्तेति वज्रहस्त ।
धृष्णुयेति धृष्णुया । महः । स्तवानः । अद्रिवइत्यद्रिः-
वः । गाम् । अश्वम् । रथ्यम् । इन्द्र । सम् । किर ।
सत्रा । वाजम् । न । जिग्युषे ॥ ३८ ॥

पदार्थः—(सः) पूर्वोक्तः (त्वम्) (नः) अस्मभ्यम्
(चित्र) आश्चर्यस्वरूप (वज्रहस्त) (धृष्णुया) प्रग-
ल्भतया (महः) महत् (स्तवानः) स्तुवन् (अद्रिवः)
प्रशस्ताश्ममयवस्तुयुक्त (गाम्) वृषभम् (अश्वम्) (र-
थ्यम्) रथस्य वीठारम् (इन्द्र) (सम्) (किर) प्रापय
(सत्रा) सत्यम् (वाजम्) विज्ञानम् (न) इव (जि-
ग्युषे) जयशीलाय ॥ ३८ ॥

अन्वयः—हे चित्र वज्रहस्ताद्रिवइन्द्रधृष्णुया महः स्तवानः स त्वं जिग्युषे नः
सत्रा वाजं न गां रथ्यमश्वं संकिर ॥ ३८ ॥

भाष्यार्थः—अत्रोपमालं०—यथा मेघसम्बन्धी सूर्यो वृष्ट्या सर्वान् सम्बध्नाति
तथा विद्वान् सत्यविज्ञानेन सर्वैश्वर्यं प्रकाशयति ॥ ३८ ॥

पदार्थः—हे (चित्र) आश्चर्यस्वरूप (वज्रहस्त) वज्र हाथ में लिये (अ-
द्रिवः) प्रशस्त पत्थर के बने हुए वस्तुओं वाले (इन्द्र) शत्रुनाशक विद्वान् (धृ-
ष्णुया) द्दीठता से (महः) बहुत (स्तवानः) स्तुति करते हुए (सः) सो
पूर्वोक्त (त्वम्) आप (जिग्युषे) जय करने वाले पुरुष के लिये तथा (नः)
हमारे लिये (सत्रा) सत्य (वाजम्) विज्ञान के (न) तुल्य (गाम्) बैल
तथा (रथ्यम्) रथ के योग्य (अश्वम्) घोड़े को (सं-किर) सम्यक् प्राप्त
कीजिये ॥ ३८ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जैसे मेघसम्बन्धी सूर्य वर्षा से सब को सम्बद्ध करता है वैसे विद्वान् सत्य के विज्ञानसे सबके ऐश्वर्य को प्रकाशित करता है ॥३८॥

कयान इत्यस्य वानदेवत्रविः । अग्निदेवता ।

गायत्रीछन्दः । षड्जः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०।

कया नश्चित्रा भुवदूती सदावृधः सर्वा ।
कया शचिष्ठया वृता ॥ ३६ ॥

कया । नः । चित्रः । आ । भुवत् । ऊती । सदा-
वृधइति सदाऽवृधः । सर्वा । कया । शचिष्ठया ।
वृता ॥ ३९ ॥

पदार्थः--(कया) (नः) अस्मान् (चित्रः) अद्भुतः
(आ, भुवत्) भवेत् (ऊती) रक्षणादिक्रियया । अत्र
सुपामितिपूर्वसवर्णादेशः (सदावृधः) यः सदा वर्धते त-
स्य (सर्वा) (कया) (शचिष्ठया) अतिशयितया क्रि-
यया (वृता) या वर्त्तते तथा ॥ ३९ ॥

अन्वयः—हे विद्वन् ! चित्रः सदावृधः सर्वाऽऽभुवत्कयोती नो रजेः कया शचि-
ष्ठया वृताऽऽस्मान्नियोजयेः ॥ ३९ ॥

भावार्थः—योऽद्भुतगुणकर्मस्वभावो विद्वान् सर्वस्य मित्रं भूत्वा कुकर्माणि नि-
वर्त्य सुकर्मभिरस्मान् योजयेत्सोऽस्माभिः सत्कर्त्तव्यः ॥ ३६ ॥

पदार्थः—हे विद्वन् पुरुष ! (चित्रः) आश्चर्य कर्म करने हारे (सदावृधः) जो सदा बढ़ता है उस के (सखा) मित्र (आ, भुवत्) हूजिये (कया) किसी (जती) रक्षणादिक्रिया से (नः) हमारी रक्षा कीजिये (कया) किसी (शचिष्ठया) अत्यन्त निकट सम्बन्धिनी (वृता) वर्तमान क्रिया से हम को युक्त कीजिये ॥ ३९ ॥

भावार्थः— जो आश्चर्य गुण कर्म स्वभाव वाला विद्वान् सब का मित्र हो और कुकर्मों की निवृत्ति करके उत्तम कर्मों से हम को युक्त करे उसका हमको सत्कार करना चाहिये ॥ ३९ ॥

कस्त्वेत्यस्य वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता ।

निचृद्गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

कस्त्वा सत्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्ध-
सः । दृढा चिदारुजे वसु ॥ ४० ॥

कः । त्वा । सत्यः । मदानाम् । मंहिष्ठः । म-
त्सत् । अन्धसः । दृढा । चित् । आरुज्इत्याऽरुजे ।
वसु ॥ ४० ॥

पदार्थः— (कः) सुखप्रदः (त्वा) त्वाम् (सत्यः) सत्सु साधुः
(मदानाम्) हर्षाणाम् (मंहिष्ठः) अतिशयेन महावयुक्तः
(मत्सन्) आनन्दयेत् (अन्धसः) अन्नात् (दृढा) दृढानि
(चित्) इव (आरुजे) समन्ताद्रोगाय (वसू) वसूनि
द्रव्याणि । अत्रसुपं सुलुगिति जसो लुक् ॥ ४० ॥

अन्वयः—हे विद्वन् ! यः कः सत्यो मंहिष्ठो विद्वांस्त्वान्धसो मदानां मध्ये
सत्सदारुजे। औषधानि चिदिव दृढां वसु संचिनुयात्तोऽस्माभिः पूजनीयः ॥४०॥

भावार्थः—अत्रोपमालं०-यः सत्यप्रियआनन्दप्रदो विद्वान् परोपकाराय
रोगनिवारणाऔषधमिव वस्तूनि संचिनुयात्सएव सत्कारमर्हेत् ॥ ४० ॥

पदार्थः—हे विद्वन् ! जो (कः) सुखदाता (सत्यः) श्रेष्ठों में उत्तम
(मंहिष्ठः) अति महत्व युक्त विद्वान् (त्वा) आप को (अन्धसः) अन्न
से हुए (मदानाम्) आनन्दों में (सत्सत्) प्रसन्न करे (आरुजे) अतिरोग
के अर्थ औषधियों की जैसे इकट्ठा करे (चित्) वैसे (दृढा) दृढ़ (वसु)
द्रव्यों का सञ्चय करे सो हम को सत्कार के योग्य होवे ॥ ४० ॥

भावार्थः— इस मन्त्र में उपमालं०—जो सत्य में प्रीति रखने और आनन्द देने
वाला विद्वान् परोपकार के लिये रोगनिवारणार्थ औषधियों के तुल्य वस्तुओं का सञ्चय
करे वही सत्कार के योग्य होवे ॥ ४० ॥

अभीषुण इत्यस्य वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता ।

पादनिचृद्गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

कीदृशा जना धनं लभन्त इत्याह ॥

कैसे जन धन को प्राप्त होते इस वि० ॥

अभी षु णः सखीनामविता जरितृणाम् ।
शतं भ्वास्यूतये ॥ ४१ ॥

अभि । सु । नः । सखीनाम् । अविता । जरितृ-
णाम् । शतम् । भ्वासि । ऊतये ॥ ४१ ॥

पदार्थः—(अभि) सर्वतः । अत्र निपातस्य चेति दीर्घः
(सु) शोभने (नः) अस्माकम् (सखीनाम्) मित्राणा-
म् (अविता) रक्षकः (जरितृणाम्) स्तोतृणाम् (श-
तम्) (भवासि) भवेः (ऊतये) प्रीत्यादाय ॥ ४१ ॥

अन्वयः—हे विद्वन् यस्त्वं नः सखीनां जरितृणां चावितीतये शतं सु-
भवासि सोऽभि पूज्यः स्याः ॥ ४१ ॥

भावार्थः—ये मनुष्याः सुहृदां रक्षका असंख्यसुखप्रदा अनाथानां रक्षणे
प्रयत्नं कृते तेऽसंख्यं धनं लभन्ते ॥ ४१ ॥

पदार्थः—हे विद्वन् ! जो आप (नः) हमारे (सखीनाम्) मित्रों तथा
(जरितृणाम्) स्तुति करने वाले जनों के (अविता) रक्षक (ऊतये) प्रीति
आदि के अर्थ (शतम्) सैकड़ों प्रकार से (सु, भवासि) सुन्दर रीति कर के
हूजिये सो आप (अभि) सब ओर से सत्कार के योग्य हों ॥ ४१ ॥

भावार्थः—जो मनुष्य अपने मित्रों के रक्षक असंख्य प्रकार का सुख देने हारे अ-
नाथों की रक्षा में प्रयत्न करते हैं वे असंख्य धन को प्राप्त होते हैं ॥ ४१ ॥

यज्ञा यज्ञीत्यस्य शंभ्युर्ऋषिः । यज्ञो देवता ।

बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उर्ध्वं वि० ॥

यज्ञायज्ञावोऽअग्नये गिरगिरा च दक्षसे । प्रप्र
वयममृतं जातवेदसंप्रियं मित्रं न शंसिषम् ॥ ४२ ॥

यज्ञायजेति यज्ञायज्ञा । वः । अग्नये । गिरागि-
रेतिगिराऽगिरा । च । दक्षसे । प्रप्रेति प्रप्र । वयम् ।
अमृतम् । जातवेदसमिति जातवेदसम् । प्रियम् ।
मित्रम् । न । शंसिषम् ॥ ४२ ॥

पदार्थः—(यज्ञायज्ञा) यज्ञे यज्ञे । अत्र सुपां सुलुगि-
त्याकारादेशः (वः) युष्मान् (अग्नये) पावकाय (गिः
रागिरां) वाण्यावाण्या (च) (दक्षसे) बलाय (प्र-
प्र) प्रकर्षेण (वयम्) (अमृतम्) नाशरहितम् (जा-
तवेदसम्) जातविज्ञानम् (प्रियम्) प्रीतिविषयम् (मि-
त्रम्) सखायम् (न) इव (शंसिषम्) प्रशंसयेयम् ॥ ४२ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यथाऽहमग्नये गिरागिरा दक्षसे च यज्ञायज्ञा वो
युष्मान् प्रप्रशंसिषम् । वयं जातवेदसमसृतं प्रियं मित्रं न वो यथा—
सेम तथा यूयमप्याचरत ॥ ४२ ॥

भावार्थः—अत्रोपमावाचकलु०—ये मनुष्याः सुशिक्षितया वाक्या यथा
नुष्टाय बलं वर्द्धयित्वा मित्रवद्विदुषः सत्कृत्य संगच्छन्ते ते बहुज्ञा धन्याश्च
जायन्ते ॥ ४२ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे मैं (अग्नये) अग्नि के लिये (च) और
(गिरागिरा) वाणी २ से (दक्षसे) बल के अर्थ (यज्ञायज्ञा) यज्ञ २ में
(वः) तुम लोगों की (प्रप्र, शंसिषम्) प्रशंसा करूँ (वयम्) हम लोग
(जातवेदसम्) ज्ञानी (अमृतम्) आत्मरूप से अविनाशी (प्रियम्) प्रीति
के विषय (मित्रम्) मित्र के (न) तुल्य तुम्हारी प्रशंसा करें वैसे तुम भी
आचरण किया करो ॥ ४२ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलु०—जो मनुष्य उच्चम शिक्षित वाणी से यज्ञों का अनुष्ठान कर बल बढ़ा और मित्रों के समान विद्वानों का सत्कार करके समागम करते हैं वे बहुत ज्ञान वाले धनी होते हैं ॥ ४२ ॥

पाहि न इत्यस्य भार्गवऋषिः । अग्निर्देवता ।

स्वराडनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

आप्ताः किं कुर्युरित्याह ॥

आप्त धर्मात्मा जन क्या करें इस वि० ॥

पाहि नो अग्न एकया पाह्युत द्वितीयया । पा-
हि गीर्भिस्ति सृभिर्ऊर्जा पते पाहि चतसृभि-
र्वसो ॥ ४३ ॥

पाहि । नः । अग्ने । एकया । पाहि । उत । द्वितीयया ।
पाहि । गीर्भिरिति गीऽभिः । तिसृभिरिति तिसृऽभिः ।
ऊर्जाम् । पते । पाहि । चतसृभिरिति चतसृऽभिः
वसो इति वसो ॥ ४३ ॥

पदार्थः—(पाहि) रक्ष (नः) अस्मान् (अग्ने) पा-
वकवद्विद्वन् (एकया) सुशिक्षया (पाहि) (उत) अ-
पि (द्वितीयया) अध्यापनक्रियया (पाहि) (गीर्भिः)
वाग्भिः (तिसृभिः) कर्मोपासनाज्ञानज्ञापिकाभिः (ऊ-
र्जाम्) बलानाम् (पते) पालक (पाहि) (चतसृभिः)
धर्मार्थकाममोक्षविज्ञापिकाभिः (वसो) सुवासप्रद ॥४३॥

अन्वयः-हे वसो अग्ने त्वमेकया नोऽस्मान् पाहि द्वितीयया पाहि तिस्रभिर्गीर्भिः पाहि । हे ऊर्जां पते ! त्वं नोऽस्मान् चतस्रभिरुत पाहि ॥ ४३ ॥

भावार्थः-आप्ता नान्यदुपदेशादध्यापनाद्वा मनुष्यकल्याणकरं विजातन्ति । अतोऽहर्निशमज्ञाननुकम्प्य सदापदिशन्त्यध्यापयन्ति च ॥ ४३ ॥

पदार्थः-हे (वसो) सुन्दर वासु देने हारे (अग्ने) अग्नि के तुल्य ते-जस्वि विद्वन् ! आप (एकया) उत्तम शिक्षा से (नः) हमारी (पाहि) रक्षा कीजिये (द्वितीयया) दूसरी अध्यापन क्रिया से (पाहि) रक्षा कीजिये (तिस्रभिः) कर्म उपासना ज्ञान की जताने वाली तीन (गीर्भिः) वाणियों से (पाहि) रक्षा कीजिये । हे (ऊर्जां) ^आ यलों के (पते) रक्षक आप हमारी (चतस्रभिः) धर्म अर्थ काम और मोक्ष ^प रण का विज्ञान कराने वाली चार प्रकार की वाणी से (उत) भी (पाहि) रक्षा कीजिये ॥ ४३ ॥

भावार्थः-सत्य वादी धर्मात्मा आप्तजन उपदेश करने और पढ़ाने से भिन्न किसी साधन को मनुष्य का कल्याणकारक नहीं जानते इसने नित्य प्रति अज्ञानियों पर कृपा कर सदा उपदेश करते और पढ़ाते हैं ॥ ४३ ॥

ऊर्जां नपातमित्यस्य शस्युर्ऋषिः । वायुदेवता ।

स्वराड्ढृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

पु नस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

ऊर्जां नपातं स हिनायमस्मयुर्दाशैम हव्य-
दांतये । भुवद्वाजैष्वविता भुवद्दृधऽउत त्राता
तनूनाम् ॥ ४४ ॥

ऊर्जः । नपातम् । सः । हिन । अयम् । अस्मयुरित्य-
स्मऽयुः । दाशेम । हव्यदातयऽइति हव्यऽदातये । भुवत् ।
वाजेषु । अविता । भुवत् । वृधे । उत । त्राता । तनूनाम् ॥ ४४ ॥

पदार्थः—(ऊर्जः) पराक्रमस्य (नपातम्) अपाति-
तारम् विद्याबोधनम् (सः) (हिन) हिनु वर्द्धय । अत्र
हि गतौ वृद्धौचेत्यस्माल्लोणमध्यमैकवचने वर्णव्यत्ययेन
उकारस्य अङ्गिरः (अयम्) (अस्मयुः) योऽस्मान् का-
मयते (दाशेम) स्वीकुर्याम (हव्यदातये) दातव्यानां
दानाय (भुवत्) भवेत् (वाजेषु) सङ्ग्रामेषु (अविता)
रक्षिता (भुवत्) भवेत् (वृधे) वर्धनाय (उत) अपि
(त्राता) (तनूनाम्) शरीराणाम् ॥ ४४ ॥

अन्वयः—हे विद्यार्थिन् ! स त्वमूर्जो नपातं हिन यतोऽयं भवानस्मयु
वाजेष्वविता भुवदुतापि तनूनां वृधे त्राता भुवत् । ततस्त्वङ्गं हव्यदातये
वयं दाशेम ॥ ४४ ॥

भावार्थः—यः पराक्रमं वीर्यं च न हन्याच्छरीरात्मनोर्वर्धकः सन् र-
क्षकः स्यादाप्तास्तस्मै विद्यां दद्युः । योऽस्माद्विपरीतोऽजितेन्द्रियो दुष्टा-
चारी निन्दको भवेत्सं विद्याग्रहणोऽधिकारी न भवतीति वेद्यम् ॥ ४४ ॥

पदार्थः—हे विद्यार्थिन् ! (सः) तौ आप (ऊर्जः) पराक्रम को (न-
पातम्) न नष्ट करने हारे विद्याबोध को (हिन) बढ़ाइये जिस से (अ-
यम्) यह प्रत्यक्ष आप (अस्मयुः) हम को चाहने और (वाजेषु) संग्राम-

नों में (अविंता) रक्षा करने वाले (भुवत्) होंवें (उत) और तनूनाम् शरीरों के (वृधे) बढ़ने के अर्थ (त्राता) पालनकरने वाले (भुवत्) होंवें इस से आप को (हृद्यदातये) देने योग्य पदार्थों के देने के लिये हम लोग (दा- शीम) स्वीकार करें ॥ ४४ ॥

भावार्थ:- जो पराक्रम और बल को नष्ट करे, शरीर और आत्मा की उन्नति करता हुआ रक्तक हो उस के लिये आस जन विद्या देवें । जो इस से विपरीत लम्पट दुष्टाचारी निन्दक हो वह विद्याग्रहण में अधिकारी नहीं होता यह जानो ॥ ४४ ॥

संवत्सर इत्यस्य शस्यु ऋषिः । अग्निर्देवता ।

निघृद्भिकतिप्रच्छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

पुनस्तमेव द्विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

संवत्सरोऽसि परिवत्सरोऽसीदावत्सरोऽसीद्व-
त्सरोसि वत्सरोऽसि । उषसस्ते कल्पन्तामहोरा-
त्रास्ते कल्पन्तामर्द्धमासास्ते कल्पन्तां मासास्ते
कल्पन्ताश्वतवस्ते कल्पन्ताः संवत्सरस्ते कल्प-
ताम् । प्रेत्याऽण्यै सं चाञ्च प्र च सारय । सुप-
र्णचिदंसितया देवतयाऽङ्गिरस्वद्ध्रुवःसीद ॥ ४५ ॥

संवत्सरः । असि । परिवत्सरऽइति परिवत्सरः । असि ।
इदावत्सरइतीदाऽवत्सरः । असि । इद्वत्सरऽइतीत्सवत्सरः ।
असि । वत्सरः । असि । उषसः । ते । कल्पन्ताम् । अहो-
रात्राः । ते । कल्पन्ताम् । अर्द्धमासाऽइत्यर्द्धमासा । ते ।

कल्पन्ताम् । मासाः । ते । कल्पन्ताम् । ऋतवः । ते ।
 कल्पन्ताम् । संवत्सरः । ते । कल्पताम् । प्रेत्याऽइति
 प्रऽइत्यै । एत्याऽइत्याऽइत्यै । सम् । च । अञ्च । प्र । च ।
 सारय । सुपर्णचिदिति सुपर्णाऽचित् । असि । तथा ।
 देवतया । अङ्गिरस्वादित्यङ्गिरःऽवत् । ध्रुवः ।
 सिद्ध ॥ ४५ ॥

पदार्थः—(संवत्सरः) संवत्सरइव नियमेन वर्त्तमानः (अ-
 सि) (परिवत्सरः) वर्जितव्यो वत्सर इव दुष्टाचारत्यागी
 (असि) (इदावत्सरः) निश्चयेन समन्ताद्वर्त्तमानः संवत्सर
 इव (असि) (इद्वत्सरः) निश्चितसंवत्सरइव (असि)(वत्सरः)
 वर्षइव (असि) (उपसः) प्रभाताः (ते) तुभ्यम् (कल्प-
 न्ताम्) समर्था भवन्तु (अहोरात्राः) रात्रिदिनानि (ते)
 (कल्पन्ताम्) (अर्द्धमासाः) सितासिताः पक्षाः(ते) (कल्प-
 न्ताम्) (मासाः) चैत्रादयः (ते) (कल्पन्ताम्)(ऋतवः) व-
 सन्ताद्याः (ते) (कल्पन्ताम्) (संवत्सरः) (ते) (कल्पताम्)
 (प्रेत्यै) प्रकृष्टेन प्राप्त्यै(एत्यै) समन्ताद्गत्यै (सम्) सम्यक्
 (च) (अञ्च) प्रप्नुहि (प्र) (च) (सारय) (सुपर्णचित्) यः
 शोभनानि पर्णानि पालनानि चिनोति सः (असि) (तथा)
 (देवतया) दिव्यगुणयुक्तया समयरूपया (अङ्गिरस्वत्) सू-
 त्रात्मप्राणवत् (ध्रुवः) दृढः (सीद्ध) स्थिरो भव ॥ ४५ ॥

अन्वयः—हे विद्वन् जिज्ञासो । वा यतस्त्वं संवत्सरोऽसि परिवत्सरोऽसि-
 दावत्सरोऽसिद्वत्सरोऽसि वत्सरोऽसि तस्मात् कल्याणकार्यं उपसः कल्पन्तां

ते मङ्गलप्रदा अहोरात्राः कल्पन्तां तेऽर्द्धमासाः कल्पन्तां ते मासाः कल्पन्तां
त ऋतवः कल्पन्तां ते संवत्सरः कल्पतां त्वं च प्रेत्यै समञ्च त्वमेत्यै स्व-
प्रभावं प्रसारय च यतस्त्वं सुपर्णाचिदसि तस्मात्तया देवतया सहाङ्गिरस्वद्-
ध्रुवः सीद ॥ ४५ ॥

भावार्थः—य आत्मा मनुष्या व्यर्थं कालं न नयन्ति सुनियमैर्वर्तमानाः
कर्त्तव्यानि कुर्वन्ति त्यक्तव्यानि त्यजन्ति तेषां सुप्रभातः शोभना अहोरात्रा
अर्द्धमासा मासा ऋतवश्च गच्छन्ति । तस्मात्प्रकर्षगतये प्रयत्य सुभार्गेण ग-
त्वा शुभान् गुणान् सुखानि च प्रसारयेयुः । सुलक्षणया वाचा पत्न्या च स-
हिता धर्मग्रहयोऽधर्मत्यागे च दृढोत्साहा सदा भवेयुरिति ॥ ४५ ॥

पदार्थः—हे विद्वन् वा जिज्ञासु पुरुष ! जिससे तू (संवत्सरः) संवत्सर के तुल्य
नियम से वर्तमान (असि) है (परिवत्सरः) त्याज्य वर्ष के समान दुराचरण का
त्यागी (असि) है (इदावत्सरः) निश्चय से अच्छे प्रकार वर्तमान वर्ष के तुल्य
(असि) है इद्वत्सरः) निश्चिन संवत्सर के सदृश (असि) है (वत्सरः) वर्ष के स-
मान (असि) है इससे (ते) तेरे लिये (उपसः) कल्याण कारिणी उपा प्रभात
वेला (कल्पन्ताम्) समर्थ हों (ते) तेरे लिये (अहोरात्राः) दिन रातें मंगल दा-
यक (कल्पन्ताम्) समर्थ हों (ते) तेरे अर्थ (अर्द्धमासाः) शुक्र कृष्ण पक्ष (कल्प-
न्ताम्) समर्थ हों (ते) तेरे लिये (मासाः) चैत्र आदि महीने (कल्पन्ताम्) समर्थ
हों (ते) तेरे लिये (ऋतवः) वसन्तादि ऋतु (कल्पन्ताम्) समर्थ हों (ते) तेरे अर्थ
(संवत्सरः) वर्ष (कल्पन्ताम्) समर्थ हो । (च) और तू (प्रेत्यै) उत्तम प्राप्ति के
लिये (सम्, अञ्च) सम्यक् प्राप्त हो (च) और तू (एत्यै) अच्छे प्रकार जाने के
लिये (प्र, सारय) अपने प्रभाव को विस्तार कर जिस कारण तू (सुपर्णाचित)
सुन्दर रक्षा के साधनों का संचयकर्ता (असि) है इससे (तया) उस (देवतया)

उत्तम गुण युक्त समय रूप देवता के साथ (अङ्गिरस्वत्)मूत्रात्मा प्राण वायु के समान (ध्रुव) दृढ़ निश्चल (सौंद) स्थिर हो ॥ ४५ ॥

भावार्थः—जो आप्त मनुष्य व्यर्थ काल नहीं खोते सुन्दर नियमों से वर्तते हुए कर्त्तव्य कर्मोंको करते, छोड़ने योग्यों को छोड़ते हैं उनके प्रभात काल, दिन रात, पक्ष, महिने ऋतु सब सुन्दर प्रकार व्यतीत होते हैं इसलिये उत्तम गति के अर्थ प्रयत्न कर अच्छे मार्ग से चल शुभ गुणों और सुखों का विस्तार करें । सुन्दर लक्षणों वाली वाणी वा स्त्री के सहित धर्म ग्रहण और अधर्म के त्याग में दृढ़ उत्साही सदा होंगे ॥ ४५ ॥

अस्मिन् अध्याये सत्यप्रशंसाविज्ञापनं, सदगुणस्वीकारो, राज्यवर्धनमनिष्टनिवारणं, जीवनवृद्धिर्भिन्नविश्वासः, सर्वत्रकीर्त्तिकरणमैश्वर्यवर्द्धनमल्पमृत्युनिवारणं, शुद्धिकरणं, सुरुतानुष्ठानं, यज्ञकरणं, बहुधनधारणं, स्वामित्वप्रतिपादनं, सुवाग्ग्रहणं, सदगुणोच्छ्वाग्निप्रशंसा, विद्याधनवर्धनं, कारणवर्णनं, धनोपयोगः, परस्परैषां रक्षणं, वायुगुणवर्णनमाधाराग्धेयकथनमीश्वरगुणवर्णनं, शूरवीर कृत्यकथनं, प्रसन्नतासम्पादनं, मित्ररक्षणं, विद्वदाश्रयः, स्वाम्मपालनं, वीर्यरक्षणं, युक्ताहारविहारश्लोकमतएतदध्यायोक्तार्थस्य पूर्वाध्यायोक्तार्थेन महसंगतिरस्तीति वेद्यम् ॥

इस अध्याय में सत्य की प्रशंसा का जानना, उत्तम गुणों का स्वीकार, राज्याका बढ़ाना, अनिष्ट की निवृत्ति, जीवन को बढ़ाना, मित्र का विश्वास, सर्वत्र कीर्त्ति करना, ऐश्वर्य को बढ़ाना, अल्पमृत्यु का निवारण, शुद्धि करना, सुकर्म का अनुष्ठान, यज्ञ करना, बहुत धन का धारण, मालिक पन का प्रतिपादन, सुन्दर वाणी का ग्रहण, सदगुणों की इच्छा, अग्नि की प्रशंसा, विद्या और धन का बढ़ाना, कारणका वर्णन, धन का उपयोग, परस्पर की रक्षा, वायु के गुणों का वर्णन, आधार आधेय का कथन, ईश्वर के गुणों का वर्णन,

शूरवीर. के कृत्यों का कहना, प्रसन्नता करना, मित्र की रक्षा, विद्वानों का आश्रय, अपने आत्मा की रक्षा, वीर्य की रक्षा और युक्त आहार विहार कहे हैं इस से इस अध्याय में कहे अर्थ की पूर्व अध्याय में कहे अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां परमाविदुषां श्रीयुतविर-
जानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण श्रीपरमहंसपरिव्राजका-
चार्येण श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते संस्कृ-
तार्थभाषाभ्यां समन्विते सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वेदभाष्ये
सप्तविंशतितमोऽध्यायः पूर्तिमगमत् ॥ २७ ॥



श्री३म्

अथाष्टाविंशोऽध्याय आरभ्यते

—:०*०:—

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव ।

यद्भ्रं तन्न आसुव ॥ १ ॥

होतेत्यस्य बृहदुक्थो वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता ।

निचृत् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अथ मनुष्यैर्यज्ञेन कथं बलं वर्द्धनीयमित्याह ॥

अब अट्टाईसवें अध्याय का आरम्भ है उसके पहिले मन्त्र में मनुष्यों को यज्ञ से कैसे बल बढ़ाना चाहिये इस वि० ॥

होता यक्षत्समिधेन्द्रमिडस्पदे नाभा पृथि-
व्या अधि । दिवो वर्ष्मन्त्समिध्यत्स्रोजिष्ठश्च-
र्षणीसह्रां वेत्वाज्यस्य होतुर्यज ॥ १ ॥

होता । यक्षत् । समिधेति । सम्ऽइधा । इन्द्रम् ।
इडः । पदे । नाभा । पृथिव्याः । अधि । दिवः । व-
र्ष्मन् । सम् । इध्यते । ओजिष्ठः । चर्षणीसह्राम् ।
चर्षणीसह्रामिति चर्षणिऽसह्राम् । वेतु । आज्यस्य ।
होतः । यज ॥ १ ॥

पदार्थः—(होता) आदाता (यक्षत्) यजेत् (समिधा) ज्ञान-
प्रकाशेन (इन्द्रम्) विदुदाख्यमग्निम् (इडः) वाण्याः । अन्न

जसादिषु छन्दसि वा वचनमिति याडभावः (पदे) प्राप्त-
 व्ये (नाभा) नाभौ मध्ये (पृथिव्याः) भूमेः (अधि) उपरि
 (दिवः) प्रकाशस्य (वर्ष्मन्) वर्षके मेघमण्डले (सम्) (इध्यते)
 अदीप्यते (ओजिष्ठः) अतिशयेन बली (चर्षणीसहाम्) ये
 चर्षणीन् मनुष्यसमूहान् सहन्ते तेषाम् (वेतु) प्राप्नोतु
 (आज्यस्य) घृतादिकम् । अत्र कर्मणि पष्ठी (होतः) यजमान
 (यज) संगच्छस्व ॥ १ ॥

अन्वयः—हे होतस्त्वं यथा होता सन्निधेदस्पदे पृथिव्या नाभा दिवोऽ-
 धि वर्ष्मन्निष्ठं यत्नत्तेनौजिष्ठः सन् चर्षणीसहां मध्ये सन्निध्यत आज्यस्य
 वेतु तथा यज ॥ १ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—मनुष्यैर्वेदमन्त्रैस्सुगन्ध्यादिद्रव्यमग्नी प्रक्षि-
 प्य मेघमण्डलं प्रापय्य जलं शोधयित्वा सर्वायं चलं वर्द्धनीयम् ॥ १ ॥

पदार्थः— हे (होतः) यजमान ! तू जैसे (होता) शुभ गुणों का ग्रहण
 कर्ता जन (समिधा) ज्ञान के प्रकाश से (इडः) वाणी सम्बन्धी (पदे)
 प्राप्त होने योग्य व्यवहार में (पृथिव्याः) भूमि के (नाभा) मध्य और
 (दिवः) प्रकाश के (अधि) ऊपर (वर्ष्मन्) वर्षने हारे मेघमण्डल में
 (इन्द्रम्) विजुली रूप अग्नि को (यत्) सङ्गत करे उससे (ओजिष्ठः)
 अतिशय कर बली हुआ (चर्षणीसहाम्) मनुष्यों के झुंडों को सहने वाले
 योद्धाओं में (सम्, इध्यते) सम्पर्क प्रकाशित होता है और (आज्यस्य)
 घृत आदि को (वेतु) प्राप्त होवे (यज) वैसे समागम किया कर ॥ १ ॥

भावार्थः— इस मन्त्र में वाचकलु०—मनुष्यों को चाहिये कि वेद मन्त्रों से
 सुगन्धित आदि द्रव्य अग्नि में छोड़ मेघमण्डल को पहुंचा और जल को शुद्ध करके
 सब के लिये बल बढ़ावे ॥ १ ॥

होतेत्यस्य बृहदुक्तो वामदेवऋषिः । इन्द्रो देवता ।

निषृञ्जगतीन्द्रः । निषादः स्वरः ॥

राजपुरुषाः कीदृशाः स्युरित्याह ॥

राजपुरुष कैसे हों इस वि० ॥

होता यक्षत्तनूनपातमूतिभिर्जेतारमपराजि-
तम् । इन्द्रं देवम् स्वर्विदं पृथिभिर्मधुमत्तमैर्नरा-
शंसैन तेजसा वेत्वाज्यस्य होतर्यज ॥ २ ॥

होता । यक्षत् । तनूनपातमिति तनूऽनपातम् ।
ऊतिभिरित्यूतिऽभिः । जेतारम् । अपराजितमित्यप-
राऽजितम् । इन्द्रम् । देवम् । स्वर्विदमिति स्वःऽवि-
दम् । पृथिभिरिति पृथिऽभिः । मधुमत्तमैरिति मधुम-
त्तमैः । नराशंसैन । तेजसा । वेतु । आज्यस्य ।
होतः । यज ॥ २ ॥

पदार्थः—(होता) सुखस्य प्रदाता (यक्षत्) संग-
च्छेत (तनूनपातम्) यः शरीराणि पाति तम् (ऊति-
भिः) रक्षादिभिः (जेतारम्) जयशीलम् (अपराजित-
म्) अन्यैः पराजेतुमशक्यम् (इन्द्रम्) परमैश्वर्यकारकं
राजानम् (देवम्) विद्याविनयाभ्यां सुशोभितम् (स्व-
र्विदम्) प्राप्तसुखम् (पृथिभिः) धर्म्यैर्मार्गैः (मधुमत्त-
मैः) अतिशयेन मधुरजलादियुक्तः (नराशंसैन) नरैरा-
शंसितेन (तेजसा) प्रागल्भ्येन (वेतु) प्राप्नोतु (आ-
ज्यस्य) विज्ञेयम् । अत्र कर्मणि षष्ठी (होतः) (यज) ॥२॥

अन्वयः—हे होतर्भवान् यथा होतोतिभिर्मधुमत्तमैः पथिभिस्तनूनपातं
जेतारमपराजितं स्वर्विदं देवमिन्द्रं यज्ञत् नराशंसेन तेजसाऽऽज्यस्य वेतु
तथा यज ॥ २ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—यदि राजानः स्वयं न्यायमार्गेषु गच्छन्तः
प्रजानां रक्षा विदध्युस्तेऽपराजितारः सन्तः शत्रूणां विजेतारः स्युः ॥ २ ॥

पदार्थः—हे (होतः) ग्रहण करने वाले पुरुष! आप जैसे (होना) मुख
का दाता (ऊतिभिः) रक्षाओं तथा (मधुमत्तमैः) अतिमीठे जल आदि से
युक्त (पथिभिः) धर्म युक्त मार्गों से (तनूनपातम्) शरीरों के रक्तक (जेतार-
म्) जयशील (अपराजितम्) शत्रुओं से न जीतने योग्य (स्वर्विदम्) मुख
को प्राप्त (देवम्) विद्या और विनय से सुशोभित (इन्द्रम्) परमपेश्वर्यकारक
राजा का (यज्ञत्) सङ्ग करे (नराशंसेन) मनुष्यों से प्रशंसा किई गयी (ते-
जसा) प्रगल्भता से (आज्यस्य) जानने योग्य विषय को (वेतु) प्राप्त हो
वैसे (यज) सङ्ग कीजिये ॥ २ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो राजा लोग स्वयं राज्य के न्याय मार्ग
में चलते हुए प्रजाओं की रक्षा करें वे पराजय को न प्राप्त होते हुए शत्रुओं के जीतने
वाले हों ॥ २ ॥

होतेत्यस्य बृहदुक्थो घामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता ।

स्वराट्पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

पुनस्तमेवविषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

होतां यक्षदिडाभिरिन्द्रमीडितम्राजुह्वान्म-
मर्त्यम् । देवो देवैः सर्वीर्यो वज्रहस्तः पुरन्दरो
वेत्वाज्यस्य होतृयज ॥ ३ ॥

होता । यक्षत् । इडाभिः । इन्द्रम् । ईडितम् । आजुह्वानमित्याऽजुह्वानम् । अमर्त्यम् । देवः । देवैः । सवीर्य इति सऽवीर्यः । वज्रहस्तइति वज्रऽहस्तः । पुरन्दर इति पुरम्ऽदरः । वेतु । आज्यस्य । होतः । यज ॥ ३ ॥

पदार्थः—(होता) (यक्षत्) (इडाभिः) सुशिक्षिताभिर्वाग्भिः (इन्द्रम्) परमविद्वैश्वर्यसम्पन्नम् (ईडितम्) प्रशस्तम् (आजुह्वानम्) स्पर्द्धमानम् (अमर्त्यम्) साधारणैर्मनुष्यैरसदृशम् (देवः) विद्वान् (देवैः) विद्वद्भिः सह (सवीर्यः) बलोपेतः (वज्रहस्तः) वज्राणि शस्त्रास्त्राणि हस्ते यस्य सः (पुरन्दरः) योऽरिपुराणि दृणाति सः (वेतु) प्राप्नोतु (आज्यस्य) विज्ञानेन रक्षितुं योग्यस्य राज्यस्य (होतः) (यज) ॥ ३ ॥

अन्वयः—हे होतस्त्वं यथा होतेडाभिरमर्त्यमाजुह्वानमीडितमिन्द्रं यक्षद्यथाऽयं वज्रहस्तः पुरन्दरः सवीर्यो देवो देवैः सहाज्यस्यावयवान् वेतु तथा यज ॥ ३ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—यथा राजराजपुरुषाः पितृवत्प्रजाः पालयेयुस्तथैव प्रजा एतान् पितृवत्सेवेरन् य आप्तविद्वदनुमत्या सर्वाणि कार्याणि कुर्युस्ते भ्रमं नाम्नुयुः ॥ ३ ॥

पदार्थः—हे (होतः) ग्रहीता पुरुष आप जैसे (होता) सुखदाता जन (इडाभिः) अच्छी शिक्षित वाणियों से (अमर्त्यम्) साधारण मनुष्यों से बिलक्षण (आजुह्वानम्) स्पर्द्धा करते हुए (ईडितम्) प्रशंसित (इन्द्रम्) उत्तम विद्या और ऐश्वर्यसे युक्त राजपुरुष को (यक्षत्) प्राप्त होवे जैसे यह (वज्रहस्तः)

हाथों में शस्त्र अस्त्र धारण किये (पुरन्दरः) शत्रुओं के नगरों को तोड़ने वाला (सर्वीर्यः) बलयुक्त (देवः) विद्वान् जन (देवैः) विद्वानों के साथ (आज्यस्य) विज्ञान से रक्षा करने योग्य राज्य के अयवों को (वेतु) प्राप्त होवे वैसे (यज) समागम कीजिये ॥ ३ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु—जैसे राजा और राजपुरुष पिता के समान प्रजाओं की पालना करें वैसे ही प्रजा इन को पिता के तुल्य सेवें जो आप विद्वानों की अनुमति से सब काम करें वे भ्रम को नहीं पावें ॥ ३ ॥

होतेत्यस्य बृहदुक्थो वामदेव ऋषिः । रुद्रो देवता ।

त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

होतां यजद्वर्हिषीन्द्रं निषद्वरं वृषभं नर्यापसम्
वसंभीरुद्रैरादित्यैः सयुग्भिर्बहिरासदद्वेत्वाज्य-
स्य होतर्यज ॥ ४ ॥

होतां । यक्षत् । बर्हिषि । इन्द्रम् । निषद्वरम् ।
निषद्वरमिति निसत्स्वरम् । वृषभम् । नर्यापसमिति
नर्यापसम् । वसुभिरिति वसुभिः । रुद्रैः । आदि-
त्यैः । सयुग्भिरिति सयुक्त्भिः । बर्हिः । आ । अस-
दत् । वेतु । आज्यस्य । होतः । यज ॥ ४ ॥

पदार्थः—(होतां) (यक्षत्) (बर्हिषि) उत्तमायां विद्व-
त्सभायाम् (इन्द्रम्) नीत्या सुशोभमानम् (निषद्वरम्) निषी-
दन्ति वराः श्रेष्ठा मनुष्या यस्य समीपे तम् (वृषभम्) सर्वोत्कृष्टं

वलिष्ठम् (नर्यापसम्) नृषु साधून्यपांसि कर्माणि य-
स्य तम् (वसुभिः) प्रथमंकल्पैः (रुद्रैः) मध्यकक्षाम्यैः
(आदित्यैः) उत्तमकल्पैश्च विद्वद्भिः (सयुग्भिः) ये यु-
ज्जन्ते तैः (बर्हिः) उत्तमां सभाम् (आसदत्) आ-
सीदति (वेतु) प्राप्नोतु (आज्यस्य) कर्त्तव्यस्य न्यायस्य
(होतः) (यज) ॥ ४ ॥

अन्वयः—हे होतर्होना यथा सयुग्भिर्वसुभि रुद्रैरादित्यैः सह बर्हिषि
निपद्वरं वृषभं नर्यापसमिन्द्रं यज्ञदाज्यस्य बर्हिरासदत्सुखं वेतु तथा यज ॥४॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—यथा पृथिव्यादयो लोकाः प्राणादयो वायवः
कालाययवा मासाः सह वर्तन्ते तथा ये राजप्रजाजनाः परम्परानुकूल्ये व-
र्त्तिष्या सभया प्रजापालनं कुर्युस्ते श्रेष्ठां प्रशंसां प्राप्नुवन्ति ॥ ४ ॥

पदार्थः—हे (होतः) उत्तम दान के दातः पुरुष ! (होता) सुख चाहने
वाला पुरुष (जैसे) (सयुग्भिः) एक साथ योग करने वाले (वसुभिः) प्र-
थम कक्षा के (रुद्रैः) मध्यम कक्षा के और (आदित्यैः) उत्तम कक्षा के वि-
द्वानों के साथ (बर्हिषि) उत्तम विद्वानों की सभा में (निपद्वरम्) जिस के
निकट श्रेष्ठ जन बैठें उस (वृषभम्) सब से उत्तम बली (नर्यापसम्) म-
नुष्यों के उत्तम कामों का सेवन करने हारे (इन्द्रम्) नीति से शोभित राजा
को (यज्ञत्) प्राप्त होवे (आज्यस्य) करने योग्य न्याय की (बर्हिः)
उत्तम सभा में (आ, असदत्) स्थित होवे और (वेतु) सुख को प्राप्त होवे
वैसे (यज) प्राप्त हूजिये ॥ ४ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—जैसे पृथिवी आदि लोक प्राण आदि वायु
तथा काल के अवयव महीने सब साथ वर्तमान हैं वैसे जो राज और प्रजा के जन आ-
पस में अनुकूल वर्त्त के सभा से प्रजा का पालन करें वे उत्तम प्रशंसा को पाते हैं ॥४॥

होतेत्यस्य बृहदुक्थो वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता ।

निचृदतिजगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥

पुनः कीदृशा जनाः सुखिनो भवन्तीत्यह ॥

फिर कैसे मनुष्य सुखी होते हैं इस वि० ॥

होता यक्षदोजो न वीर्यंसहो द्वार इन्द्रमवर्द्ध-
यन् । सुप्रायणा अस्मिन् यज्ञे विश्रयन्तामृता-
वृधो द्वार इन्द्राय मीढुषे व्यन्त्वाज्यस्य होत-
र्यजं ॥ ५ ॥

होता । यक्षत् । ओजः । न । वीर्यम् । सहः । द्वारः ।
इन्द्रम् । अवर्द्धयन् । सुप्रायणाः । सुप्रायणाइति सु-
प्रायणाः । अस्मिन् । यज्ञे । वि । श्रयन्ताम् । ऋता-
वृधः । ऋतवृधइत्यृतवृधः । द्वारः । इन्द्राय । मी-
ढुषे । व्यन्तु । आज्यस्य । होतः । यजं ॥ ५ ॥

पदार्थः—(होता) (यक्षत्) (ओजः) जलवेगः । ओज इ-
त्युदकाना० निघं १ । १२ (न) इव (वीर्यम्) बलम् (सहः)
सहनम् (द्वारः) द्वाराणि (इन्द्रम्) ऐश्वर्यम् (अवर्द्धयन्)
वर्धयन्तु (सुप्रायणाः) शोभनानि प्रकृष्टान्ययनानि यासु ताः
(अस्मिन्) वर्त्तमाने (यज्ञे) संगन्तव्ये संसारे (वि) (श्रय-
न्ताम्) सेवन्ताम् (ऋतावृधः) या ऋतं सत्यं वर्द्धयन्ति ताः

(द्वारः) विद्याविनयद्वाराणि (इन्द्राय) परमैश्वर्ययुक्ताय
(मीढुषे) स्निग्धाय सैश्वनसमर्थाय (व्यन्तु) प्राप्नुवन्तु
(आज्यस्य) विज्ञेयस्य राज्यविषयस्य (होतः) (यज) ॥ ५ ॥

अन्वयः—हे होतर्था याः सुप्रायणा द्वार ओजो न वीर्यं सह इन्द्रं
चावर्द्धयन् ता ऋतावृधो द्वारो मीढुष इन्द्रायास्मिन् यज्ञे विद्वांसो विप्रय-
न्तान्ताज्यस्य व्यन्तु होता च यज्ञतथा यज ॥ ५ ॥

भावार्थः—अत्रोपनावाचकलु०—ये मनुष्या अस्मिन् संसारे विद्याधर्मद्वारा-
रायुद्घातय पदार्थविद्यां संसेव्यैश्वर्यं वर्द्धयन्ति तेऽतुलानि सुखानि प्राप्नुवन्ति
॥ ५ ॥

पदार्थः—हे (होतः) यज्ञ करने वाले जन! जैसे जो (सुप्रायणाः) सु-
न्दर अवकाश वाले (द्वारः) द्वार (ओजः) जल वेग के (न) समान (वी-
र्यम्) बल (सहः) सहन और (इन्द्रम्) ऐश्वर्य को (आवर्द्धयन्) बढ़ावे उन
(ऋतावृधः) सस को बढ़ाने वाले (द्वारः) विद्या और विनय के द्वारों को
(मीढुषे) स्निग्ध वीर्यवान् (इन्द्राय) उत्तम ऐश्वर्ययुक्त राजा के लिये (अ-
स्मिन्) इस (यज्ञे) संगति के योग्य संसार में विद्वान् लोग (वि, श्रयन्ताम्)
विशेष सेवन करें (आज्यस्य) जानने योग्य राज्य के विषय को (व्यन्तु)
प्राप्त हों और (होता) ग्रहीता जन (यज्ञत्) यज्ञ करे वैसे (यज) यज्ञ
कीजिये ॥ ५ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में उपमा और वाचकलु०—जो मनुष्य इस संसार में विद्या-
और धर्म के द्वारों को प्रसिद्ध कर पदार्थ विद्या को सम्यक् सेवन करके ऐश्वर्य को
बढ़ाते हैं वे अतुल सुखों को पाते हैं ॥ ५ ॥

होतेत्यस्य बृहदुक्थो वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता ।

त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनर्मनुष्यैः किं कर्तव्यमित्याह ॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस वि० ॥

होतां यक्षदुषे इन्द्रस्य धेनू सुदुधे मातरां म-
ही । सवातरौ न तेजसा वत्समिन्द्रमवर्द्धतां वी-
तामाज्यस्य होतर्यज ॥ ६ ॥

होतां । यक्षत् । उषेऽइत्युषे । इन्द्रस्य । धेनूऽइति
धेनू । सुदुधेऽइति सुदुधे । मातरां । महीऽइति मही ।
सवातराविति सऽवातरौ । न । तेजसा । वत्सम् । इ-
न्द्रम् । अवर्द्धताम् । वीताम् । आज्यस्य । होतः ।
यज ॥ ६ ॥

पदार्थः—(होता) (यजत्) (उषे) प्रतापयुक्त (इ-
न्द्रस्य) विद्युतः (धेनू) दुग्धदात्र्यौ गावौ (सुदुधे) सु-
ष्टु कामप्रपूरिके (मातरा) मातृवद्वर्त्तमाने (मही) म-
हत्यौ (सवातरौ) वायुना सह वर्त्तमानौ (न) इव
(तेजसा) तीक्ष्णप्रतापेन (वत्सम्) (इन्द्रम्) परमै-
श्वर्यम् (अवर्द्धताम्) वर्द्धेत (वीताम्) प्राप्नुताम् (आ-
ज्यस्य) प्रक्षेप्तुं योग्यस्य (होतः) (यज) ॥ ६ ॥

अन्वयः—हे होतस्त्वं यथेन्द्रस्य सुदुधे मातरा मही धेनू सवातरौ
नोषे भौतिकसूर्य्याऽग्नयोस्तेजसेन्द्रं वत्सं वीतां होताऽऽज्यस्य यक्षदवर्द्धतां
तथा यज ॥ ६ ॥

भावार्थः—अत्रोपमावाचकलु०—हे मनुष्या यूयं यथा वायुना प्रेरितौ भौमविद्युतावग्नी सूर्यलोकतेजो वर्द्धयतो यथा धेनुवद्धर्त्तमानेउषे सर्वेषां व्यवहाराणामारम्भनिवृत्तिके भवतस्तथा प्रयतध्वम् ॥ ६ ॥

पदार्थः— हे (होतः) सुख दाता जन!आप जैसे (इन्द्रस्य) विजुली की (सुदुधे) सुन्दर कामनाओं की पूरक (मातरा) माता के तुल्य वर्त्तमान (मही) बड़ी (धेनु, सवातरौ) वायु के साथ वर्त्तमान दुग्ध देने वाली दो गौ के (न) समान (उषे) प्रतापयुक्त भौतिक और सूर्यरूप अग्नि के (तेजसा) तद्विण प्रताप से (इन्द्रम्) परमेश्वर्युक्त (वत्सम्) बालक को (व्रीताम्) प्राप्त हों तथा (होता) दाता (आज्यस्य) फेंकने योग्य वस्तु का (यज्ञत्) संग करे और (अवर्द्धताम्) बड़े वैसे (यज) यज्ञ कीजिये ॥ ६ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलु०—हे मनुष्यो!तुम जैसे वायु से प्रेरणा किये भौतिक और विद्युत् अग्नि सूर्य लोक के तेज को बढ़ाते हैं और जैसे दुग्ध-दात्री गौ के तुल्य वर्त्तमान प्रतापयुक्त दिन रात, सब व्यवहारों के आरम्भ और निवृत्ति कराने द्वारे होते हैं वैसे यत्न किया करो ॥ ६ ॥

होतैत्यस्य बृहदुक्थो गोतम ऋषिः । अश्विनौ देवते ।

जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

होता यक्षद्वैव्या होतांरा भिषजा सखाया
हृविषेन्द्रं भिषज्यतः । कवी देवौ प्रचेतसाविन्द्रा-
य धत्त इन्द्रियं व्रीतामाज्यस्य होतर्यज ॥ ७ ॥

होता । यक्षत् । दैव्या । होतारा । भिपजा । स-
खाया । हविषा । इन्द्रम् । भिपज्यतेः । कवीऽ इति
कवी । देवो । प्रचेतसाविति प्रऽचेतसो । इन्द्राय ।
धत्तः । इन्द्रियम् । वीताम् । आज्यम्य । होतः ।
यज ॥ ७ ॥

पदार्थः— (होता) सुखप्रदाता (यक्षत्) (दैव्या)
देवेषु विद्वत्सु साधू (होतारा) रोगं निवर्त्य सुखस्य प्र-
दातारौ (भिपजा) चिकित्सकौ (सखाया) सहृदी
(हविषा) यथायोग्येन गृहीतव्यव्यवहारेण (इन्द्रम्)
परमेश्वर्यमिच्छुकं जीवम् (भिपज्यतेः) चिकित्सां कुरुतः
(कवी) प्राज्ञा (देवो) वैदिकविद्यया प्रकाशमानौ (प्र-
चेतसो) प्रकृष्टविज्ञानयुक्ता (इन्द्राय) परमेश्वर्याय (ध-
त्तः) दध्याताम् (इन्द्रियम्) धनम् (वीताम्) प्राप्नु-
ताम् (आज्यस्य) निदानादेः (होतः) युक्ताहारविहा-
रकृत् (यज) प्राप्नुहि ॥ ७ ॥

अन्वयः—हे होतस्त्वं यथा होताऽऽज्यस्य यत्तद्दैव्या होतारा सखाया
कवी प्रचेतसो देशो भिपजा हविषेऽहं भिपज्यते इन्द्रायिन्द्रियं धत्त आयुर्वीतां
तथा यज ॥ ७ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलुप—हे मनुष्या यथा सद्देया रोगिणोऽनुकम्प्यौ
पथादिना रोगान्निवार्यैश्वर्यायुक्ती वर्द्धयन्ति तथा यूयं सर्वेषु मैत्रीं भावयि-
त्वा सर्वेषां सुखायुपी वर्द्धयत ॥ ७ ॥

पदार्थः—हे (होतः) युक्त आहार विहार के करने हारे वैद्य जन ! जैसे
(होता) सुख देने हारे आप (आज्यस्य) जानने योग्य निदान आदि विषय
को (यक्षत्) सङ्गत करते हैं (दैव्या) विद्वानों में उत्तम (होतारा) रोग को

निवृत्त कर सुख के देने वाले (सखाया) परस्पर मित्र (कवी) बुद्धिमान् (प्र-
चेतसौ) उत्तम विज्ञान से युक्त (देवौ) वैद्यक विद्या से प्रकाशमान (भिषजा)
चिकित्सा करने वाले दो वैद्य (हविषा) यथायोग्य ग्रहण करने योग्य व्यवहार
से (इन्द्रम्) परमऐश्वर्य के चाहने वाले जीव की (भिषज्यतः) चिकित्सा क-
रते (इन्द्राय) उत्तम ऐश्वर्य के लिये (इन्द्रियम्) धन को (धत्तः) धारण कर-
ते और अवस्था को (वीताम्) प्राप्त होते हैं वैसे (यज) प्राप्त हूजिये ॥ ७ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो! जैसे श्रेष्ठ वैद्य रोगियों पर कृपा कर
ओषधि आदि के उपाय से रोगों को निवृत्त कर ऐश्वर्य और आयुर्दा को बढ़ाते हैं वै-
से तुम लोग सब प्राणियों में मित्रता की वृत्ति कर सब के सुख और अवस्था को
बढ़ाओ ॥ ७ ॥

होतेत्यस्य बृहदुक्तो वामदेव्य ऋषिः । इन्द्रो देवता ।

निवृज्जगती छन्दः । निपादः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

होता यक्षत्सिस्त्रो देवीर्न भेषजं त्रयस्त्रिधात-
वोऽपस इडा सरस्वती भारती महीः । इन्द्रप-
त्नीर्हविष्मतीर्व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यजं ॥ ८ ॥

होता । यक्षत् । त्सिस्त्रः । देवीः । न । भेषजम् ।
त्रयः । त्रिधातव इति त्रिऽधातवः । अपसः । इडा ।
सरस्वती । भारती । महीः । इन्द्रपत्नीरितिन्द्रऽपत्नीः ।
हविष्मतीः । व्यन्तु । आज्यस्य । होतः । यजं ॥८॥

पदार्थः—(होता) विद्याया दाताऽऽदाता वा (यक्षत्)
 (तिस्रः) त्रित्वसङ्ख्याकाः (देवीः) सकलविद्याप्रका-
 शिकाः (न) इव (भेषजम्) औषधम् (त्रयः) अध्या-
 पकौपदेशकवैद्याः (त्रिधातवः) त्रयोऽस्थिमज्जवीर्यणि
 धातवो येभ्यस्ते (अपसः) कर्मठाः (इडा) प्रशसितुम-
 र्हा (सरस्वती) बहुविज्ञानयुक्ता (भारती) सुष्ठुविद्या-
 या धारिका पोषिका वा वाणी (महीः) महतीः पूज्याः
 (इन्द्रपत्नीः) इन्द्रस्य जीवस्य पत्नीः स्त्रीवद्वर्त्तमानाः
 (हविष्मतीः) विविधविज्ञानसहिताः (व्यन्तु) प्राप्नुव-
 न्तु (आज्यस्य) प्राप्तुं योग्यस्याऽध्यापनाऽध्ययनव्यव-
 हारस्य (होतः) (यज) ॥ ८ ॥

अन्वयः—हे होतर्यथा होताऽऽज्यस्य यक्षत्। यथा त्रिधातवोऽपसस्त्रय-
 स्तिस्रो देवीर्न भेषजं मही इडा सरस्वती भारती च हविष्मतीरिन्द्रपत्नी-
 ष्व्यन्तु तथा यज ॥ ८ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—यथा प्रशस्ता विज्ञानवती सुमेधा च स्त्रियः
 स्वसहस्रान् पतीन् प्राप्य मोदन्ते तथाऽध्यापकोपदेशकवैद्या मनुष्याः स्तुति-
 विज्ञानयोगधारणायुक्तास्त्रिविधा वाचः प्राप्याऽऽनन्दन्ति ॥ ८ ॥

पदार्थः—हे (होतः) सुख चाहने वाले जन! जैसे (होता) विद्या का देने
 लेने वाला अध्यापक (आज्यस्य) प्राप्त होने योग्य पढ़ने पढ़ाने रूप व्यवहार
 को (यक्षत्) प्राप्त होवे जैसे (त्रिधातवः) हाड़, चरवी और वीर्य इन तीन
 धातुओं के वर्धक (अपसः) कर्मों में चेष्टा करते हुए (त्रयः) अध्यापक, उपदेशक
 और वैद्य (तिस्रः) तीन (देवीः) सब विद्याओं की प्रकाशिका वाणियों के

(न) समान (भेषजम्) औषध को (महीः) वड़ी पूज्य (इडा) प्रशंसा के योग्य (सरस्वती) बहुत विद्यान वाली और (भारती) सुन्दर विद्या का धारण वा पोषण करने वाली (हविष्मतीः) विविध विज्ञानों के सहित (इन्द्रपत्नीः) जीवात्मा की स्त्रियों के तुल्य वर्तमान वाणी (व्यन्तु) प्राप्त हों जैसे (यज) उन को संगत कीजिये ॥ = ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे प्रशंसित विज्ञानवती और उत्तम बुद्धिमती स्त्रियां अपने योग्य पतियों को प्राप्त होकर प्रसन्न होती हैं जैसे अध्यापक उपदेशक और वैद्य लोग स्तुति ज्ञान और योगधारणायुक्त तीन प्रकार की वाणियों को प्राप्त होकर आनन्दित होते हैं ॥=॥

होतेत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । इन्द्रो देवता ।

निष्पृदतिजगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

होतां यक्षत्त्वष्टारमिन्द्रं देवं भिषजं सुयजं घृत-
श्रियम् । पुरुरूपं सुरेतसं मघोनमिन्द्राय त्वष्टा
दधदिन्द्रियाणि वेत्वाज्यस्य होतयजं ॥६॥

होता । यक्षत् । त्वष्टारम् । इन्द्रम् । देवम् । भिष-
जम् । सुयजमिति सुयजम् । घृतश्रियमिति घृत-
श्रियम् । पुरुरूपमिति पुरुरूपम् । सुरेतसमिति सु-
रेतसम् । मघोनम् । इन्द्राय । त्वष्टा । दधत् । इन्द्रि-
याणि । वेतु । आज्यस्य । होतः । यज ॥ ९ ॥

पदार्थः—(होता) (यक्षत्) (त्वष्टारम्) दोषविच्छे-
दकम् (इन्द्रम्) ऐश्वर्यवन्तम् (देवम्) देदीप्यमानम्
(भिषजम्) वैद्यम् (सुयजम्) सुष्ठुसङ्गन्तारम् (घृतश्रि-
यम्) घृतेनोदकेन शोभमानम् (पुरुरूपम्) बहुरूपम्
(सुरैतसम्) सुष्ठुवीर्यम् (मघोनम्) परमपूजितधनम्
(इन्द्राय) जीवाय (त्वष्टा) प्रकाशकः (दधत्) धरन्
सन् (इन्द्रियाणि) श्रोत्रादीनि धनानि वा (वेतु) प्राप्नोतु
(आज्यस्य) ज्ञातुं योग्यस्य (होतः) (यज) ॥ ९ ॥

अन्वयः—हे होतर्यथा होता त्वष्टारं सुरैतसं मघोनं पुरुरूपं घृतश्रियं
सुयजं भिषजं देवमिन्द्रं यक्षदाज्यस्त्राष्येन्द्रियाणि दधत्सन् त्वष्टा वेतु तथा
यज ॥ ९ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—हे मनुष्या यूयसाप्तं रोगनिवारकं श्रेष्ठौष-
धदायकं धनैश्वर्यवर्द्धकं वैद्यं सेवित्वा शरीरात्माऽन्तःकरणेन्द्रियाणां बलं
वर्द्धयित्वा परमैश्वर्यं प्राप्नुत ॥ ९ ॥

पदार्थः—हे (होतः) शुभ गुणों के दाता, जैसे (होता) पथ्य आहार
विहार कर्ता जन (त्वष्टारम्) धातुवैषम्य से हुए दोषों को नष्ट करने वाले
सुन्दर पराक्रमयुक्त (मघोनम्) परम प्रशस्त धनवान् (पुरुरूपम्) बहुरूप (घृतश्रि-
यम्) जल से शोभायमान (सुयजम्) सुन्दर संग करने वाले (भिषजम्) वैद्य (दे-
वम्) तेजस्वी (इन्द्रम्) ऐश्वर्यवान् पुरुष का (यक्षत्) संग करता है और (आज्यस्य)
जानने योग्य वचन के (इन्द्राय) प्रेरक जीव के लिये (इन्द्रियाणि) कान आदि
इन्द्रियों वा धनों को (दधत्) धारण करता हुआ (त्वष्टा) तेजस्वी हुआ (वेतु) प्राप्त
होता है वैसे तू (यज) संग कर ॥ ९ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकब्रु०—हे मनुष्यों! तुम लोग प्राप्त सत्यवादी रोगनि-
वारक सुन्दर औषधि देने धन ऐश्वर्य के बढ़ाने वाले वैद्य जन का सेवन कर शरीर आ-
त्मा अन्तःकरण और इन्द्रियों के बल को बढ़ा के परम ऐश्वर्य को प्राप्त होओ ॥६॥

होतेत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । बृहस्पतिर्देवता ।

स्वराहतिजगती छन्दः । निपादः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

होता यक्षद्वनस्पतिश्शमितारश्शतक्रतुं धियो
जोष्टारमिन्द्रियम् । मध्वा समञ्जन्पृथिभिः सु-
गेभिः स्वदाति यज्ञं मधुना घृतेन वेत्वाज्यस्य
होतुर्यज ॥ १० ॥

होता । यक्षत् । वनस्पतिम् । शमितारम् । शतक्रतु-
मिति शतःक्रतुम् । धियः । जोष्टारम् । इन्द्रियम् । म-
ध्वा । समञ्जन्निति सम्ऽअञ्जन् । पृथिभिरिति पृथि-
ऽभिः । सुगेभिरिति सुऽगेभिः । स्वदाति । यज्ञम् । म-
धुना । घृतेन । वेत्तु । आज्यस्य । होतः । यज ॥ १० ॥

पदार्थः—(होता) (यक्षत्) (वनस्पतिम्) वनानां किरणा-
नां स्वामिनं सूर्यम् (शमितारम्) यजमानम् (शतक्रतुम्)
असंख्यातप्रज्ञाम (धियः) प्रज्ञायाः कर्मणौ वा (जोष्टारम्)
प्रीतं सेवमानम् (इन्द्रियम्) धनम् (मध्वा) मधुरेण विज्ञा-

नेन (समञ्जन्) सम्यक् प्रकटयन् (पथिभिः) मार्गैः (सुगे-
भिः) सुखेन गमनाधिकरणैः (स्वदाति) आंस्वदेत । अत्र
व्यत्ययेन परस्मैपदम् (यज्ञम्) संगतं व्यावहारम् (मधुना)
मधुरेण (घृतेन) आज्येनोदकेन वा (वेतु) व्याप्नोतु (आ-
ज्यस्य) विज्ञेयस्य संसारस्य (होतः) दातर्जन (यज)
प्राप्नुहि ॥ १० ॥

अन्वयः-हे हीतर्यथा होता वनस्पतिमिव शमितारं शतक्रतुं धियो जो-
ष्टारं यक्षन्मध्वा सुगेभिः पथिभिराज्यस्येन्द्रियं समञ्जन्स्वदाति मधुना
घृतेन यज्ञं वेतु तथा यज ॥ १० ॥

भावार्थः-अत्र वाचकलु०-ये मनुष्याः सूर्यवद्विद्याप्रज्ञाधर्मैश्वर्यप्रापका
धर्म्यमार्गैर्गच्छन्तः सुखानि भुञ्जीरंस्तेऽन्येषामपि सुखप्रदा भवन्ति ॥ १० ॥

पदार्थः-हे (होतः) दान देने हारे जन! जैसे (होता) यज्ञकर्त्ता पुरुष (व
नस्पतिम्) किरणों के स्वामी सूर्य के तुल्य (शमितारम्) यजमान (शतक्रतुम्)
अनेक प्रकार की बुद्धि से युक्त (धियः) बुद्धि वा कर्म को (जोष्टारम्) प्रसन्न
वा सेवन करते हुए पुरुष का (यज्ञत्) सङ्ग करे (मध्वा) मधुर विज्ञान से
(सुगेभिः) सुखपूर्वक गमन करने के आधार (पथिभिः) मार्गों
करके (आज्यस्य) जानने योग्य संसार के (इन्द्रियम्) धन को (समञ्जन्)
सम्यक् प्रकट करता हुआ (स्वदाति) स्वाद लेवे और (मधुना) मधुर
(घृतेन) घी वा जल से (यज्ञम्) संगति के योग्य व्यवहार को (वेतु) प्राप्त
होवे वैसे (यज) तुम भी प्राप्त होओ ॥ १० ॥

भावार्थः-इस मन्त्र में वाचकलु०-जो मनुष्य सूर्य के तुल्य विद्या बुद्धि धर्म और
ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाले धर्मयुक्तमार्गों से चलते हुए सुखों को भोगें वे औरों को भी
सुख देने वाले होते हैं ॥ १० ॥

होतेत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः । इन्द्रो देवता ।

निष्पृच्छकरी छन्दः । चैवतः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

होता यक्षदिन्द्रश्च स्वाहाज्यस्य स्वाहा मेद-
सः स्वाहा स्तोकानाञ्च स्वाहा स्वाहाकृतीनाञ्च
स्वाहा हव्यसूक्तीनाम् । स्वाहा देवा आज्यपा
जुषाणा इन्द्र आज्यस्य व्यन्तु होतर्यजं ॥ ११ ॥

होता । यक्षत् । इन्द्रम् । स्वाहा । आज्यस्य ।
स्वाहा । मेदसः । स्वाहा । स्तोकानाम् । स्वाहा ।
स्वाहाकृतीनामिति स्वाहाऽकृतीनाम् । स्वाहा । ह-
व्यसूक्तीनामिति हव्यऽसूक्तीनाम् । स्वाहा । देवाः ।
आज्यपा इत्याज्यऽपाः । जुषाणाः । इन्द्रः । आज्य-
स्य । व्यन्तु । होतः । यजं ॥ ११ ॥

पदार्थः—(होता) (यक्षत्) (इन्द्रम्) परमैश्व-
र्यम् (स्वाहा) सत्यांवाचम् (आज्यस्य) ज्ञातुमर्हस्य
(स्वाहा) सत्यक्रियया (मेदसः) स्निग्धस्य (स्वाहा)
(स्तोकानाम्) अपत्यानाम् (स्वाहा) (स्वाहाकृतीनाम्)

सत्यवाक्क्रियाऽनुष्ठानानाम् (स्वाहा) (हव्यसूक्तीना-
म्) बहूनि हव्यानां सूक्तानि यासु तासाम् (स्वाहा)
(देवाः) विद्वांसः (आज्यपाः) य आज्यं पिबन्ति वाऽऽ-
ज्येन रक्षन्ति ते (जुषाणाः) प्रीताः (इन्द्रः) परमैश्व-
र्यप्रदः (आज्यस्य) (व्यन्तु) (होतः) (यज) ॥ ११ ॥

अन्यवः— हे होतर्यथेन्द्रो होताऽऽज्यस्य स्वाहा भेदसः स्वाहा स्तोकांतां
स्वाहा स्वाहाकृतीनां स्वाहा हव्यसूक्तीनां स्वाहेन्द्रं यन्नद्यथा स्वाहाऽऽ-
ज्यस्य जुषाणा आज्यपा देवा इन्द्रं व्यन्तु तथा यज ॥ ११ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—ये पुरुषा शरीरात्माऽपत्यसत्क्रिया-
विद्यानां वृद्धिं चिकीर्षन्ति ते सर्वतः सुखापन्ना भवन्ति ॥ ११ ॥

पदार्थः—हे (होतः) विद्यादाता पुरुष ! जैसे (इन्द्रः) परमेश्वर्य का दाता
(होता) विद्योन्नति को ग्रहण करने हारा जन (आज्यस्य) जानने योग्य शा-
स्त्र की (स्वाहा) सत्य वाणी को (भेदसः) चिकने धातु की (स्वाहा) यथा-
र्थ क्रिया को (स्तोकांताम्) छोटे वालकों की (स्वाहा) उत्तमप्रिय वाणी को
(स्वाहाकृतीनाम्) सत्य वाणी तथा क्रिया के अनुष्ठानों की (स्वाहा) होमक्रि-
या को और (हव्यसूक्तीनाम्) बहुत ग्रहण करने योग्य शास्त्रों के सुन्दर वचनों
से युक्त बुद्धियों की (स्वाहा) उत्तम क्रियायुक्त (इन्द्रम्) परमेश्वर्य को (यत्तत)
प्राप्त होता है जैसे (स्वाहा) सत्यवाणी करके (आज्यस्य) स्निग्ध वचन को
(जुषाणाः) प्रसन्न किये हुए (आज्यपाः) घी आदि को पीने वा उस से
रक्षा करने वाले (देवाः) विद्वान् लोग ऐश्वर्य को (व्यन्तु) प्राप्त हों वैसे
(यज) यज्ञ कीजिये ॥ ११ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो पुरुष शरीर, आत्मा, सन्तान, सत्कार
और विद्या वृद्धि करना चाहते हैं वे सब ओर से सुखयुक्त होते हैं ॥ ११ ॥

देवमित्यस्याश्विनावृषी । इन्द्रो देवता । निचृदतिजगती

छन्दः । निषादः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

देवं ब॒र्हिरिन्द्रं॑ सु॒देवं॑ दे॒वैर्वी॑रव॒स्तृणी॑र्णं वेद्यां-
मव॒र्द्धय॑त् । वस्तो॑र्वृतं प्रा॒क्तोभू॑तं रा॒या । ब॒-
र्हिष्म॑तोऽत्य॒गात् वसु॑वने॒ वसु॑धेयस्य वेतु॒ यज॑ ॥ १२ ॥

दे॒वम् । ब॒र्हिः । इन्द्रं॑म् । सु॒दे॒वमि॑ति सु॒दे॒वम् ।
दे॒वैः । वी॒रव॑दिति वी॒रव॑त् । स्तृणी॑र्णम् । वेद्यां॑म् । अ॒-
व॒र्द्धय॑त् । वस्तोः॑ । वृ॒तम् । प्र । अ॒क्तोः । भू॒तम् ।
रा॒या । ब॒र्हिष्म॑तः । अ॒ति । अ॒गात् । वसु॑वन इति व॒-
सु॒वने॑ । वसु॑धेयस्येति वसु॒धेय॑स्य । वेतु॑ । यज॑ ॥ १२ ॥

पदार्थः—(देवम्) दिव्यगुणम् (बर्हिः) अन्तरिक्षमिव ।
बर्हिरित्यन्तरिक्षना० निघं० १ । ३ (इन्द्रम्) परमैश्वर्य-
कारकम् (सुदेवम्) शोभनं विद्वांसम् (देवैः) विद्वद्भिः
(वीरवत्) वीरैस्तुल्यम् (स्तृणीर्णम्) काष्ठैर्हविषा
चाऽऽच्छादनीयम् (वेद्याम्) हवनाधारे कुण्डे (अवर्द्ध-
यत् वर्द्धयेत् (वस्तोः) दिने (वृतम्) स्वीकृतम् (प्र)
(अक्तोः) रात्रौ (भूतम्) धृतम् (राया) धनेन (बर्हिष्-
मतः) अन्तरिक्षस्य सम्बन्धो विद्यते येषां तान् (अति)

उल्लङ्घने (अगात्) गच्छति (वसुवने) धनानां सं-
विभागे (वसुधेयस्य) वसूनि धेयानि यस्मिँस्तस्य ज-
गतः (वेतु) (यज) ॥ १२ ॥

अन्वयः—हे विद्वन् यथा बर्हिँमन्तोऽत्यगाद्वसुधेयस्य वसुवने वेद्यां स्ती-
र्णं वस्तोर्वृतमक्तोभृतं हुतं द्रव्यं नैरोग्यं प्रावर्द्धयत्सुखं वेतु तथा बर्हिँरिव
राया सह देवं देवैः सह वीरवद्वर्त्तमानं सुदेवमिन्द्रं यज ॥ १२ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—यथा यजमानो वेद्यां समित्सु चिसं हुत-
घृतमग्निं वर्द्धयित्वाऽन्तरिक्षस्थानि वायुजलादीनि शोधयित्वा रोगनिवार-
ण्येन सर्वान् प्राणिनः प्रीणयति तथैव सज्जना जना धनादिना सर्वान् सुख-
यन्ति ॥ १२ ॥

पदार्थः—हे विद्वन्! जैसे (बर्हिँमन्तः) अन्तरिक्ष के साथ सम्बन्ध रखने
वाले वायु जलों को (अति, अगात्) उल्लङ्घ कर जाता (वसुधेयस्य) जिस
में धनों का धारण होता है उस जगत् के (वसुवने) धनों के सेवने तथा
(वेद्याम्) हवन के कुण्ड में (स्तीर्णम्) समिधा और घृतादि से रक्षा करने
योग्य (वस्तोः) दिन में (वृतम्) स्वीकार किया (अक्तोः) रात्रि में (भृतम्)
धारण किया हवन किया हुआ द्रव्य नैरोगता को (प्र. अवर्द्धयत्) अच्छे प्रकार
वढ़ावे तथा सुख को (वेतु) प्राप्त करे जैसे (बर्हिँः) अन्तरिक्ष के तुल्य (राया)
धन के साथ (देवम्) उत्तम गुण वाले (देवैः) विद्वानों के साथ (वीरवत्)
वीरजनों के तुल्य वर्त्तमान (इन्द्रम्) उत्तम ऐश्वर्य करने वाले (सुदेवम्) सु-
न्दर विद्वान् का (यज) संग कीजिये ॥ ११ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे यजमान वेदी में समिधाओं में सुन्दर
प्रकार चयन किये और घृत चढ़ाये हुए अग्नि को बढ़ा अन्तरिक्षस्थ वायु जल आदि
को शुद्ध कर रोग के निवारण से सब प्राणियों को तृप्त करता है जैसे ही सज्जन जन
धनादि से सब को सुखी करते हैं ॥ १२ ॥

देवीरित्यस्याश्विनानावृषी । इन्द्रो देवता भुरिक्

शक्नरी छन्दः । पञ्चमः । स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

देवीद्वार इन्द्रसङ्घाते व्रीड्वीर्यामन्नवर्द्धयन् ।
आ वत्सेन तरुणेन कुमारेण च मीवतापार्वीणा-
रेणुककाटं नुदन्तां वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु
यज ॥ १३ ॥

देवीः । द्वारः । इन्द्रम् । सङ्घातऽ इति समऽघाते ।
व्रीड्वीः । यामन् । अवर्द्धयन् । आ । वत्सेन । तरुणे-
न । कुमारेण । च । मीवता । अप । अर्वाणाम् । रे-
णुककाटमिति । रेणुककाटम् । नुदन्ताम् । वसुवन
इति वसुवने । वसुधेयस्येति वसुधेयस्य । व्यन्तु ।
यज ॥ १३ ॥

पदार्थः—(देवीः) देदीप्यमानाः (द्वारः) द्वाराणि
(इन्द्रम्) ऐश्वर्यम् (सङ्घाते) सम्बन्धे (व्रीड्वीः)
विशेषेण स्तोतुं योग्याः (यामन्) यामनि मार्गं (अव-
र्द्धयन्) वर्द्धयन्ति (आ) (वत्सेन) वत्सवत्तर्द्धमानेन
(तरुणेन) युवाऽवस्थेन (कुमारेण) अकृतविवाहेन (च)
(मीवता) हिंसता (अप) (अर्वाणाम्) गच्छन्तमश्व-
म् (रेणुककाटम्) रेणुकैर्युक्तं कूपम् (नुदन्ताम्)
प्रेरयन्तु (वसुवने) (वसुधेयस्य) (व्यन्तु) प्राप्नुवन्तु
(यज) ॥ १३ ॥

अन्वयः-हे विद्वन् यथा वीद्हीर्देवीर्द्वारो रेणुकफाटं यामन् वर्जयित्वा तरुणेन मीश्रता कुमारेण वत्सेन च सह वर्त्तमानमर्वाणमिन्द्रमावर्द्धयन् वसुवने सङ्घाते वसुधेयस्य विघ्नमप्यनुदन्तां ष्यन्तु तथा यज ॥ १३ ॥

भावार्थः-अत्र वाचकलु०-हे मनुष्या यथा पथिका मार्गं वर्त्तमानं कूपं निवार्य शुद्धं मार्गं कृत्वा प्राणिनः सुखेन गमयन्ति तथा बाल्यावस्थायां विवाहादीन्विघ्नान्निवार्य विद्यां प्राप्य स्वसन्तानान्सुखमार्गं गमयन्तु ॥१३॥

पदार्थः-हे विद्वन् ! जैसे (वीद्हीः) विशेष कर स्तुतिके योग्य (देवीः) प्रकाशमान (द्वारः) द्वार (रेणुकाटम्) धूलि से युक्त कूल अर्थात् अन्धकुआ को (यामन्) मार्ग में छोड़ के (तरुणेन) ज्वान (मीश्रता) शूर दुष्टः हिंसा करते हुए (च) और (कुमारेण) ब्रह्मचारी (वत्सेन) बछरे के तुल्य जन के साथ वर्त्तमान (अर्वाणम्) चलते हुए घोड़े यथा (इन्द्रम्) ऐश्वर्य को (आ, अन्वर्द्धयन्) बढ़ाते हैं (वसुवने) धन के सेवने योग्य (सङ्घाते) सम्बन्ध में (वसुधेयस्य) धनधारक संसार के विघ्न को (अप, अनुदन्ताम्) प्रेरित करो और (व्यन्तु) प्राप्त होओ वैसे (यज) प्राप्त हूजिये ॥ १३ ॥

भावार्थः- इस में वाचकलु०-हे मनुष्यो! जैसे बटोही जन मार्ग में वर्त्तमान कूप को छोड़ शुद्ध मार्ग कर प्राणियों को सुख से पहुंचाते हैं वैसे बाल्यावस्था में विवाहादि विघ्नों को हटा विद्या प्राप्त करा के अपने सन्तानों को सुख के मार्ग में चलावें ॥ १३ ॥

देवीत्यस्याश्विनाटुपी अहोरात्रे देवते स्वराट् ।

पङ्क्तिश्छदः । पञ्चमः स्वरः ।

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

देवी उषामानक्तेन्द्रं यज्ञे प्रयत्यह्वेताम् । देवी-

विंशः प्रायासिष्टाः सुप्रीते सुधिते वसुवने वसुधे-
यस्य वीतां यज ॥ १४ ॥

देवी इति देवी । उषासानक्ता । उषसानक्तेत्युष-
साऽनक्ता । इन्द्रम् । यज्ञे । प्रयतीति प्रयति । अहे-
ताम् । दैवीः । विशः । प्र । अयासिष्टाम् । सुप्रीते
इति सुऽप्रीते । सुधिते इति सुऽधिते । वसुवन इति
वसुऽवने । वसुधेयस्येति वसुऽधेयस्य । वीताम् ।
यज ॥ १४ ॥

पदार्थः—(देवी) देदीप्यमाने (उषासानक्ता) रात्रि-
दिने (इन्द्रम्) परमैश्वर्यवन्तं यजमानम् (यज्ञे) सं-
गन्तव्ये यज्ञादिव्यवहारे (प्रयति) प्रयतन्ते यस्मिंस्तत्र
(अहेताम्) आहूयतः (दैवीः) देवानां न्यायकारिणां
विदुषामिमाः (विशः) प्रजाः (प्र) (अयासिष्टाम्)
प्राप्तुतः (सुप्रीते) सुष्ठु प्रीतिर्याभ्यां ते (सुधिते) सुष्ठु
हितकरे (वसुवने) धनविभागे (वसुधेयस्य) कौषस्य
(वीताम्) व्याप्तुताम् (यज) ॥ १४ ॥

अन्वयः—हे विद्वन् यथासुप्रीते सुधिते देवी उषासानक्ता प्रयति यज्ञ
इन्द्रमहेतां वसुधेयस्य वसुवने दैवीविशः प्रायासिष्टां सर्वं जगद्गीता व्याप्नु-
तां तथा यज ॥ १४ ॥

भावार्थः—अत्र याचकलु०—हे मनुष्या यथाऽहर्निशं नियमेन वर्ति-
त्वा प्राणिनो व्यवहारयति तथा यूयं नियमेन वर्तित्वा प्रजा भानन्द्य
सुखयत ॥ १४ ॥

पदार्थः—हे विद्वन् जैसे (सुप्रीते) सुन्दर प्रीति के हेतु (सुधिते) अच्छे
हितकारी (देवी) प्रकाशमान (उषासानक्ता) रात दिन (प्रयति) प्रयत्न के
निमित्त (यज्ञे) सङ्गति के योग्य यज्ञ आदि व्यवहार में (इन्द्रम्) परमैश्वर्य-

युक्त यजमान को (अह्वेताम्) शब्द व्यवहार कराते (वसुधेयस्य) जिस में धन धारण हो उस खजाने के (वसुवने) धन विभाग में (देवीः) न्यायकारी विद्वानों की इन (विशः) प्रजाओं का (प्र, अयासिष्टाम्) प्राप्त होते हैं और सब जगत् को (वीताम्) प्राप्त हों वैसे आप (यज) यज्ञ कीजिये ॥ १४ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यों! जैसे दिन रात नियम से वर्त्त कर प्राणियोंको शब्दादि व्यवहार कराते हैं वैसे तुम लोग नियम से वर्त्त कर प्रजाओं को आनन्द दे सुखी करो ॥ १४ ॥

देवीदृत्यस्याश्विनावृषी । इन्द्रो देवता ।

भुरिगतिजगती छन्दः । निपादः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उही वि० ॥

देवी जोष्टी वसुधिति देवमिन्द्रमवर्धताम् ।
अयाव्यन्याघा द्वेषाश्स्यान्या वक्षद्वसु वार्याणि
यजमानाय शिक्षिते वसुवने वसुधेयस्य वीतां
यज ॥ १५ ॥

देवी इति देवी । जोष्टी इति जोष्टी । वसुधिति
इति वसुधिति । देवम् । इन्द्रम् । अवर्धताम् । अ-
यावि । अन्या । अघा । द्वेषाश्सि । आ । अन्या ।
वक्षत् । वसु । वार्याणि । यजमानाय । शिक्षित इति
शिक्षिते । वसुवन इति वसुवनै । वसुधेयस्येति वसु-
धेयस्य । वीताम् । यज ॥ १५ ॥

पदार्थः—(देवी)देदीप्यमाने(जोष्टी)देवमाने(वसु धिति)
द्रव्यधारिके (देवम्) प्रकाशस्वरूपम् (इन्द्रम्) सूर्यम्

(अवर्द्धताम्) वर्धयतः (अथावि) पृथक्कुरुतः (अन्या) भिन्ना
 (अथा) अन्धकाररूपा (द्वेषांसि) द्वेषयुक्तानि जन्तुजा-
 तानि (आ) (अन्या) भिन्ना प्रकाशरूपोषाः (वक्षत्) वहेत
 (वसु) धनम् (वार्याणि) वारिषूदकेषु साधुनि (यजमानाय)
 पुरुषार्थिने (शिक्षिते) कृतशिक्षे सत्यौ (वसुवने) पृथिव्या-
 दीनां संविभागे जगति (वसुधेयस्य) अन्तरिक्षस्य मध्ये
 (वीताम्) व्याप्नुताम् (यज) यज्ञं कुरु ॥ १५ ॥

अन्वयः—हे विद्वन् यथा वसुधितौ जोष्ट्री देवी उपासान्केन्द्रं देवमव-
 र्द्धतान्तयोरन्याऽथा द्वेषांस्याथाव्यन्या च वसु वार्याणि च वक्षत् । यजमा-
 नाय वसुधेयस्य वसुवने शिक्षिते वीतां तथा यज ॥ १५ ॥

भावार्थः—अत्र याचकलु०—हे मनुष्या सूर्यं यथा रात्रिदिने विभक्ते सती
 मनुष्यादीनां सर्वं व्यवहारं वर्द्धयतस्तथैव रात्रिः प्राणिनः स्वापयित्वा द्वे-
 यादीन्निवर्त्तयति । अन्यद्दिनेषु तान्द्वेषादीन् प्रापयति सर्वान् व्यवहारान्
 प्रद्योतयति च तथा योगाभ्यासेन रागादीन्निवार्य शान्त्यादीन् गुणान् प्राप्य
 सुखानि प्राप्नुत ॥ १५ ॥

पदार्थः—हे विद्वन् ! जैसे (वसुधितौ) द्रव्य को धारण करने वाले (जोष्ट्री) सब
 पदार्थों को सेवन करते हुए (देवी) प्रकाशमान दिन रात (देवम्) प्रकाशस्वरूप
 (इन्द्रम्) सूर्य को (अवर्द्धताम्) बढ़ाते हैं उन दिन रात के बीच (अन्या) एक
 (अथा) अन्धकाररूप रात्रि (द्वेषांसि) द्वेषयुक्त जन्तुओं को (आ, अथावि) अच्छे
 प्रकार पृथक् करती और (अन्या) उन दोनों में से एक प्रातःकाल उषा (वसु)
 धन तथा (वार्याणि) उत्तम जलों को (वक्षत्) प्राप्त करे (यजमानाय) पुरुषार्थी

मनुष्य के लिये (वसुधेयस्य) आकाश के बीच (वसुवने) जिस में पृथिवी आदि का विभाग हो ऐसे जगत् में (शिक्षिते) जिन में मनुष्यों ने शिक्षा की ऐसे हुए दिन रात (वीताम्) व्याप्त हों (यज) यज्ञ कीजिये ॥ १५ ॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! तुम लोग जैसे रात दिन विभाग को प्राप्त हुए मनुष्यादि प्राणियों के सब व्यवहार को बढ़ाते हैं । उन में से रात्रि प्राणियों को सुला कर द्वेष आदि को निवृत्त करती और दिन उन द्वेषादि को प्राप्त और सब व्यवहारों को प्रकट करता है वैसे प्रातःकाल में योगाभ्यास से रागादि दोषों को निवृत्त और शान्ति आदि गुणों को प्राप्त हो कर सुखों को प्राप्त होओ ॥ १५ ॥

देवी इत्यस्याश्विनावृषी । इन्द्रो देवता ।

भुरिगाकृतिश्छन्दः । निषादः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उभी वि० ॥

देवी ऊर्जाहुती दुधे सुदुधे पयसेन्द्रमवर्द्धताम् ।
 इषमूर्जमन्या वक्षत्सग्धिः सर्पीतिमन्या नवैन
 पूर्वं दयमाने पुराणेन नवमधातामूर्जमूर्जाहुती
 ऊर्जयमाने वसु वार्याणि यजमानाय शिक्षिते
 वसुवने वसुधेयस्य वीतां यज ॥ १६ ॥

देवीऽ इति देवी । ऊर्जाहुती इत्यूर्जाऽआहुती ।
 दुधे । सुदुधे इति सुऽदुधे । पयसा । इन्द्रम् । अवर्द्धताम् ।
 इषम् । ऊर्जम् । अन्या । वक्षत् । सग्धिम् । सर्पीतिमिति

सऽपीतिम् । अन्या । नवेन । पूर्वम् । दयमाने इति ।
 दयमाने । पुराणेन । नवम् । अधाताम् । ऊर्जम् । ऊर्जाहुती
 ऽइत्यूर्जा ऽआहुती । ऊर्जयमाने ऽइत्यूर्जयमाने । वसु ।
 वार्याणि । यजमानाय । शिक्षिते ऽइति शिक्षिते । व-
 सुवन इति वसुऽवने । वसुधेयस्येति वसुधेयस्य ।
 वीताम् । यज ॥ १६ ॥

पदार्थः—(देवी) दिव्यगुणप्रापिके (ऊर्जाहुती) बलप्रा-
 णधारिके (दुघे) सुखानां प्रपूरिके (सुदुघे) सुष्ठुका-
 मत्रद्विके (पयसा) जलेन (इन्द्रम्) ऐश्वर्यम् (अवर्धा-
 ताम्) वर्द्धयतः (इषम्) अन्नम् (ऊर्जम्) बलम् (अ-
 न्या) रात्रिः (वृक्षत्) प्रापयति (सग्धिम्) समानं भो-
 जनम् (सपीतिम्) पानेन सह वर्त्तमानम् (अन्या)
 दिनाख्या (नवेन) नवीनेन (पूर्वम्) (दयमाने) रा-
 त्र्यौ (पुराणेन) प्राचीनेन स्वरूपेण (नवम्) नवीनां
 स्वरूपम् (अधाताम्) दध्याताम् (ऊर्जम्) प्राणनम्
 (ऊर्जा हुती) बलस्थादात्र्यौ (ऊर्जयमाने) बलं कुर्वाणे
 (वसु) धनम् (वार्याणि) वरितुमर्हाणि कर्माणि (य-
 जमानाय) सङ्गत्यै प्रवर्त्तमानाय जीवाय (शिक्षिते)
 विद्वद्भिरुपदिष्टे (वसुवने) धनदानाधिकरणे (वसुधे-
 यस्य) वसुधैश्वर्यं धेयं यत्र तस्येश्वरस्य (वीताम्) व्याप्नु-
 ताम् (यज) संगच्छस्व ॥ १६ ॥

अन्वयः—हे विद्वन् यथा वसुधेयस्य वसुवने वर्त्तमाने विद्वद्भिर्वसु वा-
 र्याणि शिक्षिते रात्रिदिने यजमानाय व्यवहारं वीतां तथोर्जाहुती देवी

पयसा दुधे सुदुधे सत्याविन्द्रमवर्द्धतां तयोरन्या इयमूर्जं वक्षदन्त्या सपीतिं
सग्धिं वक्षदयमाने सत्यौ नवेन पूर्वं पुराणेन नवमधातामूर्जयमाने ऊर्जामुती
ऊर्जमधातां तथा यज ॥ १६ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—हे मनुष्यो यथा रात्रिदिने वर्तमानस्व-
रूपेण पूर्वापरस्व रूपज्ञापिके आहारविहारप्रापिके वर्तते तथाऽग्नी हुता आ-
हुतयः सर्वसुखप्रपूर्िका जायन्ते । यदि मनुष्याः कालस्य सूक्ष्मपि वेर्ला
व्यर्थं नयेयुर्वाच्चादिपदार्थान्न शोधयेयुरदृष्टमनुमानेन न विद्युस्तर्हि
सुखमपि नाप्नुयुः ॥ १६ ॥

पदार्थः—हे विद्वन्! जैसे (वसुधेयस्य) ऐश्वर्य धारण करने योग्य ईश्वर
के (वसुधने) धन दान के स्थान जगत् में वर्तमान विद्वानों ने (वार्याणि)
ग्रहण करने योग्य (वसु) धन की (शक्तिते) जिन में शिजा की जाने वे
रात दिन (यजमानाय) संगति के लिये प्रवृत्त हुए जीव के लिये व्यवहार को
(वीताम्) व्याप्त हों वैसे (ऊर्जामुती) बल तथा प्राण को धारण करने और
(देवी) उत्तम गुणों को प्राप्त करने वाले दिन रात (पयसा) जल से (दुधे)
सुखों को पूर्ण और (सुदुधे) सुन्दर कामनाओं के बढ़ाने वाले होते हुए (इ-
न्द्रम्) ऐश्वर्य को (अवर्धताम्) बढ़ाते हैं उन में से (अन्या) एक (इपम्) अन्न
और (ऊर्जम्) बल को (वक्षत्) पहुंचाती और (अन्या) दिनरूप बेला
(सपीतिम्) पीने के सहित (सग्धिम्) ठीक समान भोजन को पहुंचाती है
(दयमाने) आवागमन गुण वाली अगली पिछली दो रात्रि प्रवृत्त हुई (न-
वेन) नये पदार्थ के साथ (पूर्वम्) प्राचीन और (पुराणेन) पुराणे के साथ
(नवम्) नवीन स्वरूप वस्तु को (अधाताम्) धारण करे ऊर्जयमाने बल
करते हुए (ऊर्जामुती) अवस्था घटाने से बल को लेने हारे दिन रात (ऊ-
र्जम्) जीवन को धारण करे वैसे आप (यज) यज्ञ कीजिये ॥ १६ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है ॥ हे मनुष्यो! जैसे रात दिन
अपने वर्तमान रूप से पूर्वापररूप को जताने तथा आहार विहार को प्राप्त करने

वाले होते हैं जैसे-अग्नि में होमी हुई आहुतियाँ सब सुखों को पूर्ण करने वाली होती हैं । जो मनुष्य काल की सूक्ष्म वेला को भी व्यर्थ गमार्ये, वायु आदि पदार्थों को शुद्ध न करें, अदृष्ट पदार्थ को अनुमान से न जानें तो सुख को भी न प्राप्त हों ॥ १६ ॥

देवा इत्यस्याश्विनावृषी । अश्विनौ देवते ।

भुरिग्जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

देवा दैव्या होतारा देवमिन्द्रमवर्द्धताम् । हता-
घशंसा वाभाष्टी वसु वार्याणि यजमानाय शि-
क्षितौ वसुवने वसुधेयस्य वीतां यज ॥ १७ ॥

देवा । दैव्या । होतारा । देवम् । इन्द्रम् । अवर्द्ध-
ताम् । हताघशंसाविति हतऽअघशंसा । आ । अ-
भाष्टाम् । वसु । वार्याणि । यजमानाय । शिक्षितौ ।
वसुवन इति वसुऽवने । वसुधेयस्येति वसुऽधेयस्य ।
वीताम् । यज ॥ १७ ॥

पदार्थः—(देवा) सुखप्रदातारौ (दैव्या) देवेषु दिव्येषु
गुणेषु भवौ (होतारा) धर्तारौ वायुपावकौ (देवम्) दि-
व्यगुणम् (इन्द्रम्) सूर्यम् (अवर्द्धताम्) वर्द्धयताम्
(हताघशंसा) हता अघशंसाः स्तेना याभ्यान्तौ (आ)
(अभाष्टाम्) दहताम् (वसु) धनम् (वार्याणि) वर्तु-
मर्हाण्युदकानि (यजमानाय) (शिक्षितौ) विज्ञापितौ
(वसुवने) (वसुधेयस्य) (वीताम्) व्याप्नुताम् (यज) ॥ १७ ॥

अन्वयः—हे विद्वन्वया दैव्या होतारा देवा वायुवह्नी इन्द्रं देवमवर्द्धतां हताघशंसौ रोगानाभाष्टां यजमानाय शिञ्चितौ सन्ती वसुधेयस्य वसुधने व सु वार्धाणि च वीतां तथा यज ॥ १७ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—यदि मनुष्या वायुविद्युती सूर्यनिमित्ते विज्ञायोपयुज्य धनानि संञ्चिनुयुस्तर्हि स्तेननाशकाः स्युः ॥ १७ ॥

पदार्थः—हे विद्वन्! जैसे (दैव्या) उत्तम गुणों में प्रसिद्ध (होतारा) जगत् के धर्ता (देवा) सुख देने हारे वायु और अग्नि (देवम्) दिव्यगुणयुक्त (इन्द्रम्) सूर्य को (अवर्द्धताम्) बढावें (हताघशंसौ) चोरों को मारने के हेतु हुए रोगों को (आ, अभाष्टाम्) अच्छे प्रकार नष्ट करें (यजमानाय) कर्म में प्रवृत्त हुए जीव के लिये शिञ्चितौ) जताये हुए (वसुधेयस्य) सत्र ऐश्वर्य के आधार ईश्वर के (वसुधने) धन दान के स्थान जगत् में (वसु) धन और (वार्धाणि) ग्रहण करने योग्य जलों को (वीताम्) व्याप्त होंवें जैसे आप (यज) यज्ञ कीजिये ॥ १७ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो मनुष्य सूर्यलोक के निमित्त वायु और विजुली को जान और उपयोग में ला के धनों का संचय करें तो चोरों को मारने वाले होंवें ॥ १ ॥

देवी इत्यस्याश्विनाष्टपी । इन्द्रो देवता ।

अतिजगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

देवीस्तिस्त्रस्तिस्त्रो देवीः पतिमिन्द्रमवर्धयन् ।
अस्पृक्षद्भारती दिवं रुद्रैर्यज्ञं सरस्वतीद्वाव-
सुमती गृहान्वसुधने वसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥ १८ ॥

देवीः । तिस्रः । तिस्रः । देवीः । पतिम् । इन्द्रम् ।
 अवर्धयन् । अस्पृक्षत् । भारती । दिवम् । रुद्रैः । यज्ञम् ।
 सरस्वती । इडा । वसुमतीति वसुऽमती । गृहान् ।
 वसुवन इति वसुऽवने । वसुधेयस्येति वसुऽधेयस्य ।
 व्यन्तु । यज ॥ १८ ॥

पदार्थः—(देवीः) देव्यः(तिस्रः) त्रित्वसंख्याकाः (तिस्रः)
 पुनरुक्तमतिशयबोधनार्थम् (देवीः) दिव्याः क्रियाः (पतिम्)
 पालकम् (इन्द्रम्) सूर्यमिव जीवम् (अवर्द्धयन्) वर्द्धयन्ति
 (अस्पृक्षत्) स्पृहेत (भारती) धारिका (दिवम्) प्रकाशम्
 (रुद्रैः) प्राणैः (यज्ञम्) सङ्गतन्तव्यं व्यवहारम् (सर-
 स्वती) विज्ञानयुक्ता वाक् (इडा) प्रशंसनीया वाणी (वसु-
 मती) बहूनि वसूनि द्रव्याणि विद्यन्ते यस्यां सा (गृहान्)
 गृहस्थान् गृहाणि वा (वसुवने) (वसुधेयस्य) (व्यन्तु)
 (यज) ॥ १८ ॥

अन्वयः—हे विद्वन् या रुद्रैर्भारती दिवां सरस्वती यद्वां वसुमतीडा गृ-
 हान्धरन्त्यो देवीस्त्रिस्तिस्रो देवीः पतिमिन्द्रञ्चावर्द्धयन् वसुधेयस्य वसु-
 वने गृहान् व्यस्तु तास्त्वं यज भवानस्पृक्षत् ॥ १८ ॥

भावार्थः— यथा जलाग्निवायुगतयो दिव्याः क्रियाः सूर्यप्रकाशं च वर्-
 ष्णयन्ति तथा ये मनुष्याः सकलविद्याधारिकासखिलक्रियाहेतुं सर्वदोष-
 गुणविघ्नापिकां त्रिविधां वाचं विजानन्ति तेऽस्मिन्सर्वदोषाकरे संसारे श्रिय-
 माम्भवति ॥ १८ ॥

पदार्थः— हे विद्वन् जो (रुद्रैः) प्राणों से (भारती) धारण करने वाली
 (दिवम्) प्रकाश को (सरस्वती) विज्ञानयुक्त वाणी (यज्ञम्) सङ्गति के
 योग्य व्यवहार को (वसुमती) बहुत द्रव्यों वाली (इडा) प्रशंसा के योग्य

वाणी (गृहान्) घरों वा गृहस्थों को धारण करती हुई (देवीः, तिस्रः) (ति-
स्रः, देवीः) तीन दिव्य क्रियां “ यहां पुनरुक्ति आवश्यकता जताने के लिये
है ” (पतिम्) पालन करने हारे (इन्द्रम्) सूर्य के तुल्य तेजस्वी जीव को
(अवर्धयन्) बढ़ाती हैं (वसुधेयस्य) धन कोष के (वसुवने) धन दान में
सुरों को (व्यन्तु) प्राप्त हों उनको आप (यज) प्राप्त हूजिये और आप (अस्पृ-
जत) अभिलाषा कीजिये ॥ १८ ॥

भावार्थः— जैसे जल अग्नि और वायु की गति उत्तम क्रियाओं और सूर्य के
प्रकाश को बढ़ाती हैं वैसे जो मनुष्य सब विद्याओं का धारण करने सब क्रिया का हेतु
और सब दोष गुणों को जताने वाली तीन प्रकार की वाणी को जानते हैं वे इस सब
द्रव्यों के आधार संसार में लक्ष्मी को प्राप्त होजाते हैं ॥ १८ ॥

देव इत्यस्याभिनारुपी । इन्द्रो देवता ।

कृतिश्छन्दः । निषादः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि०॥

देव इन्द्रो नराश संस्त्रिवरूथस्त्रिवन्धुरो दे-
वमिन्द्रमवर्धयत् ॥ शतेन शितिपृष्ठानामाहितः
सहस्रेण प्रवर्त्तते मित्रावरुणोदस्य होत्रमर्हतो बृ-
हस्पतिस्तोत्रमश्विनाऽध्वर्यवं वसुवने वसुधेयस्य
वेतु यज ॥ १९ ॥

देवः। इन्द्रः। नराश संसः। त्रिवरूथ इति त्रिऽवरूथः। त्रि-
बन्धुर इति त्रिऽबन्धुरः। देवम्। इन्द्रम्। अवर्धयत्। शतेन।
शितिपृष्ठानामिति शितिऽपृष्ठानाम्। आहित इत्याहितः।
सहस्रेण । प्र । वर्त्तते । मित्रावरुणा । इत् । अस्य ।
होत्रम् । अर्हतः । बृहस्पतिः । स्तोत्रम् । अश्विना ।

अध्वर्यवम् । वसुवन इति वसुऽवने । वसुधेयस्येति
वसुऽधेयस्य । वेतु । यज ॥ १९ ॥

पदार्थः—(देवः) जीवः (इन्द्रः) ऐश्वर्यमिच्छुकः
(नराशंसः) यो नराञ्छंसति स्तौस्ति सः (त्रिवरूथः)
त्रीणि त्रिविधसुखप्रदानि वरूथानि गृहाणि यस्य सः
(त्रिवन्धुरः) त्रयो बन्धुरा बन्धनानि यस्य सः (देवम्)
देदीप्यमानम् (इन्द्रम्) विद्युतम् (अवर्धयत्) वर्धयेत्
(शतेन) एतत्सङ्ख्याकेन कर्मणा (शितिपृष्ठानाम्)
शितयस्तीक्ष्णा गतयः पृष्ठे येषान्तेषाम् (आहितः) सम-
न्ताद्दृतः (सहस्रेण) असङ्ख्येन पुरुषार्थेन (प्रवर्तते)
(मित्रावरुणा) प्राणोदानौ (इत्) एव (अस्य) जीवस्य
(होत्रम्) अदनम् (अर्हतः) (बृहस्पतिः) बृहतां पा-
लको विद्युद्द्रूपोऽग्निः (स्तोत्रम्) स्तुवन्ति येन तत्
(अश्विना) सूर्याचन्द्रमसौ (अध्वर्यवम्) य आत्मनोऽ-
ध्वरमिच्छति तम् । अत्र वाच्छन्दसीत्यभ्यपि गुणावा-
देशौ (वसुवने) यो वसूनि वनुते याचते तस्मै (वसुधे-
यस्य) संसारस्य (वेतु) (यज) ॥ १९ ॥

अन्वयः—हे विद्वन् ! यथा त्रिवन्धुरास्त्रिवरूथो नराशंसो देव इन्द्रः शते-
नेन्द्रं देवमवर्धयद्यः शितिपृष्ठानां मध्य आहितः सहस्रेण प्रवर्तते मित्राव-
रुणास्येद्दोत्रमर्हते वसुधेयस्य बृहस्पतिः स्तोत्रमश्विनाऽध्वर्यवं वसुवने वेतु
तथा यज ॥ १९ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलुप्ये मनुष्यास्त्रिविधसुखकराणि त्रैकाल्यप्रबन्धानि
गृहाणि रक्षयित्वाऽसङ्ख्यं सुखमवाप्नुयन् पश्यन्-भोजनं याचमानाय यथायोग्य
वस्तु ददति ते कीर्तिं लभन्ते ॥ १९ ॥

पदार्थः—हे विद्वान् ! जैसे (त्रिवन्धुरः) ऋषि आदि रूप तीन बन्धनों वाला (त्रिवरुथः) तीन सुखदायक घरों का स्वामी (नराशंसः) मनुष्यों की स्तुति करने और (इन्द्रः) ऐश्वर्य को चाहने वाला (देवः) जीव (शनेन) सैकड़ों प्रकार के कर्म से (देवम्) प्रकाशमान (इन्द्रम्) त्रिद्युतरूप अग्नि को (अवर्धयत्) बढ़ावे। जो (शितिपृष्ठानाम्) जिन की पीठ पर बैठने से शीघ्र गमन होते हैं उन पशुओं के बीच (आहितः) अच्छे प्रकार स्थिर हुआ (सहस्रेण) असङ्ख्य प्रकार के पुरुषार्थ से (प्र, वर्त्तते) प्रवृत्त होता है (मित्रावरुणा) प्राण और उदान (अस्य) इस (इत्) ही (होत्रम्) भोजन की (अर्हतः) योग्यता रखने वाले जीव के सम्बन्धी (वसुधेयस्य) संसार के (बृहस्पतिः) बड़े २ पदार्थों का रक्षक विजुली रूप अग्नि (स्तोत्रम्) स्तुति के साधन (अश्विना) सूर्य चन्द्रमा और (अध्वर्यवम्) अपने को यज्ञ की इच्छा करने वाले जन को (वसुवने) धन मांगने वाले के लिये (वेतु) कर्माय करे वैसे (यज) सङ्ग कीजिये ॥ १९ ॥

भावार्थः— इस मन्त्र में वाचकलु०—जो मनुष्य विविध प्रकार के सुख करने वाले तीनों अर्थात् भूत भविष्यत् वर्त्तमान् काल का प्रबन्ध जिन में हो सके ऐसे घरों को बना उन में असङ्ख्य सुख पा और पथ्य भोजन करके मांगने वाले के लिये यथायोग्य पदार्थ देते हैं वे कीर्ति को प्राप्त होते हैं ॥ १९ ॥

देव इत्यस्याश्विना वृषी । इन्द्रो देवता । निष्पृदतिशकरी लुन्दः ।

परुषमः स्वरः ॥

पुनर्विद्वांसः किं कुर्वन्तीत्याह ॥

फिर विद्वान् लोग क्या करते हैं इस वि० ॥

देवो देवैर्वनस्पतिर्हिरण्यपर्णो मधुशाखः सु-
पिप्पुलो देवमिन्द्रमवर्धयत् । दिवमग्रैणास्पृक्ष-
दान्तरित्तं पृथिवीमदृ* होद्वसुवने वसुधेयस्य वेतु-
यज ॥ २० ॥

देवः । देवैः । वनस्पतिः । हिरण्यपर्णः । इति हिरण्य-
पर्णः । मधुशाखः । इति मधुशाखः । सुपिप्पलः । इति
सुपिप्पलः । देवम् । इन्द्रम् । अवर्धयत् । दिवम् ।
अग्नेण । अस्पृक्षत् । आ । अन्तरिक्षम् । पृथिवीम् ।
अदृहीत् । वसुवन इति वसुवने । वसुधेयस्येति
वसुधेयस्य । वेतु । यज ॥ २० ॥

पदार्थः—(देवः) दिव्यगुणप्रदः (देवैः) देदीप्यमानैः (व-
नस्पतिः) किरणानां पालकः (हिरण्यपर्णः) हिरण्या-
नि तेजांसि पर्णानि यस्य सः (मधुशाखः) मधुराः शां-
खा यस्य (सुपिप्पलः) सुन्दरफलः(देवम्) दिव्यगुणम्
(इन्द्रम्) दारिद्र्यविदारकम् (अवर्धयत्) वर्धयति (दि-
वम्) प्रकाशम् (अग्नेण) पुरस्सरेण (अस्पृक्षत्)
स्पृहेत् (आ) समन्तात् (अन्तरिक्षम्) अवकाशम् (पृ-
थिवीम्) भूमिम् (अदृहीत्) धरेत् (वसुवने) व-
सुप्रदाय जीवाय (वसुधेयस्य) जगतः (वेतु) (यज) ॥२०॥

अन्वयः—हे विद्वन् । यथा देवैः सह वर्तमानो हिरण्यपर्णो मधुशाखः सु-
पिप्पलो देवो वनस्पतिर्देवमिन्द्रमवर्द्धयदग्नेण दिवमस्पृक्षदन्तरिक्षं तत्स्यां लो-
कान् पृथिवीञ्चादृहीद्वसुवने वसुधेयस्य वेतु तथा यज ॥ २० ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—यथा वनस्पतयो मेघं वर्द्धयन्ति सूर्यश्च
लोकान्धरति तथा विद्वांसो विद्यायाच्चिन् विद्यार्थिनं वर्द्धयन्ति ॥ २० ॥

पदार्थः—हे विद्वन् ! जैसे (देवैः) दिव्य प्रकाशमान गुणोंके साधवर्त्तमान (हिरण्य-
पर्याः) सुवर्ण के तुल्य चिलकते हुए पत्तों वाला (मधुशाखः) मीठी डालियों से
युक्त (सुपिप्पलः) सुन्दर फलों वाला (देवः) उत्तम गुणों का दाता (वनस्पतिः)
सूर्य की किरणों में जल पहुंचा कर उष्णता की शान्ति से किरणों का रक्षक वनस्पति
(देवम्) उत्तम गुणों वाले (इन्द्रम्) दरिद्रता के नाशक मेघ को (अवर्धयत्) बढ़ावे
(अग्रेण) अग्रगामी होने से (दिवम्) प्रकाश को (अस्पृत्तत्) चाहे (अन्तरिक्षम्)
अवकाश, उस में स्थित लोकों और (पृथिवीम्) भूमि को (आ, अदृहीत्) अच्छे
प्रकार धारण करे (वसुभ्यस्य) संसार के (वसुवने) धन दाता जीव के लिये (वेतु)
उत्पन्न होवे वैसे आप (यज) यज्ञ कीजिये ॥ २० ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे वनस्पति ऊपर जल चढ़ा कर मेघ को
बढ़ाते और सूर्य अन्य लोकों को धारण करता है वैसे विद्वान् लोग विद्या को चाहने
वाले विद्यार्थी को बढ़ाते हैं ॥ २० ॥

देवमित्यस्याश्विनावृषी । इन्द्रो देवता ।

त्रिषट्पु छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ।।

फिर उसी वि० ॥

देवं बर्हिर्वारितीनां देवमिन्द्रमवर्धयत् । स्वा-
सस्थमिन्द्रेणासन्नमन्या बर्हिष्यभ्यूभूद्वसुवने व-
सुधेयस्य वेतु यज ॥ २१ ॥

देवम् । बर्हिः । वारितीनाम् । देवम् । इन्द्रम् । अव-
र्धयत् । स्वासस्थमिति सुऽत्रासस्थम् । इन्द्रेण । आसन्नमि-

त्याऽसन्नम् । अन्यां । बर्हीं षि । अभि । अभूत् ।
वसुवन इति वसुऽवने । वसुधेयस्येति वसुऽधेयस्य ।
वेतु । यज ॥ २१ ॥

पदार्थः—(देवम्) दिव्यम् (बर्हिः) अन्तरिक्षम् (वा-
रितीनाम्) वरणीयानां पदार्थानां मध्ये (देवम्) दिव्य-
गुणम् (इन्द्रम्) विद्युत्तम् (अवर्धयत्) वर्धयति (स्वा-
सस्थम् सुष्वासते यस्मिँस्तम् (इन्द्रेण) ईश्वरेण (आस-
न्नम्) समीपस्थम् (अन्या) अन्यानि (बर्हींषि) अ-
न्तरिक्षावयवाः (अभि) अभितः (अभूत्) भवेत् (व-
सुवने) पदार्थविद्यायाचिने (वसुधेयस्य) सर्वद्रव्याधारस्य
जगतो मध्ये (वेतु) (यज) ॥ २१ ॥

अन्वयः—हे विद्वन् ! यथा देववारितीनां मध्येवर्तमानं स्वासस्थमिन्द्रे-
ण सहामन्नमिन्दं बर्हिर्देवमवर्धयदन्या बर्हींष्यभ्यभूद्वसुवने वसुधेयस्य वेतु
तथा यज ॥ २१ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०-हे विद्वांसो मनुष्या यूयं यथाऽभिठ्याप्तमा-
काशं सर्वान् पदार्थानभिठयाप्नोति सर्वेषां समीपमस्तितथेश्वरस्य समीपवर्तिनं
जीवं विज्ञायाऽस्मिन्संसारे सुपात्राय वाचमानाय दानं ददत ॥ २१ ॥

पदार्थः—हे विद्वन् ! जैसे (देवम्) दिव्य (वारितीनाम्) ग्रहण करने
योग्य पदार्थों के बीच वर्तमान (स्वासस्थम्) सुन्दरप्रकार स्थिति के आधार
(इन्द्रेण) परमेश्वर के साथ (आसन्नम्) निकटवर्ती (बर्हिः) आकाश (दे-
वम्) उत्तम गुण वाले (इन्द्रम्) विजुली को (अवर्धयत्) बढ़ाता है (अन्या)
आर (बर्हींषि) अन्तरिक्ष के अवयवों को (अभि, अभूत्) सब ओर से व्याप्त

होवे (वसुधेयस्य) सब द्रव्यों के आधार जगत् के बीच (वसुवने) पदार्थ विद्या को चाहने वाले जन के लिये (वेतु) प्राप्त होवे आप (यज) प्राप्त हूजिये ॥२१॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०— हे विद्वान् मनुष्यो ! तुम लोग जैसे सब ओर से व्याप्त आकाश सब पदार्थों को व्याप्त होता और सब के समीप है वैसे ईश्वर के निकटवर्ती जीव को जान के इस संसार में मांगने वाले सुपात्र के लिये धनादि का दान देवो ॥ २१ ॥

देव इत्यस्याशित्रनावृषी । अग्निर्देवता ।

निचृत् त्रिष्टुच्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

देवो अग्निः स्विष्टकृद्देवमिन्द्रमवर्धयत् ।
स्विष्टं कुर्वन्तिस्वष्टकृत् स्विष्टमद्य करोतु नो व-
सुवने वसुधेयस्य वेतु यज ॥ २२ ॥

देवः । अग्निः । स्विष्टकृदिति स्विष्टकृत् । देवम् ।
इन्द्रम् । अवर्धयत् । स्विष्टमिति सुष्टम् । कुर्वन् ।
स्विष्टकृदिति स्विष्टकृत् । स्विष्टमिति सुष्टम् ।
अद्य । करोतु । नः । वसुवन् इति वसुवने । वसु-
धेयस्येति । वसुधेयस्य । वेतु । यज ॥ २२ ॥

पदार्थः—(देवः) दिव्यगुणः (अग्निः) पावकः(स्विष्टकृत्)यः
शोभनमिष्टं करोति सः (देवम्) दिव्यगुणम्(इन्द्रम्) जीवम्
(अवर्धयत्)वर्धयेत् (स्विष्टम्) शोभनञ् च तदिष्टम्(कुर्वन्)

सम्पादयन्(स्विष्टकृत्)उत्तमेष्टकारी (स्विष्टम्) अति-
शयेनाभीप्सितम् (अद्य) (करोतु) (नः) अस्मभ्यम्
(वसुवने) (वसुधेयस्य) (वेतु) यज ॥ २२ ॥

अन्वयः—हे विद्वन् यथा स्विष्टकृद्देवोऽग्निरिन्द्रं देवसवर्धयद्यथा च स्वि-
ष्टं कुर्वन् स्विष्टकृत्सन्नग्निः स्विष्टं करोति तथाऽद्य नः सुखं करोतु धनं वेतु
वसुधेयस्य वसुवने यज च ॥ २२ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—यथा गुणकर्मस्वभावैर्विज्ञातः कर्मसु संग्र-
होऽग्निरभीष्टानि कार्याणिसाध्नोति तथा विद्वद्भिर्वर्तितव्यम् ॥ २२ ॥

पदार्थः—हे विद्वन् जैसे (स्विष्टकृत्) सुन्दर प्रकार इष्ट का साधक (देवः)
उत्तम गुणों वाला (अग्निः) अग्नि (इन्द्रम्, देवम्) उत्तम गुणों वाले
जीव को (अवर्धयत्) बढ़ावे तथा जैसे (स्विष्टम्) सुन्दर इष्ट को (कुर्वन्)
सिद्ध करता और (स्विष्टकृत्) उत्तम इष्टकारी हुआ अग्नि (स्विष्टम्) अ-
त्यन्त चाहे हुए कार्य को करता है वैसे (अद्य) आज (नः) हमारे लिये सु-
ख को (करोतु) कीजिये (वेतु) धन को प्राप्त हूजिये और (वसुधेयस्य) सब
द्रव्यों के आधार जगत् के बीच (वसुवने) पदार्थविद्या को चाहते हुए मनुष्य
के लिये (यज) दान कीजिये ॥ २२ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे गुण कर्म स्वभावों करके जाना गया क-
र्मों में नियुक्त किया अग्नि अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करता है वैसे विद्वानों को वर्तना
चाहिये ॥ २२ ॥

अग्निमित्यस्याश्विनाष्टपी । अग्निदर्वेता ।

कृतिरछन्दः । निषादः स्वरः ।

पुनरुत्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

अग्निमद्य होतारमवृणीतायं यजमानः प-
चन्पक्नीः पचन्पुरोडाशंबध्नन्निन्द्रायच्छागम् ॥

सूपस्था अद्य देवो वनस्पतिरभवदिन्द्राय-
च्छागेन । अद्यत्तं मेदस्तःप्रति पचताग्रभीदवी-
वृधत्पुरोडाशेन त्वामद्य ऋषे ॥ २३ ॥

अग्निम् । अद्य । होतारम् । अवृणीत् । अयम् ।
यजमानः । पचन् । पक्तीः । पचन् । पुरोडाशम् । व-
धन् । इन्द्राय । छागम् । सूपस्था इति सुऽउपस्थाः ।
अद्य । देवः । वनस्पतिः । अभवत् । इन्द्राय । छा-
गेन । अद्यत् । तम् । मेदस्तः । प्रति । पचता । अग्र-
भीत् । अवीवृधत् । पुरोडाशेन । त्वाम् । अद्य ।
ऋषे ॥ २३ ॥

पदार्थः—(अग्निम्) विद्वांसम् (अद्य) इदानीम् (होता-
रम्) (अवृणीत्) वृणुयात् (अयम्) (यजमानः)
(पचन्) (पक्तीः) पाकान् (पचन्) (पुरोडाशम्)
पाकविशेषम् (वधन्) बहुकुर्वन् (इन्द्राय) ऐश्वर्या-
य (छागम्) छद्यति छिनत्ति रोगान् येन तम् (सूपस्थाः)
ये सूप तिष्ठन्ति ते (अद्य) (देवः) (वनस्पतिः) व-
नस्य किरणसमूहस्य पालकः सूर्यः (अभवत्) भवेत् (इ-
न्द्राय) ऐश्वर्याय (छागेन) छेदनेन (अद्यत्) अत्ति
(तम्) (मेदस्तः) मेदसः स्निग्धात् (प्रति) (पचता)
(अग्रभीत्) गृह्णाति (अवीवृधत्) (पुरोडाशेन)
(त्वाम्) (अद्य) (ऋषे) मन्त्रार्थवित् ॥ २३ ॥

अन्वयः— हे ऋषे विद्वन् यथाऽयं यजमानोऽद्येन्द्राय पक्तीः
पचन् पुरोडाशं पचञ्छागं वधन्वग्निं होतारमवृणीत् । यथा

वनस्पतिर्देव इन्द्राय छागेनाद्याभवन्मेदस्तस्तमद्यत्पचता सूपस्थाः स्युस्तथा
प्रत्यग्रभीरपुरोडाशेनावीवृधत्तथा त्वामद्याऽहं वर्द्धयेयं एवं च तथा वर्त्तस्व ॥२३॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—यथा पाककर्तारशाकादीनि छित्वा भित्वाऽ-
क्षय्यज्जनानि पचन्ति तथा सूर्यः सर्वान् पचति । यथा सूर्यो वृष्टिद्वारा स-
र्वान् वर्द्धयति तथा सेवादिद्वारा मन्त्रार्थद्रष्टारो विद्वांसः सर्वैर्वर्द्धनीयाः ॥२३॥

पदार्थः—हे (ऋषे) मन्त्रार्थ जानने हारे विद्वन् जैसे (अयम्) यह (यज-
मानः) यज्ञ करने हारा पुरुष (अद्य) आज (इन्द्राय) ऐश्वर्य प्राप्ति के अर्थ
(पक्तीः) पाकों को (पचन्) पकाता (पुरोडाशम्) होम के लिये पाक विशेष-
ण को (पचन्) पकाता और (छागम्) रोगों को नष्ट करने हारी बकरी
को (वधन्न्) बांधता हुआ (होतारम्) यज्ञ करने में कुशल (आग्निम्)
तेजस्वी विद्वान् को (अवृणीत) स्वीकार करे । जैसे (वनस्पतिः) किरण
समूह का रक्षक (देवः) प्रकाशयुक्त सूर्यमण्डल (इन्द्राय) ऐश्वर्य के लिये
(छागेन) छेदन करने के साथ (अद्य) इस समय (अभवत्) प्रसिद्ध होवे
(मेदस्तः) चिकनाई वा गीलेपन से (तम्) उस हुत पदार्थ को (अद्यत्)
खाता (पचता) सब पदार्थों को पकाते हुए सूर्य से (सूपस्थाः) सुन्दर उप-
स्थान करने वाले हों जैसे (प्रांत, अग्रभीत्) ग्रहण करता है (पुरोडाशेन) होम
के लिये पकाये पदार्थ विशेष से (अवीवृधत्) अधिक वृद्धि को प्राप्त होता है
जैसे (त्वाम्) आप को (अद्य) मैं बढ़ाऊँ और आप भी जैसे ही वर्त्ताव की-
निये ॥ २३ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—जैसे रसोइये लोग साग आदि को काट कूट
के अन्न और कढ़ी आदि पकाते हैं वैसे सूर्य सब पदार्थों को पकाता है जैसे सूर्य वर्षा के
द्वारा सब पदार्थों को बढ़ाता है वैसे सब मनुष्यों को चाहिये कि सेवादि के द्वारा मन्त्रार्थ
देखने वाले विद्वानों को बढ़ावे ॥ २३ ॥

होतेत्यस्य सरस्वती ऋषिः । अग्निर्देवता ।

स्वरांडूजगतीछन्दः । निषादः स्वरः ॥

पुनरुक्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

होता यक्षत्सामिधानं महद्यशः सुसमिद्धं वरे-
ण्यमग्निमिन्द्रं वयोधसम् । गायत्रीं छन्दं इन्द्रियं
त्र्यविं गां वयो दधत्वेत्वाज्यस्य होतर्यज ॥२४॥

होता । यक्षत् । समिधानमिति समऽइधानम् ।
महत् । यशः । सुसमिद्धमिति सुऽसमिद्धम् । वरेण्यम् ।
अग्निम् । इन्द्रम् । वयोधसमिति वयुऽधसम् । गाय-
त्रीम् । छन्दः । इन्द्रियम् । त्र्यविमिति त्रिऽत्र्यविम् ।
गाम् । वयः । दधत् । वेतु । आज्यस्य । होतः । यज
॥ २४ ॥

पदार्थः—(होता) दाता (यक्षत्) सङ्गच्छेत (समिधानम्)
सम्यक् प्रकाशमानम् (महत्) (यशः) कीर्तिम् (सुसमिद्धम्)
सुष्ठु प्रदीप्यमानम् (वरेण्यम्) वर्तुमर्हम् (अग्निम्) पावकम्
(इन्द्रम्) परमैश्वर्यकारकम् (वयोधसम्) कर्मनीयायुर्धारकम्
(गायत्रीम्) सदर्थान् प्रकाशयन्तीम् (छन्दः) स्वातन्त्र्यम्
(इन्द्रियम्) धानं श्रोत्रादि वा (त्र्यविम्) या त्रिधाऽवति
ताम् (गाम्) पृथिवीम् (वयः) जीवनम् (दधत्) धरन् (वेतु)
(आज्यस्य) (होतः) (यज) ॥ २४ ॥

अन्वयः— हे होतस्त्वं यथा होताग्निमिव समिधानं सुसमिद्धं वरेण्यं महद्यशो वयोधसमिन्द्रं गायत्रीं छन्दः इन्द्रियं ज्यविं गां वयश्च दधत्सन्वक्ष-
दाज्यस्य वेतु तथा यज ॥ २४ ॥

भावार्थः— अत्र वाचकलु०— ये सद्धिद्यादिपदार्थानां दानं कुर्वन्ति तेऽतुलां कीर्त्तिं प्राप्य सुखयन्ति ॥ २४ ॥

पदार्थः— हे (होतः) विद्यादि का ग्रहण करने हारे जन ! आप जैसे (होत) दाता पुरुष (अग्निम्) अग्नि के तुल्य (समिधानम्) सम्यक् प्रकाशमान (सुसमिद्धम्) सुन्दर शोभायमान (वरेण्यम्) ग्रहण करने योग्य (महत्) यद्गी (यशः) कीर्त्ति (वयोधसम्) अभीष्ट अवस्था के धारक (इन्द्रम्) उत्तम ऐश्वर्य करने वाले योग (गायत्रीम्) सत्य अर्थों का प्रकाश करने वाली गायत्री (छन्दः) स्वतन्त्रता (इन्द्रियम्) धन वा श्रोत्रादि इन्द्रियों (ज्यविम्) तीन प्रकार से रक्षा करने वाली (गाम्) पृथिवी और (वयः) जीवन को (दधत्) धारण करता हुआ (यज्ञत्) सद्ग करे और (आज्यस्य) विज्ञान के रस को (वेतु) प्राप्त होवे वैसे आप भी (यज) समागम कीजिये ॥ २४ ॥

भावार्थः— इस मन्त्र में वाचकलु०— जो पुरुष सत् विद्या आदि पदार्थों का दान करते हैं वे अतुल कीर्त्ति को पाकर आप सुखी होते और दूसरों को सुख करते हैं ॥ २४ ॥

होतेत्यस्य सरस्वती ऋषिः । इन्द्रो देवता ।

भुरिगतिजगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

होतां यक्षत्तनूनपातमुद्भिदं यं गर्भमदितिर्दधे
शुचिमिन्द्रं वयोधसम् । उषिाहं छन्दं इन्द्रियं दि-
त्यवाहं गां वयो दधद्देत्वाज्यस्य होतर्यज ॥२५॥

होता । यक्षत् । तनूनपातमिति तनूऽनपातम् ।
 उद्भिदमित्युत्ऽभिदम् । यम् । गर्भम् । अदितिः । दधे ।
 शुचिम् । इन्द्रम् । वयोधसमिति वयःऽधसम् । उष्णि-
 हम् । छन्दः । इन्द्रियम् । दित्यवाहमिति दित्यऽवाहम् ।
 गाम् । वयः । दधत् । वेतु । आज्यस्य । होतः । यज ॥२५॥

पदार्थः—(होता) आदाता (यक्षत्) (तनूनपातम्) शरी-
 रादिरक्षकम् (उद्भिदम्) य उद्भिद्य जायते तम् (यम्) (गर्भम्)
 गर्भइव स्थितम् (अदितिः) माता (दधे) दधाति (शुचिम्)
 पवित्रम् (इन्द्रम्) सूर्यम् (वयोधसम्) वयोवर्धकम्
 (उष्णिहम्) उष्णिहा प्रतिपादितम् (छन्दः) बलकरम्
 (इन्द्रियम्) इन्द्रस्य जीवस्य लिङ्गम् (दित्यवाहम्) यो दित्या-
 न् खण्डितान् वहति गमयति तम् (गाम्) वाचम् (वयः)
 कमनीयान् (दधत्) (वेतु) (आज्यस्य) (होतः) (यज) ॥२५॥

अन्वयः—हे होतर्गथा होता तनूनपातमुद्भिदमदितिर्गर्भमिव यं दधे वयो-
 धसं शुचिमिन्द्रं यक्षदाज्यस्योष्णिहं छन्द इन्द्रियं दित्यावाहं गं वयश्च दध-
 त्सन् वेतु तथैतान् यज ॥ २५ ॥

भावार्थः— अत्र वाचकलु०—हे मनुष्या भवन्तो तथा माता गर्भं जातं
 बालं च रक्षति तथा शरीरमिन्द्रयाणि च रक्षयित्वा विद्यायुषी वर्धयन्तु ॥२५॥

पदार्थः— हे (होतः) ज्ञान के यज्ञ के कर्त्तः । जैसे (होता) शुभ गुणों का
 ग्रहण करने वाला जन (तनूनपातम्) शरीरादि के रक्षक (उद्भिदम्) शरीर

का भेदन कर निकलने वाले (गर्भम्) गर्भ को जैसे (आदितिः) माता धारण करती है वैसे (यम्) जिस को (दधे) धारण करता है (वयोधसम्) अवस्था के वर्धक (शुचिम्) पवित्र (इन्द्रम्) सूर्य को (यत्तत्) हवन का पदार्थ पहुंचाता है (आज्यस्य) विज्ञान सम्बन्धी (उष्णिहम्) उष्णिक् छन्द से कहे हुए (छन्दः) बलकारी (इन्द्रियम्) जीव के श्रोत्रादि चिन्हों और (दित्यवाहम्) खण्डितों को पहुंचाने वाले (गाम्) वाणी और (वयः) सुन्दर २ पक्षियों की (दधत्) धारण करता हुआ (वेतु) प्राप्त होवे वैसे इन सब को आप (यज) सङ्गत कीजिये ॥ २५ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०— हे मनुष्यो ! आप लोग जैसे माता गर्भ और उत्पन्न हुए बालक की रक्षा करती है वैसे शरीर और इन्द्रियों की रक्षा करके विद्या और आयुर्दा को बढ़ाओ ॥ २५ ॥

होतेत्यस्य सरस्वती ऋषिः । इन्द्रो देवता ।

निचृच्छकरी छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पु नस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

होता यक्षदिडेन्यमीडितं वृत्रहन्तममिडाभि-
रीड्य सहः सोममिन्द्रं वयोधसम् । अनुष्टुभं
छन्द इन्द्रियं पञ्चाविं गां वयो दधद्वेत्वाज्यस्य
होतर्यज ॥ २६ ॥

होता । यक्षत् । ईडेन्यम् । ईडितम् । वृत्रहन्तममि-
ति वृत्रहन्तमम् । इडाभिः । ईड्यम् । सहः । सो-
मम् । इन्द्रम् । वयोधसमिति वयःधसम् । अनुष्टुभम् ।

अनुस्तुभमित्यनुस्तुभम् । छन्दः । इन्द्रियम् । पञ्चा-
विमिति पञ्चाऽअविम् । गाम् । वयः । दधत् । वेतु ।
आज्यस्य । होता । यज ॥ २६ ॥

पदार्थः—(होता) आदाता (यक्षत्) सङ्गच्छेत
(ईडेन्यम्) स्तोतुमर्हम् (ईडितम्) प्रशस्तम् (वृत्रह-
न्तमम्) अतिशयेन वृत्रस्य मेघस्य हन्तारं सूर्यमिव (इ-
डाभिः) सुशिक्षिताभिर्वाग्भिः (ईड्यम्) प्रशंसितुमर्हम्
(सहः) बलम् (सोमम्) सोमादोषधिगणम् (इन्द्रम्)
जीवम् (वयोधसम्) कमनीयानां प्राणानां धारकम्
(अनुष्टुभम्) अनुस्तम्भकम् (छन्दः) स्वातन्त्र्यम्
(इन्द्रियम्) श्रोत्रादि (पञ्चाविम्) या पञ्च
प्राणान् रक्षति ताम् (गाम्) पृथिवीम् (वयः) कम-
नीयं वस्तु (दधत्) धरत्सन् (वेतु) (आज्यस्य) वि-
ज्ञातुमर्हस्य (होतः) (यज) ॥ २६ ॥

अन्वयः—हे होतर्यथा होता वृत्रहन्तमभिवेडाभिरीडेन्यमीडितं सह ई-
ड्यं सोमं वयोधसमिन्द्रं यक्षदिन्द्रियमनुष्टुभं छन्दः पञ्चाविं गां वयश्चाऽज्य-
स्य मध्ये दधत्वेतु तथैतान् यज ॥ २६ ॥

भावार्थः—अत्र घाचकलु०—ये सनुष्या न्यायेन प्रशस्तगुणेन सूय गोप-
मिताः प्रशस्ता भूत्वा विज्ञेयानि वस्तूनि विदित्वा स्तुतिर्बलां जीवनं धनं
जितेन्द्रियतां राजयं च धरन्ति ते प्रशंसार्हा भवन्ति ॥ २६ ॥

पदार्थः—हे (होतः) यज्ञ करने हारे जन! जैसे (होता) शुभ गुणों का
ग्रहीता पुरुष (वृत्रहन्तमम्) मेघ को अत्यन्त काटने वाले सूर्य को जैसे वैसे
(इडाभिः) अच्छी शिक्षित वाणियों से (ईडेन्यम्) स्तुति करने योग्य (ईडि-
तम्)प्रशंसित (सहः) बल (ईड्यम्) प्रशंसा के योग्य (सोमम्) सोम आदि

श्रोषधिगण और (वयोधसम्) मनोहर प्राणों के धारक ! (इन्द्रम्) जीवात्मा को (यक्षत्) सङ्गत करे और (इन्द्रियम्) श्रोत्र आदि (अनुष्णुमम्) अनुकूल थांभने वाली (छन्दः) स्वतन्त्रता से (पञ्चाविम्) पांच प्राणों की रक्षा करने वाली (गाम्) पृथिवी और (आज्यस्य) जानने योग्य जगत् के बीच (वयः) अभाष्टि वस्तु को (दधत्) धारण करता हुआ (वेतु) प्राप्त होवे जैसे आप इन सब को (यज) सङ्गत कीजिये ॥ २६ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो मनुष्य न्याय के साथ प्रशंसित गुण वाले सूर्य के तुल्य प्रशंसित हो के विज्ञान के योग्य वस्तुओं को जान के स्तुति, बल, जीवन, धन, जितेन्द्रियपन और राज्य का धारण करते हैं वे प्रशंसा के योग्य होते हैं ॥ २६ ॥

होतेत्यस्य सरस्वत्यृषिः । इन्द्रो देवता । स्वराडतिजगती

छन्दः । निषादः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

किर उसी वि० ॥

होता यक्षत्सुवर्हिषं पूषण्वन्तममर्त्यं सीदन्तं
वर्हिषि प्रियेऽमृतेन्द्रं वयोधसम् । बृहती छन्द इन्द्रि-
यं त्रिवत्सं गां वयो दधद्वेत्वाज्यस्य होतयज ॥ २७ ॥

होता । यक्षत् । सुवर्हिषमिति सुवर्हिषम् । पूषण्व-
न्तमिति पूषण्वन्तम् । अमर्त्यम् । सीदन्तम् । वर्हिषि ।
प्रिये । अमृता । इन्द्रम् । वयोधसमिति वयःऽधसम् । बृह-
तीम् । छन्दः । इन्द्रियम् । त्रिवत्समिति त्रिवत्सम् । गाम् ।
वयः । दधत् । वेतु । आज्यस्य । होतः । यज ॥ २७ ॥

पदार्थः—(होता) आकाशां (यक्षत्) (सुबर्हिषम्)
 शोभनं बर्हिरन्तरिक्षमुदकं वा यस्य तम् (पूषणवन्तम्)
 बहुपुष्टियुक्तम् (अमर्त्यम्) मृत्युधर्मरहितम् (सीदन्तम्)
 तिष्ठन्तम् (बर्हिषि) आकाशमिव व्याप्ते (प्रिये) कम्-
 नीये परमात्मस्वरूपे (अमृता) नाशधर्मरहिते । अत्र वि-
 भक्तेराकारादेशः (इन्द्रम्) स्वकीयं जीवस्वरूपम् (वयोध-
 सम्) त्रयः कर्मापासनाज्ञानानि वत्सा इव यस्य तम्
 (गाम्) प्राप्तव्यं वीधम् (वयः) कम्नीयं सुखम् (दधत्)
 (वेतु) प्राप्नोतु (आज्यस्य) (होतः) (यज) ॥ २७ ॥

अन्वयः—हे होतस्त्वं यथा स होताऽमृता बर्हिषि प्रिये सीदन्तमभयं
 पूषणवन्तं सुबर्हिषं वयोधसमिन्द्रं यक्षत्स आज्यस्य वृहतीं छन्द इन्द्रियं
 त्रिवत्सं गां वयश्च दधत्सन् कल्याणं वेतु तथैतानि यज ॥ २७ ॥

भाष्यार्थः—अत्र वाचकलु०—ये मनुष्या ओत्रियं ब्रह्मनिष्ठं योगिनं सेव-
 न्ते ते सर्वाण्यभीष्टानि सुखानि लभन्ते ॥ २७ ॥

पदार्थः—हे (होतः) दान देने वाले पुरुष ! तू जैसे वह (होता) शुभ गुणों
 का ग्रहीता पुरुष (अमृता) नाशरहित (बर्हिषि) आकाश के तुल्य व्याप्त
 (प्रिये) चाहने योग्य परमेश्वर के स्वरूप में (सीदन्तम्) स्थिर हुए (अम-
 र्त्यम्) शुद्ध स्वरूप से मृत्युरहित (पूषणवन्तम्) बहुत पौढ़ा (सुबर्हिषम्)
 सुन्दर अवकाश वा जलों वाला (वयोधसम्) व्याप्ति को धारण करने हारे
 (इन्द्रम्) अपने जीवस्वरूप का (यत्तत्) सङ्ग करे वह (आज्यस्य) जानने
 योग्य विज्ञान का सम्बन्धी (वृहतीम्) वृहती (छन्दः) छन्द (इन्द्रियम्)

श्रोत्र आदि इन्द्रिय (त्रिवत्सम्) कर्म, उपासना, ज्ञान, जिस को पुत्रवत् हैं उस वेद सम्बन्धी (गाम्) प्राप्त होने योग्य बोध तथा (वयः) मनोहर सुख को (दधत्) धारण करता हुआ कल्याण को (वेतु) प्राप्त होवे जैसे इन्को (यज) सङ्गत करे ॥ २७ ॥

भावार्थः इस मन्त्र में वाचकलु०—जो मनुष्य वेदपाठी ब्रह्मनिष्ठ योगी पुरुष का सेवन करते हैं वे सब अभीष्ट सुखों को प्राप्त होते हैं ॥ २७ ॥

होतेत्यस्य सरस्वत्यृषिः । इन्द्रो देवता ।

स्वराट्छक्करी छन्दः । धैवतः स्यरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

होता यक्षद्वयचस्वतीः सुप्रायणा ऋतावृधो
द्वारो देवीर्हिरण्ययीर्ब्रह्माणमिन्द्रं वयोधसम् ।
पङ्क्तिं छन्दं इहेन्द्रियं तुर्यवाहं गां वयो दध-
द्वयेन्त्वाज्यस्य होतुर्यज ॥ २८ ॥

होता । यक्षत् । व्यचस्वतीः । सुप्रायणाः । सुप्रा-
यणाऽ इति सुप्रायणाः । ऋतावृधः । ऋतवृध इति
ऋतऽवृधः । द्वारः । देवीः । हिरण्ययीः । ब्रह्माणम् ।
इन्द्रम् । वयोधसमिति वयुऽधसम् । पङ्क्तिम् । छन्दः ।
इह । इन्द्रियम् । तुर्यवाहमिति तुर्यऽवाहम् । गाम् ।
वयः । दधत् । व्यन्तु । आज्यस्य । होतः । यज ॥ २८ ॥

पदार्थः—(होता) (यक्षत्) (व्यचस्वतीः) गम-
नाऽवकाशयुक्ताः (सुप्रायणाः) सुष्ठु प्रायणं प्रकर्षेण
गमनं यासु ताः (ऋतावृधः) या ऋतं यथायोग्यं सत्यं
वर्द्धयन्ति ताः (द्वारः) द्वाराणि (देवीः) दिव्यगुणाः
(हिरण्ययीः) सुवर्णादिभिरनुलिप्ताः (ब्रह्माणम्) चतु-
र्वेदविदम् (इन्द्रम्) विद्वैश्वर्यम् (वयोधसम्) कमनीयानां
विद्याबोधादीनां धातारम् (पङ्क्तिम्) (छन्दः) (इह)
अस्मिन्संसारे (इन्द्रियम्) धनम् (तुर्यवाहम्) यस्तुर्यं च-
तुर्गुणं भारं वहति तम् (गाम्) (वयः) गमनम् (द-
धत्) (व्यन्तु) प्राप्नुवन्तु (आज्यस्य) प्राप्तव्यस्य घृता-
दिसम्बन्धपदार्थस्य (होतः) (यज) ॥ २८ ॥

अन्वयः—हे होतस्त्वं यथेह होता व्यचस्वतीः सुप्रायणा ऋतावृधो
हिरण्ययीर्देवीद्वारो वयोधसं ब्रह्माणमिन्द्रं पङ्क्तिं छन्द इन्द्रियं तुर्यवाहं
गं वयश्च दधदाज्यस्यैतानि यक्षत् यथा च जना व्यन्तु तथैतानि यज ॥ २८ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु—मनुष्या अयुत्तमानि सुन्दरद्वाराणि सु-
वर्णादियुक्तानि गृहाणि रचयित्वा तत्र निवासं विद्याभ्यासं च कुर्यात्ते
ऽरोगा जायन्ते ॥ २८ ॥

पदार्थः—हे (होतः) यज्ञ करने वाले पुरुष ! तू जैसे (इह) इस संसार में
(होता) ग्रहीता जन (व्यचस्वतीः) निकलने के अवकाश वाले (सुप्राय-
णाः) सुन्दर निकलना जिन में हो (ऋतावृधः) सत्य को बढ़ाने वाले (हि-
रण्ययीः) सुनहरी चित्रों वाले (देवीः) उत्तम गुणयुक्त (द्वारः) द्वारों को

(वयोधसम्) कामना के योग्य विद्या तथा बोध आदि के धारण करने हारे (ब्रह्माणम्) चारों वेद के ज्ञाता (इन्द्रम्) विद्यारूप ऐश्वर्य वाले विद्वान् को (पंक्तिम्) पंक्ति (छन्दः) छन्द (इन्द्रियम्) धन (तुर्यवाहम्) चौगुणा बोझ लें चलने हारे (गाम्) बैल और (वयः) गमन को (दधत्) धारण करता हुआ (आज्यस्य) प्राप्त होने योग्य घृतादि के सम्बन्धी इन उक्त पदार्थों को (यत्तत्) संगत करें और जैसे मनुष्य को (व्यन्तु) प्राप्त होवें इन सब को (यज) प्राप्त हो ॥ २८ ॥

भावार्थः— इस मन्त्र में वाचकलु०—मनुष्य लोग अत्युत्तम सुन्दर द्वारों वाले सुवर्णादि पदार्थों से युक्त घरों को बना के वहां निवास और विद्या का अभ्यास करें वे रोगरहित होते हैं ॥ २८ ॥

होतेत्यस्य सरस्वत्यृषिः । अहोत्रे देवते ।

निष्पृदतिशक्वरी छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

होता यत्तत्सुपेशसा सुशिल्पे बृहतीऽभे नक्तो-
षासा न दर्शते विश्वमिन्द्रं वयोधसम् । त्रिष्टुभं
छन्द इहेन्द्रियं पष्ट्रवाहं गां वयोदधद्दीतामाज्यस्य
होतुर्यज ॥ २९ ॥

होता । यक्षत् । सुपेशसेति सुऽपेशसा । सुशिल्पे-
ऽइति सुऽशिल्पे । बृहतीऽइति बृहती । उभेऽइत्युभे ।
नक्तोषासा । नक्तोषसेति नक्तोषसा । न । दर्शतेऽ-
इति दर्शते । विश्वम् । इन्द्रम् । वयोधसमिति वयःऽ-

धसम् । त्रिष्टुभम् । त्रिस्तुभमिति त्रिस्तुभम् । छन्दः ।
इह । इन्द्रियम् । पृष्ठवाहमिति पृष्ठवाहम् । गाम् । वयः ।
दधत् वीताम् । आज्यस्य । होतः । यज ॥ २९ ॥

पदार्थः—(होता) आदाता (यक्षत्) (सुपेशसा) सुन्दरस्वरूपवन्तौ विद्वांसावध्यापकौ (सुशिल्पे) सुन्दराणि शिल्पानि ययोस्ते (बृहती) महत्यौ (उभे) द्वे (नक्तोपासा) रात्रिदिने (न) इव (दर्शते) द्रष्टव्ये (विश्वम्) सर्वम् (इन्द्रम्) परमैश्वर्यम् (वयोधसम्) कामनाधारकम् (त्रिष्टुभम्) एतच्छन्दोऽर्थम् (छन्दः) बलम् (इह) अस्मिञ्जगति (इन्द्रियम्) (पृष्ठवाहम्) यः पृष्ठेन पृष्ठेन वहति तम् (गाम्) वृषम् (वयः) (दधत्) (वीताम्) प्राप्तताम् (आज्यस्य) प्राप्तुं योग्यस्य घृतादिपदार्थस्य सम्बन्धिनम् (होतः) (यज) ॥२९॥

अन्वयः—हे होतस्त्वं यथेह बृहत्युभे सुशिल्पे दर्शते नक्तोपासा न सुपेशसा विश्वं वयोधसमिद्रं त्रिष्टुभं छन्दो वय इन्द्रियं पृष्ठवाहं गां न वीतां यथाऽऽज्यस्यैतानि दधत्सन् होता यक्षसथा यज ॥ २९ ॥

भावार्थः—अत्रोपमावाचकलु०—ये सकलैश्वर्यकराणि शिल्पकर्माणीह सञ्चुवन्ति ते सुखिनो जायन्ते ॥ २९ ॥

पदार्थः—हे (होतः) यज्ञ करने वाले पुरुष ! तू जैसे (इह) इस जगत् में (बृहती) बड़े (उभे) दोनों (सुशिल्पे) सुन्दर शिल्प कार्य जिन में हों वे (दर्शते) देखने योग्य (नक्तोपासा) रात्रि दिन के (न) समान

(सुपेशसा) सुन्दर रूप वाले अध्यापक उपदेशक दो विद्वान् (विश्वम्) सब (वयोधसम्) कामना के आधार (इन्द्रम्) उत्तम ऐश्वर्य (त्रिष्टुभम्) त्रिष्टुप् छन्द का अर्थ (छन्दः) बल (वयः) अवस्था (इन्द्रियम्) श्रोत्रादि इन्द्रिय और (पण्डवाहम्) पीठ पर भार ले चलने वाले (गाम्) बैल को (वीताम्) प्राप्त हों जैसे (आज्यस्य) प्राप्त होने योग्य घृतादि पदार्थ के सम्बन्धी इन को (दधत्) धारण करता हुआ (होता) ग्रहण करता पुरुष (यच्चत्) प्राप्त होवे जैसे (यज) यज्ञ कीजिये ॥ २९ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में उपमा और वाचकलु०—जो संपूर्ण ऐश्वर्य करने वाले गिल्प कार्यों को इस जगत् में सिद्ध करते हैं वे सुखी होते हैं ॥ २९ ॥

होतैत्यस्य सरस्वत्यृषिः । अश्विनौ देवते ।

निचृदतिशक्ती छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

होता यक्षत्प्रचेतसा देवानामुत्तमं यशो हो-
तारा दैव्या कवी सयुजेन्द्रं वयोधसम् । जगतीं
छन्दं इन्द्रियमण्डवाहं गां वयो दधत्वीतामा-
ज्यस्य होतर्यज ॥ ३० ॥

होता । यक्षत् । प्रचेतसेति प्रचेतसा । देवानाम् ।
उत्तममित्युत्तमम् । यशः । होतारा । दैव्या । कवी
इतिकवी । सयुजेति सयुजा । इन्द्रम् । वयोधसमि-
ति वयोऽधसम् । जगतीम् । छन्दः । इन्द्रियम् । अ-
ण्डवाहम् । गाम् । वयः । दधत् । वीताम् । आज्यस्या
होतः । यज ॥ ३० ॥

पदार्थः—(होता) (-यक्षात्) (प्रचेतसा) प्रकृष्टं चेतो विज्ञानं ययोस्तौ (देवानाम्) विदुषाम् (उत्तमम्) (यशः) कीर्तिम् (होतारा) दातारौ (दैव्या) देवेषु दिव्येषु कर्मसु साधू (कवी) मेधाविनौ (सयुजा) यौ सहैव युङ्क्तरतौ (इन्द्रम्) परमैश्वर्यम् (वयोधसम्) कमनीयसु खधारकम् (जगतीम्) (छन्दः) (इन्द्रियम्) धनम् (अनड्वाहम्) शकटवाहकम् (गाम्) वृषभम् (वयः) विज्ञानम् (दधत्) (वीताम्) प्राप्नुताम् (आज्यस्य) विज्ञेयस्य (होतः) (यज) ॥ ३० ॥

अन्वयः—हे होतस्त्वं यथा देवानां प्रचेतसा सयुजा दैव्या होतारा कवी अध्यापकाऽध्येतारौ श्रोताश्रावयितारौ धीतमं यशो वयोधसमिन्द्रं जगतीं छन्दो वय इन्द्रियसन्ड्वाहं गां च वीतां यथाऽज्यस्य मघ्य एतानि दधत् सन् होता यज्ञस्यथा यज ॥ ३० ॥

भावार्थः—अत्रवाचकलु०—यदि सनुष्याः पुरुषार्थं कुर्युस्तर्हि विद्यां कीर्तिं धनं च प्राप्य माननीया भवेयुः ॥ ३० ॥

पदार्थः—हे (होतः) दान देने हारे पुरुष! तू जैसे (देवानाम्) विद्वानों के सम्बन्धी (प्रचेतसा) उत्कृष्ट विज्ञान वाले (सयुजा) साथ योग रखने वाले (दैव्या) उत्तम कर्मों में साधु (होतारा) दाता (कवी) बुद्धिमान् पढ़ने पढ़ाने वा सुनने सुनाने हारे (उत्तमम्) उत्तम (यशः) कीर्ति (वयोधसम्) अभीष्ट सुख के धारक (इन्द्रम्) उत्तम ऐश्वर्य (जगतीम्, छन्दः) जगती छन्द (वयः) विज्ञान (इन्द्रियम्) धन और (अनड्वाहम्) गाड़ी चलाने हारे (गाम्) बैल को (वीताम्) प्राप्त हों जैसे (आज्यस्य) जानने योग्य पदार्थ के बीच इन उक्त सब का (दधत्) धारण करता हुआ (होता) ग्रहण करता जन (यत्तत्) प्राप्त होवे वैसे (यज) प्राप्त हूजिये ॥ ३० ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—यदि मनुष्य पुरुषार्थ करें तो विद्या कीर्ति और धन को प्राप्त हो के माननीय होंगे ॥ ३० ॥

होतेत्यस्य सरस्वत्यृषिः । वाण्यो देवताः ।

भुरिक्छक्वरी छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

होता यक्षपेशस्वतीस्त्रिस्रो देवीर्हिरण्ययी-
भारतीर्बृहतीर्महीः पतिमिन्द्रं वयोधसम् । वि-
राजं छन्दं इहेन्द्रियं धेनुं गां नवयो दधद्वयन्त्वा-
ज्यस्य होतर्यजं ॥ ३१ ॥

होता । यक्षत् । पेशस्वतीः । तिस्रः । देवीः । हि-
रण्ययीः । भारतीः । बृहतीः । महीः । पतिम् । इ-
न्द्रम् । वयोधसमिति वयःऽधसम् । विराजमिति वि-
राजम् । छन्दः । इह । इन्द्रियम् । धेनुम् । गाम् ।
न । वयः । दधत् । व्यन्तु । आज्यस्य । होतः । यजं ॥ ३१ ॥

पदार्थः—(होता) (यक्षत्) (पेशस्वतीः) प्रशस्त-
सुरूपवतीः (तिस्रः) त्रिवसंख्याः (देवीः) दात्र्यः (हि-
रण्ययीः) हिरण्यप्रकाराः (भारतीः) धारिकाः (बृहतीः)
(महीः) महत्संयुक्ताः (पतिम्) पालकम् (इन्द्रम्)
राजानम् (वयोधसम्) चिरायुर्धारकम् (विराजम्)

विविधानां पदार्थानां प्रकाशकम् (छन्दः) ब्रलकरम्
 (इह) (इन्द्रियम्) इन्द्रैर्जीवैर्जुष्टं सुखम् (धेनुम्)
 दुग्धदात्रीम् (गाम्) (न) इव (वयः) कमनीयम्
 (दधत्) (व्यन्तु) प्राप्नुवन्तु (आज्यस्य) (होतः)
 (यज) ॥ ३१ ॥

अन्वयः—हे होतय्येह यो होना तिस्रो हिरण्ययीः पेशस्वतीभारतीवृ
 हतीर्नहीर्देवीस्त्रिविधा वाचो वयोधसं पतिमिन्द्रं विराजं छन्द वय इन्द्रिय
 च यक्षत्स धेनुं गां न व्यन्तु तथैतानि दधत्सन्नाज्यस्य फलं यज ॥ ३१ ॥

भावार्थः—अत्रोपमा वाचकलु०—ये मनुष्याः कर्मोपासनाज्ञानविज्ञापि.
 कां वाणीं विजानन्ति ते महतीं कीर्तिं प्राप्नुवन्ति यथा धेनुर्वत्सान् तर्ज-
 यति तथेह विद्वांसोऽज्ञान् बालकान् तर्जयन्ति ॥ ३१ ॥

पदार्थः—हे (होतः) यज्ञ करने हारे जन! जैसे (इह) इस जगत् में जो
 (होता) शुभ गुणों का ग्रहीता जन (तिस्रः) तीन (हिरण्ययीः) सुवर्ण
 के तुल्य प्रिय (पेशस्वतीः) सुन्दर रूपों वाली (भारतीः) धारण करने हारी
 (बृहतीः) बड़ी गम्भीर (महीः) महान् पुरुषों ने ग्रहण की (देवीः) दान
 शील स्त्रियों, तीन प्रकार की वाणियों, (वयोधसम्) बहुत श्रवस्था वाले (प-
 तिम्) रक्षक (इन्द्रम्) राजा, (विराजम्) विविध पदार्थों के प्रकाशक (छ-
 न्दः) विराट् छन्द, (वयः) कामना के योग्य वस्तु आर (इन्द्रियम्) जीवों
 ने सेवन किये सुख को (यक्षत्) प्राप्त होता है वह (धेनुम्) दूध देने हारी
 (गाम्) गौ के (न) समान हम को (व्यन्तु) प्राप्त हो जैसे इन सब को
 (दधत्) धारण करता हुआ (आज्यस्य) प्राप्त होने योग्य विज्ञान के फल
 को (यज) प्राप्त हुआये ॥ ३१ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलु०—जो मनुष्य कर्म उपासना और विज्ञान के जानने वाली बाणी को जानते हैं वे बड़ी कीर्ति को प्राप्त होते हैं । जैसे धेनु बछड़ों को तृप्त करती है वैसे विद्वान् लोग मूर्ख बालबुद्धि लोगों को तृप्त करते हैं ॥३१॥

होतृत्वंस्य सरस्वत्यृषिः । इन्द्रो देवता ।

मुग्धिं छक्करी छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

होतां यक्षत्सुरेतसं त्वष्टारं पुष्टिवर्धनं रूपा-
णि विभ्रतं पृथक् पुष्टिमिन्द्रं वयोधसम् । द्विप-
दं छन्दं इन्द्रियमुक्षाणं गां न वयो दधद्वेत्वाज्य-
स्य होतर्यज ॥ ३२ ॥

होतां । यक्षत् । सुरेतसमिति सुऽरेतसम् । त्वष्टारम् ।
पुष्टिवर्धनमिति पुष्टिऽवर्धनम् । रूपाणि । विभ्रतम् ।
पृथक् । पुष्टिम् । इन्द्रम् । वयोधसमिति वयःऽधसम् ।
द्विपदमिति द्विऽपदम् । छन्दः । इन्द्रियम् । उक्षाणम् ।
गाम् । न । वयः । दधत् । वेतु । आज्यस्य । होतः ।
यज ॥ ३२ ॥

पदार्थः—(होता) (यक्षत्) (सुरेतसम्) शोभनं
रैतौ वीर्यं यस्य तम् (त्वष्टारम्) देदीप्यमानम् (पुष्टिव-
र्धनम्) यः पुष्ट्या वर्धयति तम् (रूपाणि) (विभ्रतम्)
धरन्तम् (पृथक्) (पुष्टिम्) (इन्द्रम्) परमैश्वर्यम्

(वयोधसम्) द्विपदम् द्वौ पादौ यस्मिन् तत् (छन्दः)
 (इन्द्रियम्) (उक्षाणम्) वीर्यसेचनसमर्थम् (गाम्)
 युवावस्थास्थं वृषभम् (न) इव (वयः) (दधत्) (वे-
 तु) (आज्यस्य) (होतः) (यज) ॥ ३२ ॥

अन्वयः—हे होतस्त्वं यथा होता सुरतसं त्वष्टारं पुष्टिवर्धनं रूपाणि
 पृथक् विभ्रतं वयोधसं पुष्टिन्द्रं द्विपदं छन्द इन्द्रियमुक्षाणं गां न वयो द-
 धत्सन्नाज्यस्य यक्षहेतु तथा यज ॥ ३२ ॥

भावार्थः—अत्रोपवाचकलु०—हे मनुष्या यथा वृषभो गार्भिणीः कृत्वा
 पशून् वर्धयति तथा गृहस्थाः स्त्रीर्गर्भवतीः कृत्वा प्रजा वर्द्धयेयुः । यदि स-
 न्तानेच्छा स्यात्तर्हि पुष्टिः सम्पादनीया । यथा सूर्यो रूपज्ञापकोऽस्ति तथा
 विद्वान् विद्यासुशिषो प्रकाशयति ॥ ३२ ॥

पदार्थः—हे (होतः) दान देने हारे पुरुष ! जैसे (होता) शुभ गुणों का ग्र-
 हीता पुरुष (सुरतसम्) सुन्दर पराक्रम वाले (त्वष्टारम्) प्रकाशमान (पुष्टि-
 वर्धनम्) जो पुष्टि से बढ़ाता उस (रूपाणि) सुन्दर रूपों को (पृथक्) अलग
 ग २ (विभ्रतम्) धारण करने हारे (वयोधसम्) बड़ी अवस्था वाले (पुष्टिम्)
 पुष्टियुक्त (इन्द्रम्) उत्तम ऐश्वर्य को (द्विपदम्) दो पद वाले मनुष्यादि (छ-
 न्दः) स्वतन्त्रता (इन्द्रियम्) श्रोत्रादि इन्द्रिय (उक्षाणम्) वीर्य संचिते में
 समर्थ (गाम्) जवान बैल के (न) समान (वयः) अवस्था को (दधत्) धारण
 करता हुआ (आज्यस्य) विज्ञान के सम्बन्धी पदार्थ का (यत्तत्) होम करे तथा
 (वेतु) प्राप्त होवे वैसे (यज) होम कीजिये ॥ ३२ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जैसे बैल गोओं को
 गाभिन करके पशुओं को बढ़ाता है वैसे गृहस्थ लोग स्त्रियों को गर्भवती कर प्रजा को
 बढ़ावे । जो सन्तानों की चाहना करें तो शरीरादि की पुष्टि अवश्य करनी चाहिये । जैसे
 सूर्य रूप को जताने वाला है वैसे विद्वान् पुरुष विद्या और अच्छी शिक्षा का प्रकाश
 करने वाला होता है ॥ ३२ ॥

होतेत्यस्य सरस्वत्यृषिः । इन्द्रो देवता ।

निचद्रत्यष्टिरछन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

हाता यक्षद्वनस्पतिं शमितारं शतक्रतुं हिर-
ण्यपर्णमुक्थिनं रशनां विभ्रतं वशिं भगमिन्द्रं
वयोधसम् । ककुभं छन्दं इहेन्द्रियं वशां वेहतं
गां वयो दधेत्वाज्यस्य होतर्यजं ॥ ३३ ॥

होता यक्षत् । वनस्पतिम् । शमितारम् । शतक्रतुमिति
शतऽक्रतुम् । हिरण्यपर्णमिति हिरण्यऽपर्णम् । उक्थि-
नम् । रशनाम् । विभ्रतम् । वशिम् । भगम् । इन्द्रम् ।
वयोधसमिति वयःऽधसम् । ककुभम् । छन्दः । इह ।
इन्द्रियम् । वशाम् । वेहतम् । गाम् । वयः । दधत् । वेतुं ।
आज्यस्य । होतः । यजं ॥ ३३ ॥

पदार्थः—(होता) (यक्षत्) (वनस्पतिम्) किरण-
पालकं सूर्यम् (शमितारम्) शान्तिकरम् (शतक्रतुम्)
बहुप्रज्ञम् (हिरण्यपर्णम्) हिरण्यानि तेजांसि पर्णानि
पालकानि यस्य तम् (उक्थिनम्) उक्थानिवक्तुं योग्या-
नि प्रशस्तानि वचनानि यस्य तम् (रशनाम्) अङ्गु-
लिम् । रशनेत्यङ्गुलिना० निघं० ३। ५ । (विभ्रतम्) ध-

रन्तम् (वशिम्) वशकर्त्तारम् (भगम्) सेवनीयमैश्वर्यम्
 (इन्द्रम्) जीवम् (वयोधसम्) आयुर्धारकम् (क-
 कुभम्) स्तम्भकम् (छन्दः) आह्लादकरम् (इह) इन्द्रियम्
 धनम् (वशाम्) बन्ध्याम् (वेहतम्) गर्भस्त्राविकाम् (गाम्)
 (वयः) कमनीयं वस्तु (दधत्) (वेतु) (आज्यस्य)
 (होतः) (यज) ॥ ३३ ॥

अन्वयः—हे होतस्त्वं यथेहाज्यस्य होता समितारं हिरण्यपर्णं वनस्प-
 तिमिव शतक्रतुमुक्थिनं रशनां विभ्रतं वशिं भगं वयोधसमिन्द्रं ककुभं छन्द
 इन्द्रियं वशां वेहतं गां वयश्च दधत्सन्त्यसद्वेतु तथा यज ॥ ३३ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—ये मनुष्याः सूर्यं ब्रह्मिद्याधर्मसुशिक्षा-
 प्रकाश का धीमन्तः स्वाङ्गानि धरन्ती विद्वैश्वर्यां प्राप्स्याऽन्येभ्यो ददति ते
 प्रशंसामाप्नुवन्ति ॥ ३३ ॥

पदार्थः—हे (होतः) दान देने हारे जन । जैसे (इह) इस संसार में (आ-
 ज्यस्य) धी आदि उत्तम पदार्थ का होना होम करने वाला (शमितारम्) शा-
 न्तिकारक (हिरण्यपर्णम्) तेजरूप रक्षाओं वाले (वनस्पतिम्) किरण पालक
 सूर्य के तुल्य (शतक्रतुम्) बहुत बुद्धि वाले (उक्थिनम्) प्रशस्त कहने योग्य व-
 चनों से युक्त (रशनाम्) अङ्गुलि को (विभ्रतम्) धारण करते हुए (वशिम्)
 वश में करने हारे (भगम्) सेवने योग्य ऐश्वर्य (वयोधसम्) अवस्था के धारक
 (इन्द्रम्) जीव (ककुभम्) अर्थ के निरोधक (छन्दः) प्रसन्नताकारक (इ-
 न्द्रियम्) धन (वशाम्) बन्ध्या तथा (वेहतम्) गर्भ गिराने हारी (गाम्) गौ और
 (वयः) अभीष्ट वस्तु को (दधत्) धारण करता हुआ (यत्तत्) यज्ञ करे तथा
 (वेतु) चाहना करे जैसे (यज) यज्ञ कीजिये ॥ ३३ ॥

भावार्थः— इस मन्त्र में वाचकलु०—जो मनुष्य सूर्य के तुल्य विद्या धर्म और उत्त-
 म शिक्षा के प्रकाश करने हारे बुद्धिमान् अपने अङ्गों को धारण करते हुए विद्या और
 ऐश्वर्य को प्राप्त हो के औरों को देते वे प्रशंसा पाते हैं ॥ ३३ ॥

हेतित्यस्य सरस्वत्पृषिः । अग्निर्देवता ।

अतिशक्नी छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

होता यक्षत्स्वाहाकृतीरग्निं गृहपतिं पृथग्वरुणं
भेषजं कविं क्षत्रमिन्द्रं वयोधसम् । अतिछन्दसं
छन्दं इन्द्रियं बृहदृषभं गां वयो दधद्यन्त्वाज्यस्य
होतर्यजं ॥ ३४ ॥

होता । यक्षत् । स्वाहाकृतीरिति स्वाहाऽकृतीः । अ-
ग्निम् । गृहपतिमिति गृहऽपतिम् । पृथक् । वरुणम् ।
भेषजम् । कविम् । क्षत्रम् । इन्द्रम् । वयोधसमिति वयः
ऽधसम् । अतिछन्दसमित्यतिऽछन्दसम् । छन्दः । इन्द्रि-
यम् । बृहत् । ऋषभम् । गाम् । वयः । दधत् । व्यन्तु । आ-
ज्यस्य । होतः । यजं ॥ ३४ ॥

पदार्थः—(होता) (यक्षत्) (स्वाहाकृतीः) वाण्यादिभिः
क्रियाः (अग्निम्) पावकमिव वर्त्तमानम् (गृहपतिम्) गृह-
स्य पालकम् (पृथक्)(वरुणम्) श्रेष्ठम् (भेषजम्) औषधम्
(कविम्) मेधाविनम्(क्षत्रम्) राज्यम् (इन्द्रम्) राजानम्
(वयोधसम्) कमनीयं जीवनधारकम् (अतिछन्दसम्) अ-

तिजगत्यादिप्रतिपादितम् (छन्दः) (इन्द्रियम्) श्रोत्रादि-
कम् (बृहत्) (ऋषभम्) अतिश्रेष्ठम् (गाम्) (वयः)(दधत्)
(व्यन्तु) (आज्यस्य) होतः (यज) ॥ ३४ ॥

अन्वयः-हे होतस्त्वं यथा होता स्वाहाकृतीरग्निमिव गृहपतिं वरुणं पृथ-
भेषजं कविं वयोधसमिन्द्रं क्षत्रमतिछन्दसं छन्दो बृहदिन्द्रियसृषभं गां व-
यश्च दधत्सन्नाज्यस्याहुतिं यक्षद्यथा जना एतानि व्यन्तु यथा यज ॥ ३४ ॥

भावार्थः-अत्र वाचकलु०-ये मनुष्या वेदस्थानि छन्दांसपतिछन्दांसि चा-
धीत्यार्थविदे भवन्ति ते सर्वा विद्याः प्राप्नुवन्ति ॥ ३४ ॥

पदार्थः-हे (होतः) यज्ञ करने हारे जन! तू जैसे (होता) ग्रहणकर्त्ता पुरुष (स्वा-
हाकृतीः) वाणी आदि से सिद्ध किया (अग्निम्) अग्नि के तुल्य वर्तमान ते-
जस्वी (गृहपातिम्) घर के रक्षक (वरुणम्) श्रेष्ठ (पृथक्) अलग (भेषजम्) औषध
(कविम्) बुद्धिमान् (वयोधसम्) मनोहर अवस्था को धारण करने हारे (इन्द्रम्)
राजा (क्षत्रम्) राज्य (अतिछन्दसम्) अतिजगती आदि छन्द से कहे हुए अर्थ
(छन्दः) गायत्री आदि छन्द (बृहत्) बड़े (इन्द्रियम्) कान आदि इन्द्रिय (ऋष-
भम्) अतिउत्तम (गाम्) बैल और (वयः) अवस्था को (दधत्) धारण करता हुआ
(आज्यस्य) धी की आहुति का (यजत्) होम करे और जैसे लोग इन सब को
(व्यन्तु) चाहें वैसे (यज) होम यज्ञ कीजिये ॥ ३४ ॥

भावार्थः-इस मन्त्र में वाचकलु०-जो मनुष्य वेदस्थ गायत्री आदि छन्द तथा
अतिजगती आदि अतिछन्दों को पदों के अर्थ जानने वाले होते हैं वे सब विद्याओं को
प्राप्त होजाते हैं ॥ ३४ ॥

देवमित्यस्य सरस्वत्यृषिः। इन्द्रो देवता ।

भुरिक् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

कीदृशा जना वर्धन्त इत्याह ॥

कैसे मनुष्य बढ़ते हैं इस वि० ॥

देवं बर्हिर्वयोधसं देवमिन्द्रमवर्धयत् । गायत्र्या
छन्दसेन्द्रियं चक्षुरिन्द्रे वयो दधत्सुवने वसुधे-
यस्य वेतु यज ॥ ३५ ॥

देवम् । बर्हिः । वयोधसमिति वयःऽधसम् । देवम् ।
इन्द्रम् । अवर्धयत् । गायत्र्या । छन्दसा । इन्द्रियम् ।
चक्षुः । इन्द्रे । वयः । दधत् । वसुवने इति वसुऽवने ।
वसुधेयस्येति वसुऽधेयस्य । वेतु । यज ॥ ३५ ॥

पदार्थः—(देवम्) दिव्यगुणम् (बर्हिः) अन्तरिक्षम्
(वयोधसम्) वयोवर्धकम् (देवम्) दिव्यस्वरूपम्
(इन्द्रम्) सूर्यम् (अवर्धयत्) वर्धयति (गायत्र्या)
(छन्दसा) (इन्द्रियम्) इन्द्रस्य जीवस्य लिङ्गम् (चक्षुः)
नेत्रम् (इन्द्रे) जीवे (वयः) जीवनम् (दधत्) धरत्
(वसुवने) धनविभाजकाय (वसुधेयस्य) द्रव्याऽऽधारस्य
संसारस्य (वेतु) प्राप्नोतु (यज) संगच्छस्व ॥ ३५ ॥

अन्वयः—हे विद्वन् यथा देवं बर्हिर्वयोधसं देवमिन्द्रमवर्धयद्यथा च
गायत्र्या छन्दसा चक्षुरिन्द्रियं वयश्चेन्द्रे दधत्सुवने वसुधेयस्य वसुवने वेतु तथा
यज ॥ ३५ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०-यथाऽऽकाशे सूर्यप्रकाशो वर्धते तथा वेदेषु प्रज्ञा वर्धते । येऽस्मिन्संसारे वेदद्वारा सर्वाः सत्यविद्या जानीयुस्ते सर्वतो वर्धन् ॥ ३५ ॥

पदार्थः—हे विद्वान् पुरुष ! जैसे (देवम्) उत्तम गुणों वाला (वहिः) अन्तरिक्ष (वयोधसम्) अवस्थावर्धक (देवम्) उत्तम रूप वाले (इन्द्रम्) सूर्य को (अवर्धयत्) बढ़ाता है अर्थात् चलने का अवकाश देता है और जैसे (गायत्र्या, छन्दसा) गायत्री छन्द से (इन्द्रियम्) जीव के चिन्ह (चक्षुः) नेत्र इन्द्रिय को और (वयः) जीवन को (इन्द्रे) जीव में (दधत्) धारण करता हुआ (वसुधेयस्य) द्रव्य के आधार संसार के (वसुवने) धन का विभाग करने हारे मनुष्य के लिये (वेतु) प्राप्त होवे वैसे (यज) समागम कीजिये ॥ ३५ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे आकाश में सूर्य का प्रकाश बढ़ता है वैसे वेदों का अभ्यास करने में बुद्धि बढ़ती है। जो इस जगत् में वेद के द्वारा सब सत्य विद्याओं को जानें वे सब ओर से वर्धें ॥ ३५ ॥

देवीरित्यस्य सरस्वत्यृषिः । इन्द्रो देवता ।

भुरिक् त्रिष्टुच्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

मनुष्यैः कीदृशानि गृहाणि निर्मातव्यानीत्याह ॥

मनुष्यों को कैसे घर बनाने चाहिये इस वि० ॥

देवीर्द्वारो वयोधसश्च शुचिमिन्द्रमवर्धयत् ।
उष्णिहा छन्दसेन्द्रियं प्राणमिन्द्रे वयो दधद्वसुवने
वसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥ ३६ ॥

देवीः । द्वारः । वयोधसमिति वयुःऽधसम् । शुचिम् ।
इन्द्रम् । अवर्धयत् । उष्णिहा । छन्दसा । इन्द्रियम् ।
प्राणम् । इन्द्रे । वयः । दधत् । वसुवन इति वसुऽवने ।
वसुधेयस्येति वसुऽधेयस्य । व्यन्तु । यज ॥ ३६ ॥

पदार्थः—(देवीः) देदीप्यमानानि (द्वारः) गमनागमनार्थानि द्वाराणि (वयोधसम्) जीवनाधारकम् (शुचिम्) पवित्रम् (इन्द्रम्) शुद्धं वायुम् (अवर्धयत्) वर्धयन्ति (उष्णिहा) (छन्दसा) (इन्द्रियम्) इन्द्रेण जीवेन जुष्टम् (प्राणम्) (इन्द्रे) जीवे (वयः) कम्पनीयं प्रियम् (दधत्) धरन्त्सन् (वसुवने) द्रव्ययाचिने (वसुधेयस्य) धनाऽऽधारस्य कोषस्य (व्यन्तु) (यज) ॥ ३६ ॥

अन्वयः—हे विद्वन् यथा देवीद्वारी वयोधसं शुचिनिन्द्रमिन्द्रियं प्राणनिन्द्रे वसुधेयस्य वसुवनेऽवर्धयत् व्यन्तु तथोष्णिहा छन्दसैतान् व्यञ्ज दधत्सन् यज ॥ ३६ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—यानि गृहाणि सन्मुखद्वाराणि सर्वतो वायुसञ्चारीणि सन्ति तत्र निवासेन जीवनं पवित्रता बलमारोग्यं च वर्धते तस्माद्बहुद्वाराणि बृहन्ति गृहाणि निर्मातव्यानि ॥ ३६ ॥

पदार्थः—हे विद्वन् ! जैसे (देवीः) प्रकाशमान हुए (द्वारः) जाने आने के लिये द्वार (वयोधसम्) जीवन के आधार (शुचिम्) पवित्र (इन्द्रम्) शुद्ध वायु (इन्द्रियम्) जीवने से संवे हुए (प्राणम्) प्राण को (इन्द्रे) जीव के निमित्त (वसुधेयस्य) धन के आधार कोष के (वसुवने) धन को मांगने वाले के लिये (अवर्धयत्) बढ़ाते हैं और (व्यन्तु) शोभायमान होवें जैसे (उष्णिहा, छन्दसा) उष्णिक् छन्द से इन पूर्वोक्त पदार्थों और (वयः) कामना के योग्य प्रिय पदार्थों को (दधत्) धारण करते हुए (यज) हवन कीजिये ॥ ३६ ॥

भावार्थः— इस मंत्र में वाचकलु०—जो घर समुहें द्वार वाले जिन में सब ओर से वायु आवे ऐसे हैं उनमें निवास करने से अवस्था, पवित्रता, बल और निरोगता बढ़ती है इस लिये बहुत द्वारों वाले बड़े घर बनाने चाहिये ॥ ३६ ॥

देवीत्यस्य सरस्वत्यृषिः । इन्द्रो देवता ।

भुरिगतिजगती छन्दः । निपादः स्वरः ॥

पुनर्मनुष्याः कथं वर्धेरन्नित्याह ॥

फिर मनुष्य कैसे वर्धें इस वि० ॥

देवी उषासानक्ता देवमिन्द्रं वयोधसं देवी
देवमवर्धताम् । अनुष्टुभा छन्दसेन्द्रियं बलमि-
न्द्रे वयो दधत्सुवने वसुधेयस्य वीतां यज ॥३७॥

देवीऽइति देवी । उषासानक्ता । उषसानक्तेत्युषसा-
नक्ता । देवम् । इन्द्रम् । वयोधसमिति वयःऽधसम् ।
देवी । देवम् । अवर्धताम् । अनुष्टुभा । अनुस्तुभेत्यनुऽ-
स्तुभा । छन्दसा । इन्द्रियम् । बलम् । इन्द्रे । वयः ।
दधत् । वसुवन इति वसुऽवने । वसुधेयस्येति वसुऽ-
धेयस्य । वीताम् । यज ॥ ३७ ॥

पदार्थः— (देवी) देदीप्यमाने (उषासानक्ता) रात्रिदिने
इवाध्यापिकाऽध्यैऽथौ स्त्रियौ (देवम्) दिव्यगुणम् (इन्द्रम्)
जीवम् (वयोधसम्) (देवी) दिव्या पतिव्रता स्त्री (देवम्)
दिव्यां स्त्रीव्रतं पतिम् (अवर्धताम्) (अनुष्टुभा) (छन्दसा)
(इन्द्रियम्) इन्द्रेण जीवेन सेवितम् (बलम्) (इन्द्रे) जीवे
(वयः) प्राणधारणम् (दधत्) (वसुवने) (वसुधेयस्य)
(वीताम्) (यज) ॥ ३७ ॥

अन्वयः— हे विद्वन् यथोषासानक्तेव देवी वयोधसं देवमिन्द्रं देवी देव-
निवावर्धतां यथा च वसुधेयस्य वसुवने वीतां तथा वयोदधत्सन्ननुष्टुभा
छन्दसेन्द्रं इन्द्रियं बलं यज ॥ ३७ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—हे मनुष्या यथा प्रीत्या स्त्रीपुरुषौ व्यवस्थ
याऽहोरात्रौ च वर्धन्ते तथा प्रीत्या धर्मव्यवस्थया च भवन्ते वर्धन्ताम् ॥३७॥

पदार्थः—हे विद्वन् जन ! जैसे (उपासानंक्ता) दिन रात्रि के समान (देवी)
सुन्दर शोभायमान पहाने पहने वाली दो स्त्रियाँ (वयोधसम्) जीवन का धा-
रण करने वाले (देवम्) उत्तम गुणयुक्त (इन्द्रम्) जीव को जैसे (देवी) उत्तम
पतिव्रता स्त्री (देवम्) उत्तम स्त्रीव्रत लम्पटतादि दोपरहित पति को बढ़ावे वैसे
(अवर्धताम्) बढ़ावे और जैसे (वसुधेयस्य) धनाऽऽधार कोष के (वसुधने)
धन को चाहने वाले के अर्थ (वीताम्) उत्पत्ति करें वैसे (वयः) प्राणों के
धारण को (दधत्) पुष्ट करते हुए (अनुष्टुभा, छन्दसा) अनुष्टुप् छन्द से (इ-
न्द्रे) जीवात्मा में (इन्द्रियम्) जीवने से सेवन किये (बलम्) बल को (यज)
सङ्गत कीजिये ॥ ३७ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जैसे प्रीति से स्त्रीपुरुष और
व्यवस्था से दिन रात बढ़ते हैं वैसे प्रीति और धर्म की व्यवस्था से आप लोग बढ़ा करें ॥ ३७ ॥

देवीत्यस्य सरस्वत्यृषिः । इन्द्रो देवता ।

भुरिगतिजगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥

अथ स्त्रीपुरुषौ किं कुर्यातामित्याह ॥

अब स्त्रीपुरुष क्या करें इस वि० ॥

देवी जोष्टी वसुधिति देवमिन्द्रं वयोधसं देवी
देवमवर्धताम् । बृहत्या छन्दसेन्द्रियश्च श्रोत्रमि-
न्द्रे वयो दधत्सुवने वसुधेयस्य वीतां यज ॥३८॥

देवीऽइति देवी । जोष्टीऽइति जोष्टी । वसुधिति
इति वसुऽधिती । देवम् । इन्द्रम् । वयोधससिति व-

युःऽधसम् । देवीऽइतिदेवी । देवम् । अवर्धताम् ।
 बृहत्या । छन्दसा । इन्द्रियम् । श्रोत्रम् । इन्द्रे । वयः ।
 दधत् । वसुवनऽइति वसुऽवने । वसुधेयस्येति वसु-
 धेयस्य । वीताम् । यज ॥ ३८ ॥

पदार्थः—(देवी) देदीप्यमाने (जोष्ट्री) प्रीतिमत्यौ
 (वसुधिति) विद्याधारिके (देवम्) दिव्यगुणं (सन्ता-
 नम्) इन्द्रम् (अन्नदातारम्) वयोधसम् जीवनधारकम्
 (देवी) धर्मात्मा स्त्री (देवम्) धर्मात्मानं पतिम् (अवर्धताम्)
 (बृहत्या) (छन्दसा) (इन्द्रियम्) इन्द्रेणेश्वरेण सृष्टम्
 (श्रोत्रम्) शब्दप्रावकम् (इन्द्रे) जीवे (वयः) कम-
 नीयं सुखम् (दधत्) (वसुवने) (वसुधेयस्य) (वी-
 ताम) व्याप्तः (यज) ॥ ३८ ॥

अन्वयः—हे विद्वन् यथा देवी जोष्ट्री वसुधिति स्त्रियौ वयोधसमिन्द्रं देवं
 देवी देवसिव प्राग्भावर्धतां बृहत्या छन्दसेन्द्रे श्रोत्रमिन्द्रियं वीतां तथा
 वसुधेयस्य वसुवने वयो दधत्सन् यज ॥ ३८ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—हे सन्नृप्या यथाऽध्यापिकोपदेशिके स्त्रियौ
 स्वसन्तानानन्याः कन्याः स्त्रियश्च विद्याशिक्षाभ्यां वर्धयतस्तथा स्त्रीपुरुषौ
 परमप्रीत्या विद्याविचारेण स्वसन्तानान् वर्द्धयेताम् स्वयं च वर्धेताम् ॥३८॥

पदार्थः—हे विद्वन् जन ! जैसे (देवी) तेजस्विनी (जोष्ट्री) प्रीति वाली (वसु-
 धिती) विद्या को धारण करने वाली पढ़ने पढ़ाने वाली हो स्त्रियां (वयोधसम्)

प्राप्त हो के (अवधत्ताम्) उन्नति को प्राप्त हो (बृहत्या, छन्दसा) बृहतीछन्द से (इन्द्रे) जीवात्मा में (इन्द्रियम्) ईश्वर ने रचे हुए (श्रोत्रम्) शब्द सुनने के हेतु कान को (वीताम्) व्याप्त हों जैसे (वसुधेयस्य) धन के आधार कोष के (वसुवने) धन की चाहना के अर्थ (वयः) उत्तम मनोहर सुख को (दधत्) धारण करते हुए (यज) यज्ञादि कीजिये ॥ ३८ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो! जैसे पढ़ाने और उपदेश करने वाली स्त्रियाँ अपने सन्तानों अन्य कन्याओं वा स्त्रियों को विद्या तथा शिखा से बढ़ाती हैं वैसे स्त्री पुरुष पर-मप्रीति से विद्या के विचार के साथ अपने सन्तानों को बढ़ावे और आप बढ़े ॥ ३८ ॥

देवी हर्यस्य सरस्वत्यृषिः। इन्द्रो देवता ।

निचृच्छकरी छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनर्भनुष्यैः किं कर्त्तव्यमिरयाह ॥

फिर मनुष्यों को क्यों करना चाहिये इस वि० ॥

देवी ऊर्जाहुती दुधे सुदुधे पयसेन्द्रं वयोधसं
देवी देवमवर्धताम् । पृङ्क्त्या छन्दसेन्द्रियं-
शुक्रमिन्द्रे वयो दधत् वसुवने वसुधेयस्य वीतां
यज ॥ ३९ ॥

देवीऽइति देवी । ऊर्जाहुतीऽइत्यूर्जाऽआहुती । दु-
धे इति दुधे । सुदुधे इति सुऽदुधे । पयसा । इन्द्रम् ।
वयोधसमिति वयःऽधसम् । देवीऽइति देवी । देवम् ।
अवर्धताम् । पृङ्क्त्या । छन्दसा । इन्द्रियम् । शुक्रम् ।
इन्द्रे । वयः । दधत् । वसुवन इति वसुऽवने । वसु-
धेयस्येति वसुधेयस्य वीताम् । यज ॥ ३९ ॥

पदार्थः—(देवी) दाऱ्यौ (ऊर्जाहुती) सुसंस्कृतान्ना-
हुती (दुधे) पूरिके (सुदुधे) सुष्टु कामप्रपूरिके (पय-
सा) जलवर्षणेन (इन्द्रम्) जीवम् (वयोधसम्)
प्राणधारिणम् (देवी) पतिव्रता विदुषी स्त्री (देवम्)
स्त्रीव्रतं विद्वांसम् (अवर्द्धताम्) पङ्क्त्या (छन्दसा)
(इन्द्रियम्) धनम् (शुक्रम्) वीर्यम् (इन्द्रे) जीवे(व-
यः) कमनीयं सुखम् (दधत्) (वसुवने) धनसेविने
(वसु धेयस्य) (वीताम्) (यज) ॥ ३६ ॥

अन्वयः—हे विद्वान् यथा दुधेसुदुधे देवी ऊर्जाहुती पयसा वयोधसमि-
न्द्रं देवीदेवनिवावर्धतां पङ्क्त्या छन्दसा इन्द्रे शुक्रमिन्द्रियवीतां तथा व-
सुधेयस्य वसुवने वयो दधत्सन् यज ॥ ३१ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०-हे मनुष्या यथाऽग्नौ प्रास्ताऽऽहृतिर्मघमंडलं
प्राप्य पुनरागत्य च शुद्धेन जलेन सर्वं जगत्पुष्णाति तथा विद्याग्रहणदाना-
भ्यां सर्वं षोषयत ॥३१ ॥

पदार्थः—हे विद्वान् पुरुष जैसे (दुधे) पदार्थों को पूर्ण करने और (सुदु-
धे) सुन्दर प्रकार कामनाओं को पूर्ण करने हारी (देवी) सुगन्धि को देने वा-
ली (ऊर्जाहुती) अच्छे संस्कार किये हुए अन्न की दो आहुती (पयसा) ज-
ल की वर्षा से (वयोधसम्) प्राणधारी (इन्द्रम्) जीव को जैसे (देवी) पति-
व्रता विदुषी स्त्री (देवम्) व्यभिचारादि दोषरहित पति को बढ़ाती है वैसे (अ-
वर्द्धताम्) बढ़ावे (पङ्क्त्या, छन्दसा) पङ्क्तिछन्द से (इन्द्रे) जीवात्मा के
निमित्त (शुक्रम्) पराक्रम और (इन्द्रियम्) धन को (वीताम्) प्राप्त करें
वैसे (वसुधेयस्य) धन के कोष के (वसुवने) धन का सेवन करने हारे के लिये
(वयः) सुन्दर ग्राह्यसुख को (दधत्) धारण करते हुए (यज) यज्ञ
कीजिये ॥ ३६ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो! जैसे अग्नि में छोड़ी हुई आहुति मेघमण्डल को प्राप्त हो फिर आकर शुद्ध किये हुए जल से सब जगत् को पुष्टि करती है वैसे विद्या के ग्रहण और दान से सब को पुष्ट किया करो ॥ ३६ ॥

देवा इत्यस्य सरस्वत्यृषिः । इन्द्रो देवता ।

अतिजगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥

पुनः स्त्रीपुंसाभ्यां किं कर्त्तव्यमित्याह ॥

फिर स्त्री पुरुषों को क्या करना चाहिये इस वि०॥

देवा दैव्या होतारा देवमिन्द्रं वयोधसं देवौ
देवमवर्धताम् । त्रिष्टुभा छन्दसेन्द्रियं त्विषिमिन्द्रे
वयो दधत्सुवने वसुधेयस्य वीतां यज ॥ ४० ॥

देवा । दैव्या । होतारा । देवम् । इन्द्रम् । वयोधसमि-
ति वयःधसम् । देवौ । देवम् । अवर्धताम् । त्रिष्टुभा ।
त्रिस्तुभेति त्रिस्तुभा । छन्दसा । इन्द्रियम् । त्विषिम् ।
इन्द्रे । वयः । दधत् । वसुवने इति वसुधेयस्य । वसु-
धेयस्येति वसुधेयस्य । वीताम् । यज ॥ ४० ॥

पदार्थः—(देवा) कमनीयौ विद्वांसौ (दैव्या) कमनी-
येषु कुशलौ (होतारा) दातारावध्यापकोपदेशकौ (देवम्)
कामयमानम् (इन्द्रम्) जीवम् (वयोधसम्) आयु-
धार्कम् (देवौ) शुभगुणान् कामयमानौ भानापितरौ (दे-
वम्) कमनीयं पुत्रम् (अवर्द्धताम्) वर्धयतः (त्रिष्टुभा)
(छन्दसा) (इन्द्रियम्) श्रोत्रादि (त्विषिम्) प्रकाश-
युक्तम् (इन्द्रे) स्वात्मनि (वयः) (दधत्) (वसुवने)
(वसुधेयस्य) (वीताम्) (यज) ॥ ४० ॥

अन्वयः—हे होतारा यथा दैव्या देवा वयोधसं देवमिन्द्रं देवौ देवमि-
वाऽवर्द्धतां तथा वसुधेयस्य वसुवने वीताम् । हे विद्वन् त्रिष्टुभा छन्दसेन्द्रे
त्विषिन्दिन्द्रियं वयो दधत्सम् त्वं यज ॥ ४० ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—यथाऽध्यापकोपदेशकौ विद्यार्थिशिष्यौ
मातापितरावपरधानि वर्धयतस्तथा विद्वांसौ स्त्रीपुरुषौ वेदविद्यया सर्वान् व-
र्द्धयेताम् ॥ ४० ॥

पदार्थः—हे (होतारा) दानशील अध्यापक उपदेशक लोगो! जैसे (दैव्या)
कामना के योग्य पदार्थ बनाने में कुशल (देवा) चाहने योग्य दो विद्वान् (वयो-
धसम्) अवस्था के धारक (देवम्) कामना करते हुए (इन्द्रम्) जीवात्मा को
जैसे (देवौ) शुभ गुणों की चाहना करते हुए माता पिता (देवम्) अभीष्ट
पुत्र को बढ़ावें वैसे (अवर्द्धताम्) बढ़ावें (वसुधेयस्य) धन कोष के (वसुवने)
धन सेवने वाले जन के लिये (वीताम्) प्राप्त हूजिये तथा हे विद्वन् पुरुष! (त्रि-
ष्टुभा, छन्दसा) त्रिष्टुप् छन्द से (इन्द्रे) आत्मा में (त्विषिम्) प्रकाशयुक्त
(इन्द्रियम्) कान आदि इन्द्रिय और (वयो) सुख को (दधत्) धारण क-
रता हुआ तू (यज) यज्ञादि उत्तम कर्म कर ॥ ४० ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—जैसे पढ़ने और उपदेश करने हारे विद्यार्थी
और शिष्यों को तथा माता पिता सन्तानों को बढ़ाते हैं वैसे विद्वान् स्त्री पुरुष वेद विद्या
से सब को बढ़ावें ॥ ४० ॥

देवीरित्यस्य सरस्वत्यृषिः । इन्द्रो देवता ।

भुरिग् जगतीछन्दः । तिपादः स्वरः ॥

अथ राजप्रजाधर्मविषयमाह ॥

अव राज प्रजा का धर्म वि० ॥

देवीस्त्रिस्तस्त्रिस्तो देवीर्वयोधसं पत्तिमिन्द्रमव-
र्धयन् । जगत्या छन्दसेन्द्रियं शूषमिन्द्रेवयो-
दधत्सुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥ ४१ ॥

देवीः । तिस्रः । तिस्रः । देवीः । वयोधसमिति वयुःऽ-
धसंम् । पतिम् । इन्द्रम् । अवर्धयन् । जगत्या । छ-
न्दसा । इन्द्रियम् । शूषम् । इन्द्रे । वयः । दधत् । व-
सुवन इति वसुऽवने । वसुधेयस्येति वसुऽधेयस्य ।
व्यन्तु । यज ॥ ४१ ॥

पदार्थः—(देवीः) देदीप्यमाना विदुष्यः (तिस्रः)
त्रित्वसंख्याकाः (तिस्रः) अध्यापकोपदेशकपरीक्षिण्यः
(देवीः) अत्रादरार्थं द्विरुक्तिः (वयोधसम्) जीवनधा-
रकम् (पतिम्) पालकं स्वामिनम् (इन्द्रम्) परमेश्व-
र्यवन्तं सम्राजम् (अवर्धयन्) वर्धयेयुः (जगत्या)
(छन्दसा) (इन्द्रियम्) (शूषम्) बलम् (इन्द्रे) स्वात्मनि
(वयः) शत्रुबलव्यापकम् (दधत्) (वसुवने) (वसुधे-
यस्य) (व्यन्तु) व्याप्नुवन्तु (यज) ॥ ४१ ॥

ग्रन्थः—हे विद्वन् तथा तिस्रो देवीस्तिस्रो देवीर्वयोधसं पतिसिन्द्र-
सवर्धयन् व्यन्तु तथा जगत्या छन्दसेन्द्रे शूषमिन्द्रिणां वयोदधत्सन् वसुधेयस्य
वसुवने यज ॥ ४१ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—यथाऽध्यापकोपदेशकपरीक्षकाः स्त्रीपुरुषाः
प्रजासु विद्यासदुपदेशान् प्रचारय्युस्तथा राजैतेषां यथावद्गतां कुर्यादेवं रा-
जप्रजाजनाः परस्परं प्रीताः सन्तः सर्वतो वृद्धिं प्राप्नुवन्तु ॥ ४१ ॥

पदार्थः—हे विद्वन् जैसे (तिस्रः) तीन (देवीः) तेजस्विनी विदुषी
(तिस्रः) तीन पदाने, उपदेश करने और परीक्षा लेने वाली (देवीः) विदुषी

स्त्री (वयोधसम्) जीवन धारण करने हारे (पतिम्) रक्षक स्वामी (इन्द्रम्)
 उत्तम ऐश्वर्य वाले चक्रवर्ती राजा को (अवर्धयन्) बढ़ावें तथा (व्यन्तु)
 व्याप्त होंवें जैसे (जगत्या, छन्दसा) जगती छन्द से (इन्द्रे) अपने आत्मा में
 (शूषम्, वयः) शत्रुमेना में व्यापक होने वाले अपने बल तथा (इन्द्रियम्)
 कान आदि इन्द्रिय को (दधत्) धारण करते हुए (वसुधेयस्य) धन कोप
 के (वसुवने) धनदाता के अर्थ (सभ्य) अग्निहोत्रादि यज्ञ कीजिये ॥ ४१ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे पढ़ने उपदेश करने और परीक्षा लेने
 वाले स्त्री पुरुष प्रनाओं में विद्या और श्रेष्ठ उपदेशों का प्रचार करें जैसे राजा इनकी
 यथावत् रक्षा करे इस प्रकार राजपुरुष और प्रजा पुरुष आपस में प्रमन्न हुए सब ओर से
 वृद्धि को प्राप्त हुआ करें ॥ ४१ ॥

देव इत्यस्य सरस्वत्यृषिः । इन्द्रो देवता ।

निचृदातिजगती छन्दः । निपादः स्वरः ॥

अथ विद्वद्भिः किं कर्त्तव्यमित्याह ॥

अथ विद्वानों को क्या करना चाहिये इस वि० ॥

देवो नराशः सौ देवमिन्द्रं वयोधसं देवो देवम-
 वर्द्धयत् । विराजा छन्दसोन्द्रियः रूपमिन्द्रे वयो-
 दधत् वसुवने वसुधेयस्य वेतु यज्ञ ॥ ४२ ॥

देवः । नराशः सः । देवम् । इन्द्रम् । वयोधसमिति
 वयःधसम् । देवः । देवम् । अवर्द्धयत् । विराजेति
 विराजा । छन्दसा । इन्द्रियम् । रूपम् । इन्द्रे । वयः ।
 दधत् । वसुवनइति वसुवने । वसुधेयस्येति वसु-
 धेयस्य । वेतु । यज्ञ ॥ ४२ ॥

पदार्थः— (देवः) विद्वान् (नराशंसः) यो नरैराशंस्यते सः
 (देवम्) दिव्यगुणकर्मस्वभावम्, (इन्द्रम्) राजानम् (वयो-
 धसम्) चिरञ्जीविनम् (देवः) विद्वान् (देवम्) विद्वांसम्
 (अवर्धयत्) वर्धयेत् (विराजा)(छन्दसा) (इन्द्रियम्)(रू-
 पम्) (इन्द्रे) (वयः) (दधत्) (वसुवने) (वसुधेयस्य) (वेतु)
 (यज) ॥ ४२ ॥

अन्वयः—हे विद्वन् यथा नराशंसो देवो वयोधसं देवमिन्द्रं देवो देवमि-
 वावर्धयद्विराजा छन्दसेन्द्रे रूपमिन्द्रियं वेतु तथा वसुधेयस्य वसुवने वयो-
 दधत्सन् यज ॥ ४२ ॥

भांवार्यः—अत्र वाचकलु०—विद्वद्भिः कदाचित्परस्परस्निग्धीर्घायाऽन्योऽ-
 न्यस्य हानिनैव कार्या किन्तु सदैव प्रीत्या वृद्धिः सम्पादनीया ॥ ४२ ॥

पदार्थः— हे विद्वन् जन! जैसे (नराशंसः) मनुष्यों से प्रशंसा करने योग्य
 (देवः) विद्वान् (वयोधसम्) बहुत अवस्था वाले (देवम्) उत्तम गुण कर्म
 स्वभावयुक्त (इन्द्रम्) राजा को जैसे (देवः) विद्वान् (देवम्) विद्वान् को
 जैसे (अवर्धयत्) बढ़ावे (विराजा, छन्दसा) विराट् छन्द से (इन्द्रे) आत्मा
 में (रूपम्) सुन्दर रूप वाले (इन्द्रियम्) श्रोत्रादि इन्द्रिय को (वेतु) प्राप्त
 करे जैसे (वसुधेयस्य) धन कोष के (वसुवने) धन को सेवने वाले जन के
 लिये (वयः) अभीष्ट सुख को (दधत्) धारण करता हुआ तू (यज) सङ्गम
 वा दान कीजिये ॥ ४२ ॥

भांवार्यः—इस मन्त्र में वाचकलु०—विद्वानों को चाहिये कि कभी आपस में
 ईर्ष्या करके एक दूसरे की हानि नहीं करें किन्तु सदैव प्रीति से उन्नति किया करें ॥ ४२ ॥

देवइत्यस्य सरस्वत्यृपिः । इन्द्रो देवता ।
निचृदतिजगती छन्दः । निपादः स्वरः ॥

पु नस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

देवो वनस्पतिर्देवमिन्द्रं वयोधसं देवो देव-
मवर्धयत् । द्विपदा छन्दसेन्द्रियं भगमिन्द्रे वयो-
दधत्सुवने वसुधेयस्य वेतु यज ॥ ४३ ॥

देवः । वनस्पतिः । देवम् । इन्द्रम् । वयोधसमिति
वयःऽधसम् । देवः । देवम् । अवर्धयत् । द्विपदेति
द्विऽपदा । छन्दसा । इन्द्रियम् । भगम् । इन्द्रे । वयः ।
दधत् । वसुवनइति वसुऽवने । वसुधेयस्येति वसुऽ-
धेयस्य । वेतु । यज ॥ ४३ ॥

पदार्थः— (देवः) दिव्यगुणः (वनस्पतिः) वनानां पालको
वटादिः (देवम्) दिव्यगुणम् (इन्द्रम्) ऐश्वर्यम् (यवोधम्)
आयुर्धारकम् (देवः) दिव्यः सन्न्यः (देवम्) दिव्यस्वभावं
विद्वांसम् (अवर्धयत्) (द्विपदा) (छन्दसा) (इन्द्रियम्)
दानम् (भगम्) ऐश्वर्यम् (इन्द्रे) (वयः) कमनीयं सुखम्
(दधत्) (वसुवने) (वसुधेयस्य) वेतु (यज) ॥४३॥

अन्वयः—हे विद्वन् यथा वनस्पतिर्देवो वयोधसं देवमिन्द्रं देवो देवमिवाव-
र्धयत् । द्विपदा छन्दसेन्द्रे भगमिन्द्रियं वेतु तथा वसुधेयस्य वसुवने वयोदधत्सन्
यज ॥ ४३ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—हे विद्वांसो मनुष्या युष्मानभिर्यथा वनस्पतयः पुष्कलं जलमधस्तादाकृष्य वायौ मेघमण्डले च प्रसार्य सर्वानुद्भिज्जो रक्षन्ति यथा च राजपुरुषा राजपुरुषानवन्ति तथा वर्त्तित्वैश्वर्यमुन्नयन् ॥४३॥

पदार्थः—हे विद्वन् जैसे (वनस्पतिः) वनों का रक्षक वट आदि (देव) उत्तम गुणों वाला (वयोधसम्) अधिक उमर वाले (देवम्) उत्तम गुणयुक्त (इन्द्रम्) ऐश्वर्य को जैसे (देवः) उत्तम सभ्य जन (देवम्) उत्तम स्वभाव वाले विद्वान् को वैसे (अर्धयत्) बढ़ावे (द्विपदा) दोपाद वाले (छन्दसा) छन्द से (इन्द्रे) आत्मा में (भगम्) ऐश्वर्य तथा (इन्द्रियम्) धन को (वेतु) प्राप्त हो वैसे (वसुधेयस्व) धन कोष के (वसुवने) धन को देने हारे के लिये (वयः) अभीष्ट सुख को (दधत्) धारण करता हुआ तू (यज) यज्ञ कर ॥ ४३ ॥

भावार्थः—इसमन्त्र में वाचकलु०—हे विद्वान् मनुष्यों ! तुम को जैसे वनस्पति पुष्कल जल को नीचे पृथिवी से आकर्षण करके वायु और मेघमण्डल में फैला के सब घास आदि की रक्षा करते और जैसे राजपुरुष राजपुरुषों की रक्षा करते हैं वैसे वर्त्त के ऐश्वर्य की उन्नति करनी चाहिये ॥ ४३ ॥

देवमित्यस्य सरस्वत्यृषिः । इन्द्रो देवता ।

भुरिगतिजगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

देवं वर्हिर्वारितीनां देवमिन्द्रं वयोधसं देवं देवम-
वर्धयत् । ककुभा छन्दसेन्द्रियं यश इन्द्रे वयोद्ध-
द्वसुवने वसुधेयस्य वेतु यज ॥ ४४ ॥

देवम् । ब॒र्हिः । वारितीनाम् । देवम् । इन्द्रम् । वयो-
धसमिति वयःऽधसम् । देवम् । देवम् । अवर्धयत् । क-
कुभा । छन्दसा । इन्द्रियम् । यशः । इन्द्रे । वयः । द-
धत् । वसुवन इति वसुऽवने । वसुधेयस्येति वसुऽधे-
यस्य । वेतु । यज ॥ ४४ ॥

पदार्थः—(देवम्) दिव्यम् (बर्हिः) उदकम् । बर्हिरित्युद-
कनां० निघं० १। १२। (वारितीनाम्) अन्तरिक्षस्थसमुद्रा-
णाम् (देवम्) दिव्यम् (इन्द्रम्) राजानम् (वयोधसम्) व-
हुवयोधारकम् (देवम्) दिव्यगुणम् (देवम्) प्रकाशमानम्
(अवर्धयत् वर्धयेत् (ककुभा, छन्दसा) (इन्द्रियम्) इन्द्रस्य
जीवस्य लिङ्गम् (यशः) कीर्त्तिम् (इन्द्रे) परमैश्वर्यं (वयः)
(दधत्) (वसुवने) (वसुधेयस्य) (वेतु) (यज) ॥ ४४ ॥

अन्वयः—हे विद्वन् ! यथा वारितीनां देवं बर्हिर्वयोधसं देवमिन्द्रं देवं-
देवं चावर्धयत्ककुभा छन्दसेन्द्रे यश इन्द्रियं वेतु तथा वसुधेयस्यवसुवने वयोः
दधद्यज ॥ ४४ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—हे विद्वांसो मनुष्या यथोदकं समुद्रान् प्रपूर्य ज-
न्तून् संरक्ष्य मुक्तादीनि रत्नानि जनयति तथा धर्मेण धनकोषं प्रपूर्वाऽन्यान्
दरिद्रान् संरक्ष्य कीर्त्तिं वर्धयत ॥ ४४ ॥

पदार्थः—हे विद्वन् जन ! जैसे (वारितीनाम्) अन्तरिक्ष के समुद्र का
(देवम्) उत्तम (बर्हिः) जल (वयोधसम्) बहुत अवस्था वाले (देवम्) उत्तम
(इन्द्रम्) राजा को और (देवम्) उत्तम गुणवान् (देवम्) प्रकाशमान्
प्रत्येक जीव को (अवर्धयत्) बढ़ाता है (ककुभा, छन्दसा) ककुब्ध से

उत्तम ऐश्वर्य के निमित्त (यशः) कीर्त्ति तथा (इन्द्रियम्) जीव के चिन्हरूप श्रोत्रादि इन्द्रिय को (वेतु) प्राप्त होवे वैसे (वसुधेयस्य) धन कोष के (वसुवने) धन को सेवने हारे के लिये (वयः) अभीष्ट सुख को (दधत्) धारण करते हुए (यज) यज्ञ कीजिये ॥४४॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु०—हे विद्वान् मनुष्यो जैसे जल समुद्रों को भर और जीवों की रक्षा करके मोती आदि रत्नों को उत्पन्न करता है वैसे धर्म से धन के कोष को पूर्ण कर और अन्य दरिद्रियों की सम्यक् रक्षा करके कीर्त्तिको बढ़ाओ ॥४४॥

देव इत्यस्य सरस्वत्यृषिः । इन्द्रो देवता । स्वराडितिजगती ।

छन्दः । निपादः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

देवो अग्निः स्विष्टकृद्देवमिन्द्रं वयोधसं देवो
देवमवर्धयत् । अतिछन्दसा छन्दसेन्द्रियं क्षत्र-
मिन्द्रे यवो दधत् वसुधेयस्य वसुवने वेतु यज ॥४५॥

देवः । अग्निः । स्विष्टकृदिति स्विष्टकृत् । देवम् ।
इन्द्रम् । वयोधसमिति वयःऽधसम् । देवः । देवम् ।

अवर्धयत् । अतिछन्दसेत्यतिऽछन्दसा । छन्दसा ।
इन्द्रियम् । क्षत्रम् । इन्द्रोऽवयः । दधत् । वसुधेयस्येति
वसुधेयस्य । वसुवन इति वसुवने । वेतु । यज ॥४५॥

पदार्थः—(देवः) सर्वज्ञः (अग्निः) स्वप्रकाशस्वरूप

ईश्वरः (स्विष्टकृत्) यः शोभनमिष्टं करोति सः (देवम्)

धार्मिकम् (इन्द्रम्) जीवम् (वयोधसम्) आयुषो ध-

त्तारम् (देवः) विद्वान् (देवम्) विद्यार्थिनम् (अवर्ध-
यत्) वर्धयति (अतिछन्दसा) अति जगत्यादिना (छ-
न्दसा) आह्लादकरेण (इन्द्रियम्) जीवेन सेवितम् (क्ष-
त्रम्) राज्यम् (इन्द्रे) विद्याविनयान्विते (वयः) कम-
नीयं वस्तु (दधत्) (वसुधेयस्य) (वसुवने) (वेतु)
व्याप्नोतु (यज) ॥ ४५ ॥

अन्वयः—हे विद्वन् यथा स्विष्टकृद्देवोऽग्निर्वयोधसं देवमिन्द्रं देवो
देवमिन्द्रावर्धयदतिछन्दसा छन्दसेन्द्रे वसुधेयस्य वसुवने वयः क्षत्रमिन्द्रियं
दधत्सन् वेतु तथा यज ॥ ४५ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—हे विद्वांसो मनुष्या यथा परमेश्वरेण दयया
सर्वान् पदार्थानुत्पाद्य जीवेभ्यः समर्प्य जगद्बुद्धिः कृता तथा विद्याविनय-
सत्संगपुरुषार्थं धर्मानुष्ठानैराज्यं वर्धयत ॥ ४५ ॥

पदार्थः—हे विद्वन् जैसे (स्विष्टकृत्) सुन्दर अभीष्ट को सिद्ध करने हारा
(देवः) सर्वज्ञ (अग्निः) स्वयं प्रकाशस्वरूप ईश्वर (वयोधसम्) अवस्था
के धारक (देवम्) धार्मिक (इन्द्रम्) जीव को जैसे (देवः) विद्वान् (देवम्)
विद्यार्थी को जैसे (अवर्धयत्) बढ़ाता है (अतिछन्दसा, छन्दसा) अतिजगती
आदि आनन्दकारक छन्द से (इन्द्रे) विद्या विनय से युक्त राजा के निमित्त
(वसुधेयस्य) धन कोष के (वसुवने) धन के दाता के लिये (वयः) मनो-
हर वस्तु (क्षत्रम्) राज्य और (इन्द्रियम्) जीवने से सेवन किये हुए इन्द्रिय
को (दधत्) धारण करता हुआ (वेतु) व्याप्त होवे जैसे (यज) यज्ञादि
उत्तम कर्म कीजिये ॥ ४५ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे विद्वान् मनुष्यो ! जैसे परमेश्वर ने अपनी
दया से सब पदार्थों को उत्पन्न कर और जीवों के लिये समर्पण करके जगत् की वृद्धि
की है जैसे विद्या, विनय, सत्सङ्ग, पुरुषार्थ और धर्म के अनुष्ठानों से राज्य को
बढ़ाओ ॥ ४५ ॥

अग्निमित्यस्य सखत्यृषिः । इन्द्रो देवता ।

आकृतिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

अग्निमद्य होतारमवृणीतायं यजमानः पचन्
पक्तीः पचन्पुरोडाशम्बुध्नन्निन्द्राय वयोधसे छा-
गम् । सूपस्था अद्यदेवो वनस्पतिरभवदिन्द्राय
वयोधसे छागेन अघत्तं मेदस्तः प्रतिपचताऽग्रभी-
दवीवृधत्पुरोडाशेन त्वामद्यऽऋषे ॥ ४६ ॥

अग्निम् । अद्य । होतारम् । अवृणीता । अयम् । यजमानः ।
पचन् । पक्तीः । पचन् । पुरोडाशम् । बुध्नन् । इन्द्राय । वयो-
धस इति वयःऽधसे । छागम् । सूपस्थाऽइति सुऽउप-
स्थाः । अद्य । देवः । वनस्पतिः । अभवत् । इन्द्राय । वयो-
धसऽइति वयःऽधसे । छागेन । अघत्तम् । मेदस्तः । प्रति ।
पचता । अग्रभीत् । अवीवृधत् । पुरोडाशेन । त्वाम् ।
अद्य । ऋषे ॥ ४६ ॥

पदार्थः—(अग्निम्) तेजस्विनम् (अद्य) इदानीम् (हो-
तारम्) (अवृणीत) वृणुयात् (अयम्) (यजमानः) यज्ञकर्त्ता
(पचन्) (पक्तीः) नानाविधान् पाकान् (पचन्) (पुरोडा-
शम्) (बुध्नन्) (इन्द्राय) परमैश्वर्याय (वयोधसे) सर्वेषां

जीवनवर्धकाय (छागम्) छेदकम् (सूपस्थाः) ये सूप
 तिष्ठन्ति ते (अद्म) (देवः) विद्वान् (वनस्पति) वना
 नां पालकः (अभवत्) भवेत् (इन्द्राय) शत्रुविनाश-
 काय (वयोधसे) (छागेन) छेदनेन (अघत्तम्) भुञ्जी
 याताम् (मेदस्तः) स्निग्धात् (प्रति) (पचता) परि
 पक्वभावं प्राप्तेन (अग्रभीत्) गृह्णीयात् (अवीवृधत्)
 वर्धेत (पुरोडाशेन) (त्वाम्) (अद्म) (ऋषे) म-
 न्त्रार्थवित् ॥ ४६ ॥

अन्वयः-हे ऋषे यथाऽयं यजमानोऽद्य पक्तीः पचन्पुरोडाशं पचन्गिं
 होतारसद्यावृणीत तथा वयोधस इन्द्राय छागं अधनन् वृणुहि । यथाऽद्य व-
 नस्पतिर्देवो वयोधस इन्द्राय छागेनीद्यतीऽभवत्तथा सूपस्था भवन्तु । यथा
 पचता पुरोडाशेन मेदस्तस्त्वां प्रत्यग्रभीदवीवृधत्तथा हे यजमानहोतारौ यु-
 वां पुरोडाशमघत्तम् ॥ ४६ ॥

भावार्थः-अत्र वाचकलु०—यथा सूदा उत्तमान्यन्नानि व्यञ्जनानि च
 पक्त्वा भोजयेयुस्तथैतान् भीक्षारो विद्वांसो मानयेयुः । यथाऽजादयः पशवो
 घासादिकं भुक्त्वा सकृद् पचन्ति तथैत्र भुक्तमन्नं पाचयेयु रिति ॥ ४६ ॥

अत्र होतृगुणवर्णनं वागशिवगुणप्रतिपादनं पुनर्होतृकृत्यप्रतिपादनं
 यज्ञवर्णनं विद्वत्प्रशंसाचोक्ताऽत एतदर्थस्य पूर्वाऽध्यायार्थेन सह सङ्गति-
 रस्तीति बोध्यम् ॥

पदार्थः—हे (ऋषे) मन्त्रार्थं जानने वाले विद्वान् पुरुष ! जैसे (अयम्)
 (यजमानः) यज्ञ करने हारा (अत्र) इस समय (पक्तीः) नाना प्रकार

के पाकों को (पचन्) पकाता और (पुरोडाशम्) यज्ञ में होमने के पदार्थ को (पचन्) पकाता हुआ (अग्निम्) तेजस्वि (होतारम्) होता को (अथ) आज (अष्टणीत) स्वीकार करे जैसे (वयोधसे) सब के जीवन को बढ़ाने हारे (इन्द्राय) उत्तम ऐश्वर्य के लिये (छागम्) छेदन करने वाले बकरी आदि पशु को (वधन्) बांधते हुए स्वीकार कीजिये जैसे आज (वनस्पतिः) वनों का रक्षक (देवः) विद्वान् (वयोधसे) अवस्था वर्धक (इन्द्राय) शत्रु विनाशक राजा के लिये (छागेन) छेदन के साथ उद्यत (अभवत्) होवे जैसे सब लोग (सुपस्थाः) सुन्दर प्रकार समीप रहने वाले हों जैसे (पचता) पकाये हुए (पुरोडाशेन) यज्ञ पाक से (मेदस्तः) चिकनाई से (त्वाम्) आपको (प्रति, अग्रभीत्) ग्रहण करे और (अवीष्टवत्) बड़े जैसे हे यजमान और होता लोगो तुम दोनों यज्ञ के शेष भाग को (अघत्तम्) खाओ ॥ ४६ ॥

भाचार्यः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे रसोइये लोग उत्तम अन्न व्यञ्जनों को बना के भोजन करावें जैसे ही भोक्ता लोग उनका मान्यकरें जैसे बकरी आदि पशु घास आदि को खा के सम्यक् पचा लेते हैं जैसे ही भोजन किये हुए अन्नादि को पचाया करें ॥ ४६ ॥

इस अध्याय में होता के गुणों, वाणी और अश्वियोंके गुणों, फिर भी होता के कर्त्तव्य, यज्ञ की व्याख्या और विद्वानों की प्रशंसा को कहा है इससे इस अध्याय के अर्थ की पूर्व अध्याय के अर्थ के साथ सङ्गति है ऐसा जानना चाहिये ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां श्रीयुतपरमविदुषां विरजानन्दसरस्वती

स्वामिनां शिष्येण परमहंसपरिव्राजकाचार्येण श्रीमद्दयानन्दसर-

स्वतीस्वामिना विराचिते संस्कृतोद्यभाषाभ्यां

समन्विते सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वेदभाष्येऽष्टा-

विंशोऽध्यायः पूर्तिं प्रापत् ॥

अथैकोनविंशोऽध्याय आरभ्यते ॥

ओ३म् विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव ।

यद्भद्रं तन्न आसुव ॥ १ ॥

समिद्ध इत्यस्य बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषिः । अग्निर्देवता ।

त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अथ मनुष्यैरग्निजलादिना किं साध्यमित्याह ॥

अब उनतीशवें अध्याय का आरम्भ है इस के पहिले मन्त्र में मनुष्यों को आग्नि जलादि से क्या सिद्ध करना चाहिये इस वि० ॥

समिद्धो अञ्जन् कृदरं मतीनां घृतमग्नेमधु-
मत् पिन्वमानः । वाजी वहन् वाजिनं जातवेदो
देवानां वक्षि प्रियामासुधस्थम् ॥ १ ॥

समिद्धइति समुऽइद्धः । अञ्जन् । कृदरम् । मती-
नाम् । घृतम् । अग्ने । मधुमदिति मधुऽमत् । पिन्व-
मानः । वाजी । वहन् । वाजिनम् । जातवेदइति जा-
तवेदः । देवानाम् । वक्षि । प्रियम् । आ । सुधस्थमि-
ति सुधऽस्थम् ॥ १ ॥

पदार्थः—(समिद्धः) सम्यक् प्रदीप्तः (अञ्जन्) व्यक्तो
भवन्(कृदरम्)उदरम्(मतीनाम्) मनुष्याणाम् (घृतम्)

उदकमाज्यं वा (अग्ने) अग्निवद्वृत्तमान (मधुमत्)
मधुरा वहवो गुणा विदन्ते यस्मिन् तत् (पिन्वमानः)
सेवमानः (वाजी) वेगवान् जनः (वहन्) (वाजि-
नम् वेगवन्तमश्वम् (जातवेदः) जातप्रज्ञ (देवानाम्)
विदुषाम् (वक्षि) वहसि प्रापयसि (प्रियम्) प्रीणन्ति
यस्मिस्तत् (आ) समन्तात् (सधस्थम्) सहस्थानम् । १ ॥

अन्वयः—हे जातवेदोऽग्ने विद्वन् यथा समिद्धोऽञ्जन् अग्निर्मतीनां कृदरं मधु-
मद्घृतं पिन्वमानो वाजिनं वाजी वहन्तिव देवानां सधस्थमावहति तथा
प्रियं वक्षि प्रापय ॥ १ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—यदि मनुष्या जाठराग्निं प्रदीप्तं रक्षेयुर्वा-
ह्यमग्निं संप्रयुञ्जीरस्तर्ह्ययमश्ववद्यानानि देशान्तरं सद्यः प्रापयेत् ॥ १ ॥

पदार्थः—हे (जातवेदः) प्रसिद्ध बुद्धिमान् (अग्ने) अग्नि के तुल्य ते-
जसी विद्वन् जन जैसे (समिद्धः) सम्यक् जलाया (अञ्जन्) प्रकट होता
हुआ अग्नि (मतीनाम्) मनुष्यों के (कृदरम्) पेट और (मधुमत्) बहुत उ-
त्तम गुणों वाले (घृतम्) जल वा घी को (पिन्वमानः) सेवन करता हुआ जै-
से (वाजी) वेगवान् मनुष्य (वाजिनम्) शीघ्रगामी घोड़े को (वहन्) चलाता
वैसे (देवानाम्) विद्वानों के (सधस्थम्) साथ स्थिति को (आ) प्राप्त करता
है वैसे (प्रियम्) प्रीति के निमित्त स्थान को (वक्षि) प्राप्त कीजिये ॥ १ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो मनुष्य जाठराग्नि को तेज रक्खें और
बाहर के अग्नि को कलाकौशलादि में युक्त किया करें तो यह अग्नि घोड़े के तुल्य
सवारियों को देशान्तर में शीघ्र पहुंचावे ॥ १ ॥

घृतेनेत्यस्य बृहदुक्थो वाग्देव्य ऋषिः । आग्निर्देवता ।

निरात् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वर ॥

पुनस्नमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

घृतेनाञ्जन्त्सं पथो देवयानान्प्रजानन्वा-
ज्यप्येतु देवान् । अनु त्वा सप्ते प्रदिशः सच-
न्ताम् स्वधाम् अस्मै यजमानाय धेहि ॥ २ ॥

घृतेन । अञ्जन् । सम् । पथः । देवयानानिति
देवयानान् । प्रजानन्निति प्रजानन् । वाजी । अपि ।
एतु । देवान् । अनु । त्वा । सप्ते । प्रदिश इति प्र-
दिशः । सचन्ताम् । स्वधाम् । अस्मै । यजमाना-
य । धेहि ॥ २ ॥

पदार्थः—(घृतेन) उदकेनान्नेन वा (अञ्जन्) प्रकटीभ-
वन (सम्) सम्यक् पथः मार्गान् (देवयानान्) दे-
वा विद्वांसो यान्ति गच्छन्ति येषु तान् (प्रजानन्) प्रकर्षे-
ण बुध्यमान (वाजी) वेगवान् (अपि) (एतु) प्रा-
प्नोतु (देवान्) विदुषः (अनु) (त्वा) त्वाम् (सप्ते)
अश्व इव वेगकारक (प्रदिशः) सर्वा दिशः (सचन्ताम्)
समवयन्तु (स्वधाम्) अन्नम् (अस्मै) (यजमाना-
य) धेहि ॥ २ ॥

अन्वयः—हे सप्त अश्व इव वर्तमान विद्वन् यथा वाज्यप्यग्निघृतेनाञ्जन्
देवयानान्पथः समेतु तं प्रजानन्संस्त्वं देवानेहि येन त्वाऽनुप्रदिशः सचन्तां
त्वमस्मै यजमानाय स्वधां धेहि ॥ २ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—येऽग्निजलादिप्रयुक्तैर्बाष्पयानैः सद्यो मार्गान् ग-
त्वाऽऽगत्य सर्वास्तु दिक्षु भ्रमेयुस्ते तत्र पुष्कलाग्न्यादीनि संप्राप्य प्रज्ञया का-
र्याणि साङ्गं शक्नुवन्ति ॥ २ ॥

पदार्थः—हे (सप्ते) घोंडे के समान वेग से वर्तमान विद्वान् जन ! जैसे (वाजी,
अपि) वेगवान् भी अग्नि (घृतेज) धी वा जल से (अञ्जन्) प्रगट हुआ (देवया-
नान्) विद्वान् लोग जिन में चलते हैं उन (पथः) मार्गों को (सम, एतु) सम्यक्
प्राप्त होवे उस को (प्रजानन) अच्छे प्रकार जानते हुए आप (देवान्) विद्वानों को
(एहि) प्राप्त हूजिये जिस से (त्वा) आप के (अनु) अनुकूल (प्रदिशः) सब दिशा
विदिशाओं को (सचन्ताम्) सम्बन्ध करें आप (अस्मै) इस (यजमानाय) यज्ञ क-
रने वाले पुरुष के लिये (स्वधाम्) अन्न को (धेहि) धारण कीजिये ॥ २ ॥

भावार्थः— इस मन्त्र में वाचकलु०—जो पुरुष अग्नि और जलादि से युक्त किये
भाफ से चलने वाले यानों से शीघ्र मार्गों में जा आ के सब दिशाओं में भ्रमण करें वे
वहाँ २ सर्वत्र पुष्कल अन्नादि को प्राप्त कर बुद्धि से कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं ॥२॥

ईड्य इत्यस्य बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषिः । अग्निर्देवता ।

पङ्क्तिश्छन्दः । मञ्चमः स्वरः ॥

पुनस्तेमत्र विषयमाह ॥

फिरं उसी वि० ॥

ईड्यश्चासि वन्द्यश्च वाजिन्नाशुश्चाऽसि मेध्यश्च
सप्ते । अग्निष्ठां देवैर्वसुभिः सजोषांः प्रीतं वह्निं
वहतु जातवेदाः ॥३॥

ईड्यः । च । असि । वन्द्यः । च । वाजिन् । आशुः ।
 च । असि । मेध्यः । च । सप्ते । अग्निः । त्वा । देवैः ।
 वसुंरिति वसुंभिः । सजोषा इति सजोषाः । प्री-
 तम् । वह्निम् । वहतु । जातवेदा इति जातवेदाः ॥३॥

पदार्थः—(ईड्यः) स्तोतुमर्हः (च) (असि) (वन्द्यः) वन्दितुं
 नमस्कर्तुं योग्यः (च) (वाजिन्) प्रशस्तवेगवन् (आंशुः)
 शीघ्रगामी (च) (असि) (मेध्यः) संगमनीयः (च) (सप्ते)
 अश्व इव पुरुषार्थिन् (अग्निः) पावकः (त्वा) त्वाम् (देवैः)
 दिव्यगुणैः (वसुभिः) पृथिव्यादिभिः सह (सजोषाः) समा-
 नप्रीतिः (प्रीतम्) प्रशस्तम् (वह्निम्) वोढारम् (वहतु) (जा-
 तवेदाः) जातवित्तः ॥ ३ ॥

अन्वयः—हे वाजिन् सप्ते शिल्पिन् विद्वन् यतो जातवेदाः सजोषाः सन्
 भवान् वसुभिर्देवैः सह प्रीतं वह्निं वहतुद्यं च त्वा त्वानग्निर्वहतु तस्मात्व-
 सीड्यश्चासि वन्द्यश्चासि आशुश्चासि मेध्यश्चासि ॥ ३ ॥

भावार्थः—ये मनुष्याः पृथिव्यादिविकारैर्यानादीनि रचयित्वा तत्र वेगवन्तं
 वोढारमग्निं संप्रयुञ्जीरंस्ते प्रशंसनीया मान्यास्युः ॥ ३ ॥

पदार्थः—हे (वाजिन्) प्रशंसित वेग वाले (सप्ते) घोड़े के तुल्य पुरुषार्थी उत्साही
 कारीगर विद्वन् ! जिस कारण (जातवेदाः) प्रसिद्ध भोगों वाले (सजोषाः) समान
 प्रीतियुक्त हुए आप (वसुभिः) पृथिवी आदि (देवैः) दिव्य गुणों वाले पदार्थों के
 साथ (प्रीतम्) प्रशंसा को प्राप्त (वह्निम्) यज्ञ में होमें हुए पदार्थों को मेघमण्डल
 में पहुंचाने वाले अग्नि को (वहतु) प्राप्त कीजिये और जिस (त्वा) आप को (अग्निः)
 अग्नि पहुंचावे । इस लिये आप (ईड्यः) स्तुति के योग्य (च) भी (असि) हैं (वन्द्यः)
 नमस्कार करने योग्य (च) भी हैं (च) और (आशुः) शीघ्रगामी (च)
 तथा (मेध्यः) समागम करने योग्य (असि) हैं ॥ ३ ॥

भावार्थः—जो मनुष्य पृथिवी आदि विकारों से सवारी आदि को रच के उस में वेगवान् पहुंचाने वाले अग्नि को संप्रयुक्त करें वे प्रशंसा के योग्य मान्य हों ॥ ३ ॥

स्तीर्णमित्यस्य बहुदुक्थां वामदेव्य ऋषिः । अग्निर्देवता ।

निचृत्पङ्क्तिरछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयसाह ॥

फिर उसी वि० ॥

स्तीर्णं बर्हिः सुष्टरीमा जुषाणोरु पृथु प्रथमा-
नं पृथिव्याम् । देवेभिर्युक्तमदितिः सजोषाः
स्योनं कृण्वाना सुविते दधातु ॥ ४० ॥

स्तीर्णम् । बर्हिः । सुष्टरीमि । सुस्तरिमेति सुऽस्तरिम् ।
जुषाणा । उरु । पृथु । प्रथमानम् । पृथिव्याम् । देवेभिः ।
युक्तम् । अदितिः । सजोषाऽइति सऽजोषा । स्योन-
म् । कृण्वाना । सुविते । दधातु ॥ ४ ॥

पदार्थः—(स्तीर्णम्) सर्वतो ऽङ्गोपाङ्गैराच्छादितं या
नम् (बर्हिः) अन्तरिक्षमुदकं वा (सुष्टरीम्) सुष्ठु स्तृ-
णीम् । अत्र सांहितायामिति दीर्घः (जुषाणा) सेवमा-
ना (उरु) बहु (पृथु) विस्तीर्णम् (प्रथमानम्)
प्रख्यातम् (पृथिव्याम्) भूमौ (देवेभिः) दिव्यैः प-
दार्थैः (युक्तम्) (अदितिः) नाशरहिता (सजोषा)
संमानैः सेविता (स्योनम्) सुखम् (कृण्वाना) कुर्वती
(सुविते) प्रेरिते (दधातु) ॥ ४ ॥

अन्वयः—हे विद्वन् वयं यथा पृथिव्यासुक्त पृथु प्रथमानं स्त्रीणं वह्नि-
जुषाणा सजोषा देवेभियुक्तं स्योनं कृण्वानाऽदितिर्विद्युत्सर्वं सुविते दधा-
तु तां सुष्टरीम तथा त्वं प्रयतस्व ॥ ४ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—हे मनुष्या या पृथिव्यादिषु व्याप्ताऽख-
श्लिता विद्युद्विस्तीर्णानि कार्याणि संसाध्य सुखं जनयति तां कार्येषु प्रयुज्य
प्रयोजनसिद्धिं संपादयत ॥ ४ ॥

पदार्थः—हे विद्वन् ! हम लोग जैसे (पृथिव्याम्) भूमि में (उरु) वदत (पृथु)
विस्तीर्ण (प्रथमानम्) प्रख्यात (स्तीर्णम्) सब आर से अद्भुत उपाङ्गों से
पूर्ण यान और (वह्निः) जल वा अन्तरिक्ष को (जुषाणा) सेवन करती हुई
(सजोषाः) समान गुण वालों ने सेवन की (देवेभिः) दिव्य पदार्थों से (यु-
क्तम्) युक्त (स्योनम्) सुख को (कृण्वाना) करती हुई (अदितिः) नाशरहित वि-
जुली सब को (सुविते) भेरेणा किये यन्त्र में (दधातु) धारण करे उस को (सु-
(ष्टरीम) सुन्दर रीति से विस्तार करे वैसे आप भी प्रयत्न कीजिये ॥ ४ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! जो पृथिवी आदि में व्याप्त अख-
श्लित विजुली विस्तृत बड़े २ कार्यो को सिद्ध कर सुख को उत्पन्न करती है उस को
कार्यो में प्रयुक्त कर प्रयोजनों की सिद्धि करो ॥ ५ ॥

एता इत्यस्य वृहदुक्तयो वामदेव्य ऋषिः अग्निर्देवता ॥

त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

कीदृग्द्वारवन्ति गृहाणि स्युरित्थाह ॥

कैसे द्वारों वाले घर हों इस वि० ॥

एता उ वः सुभगा विश्वरूपा विपक्षोभिः श्र-
यमाणा उदातैः । ऋष्याः सतीः कृष्याः शुभ-
माना द्वारो देवीः सुप्रायणा संवन्तु ॥ ५ ॥

एताः । उँऽइत्यँ । वः । सुभगाऽइति सुभगाः ।
विश्वरूपाइति विश्वरूपाः । वि । पक्षोभिरिति पक्ष-
भिः । श्रयमाणाः । उत् । आतैः । ऋष्वाः । सतीः ।
कवषाः । शुम्भमानाः । द्वारः । देवीः । सुप्रायणाः ।
सुप्रायनाइति सुप्रायनाः । भवन्तु ॥ ५ ॥

पदार्थः—(एताः) दीप्तिः (उ) वितर्क (वः) यु-
ष्मभ्यम् (सुभगाः) सुष्टु श्रयप्रदाः (विश्वरूपाः) विवि-
धरूपगुणाः (वि) (पक्षोभिः) पक्षैः (श्रयमाणाः) सेव-
मानाः (उत्) उत्कृष्टतया (आतैः) सततं गमकैः (ऋ-
ष्वाः) महत्यः । ऋष्व इति महन्ना० निचं० ३ । ३ । (स-
तीः) विद्यमानाः (कवषाः) शब्दं कुर्वाणाः (शुम्भमानाः)
सुशोभिताः (द्वारः) (देवीः) देदीप्यमानाः (सुप्राय-
णाः) सुखेन गमनाधिकरणाः (भवन्तु) ॥ ५ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यथा व एताः सुभगा विश्वरूपा ऋष्वाः कवषा
शुम्भमानाः सतीर्देवीर्द्वार उदातैः पक्षोभिः श्रयमाणाः पक्षिपङ्क्तय इव
सुप्रायणा विभवन्तु तादृशीरु भवन्तो रचयन्तु ॥ ५ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—हे मनुष्यैरीदृशानि गृहद्वाराणि निर्मातव्या-
यानि येषो वायुनिरोधो न स्याद्यथाऽन्तरिक्षेऽनिरुद्धाः पक्षिणः सुखेन ग-
च्छन्त्यागच्छन्ति तथा तेषु गन्तव्यमागन्तव्यं च ॥ ५ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो! जैसे (वः) तुम्हारी (एताः) ये दीप्ति (सुभगाः)
सुन्दर ऐश्वर्यदायक (विश्वरूपाः) विविध प्रकार के रूपों वाले (ऋष्वाः) बड़े
उंचे चौड़े (कवषाः) जिन में बोलने से शब्द की प्रतिध्वनि हों (शुम्भमानाः)
सुन्दर शोभायुक्त (सतीः) हुए (देवीः) रंगों से चिल चिलाते हुए (उत्,
आतैः) उत्तम रीति से निरन्तर जाने के हेतु (पक्षोभिः) चायें दहिने भागों से

(श्रयमाणाः) सेवित पक्षियों की पङ्क्तियों के तुल्य (सुप्रायणाः) मुख से जाने के आधार (द्वारः) द्वार (वि, भवन्तु) सर्वत्र घरों में हों वैसे (उ) ही आप लोग भी बनवें ॥ ५ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—मनुष्यों को चाहिये कि ऐसे द्वारों वाले घर बनवें कि जिन से वायु न रुके। जैसे आकाश में बिना रुकावट के पक्षी मुखपूर्वक उड़ते हैं वैसे उन द्वारों में जावें आवें ॥ ५ ॥

अन्तरेत्यस्य बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषिः । मनुष्या देवताः ।

त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

अन्तरा मित्रावरुणा चरन्ती मुखं यज्ञाना-
मभि संविदानो । उषासावाश् सुहिरण्ये सुशि-
ल्पे ऋतस्य योनाविह सादयामि ॥ ६ ॥

अन्तरा । मित्रावरुणा । चरन्तीऽइति चरन्ती । मु-
खम् । यज्ञानाम् । अभि । संविदानेऽइति सम्विदाने ।
उषासा । उषसेत्युषसा । वाम् । सुहिरण्येऽइति सुऽहि-
रण्ये । सुशिल्पेऽइति सुऽशिल्पे । ऋतस्य । योनौ ।
इह । सादयामि ॥ ६ ॥

पदार्थः—(अन्तरा) अन्तरौ (मित्रावरुणा) प्राणो-
दानौ (चरन्ती) प्राप्नुवत्यौ (मुखम्) (यज्ञानाम्)
सङ्गन्तव्यानाम् (अभि) पदार्थानाम् (संविदाने)
सम्यग्विज्ञापिके (उषासा) प्रातःसायंवेले (वाम्) युवाम्
(सुहिरण्ये) सुष्ठुतंजोयुक्ते (सुशिल्पे) सुष्ठुशिरुपक्रिया
ययोस्ते (ऋतस्य) सत्यस्य (योनौ) निमित्ते (इह)
अस्मिन् गृहे (सादयामि) स्थापयामि ॥ ६ ॥

अन्वयः— हे शिल्पविद्याप्रचारकौ विदांसौ यथाहमन्तरा मित्रावरुणा चरन्ती यज्ञानां मुखमभि संविदाने सुहिरण्ये सुशिल्पे उषसा ऋतस्य योनाविह सादयामि तथा वां मह्यं स्थापयेतम् ॥ ६ ॥

भावार्थः— अत्र वाचकलु०—यथा प्रातः सायं बेले शुद्धस्थानसेविते मनुष्याणां प्राणोदानवत्सु सुखकारिके भवतस्तथा शुद्धदेशे निर्मितं बहुविस्तीर्णद्वारं गृहं सर्वथा सुखयति ॥ ६ ॥

पदार्थः— हे शिल्प विद्या के प्रचारक दो विद्वानो ! जैसे मैं (अन्तरा) भीतर शरीर में (मित्रावरुणा) प्राण तथा उदान (चरन्ती) प्राप्त होते हुए (यज्ञानाम्) सद्गति के योग्य पदार्थों के (मुखम्) मुख्य भाग को (अभि,संविदाने) सब ओर से सम्यक् ज्ञान के हेतु (सुहिरण्ये) सुन्दर तेजयुक्त (सुशिल्पे) सुन्दर कारीगरी जिस में हो (उषसा) प्रातः तथा सायंकाल की बेलों को (ऋतस्य) सत्य के (योनौ) निमित्त (इह) इस घर में (सादयामि) स्थापन करता हूँ वैसे (वाम्) तुम दोनों मेरे लिये स्थापन करो ॥ ६ ॥

भावार्थः— इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे सवेरे तथा सायंकाल की बेलों शुद्ध स्थान में सेवी हुई मनुष्यों को प्राण उदान के समान सुखकारिणी होती हैं वैसे शुद्ध देश में बनाया बड़े द्वारों वाला घर सब प्रकार सुखी करता है ॥ ६ ॥

प्रथमेत्यस्य बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषिः । अश्विनौ देवते ।

त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अथाऽध्ययनाध्यापने कथं स्यातामित्याह ॥

अत्र पढ़ने पढ़ाने कैसे होंगे इस वि० ॥

प्रथमा वां सरथिनां सुवर्णां देवौ पश्यन्तौ
भुवनानि विश्वा । अपिप्रयंचोदनावामिमाना
होतारो ज्योतिः प्रदिशां दिशन्ता ॥ ७ ॥

प्रथमा । वाम् । सरथिनेति सऽरथिना । सुवर्णेति
सुऽवर्णा । देवौ । पश्यन्तौ । भुवनानि । विश्वा ।
अपिऽप्रथम् । चोदना । वाम् । मिमाना । होतारा ।
ज्योतिः । प्रदिशेति प्रऽदिशा । दिशन्ता ॥ ७ ॥

पदार्थः— (प्रथमा) आदिमौ (वाम्) युवयोः (सरथिना)
रथिभिः सह वर्त्तमानौ (सुवर्णा) शोभनो वर्णो ययोस्तौ
(देवौ) देदीप्यमानौ (पश्यन्तौ) समीक्षमाणौ (भुवनानि)
निवासाऽधिकरणानि (विश्वा) सर्वाणि (अपिप्रथम्) प्री-
णामि । पश्यन्ताल्लुङ्प्रयोगोऽयम् (चोदना) प्रेरणानि कर्माणि
(वाम्) युवाम् (मिमाना) निश्चेतारौ (होतारा) दातारौ
(ज्योतिः) प्रदीप्तिः (प्रदिशा) प्रकर्षेण बोधयन्तौ (दिशन्ता)
उच्चारयन्तौ ॥ ७ ॥

अन्वयः— हे विद्यार्थिनौ वै प्रथमा सरथिना सुवर्णा विश्वा भुवनानि
पश्यन्तौ वां चोदना मिमाना ज्योतिः प्रदिशा दिशन्ता होतारा देवौ विद्वांसौ-
कुर्यातां यथा त्वमहमपिप्रथन्तथा वा युवां तौ प्राप्नुतम् ॥ ७ ॥

भावार्थः— अत्र वाचकलुप— ये विद्यार्थिनो निष्कापट्येन त्रिदुषः सेवन्ते ते वि-
द्याप्रकाशं लभन्ते । यदि विद्वांसः कपटालस्ये विहाय सर्वान् सत्यमुपदिशेयु-
स्तर्हि ते सुखिनः कथं न जायेरन् ॥ ७ ॥

पदार्थः— हे दो विद्यार्थियो ! जो (प्रथमा) पहिले (सरथिना) रथ वालों
के साथ वर्त्तमान (सुवर्णा) सुन्दर गोरेवर्ण वाले दो विद्वान (विश्वा) संव
(भुवनानि) वसने के आधार लोकों को (पश्यन्तौ) देखते हुए (वाम्)

तुम दोनों के (चोदना) प्रेरणारूप कर्मों को (मिमाना) जांचते हुए (ज्योतिः) प्रकाश को (प्रदिशा) अच्छे प्रकार जानते तथा (दिशन्ता) उच्चारण करते हुए तुम को (होतारा) दानशालि (देवौ) तेजस्वी विद्वान् करें जैसे उन को मैं (अपिप्रयम्) वृत्त करता हूँ वैसे (धाम्) तुम दोनों उन विद्वानों को प्राप्त होओ ॥७॥

भावार्थः— इस मन्त्र में वाचकलु०—जो विद्यार्थी लोग निष्कपटता से विद्वानों का सेवन करते हैं वे विद्या के प्रकाश को प्राप्त होते हैं जो विद्वान् लोग कपट और आलस्य को छोड़ सब को सत्य का उपदेश करें तो वे सुखी कैसे न हों ॥ ७ ॥

आदित्यैरित्यस्य वृहदुक्थो वामदेव्य ऋषिः । सरस्वती
देवता । त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

आदित्यैर्नो भारती वष्टु यज्ञश्च सरस्वती

सह रुद्रैर्न आवीत् । इडोपहूता वसुभिः सजोषा
या यज्ञं नो देवीरमृतैषु धत्त ॥ ८ ॥

आदित्यैः । नः । भारती । वष्टु । यज्ञम् । सरस्वती । सह । रुद्रैः । नः । आवीत् । इडा । उपहूतेत्युपहूता । वसुभिरिति वसुभिः । सजोषाऽ इति सजोषाः । यज्ञम् । नः । देवीः । अमृतैषु धत्त ॥ ८ ॥

पदार्थः—(आदित्यैः) पूर्णविद्यावद्भिः (नः) अस्मभ्यम् (भारती) सर्वविद्याधर्त्री सर्वथा पोषिका (वष्टु) कामयताम् (यज्ञम्) सङ्गतं योग्यं बोधम् (सरस्वती) प्रशस्तविज्ञानवती वाक् (सहः) (रुद्रैः) मध्यमैर्विद्वद्भिः (नः) अस्मान् (आवीत्) प्राप्नुयात्

(इडा) स्ताविका वाक् (उपहूता) यथावत्स्पष्टिता (व-
सुभिः) प्रथमकल्पैर्विद्विः (सजोपाः) समानैः सेविताः
(यज्ञम्) प्राप्तव्यमानन्दम् (नः) अस्थान् (देवीः) त्रि-
विधा वाणीः (अमृतेषु) नाशरहितेषु जीवादिपदार्थेषु
(धत्त) धरत दत्त वा ॥ ८ ॥

अन्वयः—हे विद्वन् भवान् या आदित्यैरुपदिष्टोपहूता भारती नो यज्ञं
सम्पादयति तथा सह नोऽस्मान्वष्टु या रुद्रैरुपदिष्टा सरस्वती नोऽस्मा-
नानीत् या सजोषा इडा वसुभिरुपदिष्टा सती यज्ञं साधनीति हे जना ता
देवीरस्मानमृतेषु दध्युस्ता यूयमस्मभ्यं धत्त ॥ ८ ॥

भावार्थः—मनुष्यैरुत्तममध्यमनिकृष्टानां विदुषां सकाशाच्छ्रुता पठिता वा
विद्यावाणी स्वीकार्या न मूर्खाणां सकाशात् सा वाणी मनुष्याणां सर्वदा
सुखसाधिका भवति ॥ ८ ॥

पदार्थः—हे विद्वन् ! आप जो (आदित्यैः) पूर्ण विद्या वाले उत्तम विद्वानों
ने उपदेश की (उपहूता) यथावत् स्पर्दा से ग्रहण की (भारती) सब विद्याओं
को धारण और सब प्रकार पुष्टि करने वाली वाणी (नः) हमारे लिये (यज्ञम्)
सङ्गत हमारे योग्य बोध को सिद्ध करनी है उस के (सहः) साथ (नः)
हम को (वष्टु) कामना वाले क्रीजिये जो (रुद्रेः) मध्य कक्षा के विद्वानों ने उप-
देश की (सरस्वती) उत्तम प्रशस्त विज्ञानयुक्त वाणी (नः) हम को (आनीत्)
प्राप्त होवे जो (सजोपाः) एक से विद्वानों ने सेवी (इडा) स्तुति की हेतु वाणी
(वसुभिः) प्रथम कक्षा के विद्वानों ने उपदेश की हुई (यज्ञम्) प्राप्त होने योग्य
आनन्द को सिद्ध करती है । हे मनुष्यो ! ये (देवीः) दिव्यरूप तीन प्रकार की वाणी
हम को (अमृतेषु) नाशरहित जीवादि नित्य पदार्थों में धारण करें उन को तुम लोग
भी हमारे अर्थ (धत्त) धारण करो ॥ ८ ॥

भावार्थः—मनुष्यों को उचित है कि उत्तम मध्यम निकृष्ट विद्वानों से सुनी वा
पढ़ी विद्या तथा वाणी का स्वीकार करें किन्तु मूर्खों से नहीं, वह वाणी मनुष्यों को सब काल
में सुख-सिद्ध करने वाली होती है ॥ ८ ॥

त्वष्टेत्यस्य बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषिः । त्वष्टा देवता ।

त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

त्वष्टां वीरं देवकामं जजान त्वष्टुरर्वा जायत
आशुरश्वः । त्वष्टेदं विश्वं भुवनं जजान ब्रह्मोः
कर्त्तारमिह यक्षि होतः ॥ ९ ॥

त्वष्टा । वीरम् । देवकाममिति देवकामम् ।

जजान । त्वष्टुः । अर्वा । जायते । आशुः । अश्वः ।

त्वष्टा । इदम् । विश्वम् । भुवनम् । जजान । ब्रह्मोः ।

कर्त्तारम् । इह । यक्षि । होतरिति होतः ॥ ९ ॥

पदार्थः—(त्वष्टा) विद्यादिसद्गुणैः प्रकाशमानः (वीरम्)

(देवकामम्) यो देवान् विदुषः कामयते तम् (जजान)

जनयति (त्वष्टुः) प्रदीप्ताच्छिक्षणात् (अर्वा) शीघ्रंग-

न्ता (जायते) (आशुः) तीव्रवेगः (अश्वः) तुरङ्गः (त्व-

ष्टा) स्वात्मप्रकाशितः (इदम्) (विश्वम्) सर्वम् (भु-

वनम्) लोकजातम् (जजान) जनयति (ब्रह्मोः) बहु-

विधस्य संसारस्य (कर्त्तारम्) (इह) अस्मिन्संसारे

(यक्षि) यजसि सद्गच्छसे (होतः) आदातः ॥ ९ ॥

अन्वयः—हे होतस्त्वं यथा त्वष्टा विद्वान् देवकामं वीरं जजान यथा

त्वष्टुराशुरर्वाश्वो जायते यथा त्वष्टेदं विश्वं भुवनं जजान तं ब्रह्मोः कर्त्तार-

मिह यक्षि तथा वयमपि कुर्याम ॥ ९ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०-ये विद्याकामान्मनुष्यान्विदुषः कुर्युष्ये
सद्योजातशिक्षोऽश्वइव तीव्रवेगेन विद्याः प्राप्नोति यथा बहुविधस्य संसार-
स्य स्रष्टेश्वरः सर्वान्व्यस्थापयति तथाऽध्यापकाऽध्येतारो भवन्तु ॥८॥

पदार्थः—हे (होतः) ग्रहण करने हारे जन ! तू जैसे(त्वष्टा) विद्या आदि
उत्तम गुणों से शोभित विद्वान् (देवकामम्) विद्वानों की कामना करने हारे
(वीरम्) वीर पुरुष को (जज्ञान) उत्पन्न करता है जैसे (त्वष्टः) प्रकाश
रूप शिक्षा से (आशुः) शीघ्रगामी (अर्वा) वेगवान् (अश्वः) घोड़ा (जायते)
होता है। जैसे (त्वष्टा) अपने स्वरूप से प्रकाशित ईश्वर (इदम्) इस (विरवम्)
सब (भुवनम्) लोकमात्र को (जज्ञान) उत्पन्न करता है उस (वहोः) बहुविध सं-
सार के (कर्त्तारम्) रचने वाले परमात्मा का (इह) इस जगत् में (यत्ति) पूजन
कीजिये वैसे हम लोग भी करें ॥ ८ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०-जो विद्वान् लोग विद्या चाहने वाले मनु-
ष्यों को विद्वान् करें, शीघ्र जिस को शिक्षा हुई हो उस घोड़े के समान तीव्रता से
विद्या को प्राप्त होता है जैसे बहुत प्रकार के संसार का स्रष्टा ईश्वर सब की व्यवस्था
करता है वैसे अध्यापक और अध्येता हों ॥ ९ ॥

अश्व इत्यस्य बृहदुक्थो वामदेव्यच्छ्रपिः । सूर्यो देवता ।

निचृत्त्रिष्टुब्धन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

अश्वो घृतेन त्मन्या समक्त उप देवाँ २ ॥५
ऋतुशः पार्थ एतु । वनस्पतिर्देवलोकं प्रजान-
न्नग्निना हव्या स्वदितानि वक्षत् ॥ १० ॥

अश्वः । घृतेन । त्मन्या । समक्तुऽइति समुऽअक्तः ।
उप । देवान् । ऋतुशऽइत्यृतुऽशः । पाथः । एतु । व-
नस्पतिः । देवलोकमिति देवऽलोकम् । प्रजानन्निति-
प्रजानन् । अग्निना । हव्या । स्वदितानि ।
वक्षत् ॥ १० ॥

पदार्थः—(अश्वः) आशुगामी वह्निः (घृतेन) उ-
दकेन (त्मन्या) आत्मना । अत्राकारलोपो विभक्तेर्या-
देशश्च । (समक्तः) सम्यक् प्रकटयन् (उप) (देवान्) दि-
व्यान् व्यवहारान् (ऋतुशः) ऋतावृतौ (पाथः) अ-
न्नम् (एतु) प्राप्नोतु (वनस्पतिः) वनानां किरणानां
पालकः सूर्यः (देवलोकम्) देवानां विदुषां लोकं दर्शकं
व्यवहारम् (प्रजानन्) प्रकर्षणं विदन्त्सन् (अग्निना)
पावकेन (हव्या) अस्तुमर्हाणि (स्वदितानि) आस्वा-
दितानि (वक्षत्) बहेत् प्रापयेत् ॥ १० ॥

अन्वयः—हे विद्वन् देवलोकं प्रजानन्त्सन् यथा घृतेन संयोजितोऽश्व-
स्तमन्या ऋतुशो देवान्तसमक्तः सन् पाथ उपैतु अग्निना सह वनस्पतिः स्व-
दितानि हव्या वक्षत्तथा तमन्या वर्त्तस्व ॥ १० ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—हे विद्वांसो मनुष्याः ! यथा सूर्य ऋतून् वि-
भज्योत्तमानि सेवितव्यानि वस्तूनि जनयति तथोत्तमानधमान् विद्यार्थिनो-
विद्याञ्चाऽविद्याञ्च पृथक् परीक्ष्य सुशिक्षितान् संपादयन्तु, अविद्याञ्च
निवर्त्तयन्तु ॥ १० ॥

पदार्थः—हे विद्वन् ! (देवलोकम्) सब को मार्ग दिखाने वाले विद्वानों के
मार्ग को (प्रजानन्) अच्छे प्रकार जानते हुए जैसे (घृतेन) जल से संयुक्त
किया (अश्वः) शीघ्रगामी अग्नि (त्मन्या) आत्मा से (ऋतुशः) ऋतु २ में

(देवान्) उत्तम व्यवहारों को (सप्तः) सम्यक् प्रकट करना हुआ (पाथः) अन्न को (उप, एतु) निकट से प्राप्त कीजिये (अग्निना) अग्नि के साथ (व-
नस्पतिः) किरणों का रक्षक सूर्य (खदितानि) स्वादिष्ठ (हव्या) भोजन के
योग्य अन्नों को (वृत्त) प्राप्त करे जैसे आत्मा से वर्तान कीजिये ॥ १० ॥

भावार्थः-- इस मंत्र में वाचकलु०- हे विद्वान् मनुष्यो ! जैसे सूर्य ऋतुओं का
विभाग कर उत्तम सेवने योग्य वस्तुओं को उत्पन्न करता है वैसे उत्तम अधम विद्यार्थी
और विद्या अविद्या की अलग २ परीक्षा कर अच्छे शिक्षित करें और अविद्या की
निवृत्ति करें ॥ १० ॥

प्रजापतेरित्यस्य बृहदुक्थो वाचदेव्यऋषिः । अग्निर्देवता ।

त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनर्मनुष्यैः किं कर्त्तव्यमित्याह ॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस वि० ॥

प्रजापतेस्तपसा वावृधानः सद्यो जातो दधि-
षे यज्ञमग्ने । स्वाहाकृतेन हविषा पुरोगा याहि
साध्या हविरदन्तु देवाः ॥ ११ ॥

प्रजापतेरिति प्रजाऽपतेः । तपसा । वावृधानः । ववृ-
धानऽइति ववृधानः । सद्यः । जातः । दधिषे । यज्ञम् ।
अग्ने । स्वाहाकृतेनेति स्वाहाऽकृतेन । हविषा । पुरो-
गाऽइति पुरःऽगाः । याहि । साध्या । हविः ।
अदन्तु । देवाः ॥ ११ ॥

पदार्थः--(प्रजापतेः) प्रजायाः पालकस्य (तपसा)
प्रतापेन (वावृधानः) बर्द्धमानः (सद्यः, जातः) शीघ्रं
प्रसिद्धः सन् (दधिषे) धरसि (यज्ञम्) (अग्ने) पा-
वकवर्द्धत्मान विद्वन् ! (स्वाहाकृतेन) सुष्ठुसंस्कारक्रियया
निष्पादितेन (हविषा) दातुमर्हेण (पुरोगाः) अग्रगण्या

अग्रगामिनी वा (याहि) प्राप्नुहि (साध्या) साधनसा-
ध्याः (हविः) अत्तव्यमन्नम् (अदन्तु) भुञ्जताम् (देवाः)
विद्वांसः ॥ ११ ॥

अन्वयः—हे अग्ने ! त्वं सद्यो जातः प्रजापतेस्तपसा वावृधानः स्वाहाकृतेन
हविषा यज्ञं दधिषे ये पुरोगाः साध्यादेवा हविरदन्तु तान्वोहि प्राप्नुहि ॥११॥

भावार्थः—ये मनुष्या सूर्यवत्प्रजापालका धर्मण प्राप्तस्य पदार्थस्य भो-
क्तारो भवन्ति ते सर्वोत्तमा गणयन्ते ॥ ११ ॥

पदार्थः—हे विद्वन् ! (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वि ! आप (सद्यः) शीघ्र
(जातः) प्रसिद्ध हुए (प्रजापतेः) प्रजारक्षक ईश्वर के (तपसा) प्रताप से
(वावृधानः) बढ़ते हुए (स्वाहाकृतेन) सुन्दर संस्काररूप क्रिया से सिद्ध हुए
(हविषा) होम में देने योग्य पदार्थ सें (यज्ञम्) यज्ञ को (दधिषे) धारते हो
जो (पुरोगाः) मुखिया वा अगुआ (साध्याः) साधनों से सिद्ध करने योग्य
(देवाः) विद्वान् लोग (हविः) ग्राह्य अन्न का (अदन्तु) भोजन करें उन को
(याहि) प्राप्त हूजिये ॥ ११ ॥

भावार्थः—जो मनुष्य सूर्य के समान प्रजा के रक्षक धर्म से प्राप्त हुए पदार्थ के
भोगने वाले होते हैं वे सर्वोत्तम गिने जाते हैं ॥ ११ ॥

यदक्रन्दइत्यस्य भार्गवो जमदग्निर्ऋषिः । यजमानो देवता ।

षिष्णुच्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

यदक्रन्दः प्रथमं जायमान उद्यन्त्समुद्राद्भुत वा
पुरीषात् । श्येनस्य पक्षा हरिणस्य बाहू उपस्तु-
त्यं महिं जातं तं अर्वन् ॥ १२ ॥

यत् । अक्रन्दः । प्रथमम् । जायमानः । उद्यन्नित्युत्
 स्यन् । समुद्रात् । उत । वा । पुरीषात् । श्येनस्य ।
 पक्षा । हरिणस्य । बाहूऽइति बाहू । उपस्तुत्यमित्युप-
 स्तुत्यम् । महि । जातम् । ते । अर्वन् ॥ १२ ॥

पदार्थः—(यत्) यदा (अक्रन्दः) शब्दं कुरुषे (प्र-
 थमम्) (जायमानः) (उद्यन्) उदयं प्राप्नुवन् (समु-
 द्रात्) अन्तरिक्षात् । समुद्र इत्यन्तरिक्षना०निघं० १ । ३ (उत)
 अपि (वा) (पुरीषात्) पालकात् परमात्मनः (श्येन-
 स्य) पक्षिणः (पक्षा) पक्षौ (हरिणस्य) हर्तुं शीलस्य
 वीरस्य (बाहू) भुजौ (उपस्तुत्यम्) उपगतस्तुतिविष-
 यम् (महि) महत् कर्म (जातम्) (ते) तव (अर्वन्)
 अश्वइव वेगवद्विद्वन् ॥ १२ ॥

अन्वयः—हे अर्वन् विद्वन् ! यत्समुद्रादुत वा पुरीषात्प्रथमं जायमानो
 वायुरिवोद्यंस्त्वमक्रन्दस्तदा ते हरिणस्य बाहू श्येनस्य पक्षेव एतत् महि जा-
 तमुपस्तुत्यं भवति ॥ १२ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—हे मनुष्या यथाऽन्तरिक्षात्प्रकटो वायुः कर्मा-
 णि कारयति तथा शुभान्गुणान् यूपं स्वीकुरुत यथा पशूनां मध्येऽश्वो वेग-
 वानस्ति तथा शत्रूणां निग्रहे वेगवन्तः श्येन इव वीरसेना प्रगल्भा भवत य-
 द्येवं कुरुत तर्हि सर्वं युष्माकं प्रशंसितं स्यात् ॥ १२ ॥

पदार्थः—हे (अर्वन्) घोड़े के तुल्य वेग वाले विद्वान् पुरुष ! (यत्) जब
 (समुद्रात्) अन्तरिक्ष (उत, वा) अथवा (पुरीषात्) रक्तक परमात्मा से,
 (प्रथमम्) पहिले (जायमानः) उत्पन्न हुए वायु के समान (उद्यन्) उदय को प्राप्त हुए

को प्राप्त हुए (अक्रन्दः-) शब्द करते हो तब (हरिणस्य) हरिणशील वीर जन (ते) आपके (बाहू) भुजा (श्येनस्य) श्येनपत्नी के (पत्ना) पंखों के तुल्य बलकारी है यह (महि) महत् कर्म (जानस्) प्रसिद्ध (उपस्तुत्यम्) समीपस्थ स्तुति का विषय होता है ॥ १२

भावार्थः—ईस मंत्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो जैसे अन्तरिक्ष से उत्पन्न हुआ वायु कर्मों को कगता वैसे मनुष्यों के शुभ गुणों को तुम लोग ग्रहण करो जैसे पशुओं में घोड़ा वेगवान् है वैसे शत्रुओं को रोकने में वेगवान् श्येन पत्नी के तुल्य वीर पुरुषों की सेना वाले दृढ़ हीठ होओ यदि ऐशे करौ तो सब कर्म तुम्हारा प्रशंसित होंगे ॥१२॥

यमेनेत्यस्य भार्गवो जमदग्निर्ऋषिः । अग्निर्देवता ॥

भुरिक्त्रिष्टुप्छन्दाः । धैवतः स्वरः ॥

पु नस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

यमेन दत्तं त्रित एनमायुनगिन्द्रं एणं प्रथ-
मोऽर्ध्र्यतिष्ठत् । गन्धर्वोऽस्य रशनामगृभ्णा-
त्सूरादर्शवं वसवो निरतष्ट ॥ १३ ॥

यमेन । दत्तम् । त्रितः । एनम् । आयुनक् । अ-
युनगित्ययुनक् । इन्द्रः । एनम् । प्रथमः । अर्धिः । अ-
तिष्ठत् । गन्धर्वः । अस्य । रशनाम् । अगृभ्णात् ।
सूरात् । अश्वम् । वसवः । निः । अतष्ट ॥१३॥

पदार्थः(यमेन) नियन्त्रा वायुना (दत्तम्) (त्रितः)त्रि-
भ्यः पृथिवीजलान्तरिक्षेभ्यः (एनम्) वह्निम् आयुनक्

युनक्ति (इन्द्रः) विद्युत् (एनम्) । अत्र छान्दसं णत्वम्
 (प्रथमः) विस्तीर्णः प्रख्यातः (अधि) (अतिष्ठत्) उपरि
 तिष्ठति (गन्धर्वः) गोः पृथिव्या धर्त्ता (अस्य) सूर्यस्य
 (रशनाम्) रशनावत्किरणगतिम् (अगृभ्णात्) गृह्णा-
 ति (सूरात्) सूर्यात् (अश्वम्) आशुगामिनं वायु-
 म् (वसवः) विद्वांसः (निः) (अतष्ट) तक्ष्णोति तनू-
 करोति ॥ १३ ॥

अन्वयः—हे वसवो य इन्द्रस्त्रितो यमेन दत्तमेनमायुनगेनं प्राप्य प्रथ-
 मोऽध्यतिष्ठद्गन्धर्वः सन्नस्य रशनामगृभ्णादस्मात्सूरादश्वं निरतष्ट तं यूयं
 विस्तारयत ॥ १३ ॥

भावार्थः—हे मनुष्या ईश्वरेणोह यस्मिन्पदार्थे यादृशी पदार्थ रचना क-
 ता तां यूयं विद्यया संवित्तैतां सृष्टिविद्यां गृहीत्वाऽनेकानि सुखानि
 साध्नुत ॥ १३ ॥

पदार्थः—हे (वसवः) विद्वान्! जो (इन्द्रः) विजुली (त्रितः) पृथिवी जल और
 आकाश से (यमेन) नियमकर्त्ता वायु ने (दत्तम्) दिये अर्थात् उत्पन्न
 किये (एनम्) इस अग्नि को (आशुनक्) युक्त करती है (एनम्) इस
 को प्राप्त हो के (प्रथमः) विस्तीर्ण प्रख्यात विद्युत् (अध्यतिष्ठत्) सर्वोपरि
 स्थित होती है (गन्धर्वः) पृथिवी को धारण करता हुआ (अस्य) इस सूर्य
 की (रशनाम्) रसी के तुल्य किरणों की गति को (अगृभ्णात्) ग्रहण करता
 है इस (सूरात्) सूर्य रूप से (अश्वम्) शीघ्र गामी वायु को (निरतष्ट) सू-
 च्म करता है उस को तुम लांग विस्तृत करो ॥ १३ ॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! ईश्वर ने इस संसार में जिस पदार्थ में जैसी रचना की है उस
 को तुम लोग विद्या से जानो और इस सृष्टि विद्या को ग्रहण कर अनेक सुखों को
 सिद्ध करो ॥ १३ ॥

असीत्यस्य भार्गवो जमदग्निर्ऋषिः । अग्निर्देवता ।

विराट्त्रिषुष्टुच्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

असिं यमोऽत्रस्यादित्योऽर्वावन्नसिं त्रितो गुह्येन
व्रतेन । असिं सोमेन समया विपृक्त आहुस्ते त्रीणि
दिवि बन्धनानि ॥ १४ ॥

असिं । यमः । असिं । आदित्यः । अर्वन् । असिं ।
त्रितः । गुह्येन । व्रतेन । असिं । सोमेन । समया । वि-
पृक्तऽइति विऽपृक्तः । आहुः । ते । त्रीणि । दिवि ।
बन्धनानि ॥ १४ ॥

पदार्थः—(असि) (यमः) नियन्तान्यायाधीशइव (असि)
(आदित्यः) सूर्य्यत्रद्विद्यया प्रकाशितः (अर्वन्) वेगवान्
वह्निस्त्वि वत्तमान जन (असि) (त्रितः) त्रिभ्यः (गुह्येन)
गुह्येन (व्रतेन) शीलेन (असि) (सोमेन) ऐश्वर्येण (समया)
समीपे (विपृक्तः) विशेषेण सम्बद्धः (आहुः) कथयन्ति (ते)
तव(त्रीणि) (दिवि) प्रकाशे (बन्धनानि) ॥ १४ ॥

अन्वयः—हे अर्वाङ् यत्स्त्वं गुह्येन ब्रूतेन त्रितो यमद्वयास्यादित्य इवसि
विद्वन्निवासि सोमेन समया विपृक्तोऽसि तस्य ते दिवि त्रीणि बन्धनान्याहुः ॥१४॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—हे मनुष्या युष्माभिर्न्यायेशादित्यसोमादिगुणै-
र्भक्तिव्यम् । यथाऽस्य संसारस्थ मध्ये वायु सूर्यार्कर्षणैर्बन्धनानि सन्ति तथैव
परस्परस्थ शरीरवाङ्मन भाकर्षणैः प्रेमबन्धनानि कर्तव्यानि ॥१४॥

पदार्थः—हे (अर्वाङ्) वेगवान् अग्नि के समान जन ! जिससे तू (गुह्येन) गुप्त (ब्रूतेन)
स्वभाव तथा (त्रितः) कर्म उपासना ज्ञान से युक्त (यमः) नियम कर्त्ता न्यायाधीश
के तुल्य (असि) है, आदित्यः) सूर्य के तुल्य विद्या से प्रकाशित जैसा (असि) है
विद्वान् के सदृश (असि) है (सोमेन) ऐश्वर्य के निकट (विपृक्तः) विशेष कर सं-
बद्ध (असि) है उस (ते) तेरे (दिवि) प्रकाश में (त्रीणि) तीन (बन्धनानि) बन्धनों
को अर्थात् ऋषिः देव पितृ ऋणों के बन्धनों को (आहुः) कहते हैं ॥ १४ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो तुम! को योग्य है कि न्यायाधीश सूर्य
और चन्द्रमा आदि के गुणों से युक्त होवें जैसे इम संसार के बीच वायु और सूर्य के
आकर्षणों से बन्धन हैं वैसे ही परस्पर शरीर वाणी मन के आकर्षणों में प्रेम के बन्धन
करें ॥ १४ ॥

त्रीणीत्यस्य भार्गवो जसदग्निर्ऋषिः । अग्निर्देवता ।

भुक्तिपङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयसाह ॥

फिर उसी वि० ॥

त्रीणि तऽआहुर्दिवि बन्धनानि त्रीण्यप्सु त्रीण्य-
न्तःसमुद्रे । उतेव सेवसुणाश्छन्तस्यर्वन्यत्रा तऽ-
आहुः परमं जनित्रम् ॥ १५ ॥

त्रीणि । ते । आहुः । दिवि । बन्धनानि । त्रीणि ।
अप्स्वित्यप्सु । त्रीणि । अन्तरित्यन्तः । समुद्रे ।
उतेवेत्युतऽइव । मे । वरुणः । छन्त्सि । अर्वन् ।
यत्र । ते । आहुः । परमम् । जनित्रम् ॥ १५ ॥

पदार्थः—(त्रीणि) (ते) तव (आहुः) कथयन्ति
(दिवि) विद्याप्रकाशे (बन्धनानि) (त्रीणि) (अप्सु)
प्राणेषु (त्रीणि) (अन्तः) मध्ये (समुद्रे) अन्तरिक्षे
(उतेव) यथोत्प्रेक्षणम् (मे) मम (वरुणः) श्रेष्ठः
(छन्त्सि) अर्चसि । छन्दतीत्यर्चतिकर्मा० निघं० । ३। १४
(अर्वन्) विज्ञानयुक्त (यत्र) यस्मिन् जन्मनि (तं)
तव । अत्र ऋचिनुघेतिदीर्घः (आहुः) (परमम्) प्र-
कृतम् (जनित्रम्) ॥ १५ ॥

अन्वयः—हे अर्वन् विद्वन् यत्र दिवि ते त्रीणि बन्धनानि विद्वांस आहु-
यंत्राप्सु त्रीणि यत्रान्तर्मध्ये समुद्रे च त्रीणि बन्धनान्याहुस्ते च परमं ज-
नित्रमाहुः । येन वरुणः सन् विदुषः छन्त्स्युतेव तानि मे सन्तु ॥ १५ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—हे मनुष्या आत्ममनःशरीरैर्ब्रह्मचर्येण वि-
द्यासु नियता भूत्वा विद्यासुशिक्षे सच्चिनुत । द्वितीयं विद्याजन्मप्राप्त्या-
र्चिता भवत येन येन सह यावान् स्वस्य समन्वयोऽस्ति तं विजानीत ॥ १५ ॥

पदार्थः—हे (अर्वन्) विज्ञानयुक्त विद्वान् जन ! (यत्र) जिस (दिवि)
विद्या के प्रकाश में (ते) आप के (त्रीणि) तीन (बन्धनानि) बन्धनों को
विद्वान् लोग (आहुः) कहते हैं जहां (अप्सु) प्राणों में (त्रीणि) तीन

जहां अन्तः वीच में और (समुद्रे) अन्तरिक्षः में (त्रीणि) तीन बन्धनों को (आहुः) कहते हैं और (ते) आप के (परमम्) उत्तम (जनित्रम्) जन्म को कहते हैं जिस से (वरुणः) श्रेष्ठ हुए विद्वानों का (छन्ति) सत्कार करते हो (उतेव) उत्प्रेक्षा के तुल्य वे सब (मे) मेरे होंगे ॥ १५ ॥

भावार्थ—इस मन्त्र में वाचकलु०— हे मनुष्यों आत्मा मन और शरीर में ब्रह्मचर्य के साथ विद्याओं में नियत होके विद्या और सुशिक्षा का संचय करो द्वितीय विद्या जन्म को पाकर पूजित होवो जिसके साथ अपना जितना सम्यन्व है उस को जानो ॥ १५ ॥

इमेत्यस्य भार्गवो जमदाग्निर्ऋषिः । अग्निर्देवता ।

निचृत्त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

मनुष्यैरश्वरक्षणो किं साध्यमित्याह ॥

मनुष्यों को घोड़ों के रखने से क्या सिद्ध करना चाहिये इस वि० ॥

इमा ते वाजिन्नवमार्जनानीमा शफानाः सन्ति-
तुर्निधानाः । अत्रां ते भद्रा रशना अपश्यमृतस्य
या अभिरक्षन्ति गोपाः ॥ १६ ॥

इमा । ते । वाजिन् । अवमार्जनानीत्यवमार्जनानि ।

इमा । शफानाम् । सन्तितुः । निधानेतिनिधानाः ।

अत्रां । ते । भद्राः । रशनाः । अपश्यम् । कृतस्यां याः ।

अभिरक्षन्तीत्यभिरक्षन्ति । गोपाः ॥ १६ ॥

पदार्थः—(इमा) इमानि प्रत्यक्षाणि (ते) तव (वाजिन्) अश्वइव वेगादिगुणसेनाधीश(अवमार्जनानि)शुद्धिकरणानि

(इमा) इमानि (शफानाम्) खुराणाम् (सनितुः) र-
क्षणानि यमस्य (निधाना) निधानानि स्थानानि (अत्र)
अस्मिन् सैन्ये । अत्र संहितायामिति दीर्घः । (ते) तव
(भद्राः) शुभकरीः (रशनाः) रज्जवः (अपश्यम्)
पश्यामि (ऋतस्य) यथार्थम् । अत्र कर्मणि षष्ठी (याः)
(अभिरक्षन्ति) सर्वतः पान्ति (गोपाः) पालिकाः ॥१६॥

अन्वयः—हे वाजिन् ! यथाऽहं ते तवेमाश्वस्यावमार्जनानीमाशफानां
सनितुर्निधानाऽपश्यमत्र तेऽश्वस्य या भद्रा गोपा रशना ऋतस्याभिरक्षन्ति
ता अपश्यं तथा त्वं पश्य ॥ १६ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—ये स्नानेनाश्वोदीनां शुद्धिं तच्छफानां
रक्षणापायसो निर्मितस्य योजनमन्यानि रशनादीनि च संयोज्य शुशिक्ष्य रक्ष-
न्ति ते युद्धादिषु कार्येषु कृतसिद्धयो भवन्ति ॥ १६ ॥

पदार्थः—हे (वाजिन्) घोड़े के तुल्य वेगादि गुणों से युक्त सेनाधीश !
जैसे मैं (ते) आप के (इमा) इन प्रत्यक्ष घोड़ों की (अवमार्जनानि) शुद्धि
क्रियाओं और (इमा) इन (शफानाम्) खुरों के (सनितुः) रखने के नियम
के (निधाना) स्थानों को (अपश्यम्) देखता हूँ (अत्र) इस सेना में (ते)
आप के घोड़े की (याः) जो (भद्राः) सुन्दर शुभकारिणी (गोपाः) उपद्रव
से रक्षा करने हारी (रशनाः) लगाम की रस्ती (ऋतस्य) सत्य की (अ-
भिरक्षन्ति) सब ओर से रक्षा करती हैं उन को मैं देखूँ वैसे आप भी देखें ॥१६॥

भावार्थः—इसमन्त्र में वाचकलु०—जो लोग स्नान से घोड़े आदि की शुद्धि
तथा उन के शुम्भों की रक्षा के लिये लोहे के बनाये नालों को संयुक्त और लगाम की
रस्ती आदि सामग्री को संयुक्त कर अच्छी शिक्षा दे रक्षा करते हैं वे युद्धादि कार्यों
में सिद्धि करने वाले होते हैं ॥ १६ ॥

आत्माननित्यस्य भार्गवो जमदग्निर्ऋषिः । अग्निर्देवता ।

त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

यानरचनेन किं कार्यमित्याह ॥

यानरचना से क्या करना चाहिये इस वि० ॥

आत्मानं ते मनसारादजानामवो दिवा पतय-
न्तं पतंगम् । शिरोंऽपश्यं पथिभिः सुगेभिररे-
णुभिर्जेहमानं पतन्नि ॥ १७ ॥

आत्मानम् । ते । मनसा । आरात् । अजानाम् ।
अवः । दिवा । पतयन्तम् । पतङ्गम् । शिरः । अप-
श्यम् । पथिभिरितिपथिभिः । सुगेभिरितिसुगेभिः ।
अरेणुभिरित्यरेणुभिः । जेहमानम् । पतन्नि ॥ १७ ॥

पदार्थः—(आत्मानम्) (ते) तव (मनसा) विज्ञानेन
(आरात्) निकटे (अजानाम्) जानामि (अवः)
अधस्तात् (दिवा) अन्तरिक्षेण सह (पतयन्तम्) पतन्तं
गच्छन्तं सूर्यं प्रति (पतङ्गम्) (शिरः) दूराच्छिर इव लक्ष्यमा
णम् (अपश्यम्) (पथिभिः) मार्गैः (सुगेभिः) सुखेन
गमनाधिकरणैः (अरेणुभिः) अविद्यमाना रेणवो येषु तैः
(जेहमानम्) प्रयत्नेन गच्छन्तम् (पतन्नि) पतनशीलम् ॥१७॥

अन्वयः—हे विद्वन्महं यथा मनसारादवो दिवा पतङ्गं प्रति पतयन्तं
ते पतन्नि शिरआत्मानमजानाम् । अरेणुभिः सुगेभिः पथिभिर्जेहमानं
पतन्नि शिरोंऽपश्यं तथा त्वं पश्य ॥ १७ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—हे मनुष्या यूयं सर्वेभ्यो वेगवत्तमं सद्यो गम-
यितारं वह्निमिव चारमानं पश्यत सम्प्रयुक्तैरग्न्यादिभिस्सहितेषु यानेषु
स्थित्वा जलस्थलान्तरिक्षेषु प्रयत्नेन गच्छताऽऽच्छत यथां शिर उत्तमाङ्ग-
मस्ति तथैव विमानयानमुत्तमं मन्तव्यम् ॥ १७ ॥

पदार्थः—हे विद्वन् ! मैं जैसे (मनसा) विज्ञानसे (आरात्) निकट में (अवः)
नीचे से (दिवा) आकाश के साथ (पतद्गम्) सूर्य के प्रति (पतयन्तम्)
चलते हुए (ते) आप के (आत्मानम्) आत्मा स्वरूप को (अजानाम्) जानता हूँ
और (अरेणुभिः) धूलि रहित निर्मल (सुगेभिः) सुखपूर्वक जिन में चलना
हो उन (पथिभिः) मार्गों से (जेहमानम्) प्रयत्न के साथ जाते हुए (पतन्नि)
पक्षीवत् उड़ने वाले (शिरः) दूर से शिर के तुल्य गोलाकार लक्षित होते
विमानादि यान को (अपश्यम्) देखना हूँ वैसे आप भी देखिये ॥ १७ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—हे मनुष्यो ! तुम लोग सब से अतिवेग वाले
शीघ्र चलाने हारे अग्नि के तुल्य अपने आत्मा को देखो, सम्प्रयुक्त किये अग्नि आदि
के सहित यानों में बैठ के जल स्थल और आकाश में प्रयत्न से ज ओ आओ, जैसे
शिर उत्तम है वैसे विमान यान को उत्तम मानना चाहिये ॥ १७ ॥

अत्रेत्यस्य भार्गवो जमदाग्निर्ऋषिः । अग्निर्देवता ।

त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अथ शूरधीराः किं कुर्वन्त्वित्याह ॥

अव शूरवीर लोग क्या करें इस वि० ॥

अत्रां ते रूपं मुत्तममपश्यं जिगीषमाणमिष
आ पदे गोः । यदा ते मत्तो अनु भोगमानडादि-
द्ग्रसिष्ट ओषधीरजागः ॥ १८ ॥

अत्र। ते। रूपम्। उत्तममित्युत्तमम्। अपश्यम्।
जिगीषमाणम्। इपः। आ। पदे। गोः। यदा। ते।
मर्त्तः। अनु। भोगम्। आनट्। आत्। इत्। ग्रसि-
ष्टः। ओषधीः। अजीगरित्यजीगः॥ १८॥

पदार्थः—(अत्र) अस्मिन् व्यवहारे। अत्र संहितायामिति
दीर्घः (ते) तव (रूपम्) (उत्तमम्) (अपश्यम्) पश्येयम्
(जिगीषमाणम्) शत्रून् विजयमानम् (इपः) अन्नानि(आ)
समन्तात् (पदे) प्रापणीये (गोः) पृथिव्याः (यदा) (ते) तव
(मर्त्तः) मनुष्यः (अनु) आनुकूल्ये (भोगम्) (आनट्)
व्याप्नोति। आनडिति व्याप्तिकर्मा० निघं० २। १८ (आत्)
अनन्तरम् (इत्) एव (ग्रसिष्टः) अतिशयेन ग्रसिता (ओ-
षधीः) (अजीगः) निगलसि ॥ १८ ॥

अन्वयः— हे वीर ते जिगीषमाणमुत्तमं रूपं गोः पदेऽत्र इपश्चाऽपश्यं ते
मर्त्तौ यदा भोगमानट् तदाऽऽदिद्ग्रसिष्टः संस्त्वसोषधीरन्वजीगः ॥ १८ ॥

भावार्थः— हे मनुष्या यथोत्तमानि पशवादीनि सेनाङ्गानि विजयकरा-
णि स्युस्तथा शूरावीरा विजयहेतवो भूत्वा भूमिराज्ये भोगान् प्राप्नुवन्तु ॥१८॥

पदार्थः— हे वीर पुरुष ! (ते) आप के (जिगीषमाणम्) शत्रुओं को जीतते
हुए (उत्तमम्) उत्तम (रूपम्) और (गोः) पृथिवी के (पदे) प्राप्त होने
योग्य (अत्र) इस व्यवहार में (इपः) अन्नों के दानों को (आ, अपश्यम्)
अच्छे प्रकार देखूँ (ते) आप का (मर्त्तः) मनुष्य (यदा) जब (भोगम्)
भोग्य वस्तु को (आनट्) व्याप्त होता है तब (आत्) (इत्) इसके अनन्तरही
(ग्रसिष्टः) अति खाने वाले हुए आप (ओषधीः) ओषधियों को (अनु, अ-
जीगः) अनुकूलता से भोगते हो ॥ १८ ॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे उत्तम घोड़े आदि सेना के अङ्ग विजय करने वाले हों वैसे शूरवीर विजय के हेतु हो कर भूमि के राज्य में भोगों को प्राप्त हों ॥ १८ ॥

अनुत्वेत्यस्य भार्गवो जसदग्निर्ऋषिः । मनुष्यो देवता ।

विराट् त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

मनुष्यैः कथं राजप्रजाकार्याणि साधनीयानीत्याह ॥

मनुष्यों को कैसे राजप्रजा के कार्य सिद्ध करने चाहियें इस वि० ॥

अनुं त्वा रथो अनु मर्यो अर्वन्ननु गावोऽनु
भगः कनीनाम् । अनु ब्रातासस्तव सख्यमीयु-
रनु देवा समिरे वीर्यन्ते ॥ १९ ॥

अनुं । त्वा । रथः । अनु । मर्यः । अर्वन् । अनुं ।
गावः । अनुं । भगः । कनीनाम् । अनुं । ब्रातासः ।
तव । सख्यम् । ईयुः । अनुं । देवाः । समिरे । वी-
र्यम् । ते ॥ १९ ॥

पदार्थः—(अनु) पश्चादानुकूल्ये वा (त्वा) स्वाम्
(रथः) यानानि (अनु) (मर्यः) मनुष्याः (अर्वन्)
अश्वइव वर्तमान (अनु) (गावः) (अनु) (भगः)
ऐश्वर्यम् (कनीनाम्) कमनीयानां जनानाम् (अनु)
(ब्रातासः) मनुष्याः । ब्राता इति मनुष्यना० निघं० ।
२ । ३ (तव) (सख्यम्) मित्रस्य भावं वा (ईयुः)
प्राप्नुयुः (अनु) (देवाः) विद्वांसः (समिरे) मिनुयुः
(वीर्यम्) पराक्रमं बलम् (ते) तव ॥ १९ ॥

अन्वयः—हे अर्वन् विद्वन् ! ते कनीनां मध्ये वर्तमाना देवा द्रातासो-
ऽनुवीर्यमनुममिरे तव सख्यं चान्वीयुस्त्वानु रथो त्वानु सर्पो त्वाऽनु गावो
त्वाऽनु भगश्च भवतु ॥ १९ ॥

भावार्थः—यदि मनुष्याः ! सुशिक्षिता भूत्वाऽन्यान्सुशिक्षितान्कुर्यु-
स्तेषां मध्यादुत्तमाभ्यभासद् सखाद्य सभासदां मध्यादत्युत्तमं सभेशं स्थाप-
यित्वा राजप्रजाप्रधानपुरुषाणामेकानुमत्या राजकार्याणि साधयेयुस्तर्हि स-
र्वेषामनुकूला भूत्वा सर्वाणि कार्याण्यलं कुर्याः ॥ १९ ॥

पदार्थः—हे (अर्वन्) घोड़े के तुल्य वर्तमान विद्वन् ! (ते) आप के
(कनीनाम्) शोभायमान मनुष्यों के बीच वर्तमान देवाः) विद्वान् (द्रातासः)
मनुष्य (अनु, वीर्यम्) बल पराक्रम के अनुकूल (अनु, ममिरे) अनुमान करें
और (तव) आप की (सख्यम्) मित्रता को (अनु, ईयुः) अनुकूल प्राप्त
हों (त्वा) आप के (अनु) अनुकूल (रथः) विमानादि यान (त्वा) आप
के (अनु) अनुकूल वा पीछे आश्रित (मर्यः) साधारण मनुष्य (त्वा) आप
के (अनु) अनुकूल वा पीछे (गावः) गौ और (त्वा) आप के (अनु)
अनुकूल (भगः) ऐश्वर्य होवे ॥ १९ ॥

भावार्थः—यदि मनुष्य अच्छे शिक्षित हो कर आँरों को सुशिक्षित करें उन में
से उत्तमों को सभासद् और सभासदों में से अत्युत्तम सभापति को स्थापन कर राज
प्रजा के प्रधान पुरुषों की एक अनुमति से राजकार्यों को सिद्ध करें तो सब आपस में
अनुकूल हो के सब कार्यों को पूर्ण करें ॥ १९ ॥

हिरण्यशृङ्ग इत्यस्य भार्गवो जसदग्निर्ऋषिः । अग्निर्देवता ।

निचृत्तिष्टु प्लन्दः । धैवतः स्वरः ॥

मनुष्यैरन्यादिपदार्थगुणविज्ञानेन किं साध्यमित्याह ॥

मनुष्यों को अन्यादि पदार्थों के गुण ज्ञान से क्या सिद्ध करना चाहिये इस वि० ॥

हिरण्यशृङ्गोऽयोंऽस्य पादा मनोजवा अ-
वर इन्द्र आसीत् । देवा इदस्य हविरद्यमायन्यो
ऽअर्वन्तं प्रथमो अध्यतिष्ठत् ॥ २० ॥

हिरण्यशृङ्गऽ इति हिरण्यशृङ्गः । अयः ।
 अस्य । पादाः । मनोजवाऽ इति मनःजवाः । अवरः ।
 इन्द्रः । आसीत् । देवाः । इत् । अस्य । हविरद्यमिति
 हविःश्रद्यम् । आयन् । यः । अर्वन्तम् । प्रथमः ।
 अध्यतिष्ठदित्यधिऽ अतिष्ठत् ॥ २० ॥

पदार्थः—(हिरण्यशृङ्गः) हिरण्यानि तेजांसि शृ-
 ङ्गाणीव अस्य सः (अयः) सुवर्णम् । अय इति हिर-
 ण्यना० निघ० १ । २ (अस्य) (पादाः) पदन्ते गच्छ-
 न्ति यैस्ते (मनोजवाः) मनसो जवो वेगइव जवो वेगो
 येषान्ते (अवरः) नवीनः (इन्द्रः) परमैश्वर्यहेतुर्विद्यु-
 दिव सभेशः (आसीत्) भवेत् (देवाः) विद्वांसः सभा-
 सदः (इत्) एव (अस्य) (हविरद्यम्) दातुमर्हन्तुं
 योग्यं च (आयन्) प्राप्नुयुः (यः) (अर्वन्तम्) अश्व-
 वत्प्राप्नुवन्तं वह्निम् (प्रथमः) आदिमः (अध्यतिष्ठत्)
 उपरि तिष्ठेत् ॥ २० ॥

अन्वयः—हे मनुष्या योऽवरो हिरण्यशृङ्ग इन्द्र आसीद्यः प्रथमोऽर्ध-
 स्तमयश्चाध्यतिष्ठदस्य पादा मनोजवाः स्युर्देवा अस्य हविरद्यमिदायन् तं
 यूपमाश्रयत ॥ २० ॥

भावार्थः—ये मनुष्या अगत्यादिपदार्थानां गुणकर्मस्वभावान् यथावज्जा-
 नीयन्ते अन्यद्गतानि कार्याणि साह्यं शक्नुयुः । ये प्रीत्या राजकार्याणि
 शक्नुयुस्ते सत्कारं ये नाशयेयुस्ते दण्डं चावश्यं प्राप्नुयुः ॥ २० ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! (यः) जो (अवरः) नवीन (हिरण्यशृङ्गः) शृंग
 के तुल्य जिस के तेज हैं वह (इन्द्रः) उत्तम ऐश्वर्य वाला विजुली के समान

सभापति (आसीत्) होवे जो (प्रथमः) पहिला (अर्धन्तम्) घोड़े के तुल्य मार्ग को प्राप्त होते हुए अग्नि तथा (अयः) सुवर्ण का (अर्ध्यतिष्ठत्) अधिष्ठाता अर्थात् अग्नि प्रयुक्त यान पर बैठ के चलाने वाली होवे राजा (अस्य) इस के (पादाः) पग (मनोजवाः) मन के तुल्य वेग वाले हों अर्थात् पग का चलना काम विमानादि से लैवे (देवाः) विद्वान् सभासद् लोग (अस्य) इस राजा के (हविरद्यम्) देने और भोजन करने योग्य अन्न को (इत्, आयन) ही प्राप्त होवे उस को तुम लोग जानो ॥ २० ॥

भावार्थः—जो मनुष्य अग्न्यादि पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों को यथावत् जानें वे बहुत अद्भुत कार्यों को सिद्ध कर सकें, जो प्रीति से राज कार्यों को सिद्ध करें वे सत्कार से और जो नष्ट करें वे दण्ड को अवश्य प्राप्त हों ॥ २० ॥

ईर्मान्तास इत्यस्य भार्गवो जमदग्निर्ऋषिः । मनुष्या देवताः ।

भुरिक् पङ्क्तिरन्नन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

कीदृशा राजपुरुषाविजयमामुवन्तीत्याह ॥

कैसे राजपुरुष विजय पाते हैं इस वि० ॥

ईर्मान्तासः सिलिकमध्यमासः सशूरणासो
दिव्यासोऽत्रत्याः । ह्रसाइव श्रेणिशो यतन्ते
यदाक्षिषुर्दिव्यमज्ममश्वाः ॥ २१ ॥

ईर्मान्तासः इतीर्मऽअन्तासः । सिलिकमध्यमासः
इति सिलिकऽमध्यमासः । सम् । शूरणासः । दि-
व्यासः । अत्रत्याः । ह्रसाऽइवेति ह्रसाऽइव । श्रेणिशऽ
इति श्रेणिऽशः । यतन्ते । यत् । आक्षिषुः । दिव्यम् ।
अज्मम् । अश्वाः ॥ २१ ॥

पदार्थः—(ईर्मान्तासः) ईर्मः प्रेरितः स्थितिप्रान्तो येषान्ते(सिलिकमध्यमासः)सिलिकःसंलग्नो मध्यदेशो येषान्ते

(सम्)(शूरणासः) सद्गुरो रणो युद्धविजयो येभ्यस्ते (दिव्या-
सः) प्राप्तदिव्यशिक्षाः (अत्याः)सततगामिनः (हंसाइव)
हंसवद् गन्तारः (श्रेणिशः) वहुपङ्क्तयः (यतन्ते) (यत्)
ये (आक्षिपुः) प्राप्नुयुः (दिव्यम्) शुद्धम् (अजमम्) अ-
जन्ति गच्छन्ति यस्मिन्तां मार्गम् (अश्वः) आशुगामिनः ॥२१॥

अन्वयः—हे मनुष्या यद्ये अग्न्यादय इवेर्मान्तासः सिलिकमध्यमासः शूर-
णासो दिव्यासोऽत्या अशवाः श्रेणिशो हंसाइव यतन्ते दिव्यमज्जं समाक्षिपु-
स्तान्यूयं प्राप्तुत ॥ २१ ॥

भावार्थः—अत्रोपमालं०—येषां राजपुरुषाणां सुशिक्षिता दिव्यगतयो
विजयहेतवस्सेद्यो गामिनः प्रेरणासनुगन्तारो हंसवद्गतयोऽश्वा अग्न्यादयः
पदार्थाइव कार्यसाधकाः सन्ति ते सर्वत्र विजयमाप्नुवन्ति ॥ २१ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो (यत्) जो अग्नि आदि पदार्थों के तुल्य (ईर्मान्तासः)
जिन का बैठने का स्थान प्रेरणा किया गया (सिलिकमध्यमासः) गदा आदि से
लगा हुआ है मध्य प्रदेश जिन का ऐसे (शूरणासः) शीघ्र युद्ध में विजय के
हेतु (दिव्यासः) उत्तमशिक्षित (अत्याः) निरन्तर चलने वाले (अशवाः) शीघ्र-
गामी घोड़े (श्रेणिशः) पङ्क्ति बांधे हुए (हंसाइव) हंस पक्षियों के तुल्य (यतन्ते)
प्रयत्न करते हैं और (दिव्यम्) शुद्ध (अजमम्) मार्ग को (सम्, आक्षिपुः) व्याप्त
होवें उन को तुम लोग प्राप्त होओ ॥ २१ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं ०—जिन राजपुरुषों के सुशिक्षित उत्तम गति वाले
घोड़े अग्न्यादि पदार्थों के समान कार्यसाधक होते हैं वे सर्वत्र विजय पाते हैं ॥ २१ ॥

तवेत्यस्य भर्गवो जमदग्निर्ऋषिः । वायवो देवताः ।

विराद् त्रिष्टुब्धन्दः । धैवतः स्वरः ॥

मनुष्यैरनित्यं शरीरं प्राप्य किं कार्यमित्याह ॥

मनुष्यों के अनित्य शरीर पा के क्या करना चाहिये इस वि० ॥

तव शरीरं पतयिष्वर्ष्वन्तव चित्तं वातइव ध्रुजी-
मान् । तव शृङ्गाणि विष्टिता पुरुत्रारण्येषु जर्भुरा-
णा चरन्ति ॥ २२ ॥

तव । शरीरम् । पतयिषु । अर्ष्वन् । तव । चित्तम् ।
वातइवेति वातःइव । ध्रुजीमान् । तव । शृङ्गाणि । विष्टि-
ता । विस्थितेति विस्थिता । पुरुत्रेति पुरुत्रा । अरण्येषु ।
जर्भुराणा । चरन्ति ॥ २२ ॥

पदार्थः—(तव) (शरीरम्) (पतयिषु) पतनशीलम्
(अर्ष्वन्) अश्वइववर्त्तमान (तव) (चित्तम्) अन्तःकर-
णम् (वातइव) वायुवत् (ध्रुजीमान्) वेगवान् (तव)
(शृङ्गाणि) शृङ्गाणीवोच्छृतानि सेनाङ्गानि (विष्टिता)
विशेषेण स्थितानि (पुरुत्रा) पुरुषु बहुषु (अरण्येषु)
जङ्गलेषु (जर्भुराणा) भृशं पोषकानि धारकाणि (चर-
न्ति) गच्छन्ति ॥ २२ ॥

अन्वयः—हे अर्ष्वन् वीर ! यस्य तव पतयिषु शरीरं तव चित्तं वातइव
ध्रुजीमान् तव पुरुत्रारण्येषु जर्भुराणा विष्टिता शृङ्गाणि चरन्ति स त्वं
धर्ममाचर ॥ २२ ॥

भावार्थः—अत्रोपमालं०—ये मनुष्या अनित्येषु शरीरेषु स्थित्वा नित्या-
नि कार्याणि साध्नुवन्ति तेऽतुलमुखसाध्नुवन्ति ये वानस्थाः पशवइव भृत्याः
सेनाश्च वर्तन्ते तेऽश्वत्सद्योगामिनो भूत्वा शत्रून् विजितुं शक्नुवन्ति ॥ २२ ॥

पदार्थः—हे (अर्वन्) घोड़े के तुल्य वर्तमान वीर पुरुष ! जिस (तव) तेरा
(पतयिष्णु) नाशवान् (शरीरम्) शरीर (तव) तेरे (चित्तम्) अन्तः-
करण की वृत्ति (वातइव) वायु के सदृश (धूर्जीमान्) वेगवाली अर्थात् शीघ्र
दूरस्थ विषयों के तत्व जानने वाली (तव) तेरे (पुरुत्रा) बहुत (अरण्येषु)
जङ्गलों में (जर्भुराणां) शीघ्र धारण पोषण करने वाले (विष्टिता) विशेष
कर स्थित (गृङ्गाणि) शृङ्गों के तुल्य ऊंचे सेना के अनयव (चरन्ति) वि-
चरते हैं सो तू धर्म का आचरण कर ॥ २२ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो मनुष्य अनित्य शरीरों में स्थित हो
नित्य कार्यों को सिद्ध करते हैं वे अनुल मुख पाते हैं और जो वन के पशुओं के तुल्य
भृत्य और सेना हैं वे घोड़े के तुल्य शीघ्रगामी हो के शत्रुओं को जीतने को समर्थ होते
हैं ॥ २२ ॥

उप प्रेत्यस्य भार्गवो जमदग्निर्ऋषिः । मनुष्या देवताः ।

भुरिक् पंक्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

कीदृशा विद्वांसो हितैषिण इत्याह ॥

कैसे विद्वान् हितैषी होते हैं इस वि० ॥

उप प्रागाच्छसनं वाज्यर्षी देवद्रीचा मनसा
दीध्यानः । अजः पुरो नीयते नाभिःस्थानुं प-
श्चात्कवयो यन्ति रेभाः ॥ २३ ॥

उप । प्र । अगात् । शसनम् । वाजी । अर्वा ।
 देवद्रीचा । मनसा । दीध्यानः । अजः । पुरः । नीय-
 ते । नाभिः । अस्य । अनु । पश्चात् । कवयः । यन्ति ।
 रेभाः ॥ २३ ॥

पदार्थः—(उप) सामीप्ये (प्र) (अगात्) गच्छन्ति
 (शसनम्) शंसन्ति हिंसन्ति यस्मिँस्तद्गुह्यम् (वाजी)
 वेगवान् (अर्वा) गन्ताऽश्वः (देवद्रीचा) देवानज्चता
 प्राप्नुवता (मनसा) (दीध्यानः) दीप्यमानः सन् (अजः)
 क्षेपणशीलः (पुरः) (नीयते) (नाभिः) मध्यभागः (अ-
 स्य) (अनु) आनुकूल्ये (पश्चात्) (कवयः) मेधावि-
 नः (यन्ति) प्राप्नुवन्ति (रेभाः) सर्वविद्यास्तोतारः ।
 रेभइति स्तोत्रना० निर्घ० ३ । १६ ॥ २३ ॥

अन्वयः—यो दीध्यानीजो वाज्यर्वा देवद्रीचा मनसा शसनमुपप्रागात्
 विद्वद्भिरस्य नाभिः पुरो नीयते तं पश्चात् रेभाः कवयः अनुयन्ति ॥ २४ ॥

भावार्थः—ये विद्वांसो दिव्येन विचारेण तुरङ्गान् सुशिष्याग्न्यादीन्सं-
 स्नाध्यैश्वर्यं प्राप्नुवन्ति ते जगद्धितैषिणी भवन्ति ॥ २३ ॥

पदार्थः—जो (दीध्यानः) सुन्दर प्रकाशमान हुआ (अजः) फेंकने वाला
 (वाजी) वेगवान् (अर्वा) चालाक घोड़ा (देवद्रीचा) विद्वानों को प्राप्त होते
 हुए (मनसा) मन से (शसनम्) जिस में हिंसा होती है उस युद्ध को (उप,
 प्र, अगात्) अच्छे प्रकार समीप प्राप्त होता है ! विद्वानों से (अस्य) इस का
 (नाभिः) मध्यभाग अर्थात् पीठ (पुरः) आगे (नीयते) प्राप्त की जाती अ-
 र्थात् उस पर बैठते हैं उस को (पश्चात्) पीछे (रेभाः) सब विद्याओं की
 स्तुति करने वाले (कवयः) बुद्धिमान् जन (अनु, यन्ति) अनुकूलता से प्राप्त
 होते हैं ॥ २३ ॥

भावार्थः—जो विद्वान् लोग उत्तम विचार से षोडों को अच्छी शिक्षा दे और अग्नि आदि पदार्थों को सिद्ध कर ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं वे जगत् के हितैषी होते हैं ॥ २३ ॥

उप प्रेत्यस्य भार्गवो जमदग्निर्ऋषिः । मनुष्यो देवता ।

निचृत्प्रिष्टुच्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

के जना राज्यं शासितुमर्हन्तीत्याह ॥

कौन जन राज्यशासन करने योग्य होते हैं इस वि० ॥

उप प्रागात्परमं यत्सुधस्थमर्वा ॥५ अच्छा
पितरं मातरं च । अद्या देवाञ्जुष्टतमो हि ग-
म्या अथाशास्ते दाशुषे वार्याणि ॥ २४ ॥

उप । प्र । अगात् । परमम् । यत् । सुधस्थमिति
सुधऽस्थम् । अर्वा । अच्छ । पितरम् । मातरम् ।
च । अद्य । देवान् । जुष्टतमऽइति जुष्टतमः । हि ।
गम्याः । अथ । आ । शास्ते । दाशुषे । वार्याणि ॥२४॥

पदार्थः—(उप) (प्र) (अगात्) प्राप्नोति (परमम्)
(यत्) यः (सुधस्थम्) सहस्थानम् (अर्वा) ज्ञानी
जनः । अत्र नलोपाभावश्छान्दसः । (अच्छ) सम्यक् ।
अत्र निपातस्य चेति दीर्घः । (पितरम्) जनकम् (मातरम्)
जननीम् (च) (अद्य) इदानीम् । अत्र निपातस्य
चेति दीर्घः । (देवान्) विदुषः (जुष्टतमः) अतिशयेन
सेवितः (हि) खलु (गम्याः) प्राप्नुहि (अथ) (आ)
समन्तात् (शास्ते) इच्छति (दाशुषे) दात्रे (वार्याणि)
स्वीकार्याणि भोग्यवस्तूनि ॥ २४ ॥

अन्वयः—हे विद्वन् यद्योऽर्वान् जुष्टतमस्सन् परमं सधस्थं पितरं मातरं देवांश्चाद्याशास्तेऽथ दाशुषे वार्याण्युपप्रागात् तं हि त्वमच्छ गम्याः ॥ २४ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—ये न्यायविनयाभ्यां परोपकारान्कुर्वन्ति ते उत्तमं उत्तमं जन्म श्रेष्ठान्पदार्थान् विद्वांसं पितरं विदुषीः मातृश्च प्राप्य विद्वक्ता भूत्वा महत्सुखं प्राप्नुयुस्ते राज्यमनुशासितुं शक्नुयुः ॥ २४ ॥

पदार्थः—हे विद्वन्! (यत्) जो (अर्वान्) ज्ञानी जन (जुष्टतमः) अतिशय कर सेवन किया हुआ (परमम्) उत्तम (सधस्थम्) साथियों के स्थान (पितरम्) पिता (मातरम्) माता (च) और (देवान्) विद्वानों की (अथ) इस समय (आ, शास्ते) अधिक इच्छा करता है (अथ) इस के अनन्तर (दाशुषे) दाता जन के लिये (वार्याणि) स्वीकार करने और भोजन के योग्य वस्तुओं को (उप, प्र, अगात्) प्रार्थन करके समीप प्राप्त होता है उस को (हि) ही आप (अच्छ, गम्याः) प्राप्त हूजिये ॥ २४ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो लोग न्याय और विनय से परोपकारों को करते हैं वे उत्तम २ जन्म श्रेष्ठ पदार्थों विद्वान् पिता और विदुषी माता को प्राप्त हो और विद्वानों के सेवक हो के महान् सुख को प्राप्त हों वे राज्यशासन करने को समर्थ हों ॥ २४ ॥

समिद्ध इत्यस्य जग्दग्निर्ऋषिः । विद्वान् देवता ।

निचत्त्रिष्टुच्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

धार्मिकाः किं कुर्वन्त्वित्याह ॥

धर्मात्मा लोग क्या करें इस वि० ॥

समिद्धो अद्य मनुषो दुरोणे देवो देवान्यजसि
जातवेदः । आ च वह मितमहश्चिकित्वान्त्वं
दूत कविरसि प्रचेताः ॥ २५ ॥

समिद्धऽइति सम्ऽइद्वः । अद्य । मनुषः । दुरोणे ।
देवः । देवान् । यजसि । जातवेद इति जातऽवेदः ।
आ । च । वह । मित्रमहऽ इति मित्रऽमहः । चिकि-
त्वान् । त्वम् । दूतः । कविः । असि । प्रचेताऽइति
प्रऽचेताः ॥ २५ ॥

पदार्थः—(समिद्धः) सम्यक् प्रकाशितः (अद्य) इ-
दानीम् (मनुषः) मननशीलः (दुरोणे) गृहे (देवः)
विद्वान् (देवान्) विदुषो दिव्यगुणान् वा (यजसि)
सङ्गच्छसे (जातवेदः) प्राप्तप्रज्ञ (आ) (च) (वह)
प्राप्नुहि (मित्रमहः) मित्राणि महयति पूजयति तत्सं-
बुद्धौ (चिकित्वान्) विज्ञानवान् (त्वम्) (दूतः) यो
दुनोति तापयति दुष्टान्सः (कविः) क्रान्तप्रज्ञो भेध्रावी
(असि) (प्रचेताः) प्रकृष्टचेतः संज्ञानमस्य सः ॥ २५ ॥

अन्वयः—हे जातवेदो मित्रमहो विद्वंस्त्वमद्य समिद्धोऽग्निरिव मनुषो
देवः मन् यजसि चिकित्वान्दूतः प्रचेताः कविर्दुरोणेऽसि स त्वं
देवांश्चावह ॥ २५ ॥

भावार्थः—यथाऽग्निर्दीपादिरूपेण गृहाणि प्रकाशयति तथा धार्मिका
विद्वंसः स्वानि कुलानि प्रदीपयन्ति ये सर्वेः सह मित्रवद्वर्तन्ते त एव
धार्मिकाः सन्ति ॥ २५ ॥

पदार्थः—हे (जातवेदः) उत्तम बुद्धि को प्राण हुए (मित्रमहः) मित्रों
का सत्कार करने वाले विद्वान् ! जो (त्वम्) आप (अद्य) इस समय (समि-
द्धः) सम्यक् प्रकाशित अग्नि के तुल्य (मनुषः) मननशील (देवः) विद्वान्
हुए (यजसि) सँग करते हो (च) और (चिकित्वान्) विज्ञानवान् (दूतः)
दुष्टों को दुःखदाई (प्रचेताः) उत्तम चेतनता वाला (कविः) सब विषयों में

अव्याहत बुद्धि (असि) हो सो आप (दुरोणे) घर में (देवान्) विद्वानों वा उत्तम गुणों को (आ, वह) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये ॥ २५ ॥

भावार्थः—जैसे अग्नि दीपक आदि के रूप से घरों को प्रकाशित करता है वैसे धार्मिक विद्वान् लोग अपने कुलों को प्रकाशित करते हैं जो मन के साथ मित्रवत् वर्तते हैं वे ही धमात्मा हैं ॥ २५ ॥

तन्नूतपादित्यस्य जमदग्निर्ऋषिः। विद्वान्देवता ।

निचृत्त्रिष्टुब्धन्दः । धेवताः स्वरः ॥

पुनस्तमेव द्विपयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

तन्नूतपात्पथ ऋतस्य यानान्मध्वां समञ्ज-
न्स्वदया सुजिह्व । मन्मानि धीभिरुतयज्ञसृ-
न्धन्देवत्रा च कृणुह्यध्वरं नः ॥ २६ ॥

तन्नूतपादिति तन्नूतपात् । पथः । ऋतस्य । याना-
न् । मध्वां । समञ्जन्निति समऽअञ्जन् । स्वदयु ।
सुजिह्वेति सुऽजिह्व । मन्मानि । धीभिः । उत । यज्ञ-
स् । ऋन्धन् । देवत्रेति देवऽत्वा । च । कृणुहि । अध्व-
रस् । नः ॥ २६ ॥

पदार्थः—(तन्नूतपात्) यस्तन्नूर्विस्तृतान् पदार्थान् न
पातयति तत्सम्बुद्धौ (पथः) (ऋतस्य) सत्यस्य जलस्य
वा (यानान्) यांति येषु तान् (मध्वा) माधुर्येण (स-
मञ्जन्) सम्यक् प्रकटीकुर्वन् (स्वदय) आस्वादय ।
अत्र संहितायामिति दीर्घः । (सुजिह्व) शोभनाजिह्वा वाग्वा

यस्य तत्सम्बुद्धौ (मन्मानि) यानानि (धीभिः) प्रज्ञाभिः
 कर्मभिर्वा (उत) अपि (यज्ञम्) सङ्गमनीयं व्यवहारम्
 (ऋन्धन्) संसाधयन् (देवत्रा) देवेषु विद्वत्सु स्थित्वा
 (च) (कृणुहि) कुरु (अध्वरम्) अहिंसनीयम् (नः)
 अस्माकम् ॥ २६ ॥

अन्वयः—हे सुजिह्व तनूनपात् त्वसृतरस्य यानान्पथोऽग्निरिव सध्वा
 समञ्जस्स्वदय धीभिर्मन्मान्युत नोध्वरं यज्ञसृन्धन्देवत्रा न कृणुहि ॥ २६ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—धार्मिकैर्मनुष्यैः प्रथोपयसेवनेन सुप्रकाशि-
 तैर्भवितव्यम् । आप्तेषु विद्वत्सु स्थित्वा प्रज्ञाः प्राप्त्वाहिंसारूप्यो धर्मः
 सेवितव्यः ॥ २६ ॥

पदार्थः—हे (सुजिह्व) सुन्दर जीभ वा चाणी से युक्त (तनूनपात्)
 विस्तृत पदार्थों को न गिराने वाले विद्वान् जनः आप (ऋतस्य) सत्य वा जल
 के (यानान) जिन में चलें उन (पथः) मार्गों को अग्नि के तुल्य (मध्वा)
 मधुरता अर्थात् कोमल भाव से (समञ्जन) सम्यक् प्रकार करने हुए (स्वदय)
 स्वाद लीजिये अर्थात् प्रसन्न कीजिये (धीभिः) बुद्धियों वा कर्मों से (मन्मानि)
 यानों को (उत) और (नः) हमारे (अध्वरम्) नष्ट न करने और (यज्ञम्)
 संगत करने योग्य व्यवहार को (ऋन्धन्) सम्यक् सिद्ध करता हुआ (च) भी
 (देवत्रा) विद्वानों में स्थित हो कर (कृणुहि) कीजिये ॥ २६ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०— धार्मिक मनुष्यों को चाहिये कि पथ्य औ-
 पन्न पदार्थों का सेवन करके सुन्दर प्रकार प्रकाशित हों, आप विद्वानों की सेवा में
 स्थित हो तथा बुद्धियों को प्राप्त हो के अहिंसारूप धर्म को सेवें ॥ २६ ॥

नाराशंसस्येत्यस्य जमदग्निर्ऋषिः । विद्वान्देवता ।

त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उषी वि० ॥

नराशंसस्य महिमानमेषामुप स्तोषाम
यजतस्य यज्ञैः । ये सुकृतवः शुचयो धियन्धाः
स्वदन्ति देवा उभयानि हव्या ॥ २७ ॥

नराशंसस्य । महिमानम् । एषाम् । उप । स्तो-
षाम् । यजतस्य । यज्ञैः । ये । सुकृतवः इति सुकृतवः ।
शुचयः । धियन्धा इति धियम्ऽधाः । स्वदन्ति । देवाः ।
उभयानि । हव्या ॥ २७ ॥

पदार्थः—(नराशंसस्य) नरैः प्रशंसितस्य (महिमा-
नम्) महत्त्वम् (एषाम्) (उप) (स्तोषाम) प्रशंसेम ।
लेट् उत्तम बहुवचने रूपम् । (यजतस्य) सङ्गन्तुं योग्य-
स्य (यज्ञैः) सङ्गादिलक्षणैः (ये) (सुकृतवः) शोभनप्रज्ञा-
कर्माणः (शुचयः) पवित्राः (धियन्धाः) ये श्रेष्ठां प्रज्ञा-
मुत्तमं कर्म दधति ते (स्वदन्ति) भुञ्जते (देवाः) वि-
द्वांसः (उभयानि) शरीरात्मसुखकराणि (हव्या) हव्या-
नि अक्षुमर्हाणि ॥ २७ ॥

अवन्यः—हे अनुष्यां यथा वयं ये सुकृतवः शुचयो धियन्धा देवा उभ-
यानि हव्या स्वदन्त्येषां यज्ञैर्नराशंसस्य यजतस्य व्यवहारस्य महिमानमुप
स्तोषाम तथा यूयमपि कुरुत ॥ २७ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—ये स्वयं शुद्धाः प्राज्ञा वेदशास्त्रविदो न भवन्ति तेऽन्यानपि विदुषः पवित्रान्कर्तुं न शक्नुवन्ति येषां यादृशः गुणः यादृशानि कर्माणि स्युस्तानि धर्मात्मभिर्गोथावत्प्रशंसितव्यानि ॥ २७ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग (ये) जो (सुक्रतवः) सुन्दर बुद्धियों और कर्मों वाले (शुचयः) पवित्र (धियन्धाः) श्रेष्ठ धारणावती बुद्धि और कर्म को धारण करने वाले (देवाः) विद्वान् लोग (उभयानि) दोनों शरीर आत्मा को सुखकारी (हव्या) भोजन के योग्य पदार्थों को (स्त्रदन्ति) भोगते हैं (एषाम्) इन विद्वानों के (यज्ञैः) सत्संगादि रूप यज्ञों से (नराशंसस्य) मनुष्यों से प्रशंसित (यजतस्य) संग करने योग्य व्यवहार के (महिमानम्) वड़प्पन को (उप, स्तोषाम) समीप प्रशंसा करें वैसे तुम लोग भी करो ॥ २७ ॥

भावार्थः— इस मन्त्र में वाचकलु०—जो लोग स्वयम् पवित्र बुद्धिमान् वेद शास्त्र के वेत्ता नहीं होते वे दूसरों को भी विद्वान् पवित्र नहीं कर सकते । जिन के जैसे गुण जैसे कर्म हों उन की धर्मात्मा लोगों को यथार्थ प्रशंसा करनी चाहिये ॥ २७ ॥

आजुह्वान इत्यस्य जमदग्निर्ऋषिः । अग्निर्देवता ।

स्वराह्वृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

पुमस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

आजुह्वान ईड्यो वन्द्यश्रायां ह्यग्ने वसुभिः
सजोषाः । त्वं देवानामसि यहू होता सएनान्य-
क्षीषितो यजीयान् ॥ २८ ॥

आजुह्वानऽइत्याऽजुह्वानः । ईड्यः । वन्द्यः । च । आ ।
 याहि । अग्ने । वसुभिरिति वसुऽभिः । सजोषाऽइति
 सऽजोषाः । त्वम् । देवानाम् । असि । यह् । होता ।
 सः । एनान् । यक्षि । इषितः । यजीयान् ॥ २८ ॥

पदार्थः—(आजुह्वानः) समन्तात् स्पर्द्धमानः (ईड्यः)
 प्रशंसितुं योग्यः (वन्द्यः) नमस्करणीयः (च) (आ)
 (याहि) आगच्छ (अग्ने) पावकवत्पवित्र विद्वन् ! (वसुभिः)
 वासहेतु भूतैर्विद्वद्विस्सह (सजोषाः) समानप्रीतिसेवनः
 (त्वम्) (देवानाम्) विदुषाम् (असि) (यह्) महागुण-
 विशिष्ट । यह् इति महन्नाम० निघं० ३ । ३ । (होता) दाता
 (सः) (एनान्) (यक्षि) सङ्गच्छ (इषितः) प्रेरितः
 (यजीयान्) अतिशयेन यथा संगन्ता ॥ २८ ॥

अन्वयः—हे यजुह्वाने यस्त्वं देवानां होता यजीयानसि । इषितः सन्नेनान्
 यक्षि स त्वं वसुभिः सह सजोषा आजुह्वान ईड्यो वन्द्यश्चैतानायाहि ॥ २८ ॥

भावार्थः—यदि मनुष्याः ! पवित्रात्मनां प्रशंसितानां विदुषां सङ्गेन स्वयं
 पवित्रात्मानो भवेयुस्ते धर्मात्मानः सन्तः सर्वत्र सत्कृताः स्युः ॥ २८ ॥

पदार्थः—हे (यह्) बड़े, उत्तम गुणों से युक्त (अग्ने) अग्नि के तुल्य
 पवित्र विद्वन् ! जो (त्वम्) आप (देवानाम्) विद्वानों के बीच (होता) दान
 शील (यजीयान्) अति समागम करने हारे (असि) हैं (इषितः) प्रेरणा किये हुए

(एतान्) इन विद्वानों का (यत्ति) संग कीजिये (सः) सो आप (वसु-
भिः) निवास के हेतु विद्वानों के साथ (सन्तोषाः) समान प्रीति निवाहने वा-
ले (आजुह्वानः) अच्छे प्रकार स्पर्द्धा ईर्ष्या करते हुए (ईड्यः) प्रशंसा
(च) तथा (वन्द्यः) नमस्कार के योग्य इन विद्वानों के निकट (आ) (या-
हि) आया कीजिये ॥ २८ ॥

भावार्थः—जो मनुष्य पवित्रात्मा प्रशंसित विद्वानों के संग से आप पवित्रात्मा होवें
तो वे धर्मात्मा हुए सर्वत्र सत्कार को प्राप्त होवें ॥ २८ ॥

प्राचीनमित्यस्य जग्दग्निर्ऋषिः । अन्तरिक्षं देवता ।

भुरिक् पठ् क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

पुनस्तेमव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

प्राचीनं बर्हिः प्रदिशा पृथिव्या वस्तोरस्या
वृज्यते अग्ने अहाम् । व्युं प्रथते वितरं वरीयो
देवेभ्यो अदितये स्योनम् ॥ २९ ॥

प्राचीनम् । बर्हिः । प्रदिशेति प्रदिशा । पृथिव्याः ।
वस्तोः । अस्याः । वृज्यते । अग्ने । अहाम् । वि । ऊँ
इतं । प्रथते । वितरमिति वितरम् । वरीयः देवेभ्यः ।
अदितये । स्योनम् ॥ २९ ॥

पदार्थः—(प्राचीनम्) प्राकृतनम् (बर्हिः) अन्तरिक्षवद्-
व्यापकं ब्रह्म (प्रदिशा) प्रकृष्ट्यां दिशा निर्देशेन (पृथिव्याः)

भूमेः (वस्तोः) दिनात् (अस्याः) (वृज्यते) त्यज्य-
ते (अग्ने) प्रातःसमये (अह्नाम्) दिनानाम् (वि) (उ)
(प्रथते) प्रकटयति (वितरम्) विशेषेण सन्तारकम्
(वरीयः) अतिशयेन वरणीयं वरम् (देवेभ्यः) विद्वद्यद्भ्यः
(अदितये) अविनाशिने (स्योनम्) सुखम् ॥ २६ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यदस्याः पृथिव्या मध्ये प्राचीनं वहिर्वस्तोर्धृज्यते अह्नामग्ने देवेभ्य उ अदितये वितरं वरीयः स्योनं विप्रयते तद्युयं प्रदिशा विजानीत प्राप्नुत च ॥ २६ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—ये विद्वद्भ्यः सुखं दद्युस्ते सर्वोत्तमं सुखं लभेन् । यथाऽऽकाशं सर्वास्तु दिक्षु पृथिव्यादिषु च व्याप्तमस्ति तथा जगदीश्वरः सर्वत्र व्याप्तोस्ति ये तस्मीदृशं परमात्मानं प्राप्तरूपासन्ते ते धर्मात्मानः सन्तो विस्तीर्णसुखा जायन्ते ॥ २६ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो! जो (अस्याः) इस (पृथिव्याः) भूमि के बीच (प्राचीनम्) सनातन (वहिः) अन्तरिक्ष के तुल्य व्यापक ब्रह्म (वस्तोः) दिन के प्रकाश से (वृज्यते) अलग होता (अह्नाम्) दिनों के (अग्ने) आरम्भ प्रातःकाल में (देवेभ्यः) विद्वानों (उ) और (अदितये) अविनाशी आत्मा के लिये (वितरम्) विशेष कर दुःखों से पार करने हारे (वरीयः) अतिश्रेष्ठ (स्योनम्) सुख को (वि, प्रथते) विशेष कर प्रकट करता उस को तुम लोग (प्रदिशा) वेद शास्त्र के निर्देश से जानो और प्राप्त होओ ॥ २६ ॥

भावार्थः— इस मन्त्र में वाचकलु० जो विद्वानों के लिये सुख देवे वे सर्वोत्तम सुख को प्राप्त हों जैसे आकाश सब दिशाओं और पृथिव्यादि में व्याप्त है वैसे जगदीश्वर सर्वत्र व्याप्त है जो लोग ऐसे ईश्वर की प्रातःकाल उपासना करते वे धर्मात्मा हुए विस्तीर्ण सुखों वाले होते हैं ॥ २६ ॥

व्यचस्वतीरित्यस्य जमदग्निर्ऋषिः । स्त्रियो देवता ।

निचृत्त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनः स्त्रीपुरुषौ किं कुर्यातामित्याह ॥

फिर स्त्रीपुरुष क्या करें इस वि० ॥

व्यचस्वतीरुर्विया विश्रयन्तां पतिभ्यो न जन-
यः शुम्भमानाः । देवीर्द्वारो बृहती विश्वमिन्वा देवे-
भ्यो भवत सुप्रायणाः ॥ ३० ॥

व्यचस्वतीः । उर्विया । वि । श्रयन्ताम् । पतिभ्यः इति
पतिभ्यः । न । जनय । शुम्भमानाः । देवीः । द्वारः । बृ-
हतीः । विश्वमिन्वा इति विश्वमिन्वाः । देवेभ्यः । भवत ।
सुप्रायणाः । सुप्रायणा इति सुप्रायणाः ॥ ३० ॥

पदार्थः—(व्यचस्वतीः) शुभगुणेषु व्याप्तिमतीः (उर्विया)
बहुत्वेन (वि) (श्रयन्ताम्) सेवन्ताम् (पतिभ्यः) गृहीतपा-
णिभ्यः (न) इव (जनयः) जायाः (शुम्भमानाः) सुशोभायु-
क्ताः (देवीः) देदीप्यमानाः (द्वारः) द्वारोऽवकाशरूपाः (बृ-
हतीः) महतीः (विश्वमिन्वाः) विश्वव्यवहारव्यापिन्यः (दे-
वेभ्यः) दिव्यगुणेभ्यः (भवत) (सुप्रायणाः) सुष्ठुप्रकृष्टमयनं
गृहं यासु ताः ॥ ३० ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यथा उर्विया व्यचस्वतीर्बृहती विश्वमिन्वाः सुप्रा-
यणा देवीर्द्वारो नैव पतिभ्यो देवेभ्यः शुम्भमाना जनयः सर्वान् स्वस्वपतीन्
विश्रयन्तां तथा यूयं सर्वविद्यासु व्यापका भवत ॥ ३० ॥

भावार्थः—अत्रोपमावाचकलु०—यथा व्यापिका दिशोऽवकाशप्रदानेन सर्वेषां व्यवहारसाधकत्वेनानन्दप्रदाः सन्ति तथैव परस्परस्मिन्प्रीताः स्त्रीपुरुषा दिव्यानि सुख नि लब्धाऽन्येषां हितकराःस्युः ॥ ३० ॥

पदार्थः— हे मनुष्यो! जैसे (उर्विया) आधिकता से शुभ गुणों में (व्यचस्वतीः) व्याप्ति वाली (बृहतीः) महती (विश्वमिन्वाः) सब व्यवहारों में व्याप्त (सुप्रायणाः) जिन के होने में उत्तम घर हों (देवीः) आभूषणादि से प्रकाशमान (द्वारः) दरवाजों के (न, समान अवकाश वाली (पतिभ्यः) पाणिग्रहण विवाद करने वाले (दिवेभ्यः) उत्तम गुणयुक्त पतियों के लिये (शुम्भमानाः) उत्तम शोभायमान हुई (जनयः) सब स्त्रियां अपने २ पतियों को (वि, श्रयन्ताम्) विशेष कर सेवन करें जैसे तुम लोग सब विद्याओं में व्यापक (भवत) होओ ॥ ३० ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमा और वाचकलु०—जैसे व्यापक हुई दिशा अवकाश देने और सब के व्यवहारों की साधक होने से आनन्द देने वाली होती हैं जैसे ही आपस में प्रसन्न हुए स्त्री पुरुष उत्तम सुखों को प्राप्त हो के अन्यों के हितकारी हों ॥ ३० ॥

आ सुष्वयन्तीत्यस्य जमदग्निर्ऋषिः । स्त्रियो देवता ।

त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अथ राजप्रजाधर्ममाह ॥

अथ राजप्रजा धर्म अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

आ सुष्वयन्ती यजते उपाके उषासानक्ता सदतां
नि योनौ । दिव्ये योषणे बृहती सुरुक्मे अधि श्रि-
यं शुक्रपिशं दधाने ॥ ३१ ॥

आ । सुष्वयन्ती । सुस्वयन्ती । इति सुऽस्वयन्ती । यजते
इति यजते । उपाके । इत्युपाके । उषासानक्ता । उषसा-

नक्तेत्युषसानक्ता । सदताम् । नि । योनौ । दिव्येऽइति
दिव्ये । योषणेऽइति योषणे । बृहतीऽइति बृहती ।
सुरुक्मेऽइति सुऽरुक्मे । अधि । श्रियम् । शुक्रपिश-
मिति शुक्रऽपिशम् । दधानेऽइति दधाने ॥ ३१ ॥

पदार्थः— (आ) समन्तात् (सुष्वयन्ती) सुषुशयाने इव ।
अत्र वर्णव्यत्ययेन परस्य स्थानेयः (यजते) सङ्गच्छते (उ-
पाके) सन्निहिते (उषासानक्ता) रात्रिदिने (सदताम्) गच्छ-
तः (नि) नितराम् (योनौ) कालाख्ये कारणे (दिव्ये) दिव्य-
गुणकर्मस्वभावे (योषणे) स्त्रियाविव (बृहती) महान्त्यौ
(सुरुक्मे) सुशोभमाने (अधि) उपरि (श्रियम्) शोभां लक्ष्मीं
वा (शुक्रपिशम्) शुक्रं भास्वरं पिशं तद्विपरीतं कृष्णं च
(दधाने) धारयन्त्यौ ॥ ३१ ॥

अन्वयः—हे विद्वन् । यदि दिव्ये योषणे इव सुरुक्मे बृहती अधि श्रियं
शुक्रपिशं च दधाने सुष्वयन्ती उपाके उषासानक्ता योनौ न्या सदतां ते भवान्
यजते तर्ह्यतुलां श्रियं प्राप्नुयात् ॥ ३१ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—हे मनुष्या यथा कालेव सहवर्तमाने रात्रि-
दिने परस्परेण सम्बद्धे विलक्षणस्वरूपेण वर्तते तथा राजप्रजे परस्परं प्री-
त्या वर्तयताम् ॥ ३१ ॥

पदार्थः—हे विद्वन् । यदि (दिव्यं) उत्तम गुणकर्म स्वभाववाली (योषणे)
दो स्त्रियों के समान (सुरुक्मे) सुन्दर शोभायुक्त (बृहती) बड़ी (अधि)
अधिक (श्रियम्) शोभा वा लक्ष्मी को तथा (शुक्रपिशम्) प्रकाश और
अन्धकाररूपों को (दधाने) धारण करती हुई (सुष्वयन्ती) सोती हुईयों के

समान (उपाके) निकटवर्तिनी (उपासानक्ता) दिन रात (योनौ) काल रूप कारण में (नि, आ, मदताम्) निरन्तर अच्छे प्रकार चलते हैं उन को (यजते) सङ्गत करते तो अतोल शोभा को प्राप्त होओ ॥ ३१ ॥

भावार्थः - इस मन्त्र में वाचकलु०-हे मनुष्यो ! जैसे काल के साथ वर्तमान रात-दिन एक दूसरे से सम्बद्ध विलक्षण स्वरूप से वर्तते हैं वैसे राजा प्रजा परस्पर प्रीति के साथ वर्त्ता करें ॥ ३१ ॥

दैव्यत्यस्य जमदग्निर्ऋषिः । विद्वांसो देवताः ।

आर्षी त्रिष्टुब्धन्दः । धैवतः स्वरः ॥

अथ शिल्पिभिः किं कर्त्तव्यमित्याह ॥

अब कारीगर लोगों को क्या करना चाहिये इस वि० ॥

दैव्यां होतारा प्रथमा सुवाचा मिमांना यज्ञं
मनुषो यजध्यै । प्रचोदयन्ताविदथेषु कारू प्रा-
चीनं ज्योतिः प्रदिशां दिशन्तां ॥ ३२ ॥

दैव्यां । होतारा । प्रथमा । सुवाचेति सुवाचा ।
मिमांना । यज्ञम् । मनुषः । यजध्यै । प्रचोदयन्तेति
प्रचोदयन्ता । विदथेषु । कारूऽइति कारू । प्राचीनम् ।
ज्योतिः । प्रदिशेति प्रदिशां । दिशन्तां ॥ ३२ ॥

पदार्थः-(दैव्या) देवेषुकुशलौ (होतारा) दातारौ (प्रथमा)
प्रख्यातौ (सुवाचा)प्रशस्तवाचौ (मिमांना) विदधतौ(यज्ञम्)
सङ्गतिमयम्(मनुषः)मनुष्यान्(यजध्यै)यष्टुम्(प्रचोदयन्ता)
प्रेरयन्तौ(विदथेषु) विज्ञानेषु (कारू) शिल्पिनौ(प्राचीनम्)

प्राक्तनम् (ज्योतिः) शिल्पविद्याप्रकाशम् (प्रदिशा) वेदादि-
शास्त्रप्रदेशेन निर्देशेन प्रमाणेन (दिशन्ता) उपदिशन्तौ ॥३२॥

अन्वयः—हे मनुष्या यौ दैव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमाना यज्ञं
यजध्यै मनुषो विदथेषु प्रचोदयन्ता प्रदिशा प्राचीनं ज्योतिर्दिशन्ता कारू
भवेतां ताभ्यां शिल्पविज्ञानशास्त्रमध्यैयम् ॥ ३२ ॥

भावार्थः—अत्र कारूशब्दे द्विवचनमध्यापकहस्तक्रियाशिक्षकाभिप्रायम् ।
ये शिल्पिनः स्युन्ते यावद्विजानीयुस्तावत्सर्वमन्येभ्यः शिक्षयेयुः । यत् उत्त-
रोत्तरं विद्यासन्ततिर्बर्धत ॥ ३२ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जो (दैव्या) विद्वानों में कुशल (होतारा) दान-
शील (प्रथमा) प्रसिद्ध (सुवाचा) प्रशंसित वाणी वाले (मिमाना) विधान
करते हुए (यज्ञम्) सङ्गतिरूप यज्ञ के (यजध्यै) करने को (मनुषः) मनुष्यों
को (विदथेषु) विद्वानों में (प्रचोदयन्ता) प्रेरणा करते हुए (प्रदिशा) वेद-
शास्त्र के प्रमाण से (प्राचीनम्) सनातन (ज्योतिः) शिल्प विद्या के प्रकाश
का (दिशन्ता) उपदेश करते हुए (कारू) दो कारीगर लोग होंगे उन से शिल्प
विज्ञान शास्त्र पढ़ना चाहिये ॥ ३२ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में (कारू) शब्द में द्विवचन अध्यापक और हस्त क्रिया
शिक्षक इन दो शिल्पियों के अभिप्राय से है । जो कारीगर होंगे वे जितनी शिल्पविद्या
जानें उतनी सब दूसरों के लिये शिक्षा करें जिस से उत्तरर विद्या की सन्तति बढ़े ॥३२॥

आ न इत्यस्य जमदारिर्ऋषिः । वाग्देवता ।

भुरिक् पङ्क्तिछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

पुनरुक्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

आ नो यज्ञं भारती तूयमेत्विडां मनुष्वदिह
चेतयन्ती । तिस्रो देवी बर्हिरेद* स्योन* सरस्वती
स्वपंसः सदन्तु ॥ ३३ ॥

आ । नः । यज्ञम् । भारती । तूयम् । एतु । इडा ।
 मनुष्वत् । इह । चेतयन्ती । तिस्रः । देवीः । बर्हिः । आ ।
 इदम् । स्योनम् । सरस्वती । स्वपसुः । सुः । अपसः ।
 सदन्तु ॥ ३३ ॥

पदार्थः—(आ) समन्तात् (नः) अस्मभ्यम् (यज्ञम्)
 शिल्पविद्याप्रकाशमयम् (भारती) एतद्विद्याधारिका क्रिया
 (तूयम्) बृद्धकम् (एतु) प्राप्नोतु (इडा) सुशिक्षिता
 मधुरा वाक् (मनुष्वत्) मानववत् (इह) अस्मिन् शिल्प-
 विद्याग्रहणव्यवहारे (चेतयन्ती) प्रज्ञापयन्ती (तिस्रः)
 (देवीः) देदीप्यमानाः (बर्हिः) प्रबृद्धम् (आ) (इदम्)
 (स्योनम्) सुखकारकम् (सरस्वती) विज्ञानवती प्रज्ञा
 (स्वपसः) सुष्ठ्वपांसि कर्माणि येषान्तान् (सदन्तु)
 प्रापयन्तु ॥ ३३ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या या भारती इडा सरस्वतीह नस्तूयं यज्ञं मनुष्व-
 च्चेतयन्त्यस्मानेतु इमास्तिस्रो देवीरिदं बर्हिः स्योनं स्वपसोऽस्माना
 सदन्तु ॥ ३३ ॥

भावार्थः—अत्र शिल्पव्यवहारे सुष्ठूपदेशक्रियाविधिज्ञापनं विद्याधारणं
 चेष्टते यदीमाः तिस्रो रीतीर्मानुष्या गृह्णीयुस्तर्हि महत्सुखमश्नुवीरन् ॥३३॥

पदार्थः—हे मनुष्यो! जो (भारती) शिल्प विद्या को धारण करने वाली क्रिया
 (इडा) सुन्दर शिक्षित मीठी वाणी (सरस्वती) विज्ञान वाली बुद्धि (इहः)
 इस शिल्प विद्या के ग्रहणरूप व्यवहार में (नः) हम को (तूयम्)

वर्धक (यज्ञम्) शिल्पविद्या के प्रकाशरूप यज्ञ को (मनुष्यत्) मनुष्य के तुल्य (चेतयन्ती) जनाती हुई हम को (आ, एतु) सब ओर से प्राप्त होवे ये पूर्वोक्त (तिस्रः) तीन (देवीः) प्रकाशमान (इदम्) इस (वर्हिः) बढ़े हुए (स्यो-
नम्) सुखकारी काम को (स्वपसः) सुन्दर कर्मों वाले हम को (आ, सद-
न्तु) अच्छे प्रकार प्राप्त कर ॥ ३३ ॥

भावार्थः—इस शिल्प व्यवहार में सुन्दर उपदेश और क्रियाविधि का जताना और विद्या का धारण इष्ट है । यदि इन तीन रीतियों को मनुष्य ग्रहण करें तो बड़ा सुख भोगे ॥ ३३ ॥

य इम इत्यस्य जसदग्निर्ऋषिः । विद्वान् देवता ।

त्रिष्टुप्छन्दः । चैत्रतः स्वरः ।

पु नस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

य इमे द्यावापृथिवी जनित्री रूपैरपिंशद्भु-
वनानि विश्वा । तमद्य होतरिषितो यजीयान्देवं ।
त्वष्टारसिह यक्षि विद्वान् ॥ ३४ ॥

यः । इमे इतीमे । द्यावापृथिवीऽइति द्यावापृथिवी । जनित्रीऽइति जनित्री ।
रूपैः । अपिंशत् । भुवनानि । विश्वा । तम् । अद्य । होतः । इषितः । यजी-
यान् । देवम् । त्वष्टारम् । इह । यन्ति । विद्वान् ॥ ३४ ॥

पदार्थः—(यः) विद्वान् (इमे) प्रत्यक्षे (द्यावापृथि-
वी) विदुद्भूमि (जनित्री) अनेककार्योत्पादिके (रूपैः)
विचित्राभिराहुतिभिः (अपिंशत्) अवयवयति (भुव-
नानि) लोकान् (विश्वा) विश्वानि सर्वान् (तम्) (अ-
द्य) इदानीम् (होतः) आदातः (इषितः) प्रेरितः (य-

जीयान्) अतिशयेन यष्टा सङ्गन्ता (देवम्) (त्वष्टारम्)
वियोगसंयोगादिकर्त्तारम् (इह) अस्मिन् व्यवहारे (यक्षि)
सङ्गच्छसे (विद्वान्) सर्वतो विद्याप्तः ॥ ३४ ॥

अन्वयः—हे होतर्था यजीयानिपितो विद्वान्यथेश्वर इह रूपैरिमे जनित्री
द्यावापृथिवी विश्वा भुवनान्यपिंशत् तथा तं त्वष्टारं देवमद्य त्वं यक्षि त-
स्मात्सत्कर्त्तव्योऽसि ॥ ३४ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—मनुष्यैरस्यां सृष्टौ परमात्मानोरचनाविशेषान्
विज्ञाय तथैव शिल्पविद्या संप्रयोज्या ॥ ३४ ॥

पदार्थः—हे (होतः) ग्रहण करने वाले जन ! (यः) जो (यजीयान्)
अतिसमागम करने वाला (इपितः) प्रेरणा क्रिया हुआ (विद्वान्) सब ओर
से विद्या को प्राप्त विद्वान् जैसे ईश्वर (इह) इस व्यवहार में (रूपैः) चित्र
विचित्र आकारों से (इमे) इन (जनित्री) अनेक कार्यों को उत्पन्न करने वा-
ली (द्यावापृथिवी) विजुली और पृथिवी आदि (विश्वा) सब (भुवनानि)
लोकों को (अपिंशत्) अवयवरूप करता है वैसे (तम्) उस (त्वष्टारम्) वि-
योग संयोग अर्थात् प्रलय उत्पत्ति करने द्वारे (देवम्) ईश्वर का (अद्य)
आज तू (यत्न) संग करता है इस से सत्कार करने योग्य है ॥ ३४ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—मनुष्यों को इस सृष्टि में परमात्मा की
रचनाओं की विशेषताओं को जान के वैसे ही शिल्पविद्या का प्रयोग करना चाहिये ॥ ३४ ॥

उपांशसृजेत्यस्य जसद्गिर्नापिः । अग्निर्देवता ।

निचृतत्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

प्रत्युत्तु होतव्यमित्याह ॥

ऋतु २ में होम करना चाहिये इस वि० ॥

उपांशसृज त्मन्यां समञ्जन्देवानां पाथं ऋ-
तुथाहवींषि । वनस्पतिः शमिता देवो अग्निः
स्वदन्तु हव्यं मधुना घृतेन ॥ ३५ ॥

उपावसृजत्युपऽवसृज । त्मन्या । समञ्जन्निति सम्
ऽअञ्जन् । देवानाम् । पाथः । ऋतुथेत्यृतुऽथा । हवी-
षि । वनस्पतिः । शमिता । देवः । अग्निः । स्वदन्तु ।
हव्यम् । मधुना । घृतेन ॥ ३५ ॥

पदार्थः—(उपावसृज) यथावद्देहि (त्मन्या) आत्मना
(समञ्जन्) सम्यक् मिश्रीकुर्वन् (देवानाम्) विदुषाम्
(पाथः) भोग्यमन्नादिकम् (ऋतुथा) ऋतौ (हवीं-
षि) आदातव्यानि (वनस्पतिः) किरणानां स्वामी (श-
मिता) शान्तिकरः (देवः) दिव्यगुणो मेघः (अग्निः)
पावकः (स्वदन्तु) प्राप्नुवन्तु (हव्यम्) अत्तव्यम् (म-
धुना) मधुरादिरसेन (घृतेन) घृतादिना ॥ ३५ ॥

अन्वयः—हे विद्वंस्त्वं देवानां पाथो मधुना घृतेन समञ्जन् त्मन्या ह-
वीषि ऋतुथोपावसृज तेन त्वया दशं हव्यं वनस्पतिः शमिता देवोऽग्निश्च
स्वदन्तु ॥ ३५ ॥

भावार्थः—मनुष्यैः शुद्धानां पदार्थानामृता वृत्ती होमः कर्त्तव्योयेन त-
द्दुतां द्रव्यं मूढं भूत्वा क्रमेणाग्निसूर्यमेघान् प्राप्य वृष्टिद्वारा सर्वोपकारि
स्यात् ॥ ३५ ॥

पदार्थः—हे विद्वन् पुरुष ! तू (देवानाम्) विद्वानों के (पाथः) भोगने
योग्य अन्न आदि को (मधुना) मीठे कोमल आदि रस युक्त (घृतेन) घी आदि
से (समञ्जन्) सम्यक् पिलाते हुए (मन्या) अपने आत्मा से (हवींषि) लेने
भोजन करने योग्य पदार्थों को (ऋतुथा) ऋतु २ में (उपावसृज) यथावत्

दिया कर अर्थात् होम किया कर । उस तैने दिये (हव्यम्) भोजन के योग्य पदार्थ को (वनस्पतिः) किरणों का स्वामी सूर्य (शमिता) शान्तिकर्ता (देवः) उत्तम गुणों वाला मेघ और (अग्निः) अग्नि (स्वदन्तु) प्राप्त होवें अर्थात् हवन किया पदार्थ उन को पहुंचें ॥ ३५ ॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि शुद्ध पदार्थों का ऋतु २ में होम किया करें जिस से वह द्रव्य सूक्ष्म हो और क्रम से अग्नि सूर्य तथा मेघ को प्राप्त होके वर्षा के द्वारा सब का उपकारी होवे ॥ ३५ ॥

सद्य इत्यस्य जसदग्निर्ऋषिः । अग्निर्देवता ।

निघृत् त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

कीदृग्जनः सर्वानन्दयतीत्याह ॥

कैसा मनुष्य सब को आनन्द कराता है इस वि० ॥

सद्यो ज्ञातो व्यंमिमीत यज्ञमग्निर्देवानांमभव-
त्पुरोगाः । अस्य होतुः प्रदिश्यृतस्य वाचि स्वा-
हाकृतं हविरदन्तु देवाः ॥ ३६ ॥

सद्यः । ज्ञातः । वि । अमिमीत । यज्ञम् । अग्निः ।
देवानांम् । अभवत् । पुरोगाऽइति पुरःऽगाः । अस्य ।
होतुः । प्रदिशीति प्रऽदिशि । ऋतस्य । वाचि । स्वाहाकृ-
तमिति स्वाहाऽकृतम् । हविः । अदन्तु । देवाः ॥ ३६ ॥

पदार्थः—(सद्यः)शीघ्रम् (ज्ञातः) प्रकटीभूतः सन् (वि)
विशेषण (अमिमीत) मिमीते (यज्ञम्) अनेकविधव्यवहार-
म् (अग्निः) विद्याप्रकाशितो विद्वान् (देवानाम्) विदुषाम्

(अभवत्) भवति (पुरोगाः) अग्रगामी (अस्य) (होतुः)
आदातुः (प्रदिशि) प्रदिशन्ति यथा तस्याम् (ऋतस्य)
सत्यस्य (वाचि) वाण्याम् (स्वाहाकृतम्) सत्येन निष्पादितं
कृतहोमं वा (हविः) अत्तव्यमन्नादिकम् (अदन्तु) भुञ्ज-
ताम् (देवाः) विद्वांसः ॥ ३६ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यस्सद्यो जातोऽग्निर्होतुर्ऋतस्य प्रदिशि वाचि यज्ञं
व्यमिमीत देवानां पुरोगा अभवदस्य स्वाहाकृतं हविर्देवा अदन्तु तं सर्वो-
परि विराजमानं मन्यध्वम् ॥ ३६ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—यथा सूर्यः सर्वेषां प्रकाशकानां मध्ये प्रकाशको-
ऽस्ति तथा यो विद्वत्सु विद्वान्सर्वोपकारी जनो भवति स एव सर्वेषामानन्दस्य
भोजयिता भवति ॥ ३६ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो! जो (सद्यः) शीघ्र (जातः) प्राप्त हुआ (अग्निः)
विद्या से प्रकाशित विद्वान् (होतुः) ग्रहण करने दारे पुरुष के (ऋतस्य) सत्य
का (प्रदिशि) जिस से निर्देश किया जाता है उस (वाचि) वाणी में (यज्ञम्)
अनेक प्रकार के व्यवहार को (वि, व्यमिमीत) विशेष कर निर्माण करता और
(देवानाम्) विद्वानों में (पुरोगाः) अग्रगामी (अभवत्) होता है (अस्य)
इस के (स्वाहाकृतम्) सत्य व्यवहार से सिद्ध किये वा होम किये से बचे (हविः)
भोजन के योग्य अन्नादि को (देवाः) विद्वान् लोग (अदन्तु) खायें उस
को सर्वोपरि विराजमान मानो ॥ ३६ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे सूर्य सब प्रकाशक पदार्थों के बीच प्रकाशक
है वैसे जो विद्वानों में विद्वान् सब का उपकारी जन होता है वही सब को आनन्द का
भुगताने वाला होता है ॥ ३६ ॥

केतुमित्यस्य मधुच्छदा ऋषिः । विद्वांसो देवताः ।

गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

आप्ताः कीदृशा इत्याह ॥

आप्त लोग कैसे होते हैं इस वि० ॥

केतुं कृण्वन्केतवे पेशो मर्या अपेशसे । समु-
षद्भिरजायथाः ॥ ३७ ॥

केतुम् । कृण्वन् । अकेतवे । पेशः । मर्याः । अपे-
शसे । समु । उषद्भिरित्युषत्ऽभिः । अजायथाः ॥ ३७ ॥

पदार्थः—(केतुम्) प्रज्ञाम् । केतुरिति प्रज्ञाना० निघ० ।

३ । ९ (कृण्वन्) कुर्वन् (अकेतवे) अविद्यमानप्रज्ञाय
जनय (पेशः) हिरण्यम् । पेशइति हिरण्यना० निघ० । १

३ । (मर्याः) मनुष्याः (अपेशसे) अविद्यमानं पेशः सुवर्णं
यस्य तस्मै नराय (समु) सम्यक् (उषद्भिः) य उषन्ति
हविर्दहन्ति तैर्यजमानैः (अजायथाः) ॥ ३७ ॥

अन्वयः—हे विद्वन् यथा मर्या अपेशसे पेशोऽकेतवे केतुं कुर्वन्ति तैरुषद्भिः
सह प्रज्ञां श्रियं च कृण्वन् संस्त्वं समजायथाः ॥ ३७ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—तएव आप्ता ये स्वात्सवदन्येषामपि सुखमिच्छन्ति
तेषामेव संगेन विद्याप्राप्तिरविद्याहानिः श्रियो लाभो दरिद्रताया विनाशश्च
भवति ॥ ३७ ॥

पदार्थः—हे विद्वान् पुरुष । जैसे (मर्याः) मनुष्य (अपेशसे) जिस के
सुवर्ण नहीं है उस के लिये (पेशः) सुवर्ण को और (अकेतवे) जिस को

बुद्धि नहीं है उस के लिये (केतुम्) बुद्धि को करते हैं उन (उपद्भिः) होम करने वाले यजमान पुरुषों के साथ बुद्धि और धन को (कृण्वन्) करते हुए आप सम्, अजायथाः) सम्यक् प्रसिद्ध हूजिये ॥ ३७ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—वे ही आस जन हैं जो अपने आत्मा के तुल्य अन्यो का भी सुख चाहते हैं उन्हीं के संग से विद्या की प्राप्ति अविद्या की हानि धन का लाभ और दरिद्रता का विनाश होता है ॥ ३७ ॥

जीमूतस्येवेत्यस्य भारद्वाज ऋषिः । विद्वान्देवता ।

निचृत्त्रिष्टुब्धन्दः । धैवतः स्वरः ॥

वीरा राजपुरुषा किं कुर्युरित्याह ॥

वीर राज पुरुष क्या करें इस वि० ॥

जीमूतस्येव भवति प्रतीकं यद्दुर्मी याति सम-
दामुपस्थे । अनाविद्धया तन्वा जय त्वम् स त्वा
वर्मणो महिमा पिपत्तु ॥ ३८ ॥

जीमूतस्येवेति जीमूतस्यऽइव । भवति । प्रतीकम् ।
यत् । वर्मी । याति । समदामिति सऽसमदाम् । उपस्थऽ
इत्युपऽस्थे । अनाविद्धया । तन्वा । जय । त्वम् । सः । त्वा ।
वर्मणः । महिमा । पिपत्तु ॥ ३८ ॥

पदार्थः—(जीमूतस्येव) यथा मेघस्य (भवति) (प्रती-
कम्) येन प्रत्येति तल्लिङ्गम् (यत्) . (वर्मी) कवचवान्
(याति) प्राप्नोति (समदाम्) सह मदेन हर्षेण वर्त्तन्ते यत्र
युद्धेषु तेषाम् (उपस्थे) समीपे (अनाविद्धया) अप्राप्तक्षतया
(तन्वा) शरीरेण (जय) (त्वम्) (सः) (त्वा) त्वाम् (वर्मणः)
रक्षणस्य (महिमा) महत्त्वम् (पिपत्तु) पालयतु ॥ ३८ ॥

अन्वयः—यद्यो वर्मणाविद्धया तन्वा समदामुपस्थे प्रतीकं याति स जी-
मूतस्येव विद्युद्भवति । हे विद्वन् यन्वा वर्मणो महिमा पिपर्तुं सत्त्वं शत्रून्
जय ॥ ३८ ॥

भावार्थः—अत्रोपमालं०- यथा मेघस्य सेना सूर्यप्रकाशमावृणोति तथा
कवचादिना शरीरमावृणुयात् । यथा समीपस्थयोः सूर्यमेघयोः संग्रामो भ-
वति तथैव वीरैराजपुरुषैर्बौद्धव्यम् । सर्वतो रक्षापि विधेया ॥ ३८ ॥

पदार्थः—(यत्) जो (वर्मी) कवच वाला योद्धा (अनाविद्धया, जिस में कुछ भी
घाव न लगा हो उस (तन्वा) शरीर से (समदाम्) आनन्द के साथ जहां वत्तं
उन युद्धों के (उपस्थे) समीप में (प्रतीकम्) जिस से निश्चय करे उस चिन्ह को
(याति) प्राप्त होता है (सः) वह (जीमूतस्येव) मेघ के निकट जैसे विजुली वैसे
(भवति) होता है । हे विद्वन् जिस (त्वा) आप को (वर्मणः) रक्षा का (महिमा)
महत्त्व (पिपर्तुं) पाले सो (त्वम्) आप शत्रुओं को (जय) जीतिये ॥ ३८ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जैसे मेघ की सेना सूर्य के प्रकाश को रोकती है
वैसे कवच आदि से शरीर का आच्छादन करे जैसे समीपस्थ सूर्य और मेघ का संग्राम
होता है वैसे ही वीर राजपुरुषों को युद्ध और रक्षा भी करनी चाहिये ॥ ३८ ॥

धन्वनेत्यस्य भारद्वाज ऋषिः । वीरा देवताः ।

त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

धन्वंनागा धन्वंनाजिं जयेम धन्वंना तीव्राः
समदो जयेम । धनुः शत्रोरपक्लामं कृणोति धन्वंना
सर्वाः प्रदिशो जयेम ॥ ३९ ॥

धन्वना । गाः । धन्वना । आजिम् । जयेम् । ध-
न्वना । तीव्राः । समदऽइति सऽमदः । जयेम् । धनुः ।
शत्रोः । अपकाममित्यपऽकामम् । कृणोति । धन्व-
ना । सर्वाः । प्रदिशऽइति प्रऽदिशः । जयेम् ॥ ४० ॥

पदार्थः—(धन्वना) धनुरादिशस्त्रास्त्रविशेषेण(गाः) पृ-
थिवीः (धन्वना) (आजिम्) सङ्ग्रामम् । आजिविति
सङ्ग्रामना० निघं० २ । १७ (जयेम्) (धन्वना) शत-
हत्यादिभिः शस्त्रास्त्रैः (तीव्राः) तीव्रवेगवतीः शत्रूणां
सेनाः (समदः) मदेन सह वर्त्तमानाः (जयेम्) (ध-
नुः) शस्त्रास्त्रम् (शत्रोः) अरेः (अपकामम्) अपगत-
श्चासौ कामश्च तम् (कृणोति) करोति (धन्वना)
(सर्वाः) (प्रदिशः) दिशोपदिशः (जयेम्) ॥ ३९ ॥

अन्वयः—हे वीरा यथा वयं यद्गुणुः शत्रोरपकामं कृणोति तेन धन्व-
वना गा धन्वनाऽऽजिं न जयेम धन्वना तीव्राः समदो जयेम धन्वना सर्वा
प्रदिशो जयेम तथा यूयमप्येतेन जयत ॥ ३९ ॥

भावार्थः—यदि मनुष्या धनुर्वेदविज्ञानक्रियाकुशला भवेयुस्तर्हि सर्वा-
न्नेव तेषां विजयः प्रकाशेन यदि विद्याविनयशीर्यादिगुणैर्भूगोलैकराज्यमिच्छे-
युस्तर्हि किमप्यशक्यं न स्यात् ॥ ३९ ॥

पदार्थः—हे वीर पुरुषो! जैसे हम लोग जो (धनुः) शस्त्र अस्त्र (शत्रोः)
वैरी की (अपकामम्) कामनाओं को नष्ट (कृणोति) करता है उस (धन्वना)
धनुष् आदि शस्त्र अस्त्र विशेष से (गाः) पृथिवियों को और (धन्वना) उ-
क्त शस्त्र विशेष से (आजिम्) संग्राम को (जयेम) जीते (धन्वना) तोप आ-

दि शस्त्र, अस्त्रों से (तीव्राः) तीव्र वेग वाली (समदः) आनन्द के साथ वर्तमान शत्रुओं की सेनाओं को (जयेम) जीते (धन्वना) धनुष् से (सर्वाः) सब (प्रदिशः) दिशा प्रदिशाओं को (जयेम) जीते वैसे तुम लोग भी इस धनुष् आदि से जीतो ॥ ३६ ॥

भावार्थः—जो मनुष्य धनुर्वेद के विज्ञान की क्रियाओं में कुशल हों तो सब जगह ही उन का विजय प्रकाशित होवे जो विद्या विनय और शूरता आदि गुणों से भूगोल के एक राज्य को चाहें तो कुछ भी अशक्य न हो ॥ ३६ ॥

वक्ष्यन्तीवेत्यस्य भारद्वाज ऋषिः । वीरा देवताः ।

निचृत् त्रिष्टुप्छन्दः । धैवत स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

वक्ष्यन्तीवेदाग्नीगन्ति कर्णं प्रियम् सखायं
परिष्वजाना । योषेव शिङ्क्ते वितताधिध-
न्वन् ज्याइयम् समने पारयन्ती ॥ ४० ॥

वक्ष्यन्तीवेति वक्ष्यन्तीऽइव । इत् । आग्नगिन्ति ।
कर्णम् । प्रियम् । सखायम् । परिष्वजाना । परि-
ष्वजानेति परिऽस्वजाना । योषेवेति योषाऽइव ।
शिङ्क्ते । विततेति विऽतत । अधि । धन्वन् । ज्या ।
इयम् । समने । पारयन्ती ॥ ४० ॥

पदार्थः—(वक्ष्यन्तीव) यथा वदिष्यन्ती विदुषी स्त्री तथा
(इत्) एव (आग्नीगन्ति) भृशं बोधं प्रापयन्ति (कर्णम्)

श्रुतस्तुतिम् (प्रियम्) कमनीयम् (सखायम्) सुहृद्बद्ध-
मानम् (परिषस्वजाना) परितः सर्वातः सङ्गं कुर्वाणा
(योषेव) स्त्री (शिङ्क्ते) शब्दयति (वितता) विस्तृता
(अधि) उपरि (धन्वन्) धन्वनि (ज्या) प्रत्यञ्चा
(इयम्) (समने) सङ्ग्रामे (पारयन्ती) विजयं प्रापयन्ती ॥४०॥

अवन्त्यः— हे वीरा येषां वितता धन्वन्धि ज्या वक्ष्यन्ती वेदागनीगन्ति
कर्णं प्रियं सखायं पतिं परिषस्वजाना योषेव शिङ्क्ते समने पारयन्ती वर्तते
तान्निर्मातुं षड् चालयितुं च विजानीत ॥ ४० ॥

भावार्थः— अत्र दून्युपमालं०—यदि मनुष्या धनुर्जयोदिशस्त्रास्त्ररचनस-
म्बन्धचालनक्रिया विज्ञायरेन् तर्हीमामुपदेशिकां मातरमिष सुखप्रदां पत्नीं
विजयसुखं च प्राप्नुयुः ॥ ४० ॥

पदार्थः—हे वीर पुरुषो ! जो (इयम्) यह (वितता) विस्तारयुक्त (धन्वन्)
धनुष में (अधि) ऊपर लगी (ज्या) प्रत्यञ्चा तांत (वक्ष्यन्तीव) कहने
को उद्यत हुई विदुषी स्त्री के तुल्य (इत्) ही (आगनीगन्ति) शीघ्र बोध को
प्राप्त कराती हुई जसे (कर्णम्) जिस की स्तुति सुनी जाती (प्रियम्) प्यारे
(सखायम्) मित्र के तुल्य वर्तमान पति को (परिषस्वजाना) सब ओर से
संग करती हुई (योषेव) स्त्री बोलती वैसे (शिङ्क्ते) शब्द करती है (समने)
संग्राम में (पारयन्ती) विजय को प्राप्त कराती हुई वर्तमान है उस के बनाने
बांधने और चलाने को जानो ॥ ४० ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में दो उपमालंकार हैं । जो मनुष्य धनुष की प्रत्यञ्चा आदि
शस्त्र अस्त्रों की रचना सम्बन्ध और चलाना आदि क्रियाओं को जाने तो उपदेश करने
और माता के तुल्य सुख देने वाली पत्नी और विजय सुख को प्राप्त हों ॥ ४० ॥

त आचरन्ती इत्यस्य भारद्वाज ऋषिः । वीरा देवताः ।

त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

तेऽ आचरन्ती समनेव योषां मातेव पुत्रं
बिभृतामुपस्थे । अप शत्रून्विध्यता संविदाने
आर्त्नीऽइमे विष्फुरन्ती अमित्रान् ॥ ४१ ॥

तेऽइति ते । आचरन्तीऽइत्याऽचरन्ती । समनेवेति
समनाऽइव । योषां । मातेवेति माताऽइव । पुत्रम् ।
बिभृताम् । उपस्थेऽइत्युपऽस्थे । अप । शत्रून् । विध्य-
ताम् । संविदानेऽइति समऽविदाने । आर्त्नीऽइत्यार्त्नी ।
इमेऽइतीमे । विष्फुरन्ती । विस्फुरन्तीऽइति विऽस्फुरन्ती ।
अमित्रान् ॥ ४१ ॥

पदार्थः—(ते) धनुर्ज्ये (आचरन्ती) समतात्प्राप्तुवत्यौ
(समनेव) सम्यक् प्राण इव प्रिया (योषा) विदुषी स्त्री
(मातेव) जननीव (पुत्रम्) सन्तानम् (बिभृताम्) धरे-
ताम् (उपस्थे) समीपे (अप) दूरीकरणे (शत्रून्)
अरीन् (विध्यताम्) ताडयेताम् (संविदाने) सम्यग्विज्ञा-
ननिमित्ते (आर्त्नी) प्राप्यमाणो (इमे) (विष्फुरन्ती)
विशेषेण चालयन्त्यौ (अमित्रान्) मित्रभावरहितान् ॥४१॥

अन्वयः— हे वीरा ये योषा समनेव पतिं मातेव पुत्रं बिभृतामुपस्थे
आचरन्ती शत्रून्प विध्यतासिमे संविदाने आर्त्नी अमित्रान् विष्फुरन्ती व-
र्त्तते ते यथावत् संप्रयुङ्क्ष्वम् ॥ ४१ ॥

भावार्थः—अत्र द्वौ उपमालं०—यथा हृद्या स्त्री पतिं विदुषी च माता पुत्रं सम्पोषयतस्तथा धनुर्ज्ये संविदितक्रिये शत्रून् पराजित्य वीरान् प्रसादयतः ॥ ४१ ॥

पदार्थः—हे वीर पुत्रो! दो धनुष की प्रत्यञ्चा (योषा) विदुषी (समनेव) प्राण के समान सम्यक् पति को प्यारी स्त्री स्वपति को और (मातेव) जैसे माता (पुत्रम्) अपने सन्तान को (वेभृताम्) धारण करें वैसे (उपस्थे) समीप में (आचरन्ती) अच्छे प्रकार प्राप्त हुई (शत्रून्) शत्रुओं को (अप) (विध्यताम्) दूर तक ताड़ना करें (इमे) ये (संविदाने) अच्छे प्रकार विज्ञान की निमित्त (आर्त्नी) प्राप्त हुई (अमित्रान्) शत्रुओं को (विष्फुरन्ती) विशेष कर चलायमान करती वर्त्तमान हैं (ते) उन दोनों, का यथावत् सम्यक् प्रयोग करो अर्थात् उन को काम में लाओ ॥ ४१ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में दो उपमालं०—जैसे हृदय को प्यारी स्त्री पति को और विदुषी माता अपने पुत्र को अच्छे प्रकार पुष्ट करती हैं वैसे सम्यक् प्रसिद्ध काम देने वाली धनुष की दो प्रत्यञ्चा शत्रुओं को पराजित कर वीरोंको प्रसन्न करती हैं ॥ ४१ ॥

बह्वीनामित्यस्य भारंद्वाज ऋषिः । वीरा देवताः ।

त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

**बह्वीनां पिता बहुरस्य पुत्रश्चिश्चा कृणोति सम-
नावगत्य । इषुधिः सङ्काः पृतनाश्च सर्वाः पृष्ठे
निनद्धो जयति प्रसूतः ॥ ४२ ॥**

बह्वीनाम् । पिता । बहुः । अस्य । पुत्रः । चिश्चा ।
कृणोति । समना । अवगत्येत्यवगत्य । इषुधिरिती-
षुधिः । सङ्काः । पृतनाः । च । सर्वाः । पृष्ठे । निनद्ध
इति निनद्धः । जयति । प्रसूतइति प्रसूतः ॥ ४२ ॥

पदार्थः—(बह्वीनाम्) ज्यानाम् (पिता) पितृवद्रक्षकः
 (बहुः) बहुगुणः (अस्य) (पुत्रः) सन्तान इव सम्बन्धी
 (चिश्चा) चिश्चिश्चेति शब्द (कृणोति) करोति (समना)
 संग्रामान् । अत्राकारादेशः (अवगत्य) (इषुधिः) इषवो
 धीयन्ते यस्मिन्सः (संकाः) समवेता विकीर्णा वा (पृतना)
 सेनाः (च) (सर्वाः) (पृष्ठे) पश्चाद्भागे (निनद्धः) निश्चयेन
 नद्धो बद्धः (जयति) (प्रसूतः) उत्पन्नः ॥ ४२ ॥

अन्वयः—हे वीरा यो बह्वीनां पितृवास्य बहुः पुत्रइव पृष्ठे निनद्ध
 इषुधिः प्रसूतः सन् समनावगत्य चिश्चा कृणोति येन वीरः सर्वाः संका पृत-
 नाश्च जयति तं यथावद्रक्षत ॥ ४२ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—यथाऽनेकासां कन्यानां बहूनां पुत्राणां च
 पिताऽपत्यशब्दैः संकीर्णो भवति तथैव धनुर्ज्यैषुधयः संमिलिता अनेकविध-
 शब्दान् जनयन्ति यस्य वामहस्ते धनुः पृष्ठे इषुधिर्यो दक्षिणेन हस्तेनेषुं
 निःसाय्यं धनुर्ज्यया संयोज्य त्रिमुच्यथाऽभ्यासेन शीघ्रकारित्वं करोति स एव
 विजयी भवति ॥ ४२ ॥

पदार्थः—हे वीर पुरुषो ! जो (बह्वीनाम्) बहुत प्रत्यञ्चाओं का (पिता)
 पिता के तुल्य रखने वाला (अस्य) इस पिता का (बहुः) बहुत गुण वाले (पुत्रः)
 पुत्र के समान सम्बन्धी (पृष्ठे) पिछले भाग में (निनद्धः) निश्चित बंधा हुआ
 (इषुधिः) बाण जिसमें धारण किये जाते वह धनुष (प्रसूतः) उत्पन्न
 हुआ (समना) संग्रामों को (अवगत्य) प्राप्त होके (चिश्चा) चिं

चिं, चिं, ऐसा शब्द (कृणोति) करता है और जिस से वीर पुरुष (सर्वाः) सब (संकाः) इकट्ठी वा फैली हुई (पृतनाः) सेनाओं को (जयति) जीतना है उस की यथावत् रक्षा करो ॥ ४२ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे अनेक कन्याओं और बहुत पुत्रों का पिता अपत्य शब्द से संयुक्त होता है वैसे ही धनुष् प्रत्यंचा और वाण मिल कर अनेक प्रकार के शब्दों को उत्पन्न करते हैं जिस के वाम हाथ में धनुष् पीठ पर वाण दहिने हाथ से वाण को निकाल के धनुष् की प्रत्यंचा से संयुक्त कर छोड़ के अभ्यास से शीघ्रता करने की शक्ति को करता है वही विजयी होता है ॥ ४२ ॥

रथ इत्यस्य भारद्वाज ऋषिः । वीरा देवताः ।

जगती छन्दः । निपादः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

रथे तिष्ठन्नयति वाजिनः पुरो यत्रयत्र कामयते सुषारथिः । अभीशूनां महिमानं पनायत मनः पश्चादनुयच्छन्ति रश्मयः ॥ ४३ ॥

रथे । तिष्ठन् । नयति । वाजिनः । पुरः । यत्रयत्रेति यत्रऽयत्र । कामयते । सुषारथिः । सुषारथिरिति सुऽसारथिः । अभीशूनाम् । महिमानम् । पनायत । मनः । पश्चात् । अनु । यच्छन्ति । रश्मयः ॥ ४३ ॥

पदार्थः—(रथे) रमणीये भूजलान्तरिक्षगमके याने (तिष्ठन्) (नयति) गमयति (वाजिनः) अश्वानग्न्या-

दीन्वा (पुरः) अग्रे (यत्रयत्र) यस्मिन्यस्मिन्सङ्ग्रामे
देशे वा (कामयते) (सुषारथिः) शोभनश्चासौ सार-
थिश्चाश्वानामग्न्यादीनां वा नियन्ता (अभीशूनाम्)
अभितः सद्यो गन्तूणाम् (महिमानम्) महत्त्वम् (पनाय-
त) प्रशंसत (मनः) (पश्चात्) (अनु) (यच्छन्ति)
निगृह्णन्ति (रश्मयः) रज्जवः किरणा वा ॥ ४३ ॥

अन्वयः—हे विद्वांसः सुपरधी रथे तिष्ठन् यत्रयत्र कामयते तत्र तत्र
वाजिनः पुरो नयति येषां मनः सुशिक्षित हस्तगता रश्मयः पश्चादश्वान-
जुयच्छन्ति तेषामभीशूनां महिमानं यूयं पनायत ॥ ४३ ॥

भावार्थः—यदि राजराजपुरुषाः साम्राज्यं भुवं विजयं चेच्छेयुस्तर्हि
सुशिक्षितानमात्यान्श्वाद्यन्या चालयित्री मलंसामग्रघध्यक्षाञ्छस्त्राञ्छाणि
शरीरा ॥ बलं चावश्यं सम्पादयेयुः ॥ ४३ ॥

पदार्थः— हे विद्वानो ! (सुषारथिः) सुन्दर सारथिः घोड़ों वा अग्न्यादि
को नियम में रखने वाला (रथे) रमण करने योग्य पृथिवी जल वा आकाश
में चलाने वाले यान में (तिष्ठन्) बैठा हुआ (यत्रयत्र) जिस २ संग्राम वा
देश में (कामयते) चाहता है वहाँ २ (वाजिनः) घोड़ों वा वेग वाले अग्न्या-
दि पदार्थों को (पुरः) आगे (नयति) चलाता है जिन का (मनः) मन अच्छा
शिक्षित (रश्मयः) लगाम की रस्सी वा किरण हस्तगत हैं (पश्चात्) पीछे
से घोड़ों वा अग्न्यादि का (अनु, यच्छन्ति) अनुकूल निग्रह करते हैं उन (अभी-
शूनाम्) सब ओर से शीघ्र चलने हारों के (महिमानम्) महत्त्व की तुम लोग
(पनायत) प्रशंसा करो ॥ ४३ ॥

भावार्थः—जो राजा और राजपुरुष चक्रवर्ती राज्य और निश्चल विजय चाहें तो
अच्छे शिक्षित मन्त्री अश्व आदि तथा अन्य चलाने वाली सामग्री अध्यक्षां शस्त्र अस्त्रों
और शरीर आत्मा के बल को अवश्य सिद्ध करें ॥ ४३ ॥

तीव्रानित्यस्य भारद्वाज ऋषिः । वीरा देवताः ।

त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

तीव्रान्घोषान्कृण्वते वृषपाणयोऽश्वा रथेभिः
सह वाजयन्तः । अवक्रामन्तः प्रपदैरमित्रान्क्षि-
णन्ति शत्रूँ ॥ अनपव्ययन्तः ॥ ४४ ॥

तीव्रान् । घोषान् । कृण्वते । वृषपाणयः इति वृषः पाणयः । अश्वाः ।
रथेभिः । सह । वाजयन्तः । अवक्रामन्तः इत्यवः क्रामन्तः । प्रपदैरिति प्रः पदैः ।
अमित्रान् । क्षिणन्ति । शत्रूँ । अनपव्ययन्तः इत्यनपः व्ययन्तः ॥ ४४ ॥

पदार्थः—(तीव्रान्) तीक्ष्णान् (घोषान्) शब्दान् (कृ-
ण्वते) कुर्वन्ति (वृषपाणयः) रक्षका वृषा बलिष्ठा वृ-
षभादय उत्तमाः प्राणिनः पाणिवद्येषां ते (अश्वाः) आ-
शुगमयितारः (रथेभिः) रमणीयैर्यानिः (सह) (वा-
जयन्तः) वीरादीन् सद्यो गमयन्तः (अवक्रामन्तः) ध-
र्षयन्तः (प्रपदैः) प्रकृष्टैः पारगमनैः (अमित्रान्) मि-
त्रभावरहितान् (क्षिणन्ति) क्षयं प्रापयन्ति (शत्रूँ)
अरीन् (अनपव्ययन्तः) अपव्ययमप्रापयन्तः ॥ ४४ ॥

अन्वयः—हे वीरा ये वृषपाणयो रथेभिः सह वाजयन्तः प्रपदैरमित्रान-
वक्रामन्तोऽश्वास्तीव्रान् घोषान्कृण्वतेऽनपव्ययन्तः सन्तः शत्रूँ क्षिणन्ति
तान् युयं प्राणवत्पालयत ॥ ४४ ॥

भावार्थः—यदि राजपुरुषा हस्त्यश्ववृषभादीन्भृत्यान्ध्यक्षांश्च सुशिक्षयाने-
कविधानि यानानि निर्माय शत्रून् विजितुमभिलषन्ति तर्हि तेषां भ्रुवो विजयी
भवति ॥ ४४ ॥

पदार्थः—हे वीर पुरुषो ! जो (वृषपाणयः) जिन के बलवान् बैल आदि उत्तम
प्राणी हाथों के समान रक्षा करने वाले हैं (स्थेभिः) रमण के योग्य यानों के
(सह) साथ (वाजयन्तः) वीर आदि को शीघ्र चलाने हारे (प्रपदः) उत्तम पगों
की चालों से (अपित्रान्) मित्रता रहित दुष्टों को (अवक्रामन्तः) धमकाते हुए
(अश्वाः) शीघ्र चलाने हारे घोड़ों (तीव्रान्) तीखे (घोषान्) शब्दों को (कृण्वते)
करते हैं और जो (अनपव्ययन्तः) व्यर्थ खर्च न कराते हुए योद्धा (शत्रून्) वै-
रियों को (क्षिणन्ति) क्षीण करते हैं उन को तुम लोग प्राणकेतुन्ध्र पालो ॥४४॥

भावार्थः—जो राजपुरुष हाथी, घोड़ा, बैल, आदि भृत्यों और अध्यक्षों को अच्छी
शिक्षा दे तथा अनेक प्रकार के यानों को बना के शत्रुओं के जीतने की अभिलाषा क-
रते हैं तो उन का निश्चल हृद् विजय होता है ॥ ४४ ॥

रथवाहनमित्यस्य भागद्वाज ऋषिः । वीरा देवताः ।

त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

रथवाहनं हविरस्य नाम यत्रायुधं निहितमस्य
वर्म । तत्रा रथमुपे शग्मसदेम विश्वाहा वयं
सुमनस्यमानाः ॥ ४५ ॥

रथवाहनम् । रथवाहनमिति रथवाहनम् । हविः । अस्य । नाम । यत्र ।
आयुधम् । निहितमिति निहितम् । अस्य । वर्म । तत्र । रथम् । उपे । शग्मम् ।
सदेम । विश्वाहा । वयम् । सुमनस्यमानाः । सुमनस्यमानाः ॥ ४५ ॥

पदार्थः— (रथवाहनम्) रथान्वहन्ति गमयन्ति येन तत्
 (हविः) आदातव्याग्नीन्धनजलकाष्ठधात्वादि (अस्य)
 योद्धुः (नाम) (यत्र) याने (आयुधम्) भुशुंङ्गिशत-
 धन्यासिधनुर्वाणशक्तिपद्मपाशादि (निहितम्) घृतम् (अ-
 स्य) योद्धुः (वर्म) कवचम् (तत्र) तस्मिन् । अत्र
 ऋचितुनु० इति दीर्घः । (रथम्) रमणासाधनं यानम्
 (उप) (शग्मम्) सुखम् । शग्ममिति सुखना० निघं०
 ३ । ६ (सदेम) प्राप्नुयाम् (विश्वाहा) सर्वेष्वहस्सु (व-
 यम्) (सुमनस्यमानाः) सुष्ठु विचारयन्तः ॥ ४५ ॥

अन्वयः—हे वीर अस्य यत्र रथवाहनं हविरायुधमस्य वर्म च नाम
 च निहितं तत्र सुमनस्यमाना वयं शग्मं रथं विश्वाहोप सदेम ॥ ४५ ॥

भावार्थः—हेमनुष्या तस्मिन्यानेऽग्न्यादिरश्वादिश्च युज्यते तन्नयुद्धसामग्रीः
 संस्थाप्य नित्यमन्वीक्ष्य स्थित्वा सुविचारेण शत्रुभिः सह संयुद्धं नित्यं
 सुखं प्राप्नुत ॥ ४५ ॥

पदार्थः—हे वीर पुरुषो ! (अस्य) इस योद्धा जन के (यत्र) जिस यान
 में (रथवाहनम्) जिस से विमानादि यान चलते वह (हविः) ग्रहण करने
 योग्य अग्नि, ईन्धन, जल, काठ और धातु आदि सामग्री तथा (आयुधम्) बन्दूक
 तोप खड्ग धनुष् वाण शक्ति और पद्मफांसी आदि शस्त्र और (अस्य) इस
 योद्धा के (वर्म) कवच और (नाम) नाम (निहितम्) स्थित हैं (तत्र) उस
 यान में (सुमनस्यमानाः) सुन्दर विचार करते हुए (वयम्) हम लोग (शग्म-
 म्) सुख तथा उस (रथम्) रमण योग्य यान को (विश्वाहा) सब दिने (उप, सदेम)
 निकट प्राप्त होवें ॥ ४५ ॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! जिस यान में अग्नि आदि तथा घोड़े आदि मनुष्यक क्रिये जाते उसमें युद्ध की सामग्री धर नित्य उस की देख भाल कर उस में बैठ और सुन्दर विचार से शत्रुओं के साथ सम्यक् युद्ध करते नित्य सुख को प्राप्त होओ ॥ ४५ ॥

स्वादुषथ्सद इत्यस्य भारद्वाज ऋषिः । वीरा देवताः ।

त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

स्वादुषथ्सदः पितरो वयोधाः कृच्छेश्रितः
शक्तीवन्तो गभीराः । चित्रसेना इषुवला अम-
ध्राः सतोवीरा उरवो ब्रातसहाः ॥ ४६ ॥

स्वादुषथ्सदः । स्वादुसथ्सदः इति स्वादुसथ्सदः । पितरः । वयो-
धाः इति वयःऽधाः । कृच्छेश्रितः इति कृच्छेऽश्रितः । शक्तीवन्तः । शक्तीवन्तः-
इति शक्तीऽवन्तः । गभीराः । चित्रसेनाः इति चित्रऽसेनाः । इषुवलाः इति इषुऽवलाः ।
अमध्राः । सतोवीराः इति सतःऽवीराः । उरवः । ब्रातसहाः । ब्रातसहा इति-
ब्रातऽसहाः ॥ ४६ ॥

पदार्थः—(स्वादुषथ्सदः)ये स्वादुषु भोज्याद्यन्त्रेषु सम्यक्
सीदन्ति ते (पितरः)पालनक्षमाः (वयोधाः)ये दीर्घवयो जीवनं
दधति ते (कृच्छेश्रितः)ये कृच्छे कष्टेश्रितः कष्टं सेवमानाः

(शक्तीवन्तः) सामर्थ्ययुक्ताः । अत्र छन्दसीर इति वत्वम्
 (गभीराः) आगाधाशयाः (चित्रसेनाः) अद्भुतसैन्याः
 (इषुबलाः) इषुभिः शस्त्रास्त्रैस्सह बलं सैन्यं येषान्ते
 (अमृध्राः) अकोमलाङ्गा दृढाङ्गाः (सतोवीराः) सतो
 विद्यमानस्य सैन्यस्य मध्ये वीराः प्राप्तयुद्धविद्याशिक्षाः
 (उरवः) विशालजघनोरस्काः (ब्रातसाहाः) ये ब्रातान्
 वीराणां समूहान्सहन्ते ते ॥ ४६ ॥

अन्वयः— हे योद्धारो वीरा यूयं ये स्वादुषंसदो वयोधाः कृच्छ्रेश्रितः
 शक्तीवन्तो गभीराश्चित्रसेना इषुबला अमृध्रा उरवो ब्रातसाहाः सतोवीराः
 पितरः स्युस्तानाश्रित्य युद्धं कुरुत ॥ ४६ ॥

भावार्थः— तेषामेव सदा विजयो राज्यश्रीः प्रतिष्ठा दीर्घमायुर्बलं वि
 द्याश्च भवन्ति ये स्वाधिष्ठातृणामाप्तानां शासने तिष्ठन्ति ॥ ४६ ॥

पदार्थः— हे युद्ध करने हारे वीर पुरुषों ! तुम लोग जो (स्वादुषंसदः)
 भोजन के योग्य अन्नादि पदार्थों को सम्यक् सेवने वाले (वयोधाः) अधिक
 अवस्था युक्त (कृच्छ्रेश्रितः) उत्तम कार्यों की सिद्धि के लिये कष्ट सेवते हुए
 (शक्तीवन्तः) सामर्थ्य वाले (गभीराः) महाशय (चित्रसेनाः) आश्चर्य गुण
 युक्त सेना वाले (इषुबलाः) शस्त्र अस्त्रों के सहित जिनकी सेना (अमृध्राः)
 दृढ़ शरीर वाले (उरवः) बड़े-जिन के जंघा और छाती (ब्रातसाहाः)
 वीरों के समूहों को सहने वाले (सतोवीराः) विद्यमान सेना के बीच युद्ध
 विद्या की शिक्षा को प्राप्त वीर (पितरः) पालन करने हारे राज पुरुष हों उन
 का आश्रय ले युद्ध करो ॥ ४६ ॥

भावार्थः—उन्हींका सदा विजय राज्य श्री प्रतिष्ठा बड़ी अवस्था बल और विद्या होती
 हैं जो अपने अधिष्ठातां प्राप्त सत्यवादी सज्जनों की शिक्षा में स्थित होते हैं ॥ ४६ ॥

ब्राह्मणास इत्यस्य भारद्वाज ऋषिः । धनुर्वेदाऽध्यापका देवताः ।

विराट् जगती छन्दः । निपादः स्वरः ॥

के सत्कर्त्तव्या इत्याह ॥

किन का सत्कार करना चाहिये इस वि० ॥

ब्राह्मणासः पितरः सोम्यासः शिवे नोद्यावा-
पृथिवीअनेहसा । पूषा नः पातु दुरितादृतावृधो
रक्षा मार्किनोअघशंस ईशत ॥ ४७ ॥

ब्राह्मणासः । पितरः । सोम्यासः । शिवेऽइति शिवे । नः । द्यावापृथिवीऽ-
इति द्यावापृथिवी । अनेहसा । पूषा । नः । पातु । दुरितादिति दुःऽदृतात् ।
ऋतावृधः । ऋतावृधऽइत्यृतऽवृधः । रक्ष । मार्किः । न । अघशंस इत्यघऽ
शंसः । ईशत ॥ ४७ ॥

पदार्थः—(ब्राह्मणासः) वेदेश्वरविदः (पितरः) पालकाः
(सोम्यासः) ये सोमगुणानर्हन्ति ते (शिवे) कल्याणकरे
(नः) अस्मभ्यम् (द्यावापृथिवी) प्रकाशभूमी (अनेहसा)
अविनाशिनौ (पूषा) पुष्टिकरः (नः) अस्मान् (पातु) (दु-
रितात्) दुष्टान्यायाचरणात् (ऋतावृधः) यऋतं सत्यं वर्द्ध-
यन्ति ते (रक्ष) । अत्र द्व्यचोतस्तिङ् इति दीर्घः (मार्किः)
निषेधे (नः) अस्मान् (अघशंसः) पापप्रशंसी स्तेनः
(ईशत) समर्थो भवेत् ॥ ४७ ॥

अन्वयः— हे मनुष्या ये सोम्यास ऋतावृधः पितरोब्राह्मणासो
विद्वांसो नः कल्याणकरा अनेहसा द्यावापृथिवी च शिवे भवतः ।

पूषा परमात्मा नो दुरितात् पातु यतो नो हिंसितुमघशंसो माकिरीशत
तान् रक्ष स्तेनाञ्जहि ॥ ४७ ॥

भावार्थः— हे मनुष्या ये विद्वांसो युष्मान् धर्म्ये कृत्ये प्रवर्त्या दुष्टाचा-
रात् पृथक् रक्षन्ति दुष्टाचारिणां बलं निरून्धन्त्यस्माकं पुष्टिञ्च जनयन्ति
ते सदा सत्कर्तव्याः ॥ ४७ ॥

पदार्थः— हे मनुष्यो ! जो (सोम्यासः) उत्तम आनन्दकारक गुणों के यो-
ग्य (ऋतावृषः) सत्य को बढ़ाने वाले (पितरः) रक्षक (ब्राह्मणासः) वेद
और ईश्वर के जानने हारे विद्वान् जन (नः) हमारे लिये कल्याण करने हारे
और (अनेहसा) कारण रूप से अविनाशी (द्यावापृथिवी) प्रकाश पृथिवी
(शिवे) कल्याणकारी हों (पूषा) पुष्टि करने हारा परमात्मा (नः) हम को
(दुरितात्) दुष्टे अन्याय के आचरण से (पातु) बचावे जिस से (नः) हम
को मारने को (अघशंस) पाप की प्रशंसा करने हारा चोर (माकिः) न (ईशत)
समर्थ हो उन विद्वानों की तू रक्षा कर और चोरों को मार ॥ ४७ ॥

भावार्थः— हे मनुष्यो ! जो विद्वान् जन तुम को धर्मयुक्त कर्तव्य में प्रवृत्त कर
दुष्ट आचरण से पृथक् रखते दुष्टाचारियों के बल को नष्ट और हमारी पुष्टि करते वे
सदैव सत्कार करने योग्य हैं ॥ ४७ ॥

सुपर्णमित्यस्य भारद्वाज ऋषिः । वीरा देवताः ।

त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुना राजधर्ममाह ॥

फिर राजधर्म अगले मन्त्र में कहते हैं ॥

सुपर्णवस्ते मृगो अस्य दन्तो गोभिः संन-
द्धा पतति प्रसूता । यत्रा नरः सं च वि च द्र-
वन्ति तत्रास्मभ्यमिषवः शर्मै यं सन् ॥ ४८ ॥

सुपर्णमिति सुपर्णम् । वस्ते । मृगः । अस्याः । दन्तः । गोभिः । सन्नद्धे-
ति सम्बन्धा । पतति । प्रसूतेति प्रसूता । यत्र । नरः । सम् । च । वि । च ।
द्रवन्ति । तत्र । अस्मभ्यम् । इषवः । शर्म । यंसन् ॥ ४८ ॥

पदार्थः—(सुपर्णम्)शोभनानिपर्णानिपालनानिपूरणानि
यस्य तं रथादिकम् (वस्ते) धरति (मृगः) यो मा-
र्षि कस्तूर्या सः (अस्याः) (दन्तः) दाम्यते जनैः सः
(गोभिः) धेनुभिस्सह (सन्नद्धा) सम्यग्वद्धा (पतति)
(प्रसूता) प्रेरिता सती (यत्र) यस्याम् । अत्र ऋचित्तु-
नु० इति दीर्घः (नरः) नायकाः सम् सम्यक् (च) (वि)
विशेषेण (च) (द्रवन्ति) गच्छन्ति (तत्र) (अस्म-
भ्यम्) (इषवः) वाणाद्याः शस्त्रविशेषाः (शर्म) सु-
खम् (यंसन्) यच्छन्तु ददतु ॥ ४८ ॥

अन्वयः—हे वीरा यत्र सेनायां नरो नायकाः स्युर्मा सुपर्णं वस्ते यत्र
गोभिस्सह दन्तो मृगइव इषवो धावन्ति या सन्नद्धा प्रसूता शत्रुपु पतति
इतस्तत्रास्या वीराः सद्रवन्ति विद्रवन्ति च तत्रास्मभ्यं भवन्तः शर्म
यंसन् ॥ ४८ ॥

भाष्यार्थः—अत्र वाचकलु०—हे राजपुत्र्या युस्माभिः शत्रुभिरप्रघ-
र्षिणी रुष्टा पुष्टा सेना संपादनीया तस्यां सुपरीक्षिता योद्धारोऽध्यक्षाश्च
रक्षणीयास्तैः शस्त्रास्त्रप्रक्षेपणेषु कुशलैर्जनैर्निजयः प्राप्तव्यः ॥ ४८ ॥

पदार्थः—हे वीर पुरुषो ! (यत्र) जिस सेना में (नरः) नायक लोग
हैं जो (सुपर्णम्) सुन्दर पूर्ण रक्षा के साधन उस रथादि को (वस्ते)

धारण करती और जहां (गोभिः) गौओं के सहित (दन्तः जिस का दमन किया जाता उस (मृगः) कस्तूरी से शुद्ध करने वाले मृग के तुल्य (इषवः) वाण आदि शस्त्र विशेष चलते हैं जो (सन्नद्धा) सम्यक् गोष्ठी बंधी (भ्रूसूता) भेरंगा की हुई शत्रुओं में (पतित) गिरती (च) और इधर उधर (अस्याः) इस सेना के वीर पुरुष (सम्, द्रवन्ति) सम्यक् चलते (च) और (वि) विशेष कर दौड़ते हैं (तत्र) उस सेना में (अस्मभ्यम्) हमारे लिये आप लोग (शर्म) सुख (यंसन्) देखो ॥४८॥

भावार्थः— इस मन्त्र में वाचकलु०-हे राजपुरुषों ! तुम लोगों को चाहिये कि शत्रुओं से न धमकने वाली रुष्ट पुष्ट सेना सिद्ध करो उस में सुन्दर परीक्षित योद्धा और अध्यक्ष रखो उन शस्त्र शस्त्रों के चलाने में कुशल जनों से विजय को प्राप्त होओ ॥४८॥

ऋजीत इत्यस्य भारद्वाज ऋषिः । वीर देवताः ।

विराडनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनर्मनुष्यैः किं कर्तव्यमित्याह ॥

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस वि० ॥

ऋजीते परिवृङ्ग्धि नोऽश्मा भवतु नस्तनूः ।

सोमो अर्धं ब्रवीतु नोऽदितिः शर्म यच्छतु ॥४९॥

ऋजीते । परि । वृङ्ग्धि । नः । अश्मा । भवतु । नः । तनूः । सोमः ।
अर्धं । ब्रवीतु । नः । अदितिः । शर्म । यच्छतु ॥ ४९ ॥

पदार्थः—(ऋजीते) सरले व्यवहारे (परि) सर्वतः (वृङ्ग्धि) वर्तय (नः) अस्माकम् (अश्मा) यथा पाषाणः (भवतु) (नः) अस्माकम् (तनूः) शरिरम् (सोमः) ओ-

षधिराजः (अधि) (ब्रवीतु) (नः) अस्मभ्यम् (अदितिः)

पृथिवीं (शर्म) गृहं सुखं वा (यच्छतु) ददातु ॥ ४६ ॥

अन्वयः—हे विद्वंस्त्वमृजीते नोऽस्माकं शरीराद्दोगान् परिवृद्धिं यतो नस्तनूरशना भवतु यः सोमोऽस्ति तं याचादितिरस्ति ते भवाऽऽधि ब्रवीतु नः शर्म च यच्छतु ॥ ४६ ॥

भावार्थः—यदि मनुष्या ब्रह्मचर्यौषधपथ्यसुनियमसेवनेन शरीराणि रक्षे-
युस्तर्हि तेषां शरीराणि दृढानि भवेयु र्गथा शरीराणां पार्थिवादि गृहमस्ति
तथा जीवस्येदं गृहम् ॥ ४६ ॥

पदार्थः—हे विद्वन् पुरुष ! आप (ऋजीते) सरल व्यवहार में (नः) हमारे शरीर
से रोगों को (परि, वृद्धि) सब ओर से पृथक् कीजिये जिस से (नः) हमारा
(तनूः) शरीर (अश्मा) पत्थर के तुल्य दृढ (भवतु) हो जा (सोमः) उत्तम ओ-
षधि है उस और जो (अदितिः) पृथिवी है उन दोनों का आप (अधि, ब्रवीतु)
अधिकार उपदेश कीजिये और (नः) हमारे लिये (शर्म) सुख वा घर (यच्छतु)
दीजिये ॥ ४६ ॥

भावार्थः—जो मनुष्य ब्रह्मचर्य, औषध, पथ्य और सुन्दर नियमों के सेवन से श-
रीरों की रक्षा करें तो उन के शरीर दृढ हों जैसे शरीरों का पृथिवी आदि का बना
घर है वैसे जीव का यह शरीर घर है ॥ ४६ ॥

आजङ्घन्तीत्यस्य भारद्वाज ऋषिः । वीरा देवताः ॥

विराडनुष्टुप् छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुना राजधर्ममाह ॥

फिर राजधर्म को कहते हैं ॥

आ जङ्घन्ति सान्वैषां जघनांश्च ॥ उप जिघ्नते ।

अश्वाजनि प्रचैतसोऽश्वान्तसमत्सु चोदय ॥५०॥

आ । जङ्घन्ति । सानु । एषाम् । जघनान् । उप । जिघ्नते । अश्वाज-
नीत्यश्वजनि । प्रचेतसः इति प्रचेतसः । अश्वान् । समत्सु । चोदय ॥ ५० ॥

पदार्थः—(आ) समन्तात् (जङ्घन्ति) भृशं घ्नन्ति
ताडयन्ति (सानु) अवयवम् (एषाम्) अश्वादीनाम्
(जघनान्) यूनः (उप) (जिघ्नते) घ्नन्ति गमय-
न्ति (अश्वाजनि) या अश्वान् जनयति सुशिक्षितान्
करोति तत्सम्बुद्धौ (प्रचेतसः) शिक्षया प्रकर्षण विज्ञा-
पितान् (अश्वान्) तुरङ्गान् (समत्सु) सङ्ग्रामेषु (चो-
दय) प्रेरय ॥ ५० ॥

अन्वयः—हे अश्वाजनि विदुषि राक्षि यथा वीरा एषां सानु आजङ्घन्ति
जघनानुप जिघ्नते तथा त्वं समत्सु प्रचेतसोऽश्वान् चोदय ॥ ५० ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—यथा राजा राजपुरुषाश्च यानाश्वबालनयुद्ध-
व्यवहारान् जानीयुस्तथा तस्त्रियोऽपि विजानन्तु ॥ ५० ॥

पदार्थः—हे (अश्वाजनि) घोड़ों को शिक्षा देने वाली विदुषि राणी
जैसे वीर पुरुष (एषाम्) इन घोड़ों आदि के (सानु) अवयव को (आ, ज-
जङ्घन्ति) अच्छे प्रकार शीघ्र ताड़ना करते हैं (जघनान्) जानों को (उप-
जिघ्नते) समीप से चलाते हैं वैसे तू (समत्सु) सङ्ग्रामों में (प्रचेतसः)
शिक्षा से विशेष कर चेतन किये (अश्वान्) घोड़ों को (चोदय) प्रेरणा
कर ॥ ५० ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे राजा और राजपुरुष विमानादि रथ और
घोड़ों के चलाने तथा युद्ध के व्यवहारों को जान वैसे उन की स्त्रियां भी जानें ॥ ५० ॥

अहिरिवेत्यस्य भारद्वाज ऋषिः । महावीरः सेनापतिर्देवता ।

त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

अहिरिव भोगैः पर्यैति बाहुं ज्यायां हेतिं प-
रिबाधमानः । हस्तध्नो विश्वा वयुनानि विद्वा-
न्पुमान्पुमांसं परि पातु विश्वतः ॥ ५१ ॥

अहिरिवेत्याहिःऽइव । भोगैः । परि । एति । बाहुम् । ज्यायां । हेतिम् ।
परिबाधमानऽ इति परिऽबाधमानः । हस्तध्नऽ इति हस्तऽध्नः । विश्वा । व-
युनानि । विद्वान् । पुमान् । पुमांसम् । परि । पातु । विश्वतः ॥ ५१ ॥

पदार्थः—(अहिरिव) मेघ इव गर्जन् । अहिरिति मेघ-
ना० निघं० १ । १० (भोगैः) (परि) सर्वतः (एति) प्रा-
प्नोति (बाहुम्) बाधकं शत्रुम् (ज्यायाः) प्रत्यञ्चा-
याः (हेतिम्) वाणम् (परिबाधमानः) सर्वतो नि-
वारयन् (हस्तध्नः) यो हस्ताभ्यां हन्ति सः (विश्वा)
सर्वाणि (वयुनानि) विज्ञानानि (विद्वान्) (पुमान्)
पुरुषार्थी (पुमांसम्) (पुरुषार्थिनम्) (परि) सर्वथा
(पातु) रक्षतु (विश्वतः) संसारे भवाद्विघ्नात् ॥ ५१ ॥

अन्वयः—हे मनुष्य यो हस्तध्नो विद्वान् पुमान् भवान् ज्याया हेतिं
प्रक्षिप्य बाहु परिबाधमानः पुमांसं विश्वतः परि पातु सोऽहिरिव भोगैर्जि-
श्वा वयुनानि पर्यैति ॥ ५१ ॥

भावार्थः—अत्रोपमालं०—यो विद्वान् बाहुबलः शस्त्रास्त्रप्रक्षेपणविच्छ-
न्ननिवारयन्पुरुषार्थेन सर्वान् सर्वस्माद्भक्षन् मेघवत्सुखभोगवर्द्धकः स्यात्स
सर्वान् मनुष्यान् विद्याः प्रापयितुं समर्थो भवेत् ॥ ५१ ॥

पदार्थः—हे मनुष्य ! जो (हस्तघ्नः) हाथों से मारने वाले (विद्वान्) वि-
द्वान् (पुमान्) पुरुषार्थी आप (ज्यायाः) प्रत्यञ्चा से (हेतिम्) बाण को चला
के (बाहुम्) बाधा देने वाले शत्रु को (परिवाधमानः) सब ओर से निवृत्त
करते हुए (पुमांसम्) पुरुषार्थी जन की (विश्वतः) सब प्रकार से (परि, पा-
तु) चारों ओर से रक्षा कीजिये सो (अहिरिव) मेघ के तुल्य गर्जते हुए आप
(भोगैः) उत्तम भोगों के सहित (विश्वा) सब (वयुनानि) विद्वानों को
(परि, एति) सब ओर से प्राप्त होते हो ॥ ५१ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में उपमालं०—जो विद्वान् भुजबल वाला शस्त्र अस्त्र के च-
लाने का ज्ञाता शत्रुओं को निवृत्त करता पुरुषार्थ से सब की सब से रक्षा करता हुआ
मेघ के तुल्य सुख और भोगों का बढ़ाने वाला हों वह सब मनुष्यों को विद्या प्राप्त करा-
ने को समर्थ होवे ॥ ५१ ॥

वनस्पत इत्यस्य भारद्वाज ऋषिः । सुवीरो देवता ।

भुरिक् पंक्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

पुना राजप्रजाधर्मविषयमाह ॥

फिर राजप्रजा धर्म वि० ॥

वनस्पते वीड्वड्गोहि भूया अस्मत्सखा प्रत-
रंगाः सुवीरः । गोभिः सन्नद्धो असि वीड्यस्वा-
स्थाता ते जयतु जेत्वानि ॥ ५२ ॥

वनस्पते । वीड्वड्गः इति वीडुश्चङ्गः । हि । भूयाः । अस्मत्सखेत्यस्मत्स
सखा । प्रतरंगाः इति प्रतरणः । सुवीरः इति सुवीरः । गोभिः । सन्नद्धः इति
सम्पन्नः । असि । वीड्यस्व । आस्थातेत्याऽस्थाता । ते । जयतु । जेत्वानि ॥ ५२ ॥

पदार्थः—(वनस्पते) किरणानां रक्षकः सूर्य इव व-
नादीनां पालक विद्वन् राजन् (वीडुङ्गः) प्रशंसिताङ्गः
(हि) (भूयाः) भवेः (अस्मत्सखा) अस्माकं मित्रम्
(प्रतरणः) शत्रुबलस्योल्लङ्घकः (सुवीरः) शोभना
वीरा यस्य सः (गोभिः) पृथिव्यादिभिः (सन्नद्धः) त-
त्परः सम्बद्धः (असि) (वीडयस्व) दृढान् कुरु (आ-
स्थाता) समन्तात् स्थिरः सेनापतिः (ते) तव (जयतु)
(जेत्वानि) जेतुं योग्यानि शत्रुसैन्यानि ॥ ५२ ॥

अन्वयः—हे वनस्पते त्वमस्मत्सखा प्रतरणः सुवीरो वीडुङ्गोहि भूयाः ।
यतो गोभिः सन्नद्धोऽस्यतोऽस्मान् वीडयस्व त आस्थाता वीरो जेत्वानि
जयतु ॥ ५२ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—यथा सूर्येण किरणानां किरणैः सूर्यस्य मि-
त्यः सम्बन्धोऽस्ति तथा राजसेनाप्रजानां सम्बन्धो भवितुं योग्यः । यदि से-
नेशादयो जितेन्द्रियाः शूरवीराः स्युस्तर्हि सेनाः प्रजा अपि सादृश्यो
भवेयुः ॥ ५२ ॥

पदार्थः—हे (वनस्पते) किरणों के रक्षक सूर्य के समान वन आदि के र-
क्षक विद्वन् राजन् ! आप (अस्मत्सखा) हमारे रक्षक मित्र (प्रतरणः) शत्रुओं
के बल का उल्लङ्घन करने हारे (सुवीरः) सुन्दर वीरपुरुषों से युक्त (वी-
डुङ्गः) प्रशंसित अवयव वाले (हि) निश्चय कर (भूयाः) हूजिये जिस
कारण आप (गोभिः) पृथिवी आदि के साथ (सन्नद्धः) सम्बन्ध रखते तत्पर
(असि) हैं इसलिये हम को (वीडयस्व) दृढ कीजिये (ते) आप का (अवस्थाता)

युद्ध में अच्छे २ प्रकार स्थिर रहने वाला वीर सेनापति (जेत्वानि) जीतने योग्य शत्रुओं को (जयतु) जीते ॥ ५२ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकतु०—जैसे सूर्य के साथ किरणों और किरणों के साथ सूर्य का नित्य सम्बन्ध है वैसे राजा सेना तथा प्रजाओं का सम्बन्ध होने योग्य है जो सेनापति आदि नितेन्द्रिय शूर वीर हों तो सेना और प्रजा भी वैसी ही नितेन्द्रिय हों ॥ ५२ ॥

दिव इत्यस्य भारद्वाज ऋषिः । वीरो देवता ।

विराट् जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥

पुनर्मुण्डयैः किं कर्तव्यमित्याह ॥

किर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस वि० ॥

दिवः पृथिव्याः पर्योज उद्धृतं वनस्पतिभ्यः
पर्याभूतं सहः । अपामोज्मानं परि गोभि-
रावृतमिन्द्रस्य वज्रं हविषा रथं यज ॥ ५३ ॥

दिवः । पृथिव्याः । परि । ओजः । उद्धृतमित्युत्सृष्टम् । वनस्पतिभ्यः-
इति वनस्पतिभ्यः । परि । आभूतामत्यासृष्टम् । सहः । अपाम् । ओज्मा-
नम् । परि । गोभिः । आवृतमित्यासृष्टम् । इन्द्रस्य । वज्रम् । हविषा ।
रथम् । यज ॥ ५३ ॥

पदार्थः—(दिवः) सूर्यात् (पृथिव्याः) भूमेः (परि)
(ओजः) पराक्रमम् (उद्धृतम्) उत्कृष्टतया धृतम्
(वनस्पतिभ्यः) वटादिभ्यः (परि) (आभूतम्) सम-

न्तात् पोषितम् (सहः) बलम् (अपाम्) जलानां स-
काशात् (ओज्मानम्) पराक्रमयुक्तं रसम् (परि) (गो-
भिः) किरणैः (आवृतम्) आच्छादितम् (इन्द्रस्य)
सूर्यस्य (वज्रम्) कुलिशामिव (हविषा) आदानेन
(रथम्) यानम् (यज) ॥ ५३ ॥

अन्वयः—हे विद्वंस्त्वं दिवः पृथिव्या उद्धृतभोजः परि यज वनस्पति-
भ्य आभृतं सहः परि यज । अषां सकाशादोज्मानं परि यज । इन्द्रस्य गो-
भिरावृतं वज्रं रथं हविषा यज ॥ ५३ ॥

भावार्थः—मनुष्यैः पृथिव्यादिभ्यो भूतेभ्यस्तज्जायाः सृष्टेश्च सकाशा-
द्बलपराक्रमैवर्द्धनीयौ तद्योगेन च विमानादीनि यानानि निर्मातव्यानि ॥५३॥

पदार्थः—हे विद्वन् ! आप (दिवः) सूर्य और (पृथिव्याः) पृथिवी से (उ-
द्धृतम्) उत्कृष्टता से धारण किये (भोजः) पराक्रम को (परि, यज) सब
ओर से दीजिये (वनस्पतिभ्यः) वट आदि वनस्पतियों से (आभृतम्) अच्छे
अकार पुष्ट किये (सहः) बल को (परि) सब ओर से दीजिये (अपाम्) जलों के
सम्बन्ध से (ओज्मानम्) पराक्रम वाले रस को (परि) चारों ओर से दीजिये ।
तथा (इन्द्रस्य) सूर्य की (गोभिः) किरणों से (आवृतम्) युक्त चिलकते हुए
(वज्रम्) वज्र के तुल्य (रथम्) यान को (हविषा) ग्रहण से संगत कीजिये ॥५३॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि पृथिवी आदि भूतों और उन से उत्पन्न हुई
सृष्टि के सम्बन्ध से बल और पराक्रमों को बढ़ावें और उन के योग से विमान आदि
यानों को बनाया करें ॥ ५३ ॥

इन्द्रस्येत्यस्य भारद्वाज ऋषिः । वीरो देवता ।

निचृत् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

इन्द्रस्य वज्रो मरुतामनीकं मित्रस्य गर्भो-
वरुणस्य नाभिः । सेमां नो हव्यदातिं जुषाणो
देव रथ प्रति हव्या गृभाय ॥ ५४ ॥

इन्द्रस्य । वज्रः । मरुताम् । अनीकम् । मित्रस्य । गर्भः । वरुणस्य । नाभिः ।
सः । इमाम् । नः । हव्यदातिमिति हव्यदातिम् । जुषाणः । देव । रथ ।
प्रति । हव्या । गृभाय ॥ ५४ ॥

पदार्थः— (इन्द्रस्य) विद्युतः (वज्रः) निपातः (मरु-
ताम्) मनुष्याणाम् (अनीकम्) सैन्यम् (मित्रस्य)
सख्युः (गर्भः) अन्तस्थ आशयः (वरुणस्य) श्रेष्ठस्य
(नाभिः) आत्मनो मध्यवर्ती विचारः (सः) (इमाम्)
प्रत्यक्षाम् (नः) अस्मान् (हव्यदातिम्) दातव्यानां
दानम् (जुषाणः) सेवमानः (देव) दिव्यविद्य (रथ)
रमणीयस्वरूप (प्रति) (हव्या) आदातुमर्हाणि वस्तू-
नि (गृभाय) गृहाण ॥ ५४ ॥

अन्वयः— हे देव रथेमां हव्यदातिं जुषाणस्स त्वं य इन्द्रस्य वज्रो म-
रुतामनीकं मित्रस्य गर्भो वरुणस्य नाभिरस्य तं नोऽस्मान् हव्या च प्रति
गृभाय ॥ ५४ ॥

भावार्थः— येषां मनुष्याणां सेनाऽतिश्रेष्ठा विद्युद्विद्या मित्राशय आ-
सविचारो विद्यादिदानञ्च स्वीकृतानि सन्त्ययेभ्यो देयानि च ते सर्वतो
मङ्गलावृताः स्युः ॥ ५४ ॥

पदार्थः— हे (देव) उत्तम विद्या वाले (रथ) रमणीय स्वरूप विद्वान् !
(इमाम्) इस (हव्यदातिम्) देने योग्य पदार्थों के दान को (जुपाणः)
सेवते हुए (सः) पूर्वोक्त आप जो (इन्द्रस्य) विजुली का (वज्रः) गिरना
(मरुताम्) मनुष्यों की (अनीकम्) सेना (मित्रस्य) मित्र के (गर्भः) अन्तः-
करण का आशय और (वरुणस्य) श्रेष्ठ जन के (नाभिः) आत्मा का
मध्यवर्ती विचार है उस को (नः) और हम को (हव्या) ग्रहण करने योग्य वस्तुओं
को (प्रति, गृधाय) प्रतिग्रह अर्थात् स्वीकार कीजिये ॥ ५४ ॥

भावार्थः— जिन मनुष्यों की सेना अतिश्रेष्ठ, विजुली की विद्या, मित्र का आ-
शय, प्राप्त सत्यवक्ताओं का विचार और विद्यादि का दान स्वीकार किये तथा दूसरों को
दिये हैं वे सब ओर से मंगलयुक्त होंगे ॥ ५४ ॥

उपश्वासयेत्यस्य भारद्वाज ऋषिः । वीरा देवताः ।

भुरिक् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

उपंश्वासय पृथिवीसुत द्यां पुरुत्रा ते मनुतां
विष्टितज्जगत् । स दुन्दुभे स्रजूरिन्द्रेण देवैर्दू-
राहवीयो अपं सेधु शत्रून् ॥ ५५ ॥

उपं । श्वासय । पृथिवीम् । उत । द्याम् । पुरुत्रेति पुरुऽत्रा ।
ते । मनुताम् । विष्टितम् । विस्थितामिति विऽस्थितम् । जगत् । सः । दुन्दुभे ।

सज्जूरिति सज्जुः । इन्द्रेण । देवैः । दूरात् । दवीयः । अप । सेध । शत्रून् ॥५५॥

पदार्थः—(उप) (श्वासय) प्राणय (पृथिवीम्)
अन्तरिक्षम् (उत) अपि (द्याम्) विद्युत्प्रकाशम् (पु-
रुत्रा) बहुविधम् (ते) तव (मनुताम्) विजानातु
(विष्टितम्) व्याप्तम् (जगत्) (सः) (दुन्दुभे) दु-
न्दुभिरिव गम्भीरगर्जन ! (सज्जुः) संयुक्तः (इन्द्रेण) ऐ-
श्वर्येण युक्तैः (देवैः) दिव्यैर्विद्वद्भिर्गुणैर्वा (दूरात्) (द-
वीयः) अतिदूरम् (अप) (सेध) दूरीकुरु (शत्रून्) ॥५५॥

अन्वयः—हे दुन्दुभे स त्वमिन्द्रेण देवैः सज्जूर्द्राच्छत्रून् दवीयोपसेध
पुरुत्रा पृथिवीमुत द्यामुपश्वासय भवान् ताभ्यां विष्टितं जगन्मनुनां तस्य
ते राज्यमानन्दितं स्यात् ॥ ५५ ॥

भावार्थः—ये मनुष्या विद्युद्विद्याजैरस्त्रैः शत्रून् दूरे प्रक्षिप्यैश्वर्येण वि-
दुषो दूरादाहूय सत्कुयु रन्तर्गिष्विद्युद्भ्यां व्याप्तं सर्वं जगद्विज्ञाय विविधा
विद्याः क्रियाः साधयैयुस्ते जगदानन्दयितारः स्युः ॥ ५५ ॥

पदार्थः—हे (दुन्दुभे) नगाड़े के तुल्य गरजने हारे (सः) सो आप (इ-
न्द्रेण) ऐश्वर्य से युक्त (देवैः) उत्तम विद्वान वा गुणों के साथ (सज्जुः)
संयुक्त (दूरात्) दूर से भी (दवीयः) अति दूर (शत्रून्) शत्रुओं को (अप-
सेध) पृथक् कीजिये (पुरुत्रा) बहुत विध (पृथिवीम्) आकाश (उत) और
(द्याम्) बिजुली के प्रकाश को (उप श्वासय) निकट जीवन धारण कराइ-
इये आप उन अन्तरिक्ष और बिजुली से (विष्टितम्) व्याप्त (जगत्) संसार
को (मनुताम्) मानो उस (ते) आप को राज्य आनान्दित होवे ॥ ५५ ॥

भावार्थः—जो मनुष्य विद्युत् विद्या से हुए अस्त्रों से शत्रुओं को दूर फेंक पेशवर्ध से विद्वानों को दूर से बुला के सत्कार करें अन्तरिक्ष और विजुली से व्याप्त सब जगत् को जान विविध प्रकार की विद्या और क्रियाओं को सिद्ध करें वे जगत् को आनन्द कराने वाले होते हैं ॥ ५५ ॥

आक्रन्दयेत्यस्य भारद्वाज ऋषिः । वादयितारो वीरा देवताः ।

भुरिक् त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

राजपुरुषैः किं कर्तव्यमित्याह ॥

राजपुरुषों को क्या करना चाहिये इस वि० ॥

आ क्रन्दय बलमोजो न आ धा निष्टनिहि
दुरिता वाधमानः । अप प्रोथ दुन्दुभे दुच्छुना इत
इन्द्रस्य मुष्टिरसि वीडयस्व ॥ ५६ ॥

आ । क्रन्दय । बलम् । ओजः । नः । आ । धाः । निः । स्तनिहि । दु-
रिति दुःऽहता । वाधमानः । अप । प्रोथ । दुन्दुभे । दुच्छुनाः । इतः । इन्द्रस्य
मुष्टिः । अस्मि । वीडयस्व ॥ ५६

पदार्थः—(आ) (क्रन्दय) समन्ताद् हृय रोदय वा
(बलम्) (ओजः) पराक्रमम् (नः) अस्मभ्यम्
(आ) (धाः) धेहि (निः) नितराम् (स्तनिहि)
विस्तृणीहि (दुरिता) दुष्टानि व्यसनानि (वाधमा-
नः) निवारयन् (अप) (प्रोथ) परि प्राप्नुहि (दु-
न्दुभे) दुन्दुभिरिव गर्जितसेन ! (दुच्छुनाः) दुष्टाः
श्वान इव वर्तमानाः (इतः) सेनायाः (इन्द्रस्य) वि-
द्युतः (मुष्टिः) मुष्टिरिव (अस्मि) (वीडयस्व)
दृढय ॥ ५६ ॥

अन्वयः—हे दुन्दुभे दुरिता बाधमानस्त्वं नो बलमाक्रन्दयौज आधाः
सैन्यं निष्टनिहि ये दुच्छुनास्तानपाक्रन्दय यतस्त्वं मुष्टिरसि तस्मादित इन्द्र-
स्य वीडयस्व सुखानि प्रोथ ॥ ५६ ॥

भावार्थः— राजपुरुषैः श्रेष्ठाः सत्कर्तव्या दुष्टा रोदनीयाः सर्वेषां दुर्व्य-
सनानि दूरीकारयित्वा सुखानि प्राप्तयानि ॥ ५६ ॥

पदार्थः—हे (दुन्दुभे) नगादों के तुल्य जिन की सेना गर्जती ऐसे सेना-
पते (दुरिता) दुष्ट व्यसनों को (बाधमानः) निवृत्त करते हुए आप (नः)
हमारे लिये (बलम्) बल को (आ, क्रन्दय) पहुंचाइये (ओजः) पराक्रम
को (आधाः) अच्छे प्रकार धारण कीजिये सेना को (निष्टनिहि) वि-
स्तृत कीजिये जो (दुच्छुनाः) दुष्ट कुत्तों के तुल्य वर्तमान हैं उन को (अप)
नुरे प्रकार रूलाइये जिस कारण आप (मुष्टिः) मूठों के तुल्य प्रबन्धकर्ता (अ-
सि) हैं इस से (इतः) इस सेना से (इन्द्रस्य) विजुली के अवयवों को (वी-
डयस्व) दृढ़ कीजिये और सुखों को (प्रोथ) पूरण कीजिये ॥ ५६ ॥

भावार्थः— राजपुरुषों को चाहिये कि श्रेष्ठों का सत्कार करें दुष्टों को रूलावें
सब मनुष्यों के दुर्व्यसनों को दूर करके सुखों को प्राप्त करें ॥ ५६ ॥

आमूरित्यस्य भारद्वाज ऋषिः । वादयितारो वीरा देवताः ।

भुरिक् पंक्तिश्लग्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयसाह ॥

फिर उसी वि० ॥

आमूरज प्रत्यावर्त्तयेमाः केंतुमहुन्दुभिर्वाव-
दीति । समश्चपणाश्चरन्ति नो नरोऽस्माकमि-
न्द्र रथिनां जयन्तु ॥ ५७ ॥

आ । अमूः । अज । प्रत्यावर्त्तयेति प्रतिऽआवर्त्तय । इमाः । केतुमदिति केतु-
मत् । दुन्दुभिः । वावदीति । सम् । अश्वपर्णाऽइत्यश्वऽपर्णाः । चरन्ति । नः ।
नरः । अस्माकम् । इन्द्र । रथिनः । जयन्तु ॥ ५७ ॥

पदार्थः—(आ) समन्तात् (अमूः) शत्रुसेनाः (अज)
प्राक्षिप (प्रत्यावर्त्तय) (इमाः) स्वसेनाः (केतुमत्) केतुः
प्रशस्ता ध्वजा यासु ताः । अत्र स्त्रीप्रत्ययस्य लुक् । (दुन्दु-
भिः) (वावदीति) (सम्) (अश्वपर्णाः) अश्वानां पर्णानि
पालनानि यासु सेनासु ताः (चरन्ति) गच्छन्ति (नः) अ-
स्मान् (नरः) नायकाः (अस्माकम्) (इन्द्र) परमैश्व-
र्ययुक्तरथिनः प्रशस्तरथयुक्ता वीराः (जयन्तु) ॥ ५७ ॥

अन्वयः—हे इन्द्र त्वमसू राज इमाः केतुमत् प्रत्यावर्त्तय यथा दु-
न्दुभिर्वावदीति तथा नोऽश्वपर्णाः सञ्चरन्ति येऽस्माकं रथिनो नरः शत्रू-
ञ्जयन्तु ते सत्कृताः स्युः ॥ ५७ ॥

भावांर्थः—अत्र वाचकलु०—ये राजपुरुषाः शत्रुसेना निवर्त्तयितुं स्व-
सेना योधयितुं समर्थाः स्युस्ते सर्वत्र शत्रूञ्जेतुं शक्नुयुः ॥ ५७ ॥

पदार्थः—हे (इन्द्र) परम ऐश्वर्ययुक्त राजपुरुष! आप (अमूः) उन शत्रु
सेनाओं को (आ, अज) अच्छे प्रकार दूर फेंकिये (केतुमत्) ध्वजा वाली
(इमाः) इन अपनी सेनाओं को (प्रति, आवर्त्तय) लौटा लावो जैसे (दुन्दु-
भिः) नगाड़ा (वावदीति) अत्यन्त वज्रता है वैसे (नः) हम को (अश्वपर्णाः)
घोड़ों का जिन में पालन हो वे सेना (सम्, चरन्ति) सम्यक् विचरती हैं

जो (अस्माकम्) हमारे (रथिनः) प्रशंसित रथों पर चढ़े हुए वीर (नरः)
नायक जन शत्रुओं को (जयन्तु) जीते वे सत्कार को प्राप्त हों ॥ ५० ॥

भाषार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जो राजपुरुष शत्रुओं की सेनाओं को निवृत्त
करने और अपनी सेनाओं को युद्ध करने को समर्थ हों वे सर्वत्र शत्रुओं को जीत
सकें ॥ ५७ ॥

आग्नेय इत्पस्य भारद्वाज ऋषिः । विद्वांसो देवताः ।

भुरिगत्यष्टिशुन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

अथ कीदृशाः पशवः किं गुणा इत्याह ॥

अथ कैसे पशु कैसे गुणों वाले होते हैं इस वि० ॥

आग्नेयः कृष्णाग्नीवः सारस्वती भेषी बभ्रुः सौ-
म्यः पौष्णाः श्यामः शितिपृष्ठो बार्हस्पत्यः शिल्पो
वैश्वदेव ऐन्द्रोऽरुणो मारुतः कल्माष ऐन्द्राग्नः
संहितोऽधोरामः सावित्रो वारुणाः कृष्ण एक-
शितिपात्पेत्वः ॥ ५८ ॥

आग्नेयः । कृष्णाग्नीवः इति कृष्णाऽग्नीवः । सारस्वती । भेषी । बभ्रुः ।
सौम्यः । पौष्णाः । श्यामः । शितिपृष्ठ इति शितिऽपृष्ठः । बार्हस्पत्यः । शिल्पः ।
वैश्वदेव इति वैश्वऽदेवः । ऐन्द्रः । अरुणः । मारुतः । कल्माषः । ऐन्द्राग्नः ।
संहित इति सम्ऽहितः । अधोराम इत्यधऽरामः । सावित्रः । वारुणः ।
कृष्णः । एकशितिपादित्येकऽशितिपात् । पेत्वः ॥ ५८ ॥

पदार्थः—(आग्नेयः) अग्निदेवताकः(कृष्णग्रीवः) कृष्णा ग्रीवा यस्य सः (सारस्वती) सरस्वती देवताका (मेषी) (बभ्रुः) धूम्रवर्णाः (सौम्यः) सोमदेवताकः (पौष्णः) पूष- देवताकाः (श्यामः) श्यामवर्णः (शितिपृष्ठः) कृष्णपृष्ठः (बार्हस्पत्यः) बृहस्पतिदेवताकः (शिल्पः) नाना वर्णाः (वैश्वदेवः) विश्वदेवदेवताकः (ऐन्द्रः) इन्द्रदेवताकः (अ- रूणः) रक्तवर्णाः (मारुतः) मरुद्देवताकः (कल्माषः) श्वेत- कृष्णावर्णाः (ऐन्द्राग्नः) इन्द्राग्निदेवत्यः (संहितः) दृढाङ्गः (अधोरामः) अधःक्रीडी (सावित्रः) सवितृदेवताकः (वा- रुणाः) वरुणदेवत्यः (कृष्णः) (एकशितिपात्) एकः शितिः पादोऽस्य (पेत्वः) पतनशीलः ॥ ५८ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यूँ यं य आग्नेयः स कृष्णग्रीवो या सारस्वती सा मेषी यः सौम्यः स बभ्रुर्गः पौष्णः स श्यामो बार्हस्पत्यः स शितिपृष्ठो यो- वैश्वदेवः स शिल्पो य ऐन्द्रः सोऽरूणो यो मारुतः स कल्माष य ऐन्द्राग्नः स संहितो यः सावित्रः सोऽधोरामो य एकशितिपात्पेत्वः कृष्णः स वारुण- श्रेत्येतान् विजानीत ॥५८॥

भावार्थः—हे मनुष्या युष्माभिर्यद्यद्देवत्या ये ये पशवो विख्यातास्तै- तत्त- द्गुणाऽतिरिषा सन्तीति वेद्यम् ॥५८॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! तुम लोग जो (आग्नेयः) अग्नि देवता वाला अर्थात् अग्नि के उत्तम गुणों से युक्त है वह (कृष्णग्रीवः) काले गले वाला पशु जो (सारस्वती) सरस्वती वाणी के गुणों वाली वह (मेषी) भेड़ जो (सौम्यः) चन्द्रमा के गुणों वाला वह (बभ्रुः) धुमेला पशु जो (पौष्णः) पुष्टि आदि गुणों वाला वह (श्यामः) श्याम रंग से युक्त पशु जो (बार्हस्पत्यः) दृढ़े

आकाशादि के पालन आदि गुणयुक्त वह (शितिपृष्ठः) काली पीठ वाला पशु जो (वैश्वदेवः) सब विद्वानों के गुणों वाला वह (शिल्पः) अनेक वर्ण युक्त जो (ऐन्द्रः) सूर्य के गुणों वाला वह (अरुणः) लालरंग युक्त जो (मारुतः) वायु के गुणों वाला वह (कल्माषः) खाखी रंगयुक्त जो (ऐन्द्राग्नः) सूर्य अग्नि के गुणों वाला वह (संहितः) मोटे दृढ़ अङ्गयुक्त जो (सावित्रः) सूर्य के गुणों से युक्त वह (अधोरामः) नीचे विचरने वाला पत्नी जो (एकशितिपात्) जिस का एक पग काला (पेट्वः) उड़ने वाला और (कृष्णः) काले रंग से युक्त वह (वारुणः) जल के शान्त्यादि गुणों वाला है इस प्रकार इन सब को जानो ॥ ५८ ॥

भावार्थः—हे मनुष्यो ! तुम लोगों को चाहिये कि जिस २ देवता वाले जो २ पशु विख्यात हैं वे २ उन २ गुणों वाले उपदेश किये हैं ऐसा जानो ॥ ५८ ॥

अग्नय इत्यस्य भारद्वाज ऋषिः । अग्न्यादयो देवताः ।

भुरिगतिशक्वरी छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

अग्नयेऽनीकवते रोहिताञ्जिरनड्वानधोरामौ
सावित्रौ पौष्णौ रजतनाभी वैश्वदेवौ पिशङ्गौ
तूपरौ मारुतः कल्माषं आग्नेयः कृष्णोऽजः सा-
रस्वती मेषी वारुणाः पेट्वः ॥ ५९ ॥

अग्नये । अनिकवतः इत्यनिकवते । रोहिताञ्जिरिति रोहितः अञ्जिः ।
अनड्वान् । अधोरामावित्यधःरामौ । सावित्रौ । पौष्णौ । रजतनाभी इति

रजतऽनाभी । वैश्वदेवाविति वैश्वऽदेवौ । पिशङ्गौ । तूपरौ । मारुतः । कल्माषः ।
आग्नेयः । कृष्णः । अजः । सारस्वती । मेधी । वारुणः । पेतवः ॥ ५९ ॥

पदार्थः—(अग्नये) विज्ञानादिगुणप्रकाशाय (अनी-
कवते) प्रशस्तसेनायुक्ताय (रोहिताग्निः) रोहिताः
रक्ता अञ्जयो लक्ष्णानि यस्य सः (अनड्वान्) वृषभः
(अधोरामौ) अधोभागे श्वेतवर्णौ (सावित्रौ) सवि-
तृगुणौ (पौष्णौ) पूषदैवत्यौ (रजतनाभी) रजतवर्णा-
नाभियुक्तौ (वैश्वदेवौ) (पिशङ्गौ) पीतवर्णौ (तूपरौ)
अविद्यमानशृङ्गौ (मारुतः) मरुदैवत्यः (कल्माषः)
(आग्नेयः) अग्निदैवत्यः (कृष्णः) (अजः) (सार-
स्वती) वाक्गुणाः (मेधी) (वारुणः) जलगुणाः (पे-
त्वः) शीघ्रगामी ॥ ५९ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यूयं येऽनीकवतेऽग्नये रोहिताग्निरड्वान् सा-
धिव्रावधोरामौ पौष्णौ रजतनाभी वैश्वदेवौ तूपरौ पिशङ्गौ मारुतः कल्माषः
आग्नेयः कृष्णोऽजः सारस्वती मेधी वारुणः पेतवश्चास्ति ताव्यथा गुणं
संयोजय ॥ ५९ ॥

भावार्थः—अत्र पशूनां यावन्तो गुणा उक्तास्ते सर्वे गुणा एकस्मिन्नाग्नौ
संहिता सन्तीति वेद्यम् ॥ ५९ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! तुम लोग (अनीकवते) प्रशंसित सेना वाले (अ-
ग्नये) विज्ञान आदि गुणों के प्रकाशक सेनापति के लिये (रोहिताग्निः)
लाल चिन्हों वाला (अनड्वान्) बैल (सावित्रौ) सूर्य के गुण वाले (अ-
धोरामौ) नीचे भाग में श्वेत-वर्ण वाले (पौष्णौ) पुष्टि आदि गुण युक्त (र-
जतनाभी) चांदी के वर्ण के तुल्य जिनें की नाभि (वैश्वदेवौ) सब विद्वानों के संबंधी

(तूपरौ) मुण्डे (पिशङ्गौ) पीले दो पशु (मारुतः) वायु देवता वाला
 (कल्माषः) खारखी रङ्ग युक्त (आग्नेयः) अग्नि देवता वाला (कृष्णः, अजः)
 काला बकरा (सारस्वती) वाणी के गुणों वाली (मेषी) भेड़ और (वारुणः)
 जल के गुणों वाला (पेतवः) शीघ्रगामी पशु है उन सब को गुणों के अनु-
 कूल काम में लाओ ॥ ५९ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में पशुओं के जितने गुण कहे हैं वे सब एक अग्नि में इकट्ठे
 हैं यह जानना चाहिये ॥ ५९ ॥

अग्नयं इत्यस्य भारद्वाज ऋषिः । अग्न्यादयो देवताः ।

पूर्वस्य विराद् प्रकृतिः, वैराजाभ्यामित्युत्तरस्य

प्रकृतिश्छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

कीदृशा जनाः कार्याणि साधुं शक्नुवन्तीत्याह ॥

कैसे मनुष्य कार्यसिद्धि कर सकते हैं इस वि० ॥

अग्नये गायत्राय त्रिवृते रथन्तरायाष्टकपा-
 ल इन्द्राय त्रैलुभाय पञ्चदशाय बाह्वृतायैकादश-
 कपालो विश्वेभ्यो देवेभ्यो जागतेभ्यः सप्तदशे-
 भ्यो वैरूपेभ्यो द्वादशकपालो मित्रावरुणाभ्यामा-
 नुष्टुभाभ्यामेकविंशत्यां वैराजाभ्यां पयस्या
 बृहस्पतये पाङ्क्त्याय त्रिणवायं शाक्वराय चरुः
 सवित्र औष्णिहाय त्रयस्त्रिंशाय रैवताय द्वा-

दशकपालः प्राजापत्यश्चरुर्दित्यै विष्णुपत्न्यै च-
रुग्नये वैश्वानराय द्वादशकपालोऽनुमत्या अ-
ष्टकपालः ॥ ६० ॥

अग्नेये । गायत्राय । त्रिवृत इति त्रिवृते । राथन्तरायेति राथम्ऽन्तराय ।
अष्टकपाल इत्यष्टाऽकपालः । इन्द्राय । त्रैष्टुभाय । त्रैस्तुभायेति त्रैऽस्तुभाय
पञ्चदशायेति पञ्चऽदशाय । वार्हिताय । एकादशकपाल इत्येकादशऽकपा-
लः । विश्वेभ्यः । देवेभ्यः । जागतेभ्यः । सप्तदशेभ्यऽ इति सप्तऽदशेभ्यः ।
वैरूपेभ्यः । द्वादशकपाल इति द्वादशऽकपालः । मित्रावरुणाभ्याम् । आ-
नुष्टुभाभ्याम् । आनुस्तुभाभ्यामित्यानुऽस्तुभाभ्याम् । एकत्रिंशद्भ्यामित्ये-
कऽत्रिंशद्भ्याम् । वैराजाभ्याम् । पयस्या । बृहस्पतये । पाङ्क्त्याय । त्रिणवाय ।
त्रिणवायेति त्रिऽनवाय । शाकराय । चरुः । सवित्रे । औष्णिहाय । त्रयस्त्रि-
ंशदयेति त्रयऽत्रिंशदाय । रिवताय । द्वादशकपाल इति द्वादशऽकपालः ।
प्राजापत्य इति प्राजाऽपत्यः । चरुः । अदित्यै । विष्णुपत्न्या इति विष्णुऽ-
पत्न्यै । चरुः । अग्नेये । वैश्वानराय । द्वादशकपाल इति द्वादशऽ कपालः ।
अनुपता इत्यनुऽपतये । अष्टकपाल इत्यष्टाऽकपालः ॥ ६० ॥

पदार्थः—(अग्नेये) पावकाय (गायत्राय) गाय-
त्रादिछन्दोविज्ञापिताय (त्रिवृते) यस्त्रिभिः सत्वरजस्त-
मोगुणैर्युक्तस्तस्मै (राथन्तराय) यो रथैः समुद्रादींस्तरति
तस्मै (अष्टकपालः) अष्टसु कपालेषु संस्कृतः
(इन्द्राय) ऐश्वर्याय (त्रैष्टुभाय) त्रिष्टुप्छन्दसा

प्रख्याताय (पञ्चदशाय) पञ्चदश च यस्मिन्
 सन्ति तस्मै (बार्हताय) बृहतां सम्बन्धिने (एकादशक-
 पालः) एकादशसु कपालेषु संस्कृतः पाकः (विश्वेभ्यः)
 समस्तेभ्यः (देवेभ्यः) दिव्यगुरोभ्यो जनेभ्यः (जागतेभ्यः)
 जगतीबोधितेभ्यः (सप्तदशेभ्यः) एतत्सङ्ख्याया सङ्ख्याते-
 भ्यः वैरूपेभ्यः विविधस्वरूपेभ्यः (द्वादशकपालः)
 द्वादशसु कपालेषु संस्कृतः (मित्रावरुणाभ्याम्) प्राणी-
 दानाभ्याम् (आनुष्टुभाभ्याम्) (एकविंशाभ्याम्) एत-
 त्सङ्ख्यायुक्ताभ्याम् (वैराजाभ्याम्) विराट्छन्दो ज्ञा-
 पिताभ्याम् (पयस्या) पयसि जले कुशलौ (बृहस्पतये)
 बृहतां पालकाय (साङ्क्ताय) पङ्क्तिषु साधवे (त्रिण-
 वाय) त्रिभिः कर्मोपासनाज्ञानैः स्तुताय (शाक्वराय) श-
 क्तिजाय (चरुः) पाकः (सवित्रे) ऐश्वर्योत्पादकाय
 (औष्णिहाय) उष्णिग्वोधिताय (त्रयस्त्रिंशाय) एतत्स-
 ङ्ख्याताय (दैवताय) धनसम्बन्धिने (द्वादशकपालः)
 द्वादशसु कपालेषु संस्कृतः (प्राजापत्यः) प्रजापतिदेव-
 ताकः (चरुः) स्थालीपाकः (अदित्यै) अखण्डिताया
 अन्तरिक्षरूपायै (विष्णुपत्न्यै) विष्णुना व्यापकेन पा-
 लितायै (चरुः) पाकः (अग्नये) विद्युद्रूपाय (वै-
 श्वानराय) विश्वेषु सर्वेषु नरेषु राजमानाय (द्वादशक-
 पालः) (अनुमत्यै) यानुमन्यते तस्यै (अष्टाकपालः)
 अष्टसु कपालेषु संसाधितः ॥ ६० ॥

अन्यवः-हे मनुष्या ! युष्माभिस्त्रिवृते राधन्तराय गायत्रायाग्नेयेऽष्टा-
कपालः पञ्चदशाय त्रैष्टुभाय वार्हतायेन्द्राद्यैकादशकपालो विश्वेभ्यो जा-
गतेभ्यो सप्तदशेभ्यो वैरूपेभ्यो देवेभ्यो द्वादशकपाल आनुष्टुभाभ्यामेकविं-
शाभ्यां वैराजाभ्यां मित्रावरुणाभ्यां पयस्या बृहस्पतये पाङ्क्ताय त्रिणवाय
शाक्वराय चरुरौष्णिहाय त्रयस्त्रिंशाय दैवताय सवित्रे द्वादशकपालः प्रा-
जापत्यश्चरुरदित्यै विष्णुपत्न्यै चरुर्वैश्वानरायाग्नेये द्वादशकपालीनुमत्या
अष्टाकपालश्च निर्मातव्यः ॥ ६० ॥

भावार्थः-येऽन्यादिप्रयोगायाष्टाविधादीनि यन्त्राणि निर्मितीरन्ते
सृष्टैर्व्यक्तैः पदार्थैरनेकानि कार्याणि साहं शक्नुयुरिति ॥ ६० ॥

अस्मिन्नध्याये अग्निविद्बृहस्प्राणापानाऽध्यापकोपदेशकवागश्वाग्निवि-
द्बृहस्पशंसनीयपदार्थगृहद्वारत्रिदिनशिल्पित्रीशस्त्रास्त्रसेनाज्ञानिरक्षासृष्ट्युप-
कारग्रहणविघ्ननिवारणशत्रुसेनापराजयस्वसेनासंगरक्षणपशुगुणयज्ञानां नि-
रूपणादेतदर्थस्य पूर्वाऽध्यायोक्तार्थेन सह संगतिरस्तीति बोध्यम् ॥ ६० ॥

पदार्थः-हे मनुष्यो ! तुम लोगों को चाहिये कि (त्रिवृते) सत्व रज
और तमोगुण इन तीन गुणों से युक्त (राधन्तराय) रथों अर्थात् जल यानों
से समुद्रादि को तरने वाले (गायत्राय) गायत्री छन्द से जताये हुए (अग्नेये)
अग्नि के अर्थ (अष्टाकपालः) आठ खपरों में संस्कार किया (पञ्चदशाय)
पन्द्रहवें प्रकार के (त्रैष्टुभाय) त्रिष्टुप् छन्द से प्रख्यात (वार्हताय) बड़ों के
साथ सम्बन्ध रखने वाले (इन्द्राय) ऐश्वर्य के लिये (एकादशकपालः) एका-
दश खपरों में संस्कार किया पाक (विश्वेभ्यः) सब (जागतेभ्यः) जगती
छन्द से जताये हुए (सप्तदशेभ्यः) सत्रहवें (वैरूपेभ्यः) विविध रूपों वाले
(देवेभ्यः) दिव्य गुण युक्त मनुष्यों के लिये (द्वादशकपालः) बारह खपरों
में संस्कार किया पाक (आनुष्टुभाभ्याम्) अनुष्टुप् छन्द से प्रकाशित हुए (एक-
विंशाभ्याम्) इक्कीसवें (वैराजाभ्याम्) विराट् छन्द से जताये हुए (मित्रावरु-
णाभ्याम्) मित्रा और उदान के अर्थ (पयस्या) जल क्रिया में कुशल विद्वान्
(बृहस्पते) बड़ों के रक्षक (पाङ्क्ताय) पान्तों में श्रेष्ठ (त्रिणवाय) कर्म

उपासना और ज्ञानों से स्तुति किये (शाकराय) शक्ति से प्रगट हुए के लिये (चरुः) पाकविशेष (अग्निहाय) उष्णक् छन्द से जताये हुए (त्रयस्त्रिंशाय) तैतौशर्वे (रैवताय) धन के सम्बन्धि (सत्रिंशे) ऐश्वर्य उत्पन्न करने हारे के लिये (द्वादशकपालः) वारह खपरों में संस्कार किया (प्राजापत्यः) प्रजापति देवता वाला (चरुः) चटलोई में पका अन्न (आदित्यै) अखण्डित (विष्णुपत्न्यै) विष्णु व्यापक ईश्वर से रक्षित अन्तरिक्ष रूप के लिये (चरुः) पाक (वैश्वानराय) सब मनुष्यों में प्रकाशमान (अग्नये) विजुलीरूप अग्नि के लिये (अष्टाकपालः) वारह खपरों में पका हुआ और (अनुमत्यै) पीछे मानने वाले के लिये (अष्टाकपालः) आठ खपरों में सिद्ध किया पाक बनाना चाहिये ॥ ६० ॥

भावार्थः—जो मनुष्य अग्नि आदि के प्रयुक्त करने के लिये आठ प्रकार आदि के यन्त्रों को बनावेवे रचे हुए प्रसिद्ध पदार्थों से अनेक कार्यों को सिद्ध कर सकें ॥ ६० ॥

इस अध्याय में अग्नि, विद्वान्, घर, प्राण, अपान, अध्यापक, उपदेशक, वाणी, घोड़ा, अग्नि, विद्वान्, प्रशस्त पदार्थ, घर, द्वार, राति, दिन, शिल्पी, शोभा शस्त्र, अस्त्र, सेना, ज्ञानियों की रक्षा, मूर्ष्टि से उपकार ग्रहण, विघ्न निवारण, शत्रुसेना का पराजय अपनी सेना का सङ्ग और रक्षा पशुओं के गुण और यज्ञों का निरूपण होने से इस अध्याय के अर्थ की पूर्व अध्याय में कहे अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां परमविदुषां श्रीविरजा-

नन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण परमहंसपरिव्राजकाचार्येण

श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते संस्कृतार्थ-

भाषाभ्यां विभूषिते सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वेदभाष्ये एको-

नत्रिंशोऽध्यायः सम्पूर्णः ॥

ओ३म्

अथ त्रिंशोऽध्याय आरभ्यते ॥

ओ३म् विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा

यद्भद्रं तन्न आ सुव ॥ १ ॥

देवैत्यस्य नारायण ऋषिः । सविता देवता ।

त्रिष्टुप् छन्दः । धैवतः स्वरः ॥

तत्रादावीश्वरात्किं प्रार्थनीयमित्याह ॥

अब तीसरे अध्याय का आरम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में ईश्वर से

क्या प्रार्थना करनी चाहिये इस वि० ॥

देव सवितः प्र सुव यज्ञं प्र सुव यज्ञपतिं

भगाय । दिव्यो गन्धर्वः केतपूःकेतन्नः पुनातु

वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु ॥ १ ॥

देव । सवितरिति सवितः । प्र । सुव । यज्ञम् । प्र । सुव । यज्ञपतिमिति य-
ज्ञपतिम् । भगाय । दिव्यः । गन्धर्वः । केतपूरिति केतपूः । केतम् । नः ।

पुनातु । वाचः । पतिः । वाचम् । नः । स्वदतु ॥ १ ॥

पदार्थः—(देव) दिव्यस्वरूप (सवितः) सकलैश्व-
र्ययुक्त जगदुत्पादक (प्र) प्रकर्षणा (सुव (संपादय
(यज्ञम्) राजधर्माख्यम् (प्र) (सुव) उत्पादय (यज्ञ-
पतिम्) यज्ञस्य राज्यस्य पालकम् (भगाय) ऐश्वर्य-

युक्ताय धनाय । भग इति धनना० निर्घ० २ । १० (दि-
व्यः) दिवि शुद्धस्वरूपे भवः (गन्धर्वः) यो गां पृथि-
वीं धरति । सः (केतपूः) यः केतं विज्ञानं पुनाति सः
(केतम्) प्रज्ञानम् । केत इति प्रज्ञाना० निर्घ० ३ । ६
(नः) अस्माकम् (पुनातु) पवित्रयतु (वाचस्पतिः)
वाण्याः पालकः (वाचम्) वाणीम् (नः) अस्माकम्
(स्वदतु) आस्वादयतु ॥ १ ॥

अन्वयः—हे देव सवितर्जागदीश्वर त्वं यो दिव्यो गन्धर्वः केतपू राजा
नः केतं पुनातु यो वाचस्पतिर्नो वाचं स्वदतु तं यज्ञपति भगाय प्रसुव य-
ज्ञञ्च प्रसुव ॥ १ ॥

भावार्थः—यो विद्याशिक्षावर्द्धकः शुद्धगुणकर्मस्वभावो राज्यं पातुं य-
थायोग्यैश्वर्यं वर्धको धार्मिकाणां पालकः परमेश्वरोपासकः सकलशुभगुणा-
ढ्यो भवेत्स एव राजा भवितुं योग्यो भवति ॥ १ ॥

पदार्थः—हे (देव) दिव्यस्वरूप (सवितः) समस्त ऐश्वर्य से युक्त और जगत्
को उत्पन्न करने हारे जगदीश्वर जो आप (दिव्यः) शुद्ध स्वरूप में हुआ
(गन्धर्वः) पृथिवी को धारण करने हारा (केतपूः) विज्ञान को पवित्र करने
वाला राजा (नः) हमारी (केतम्) बुद्धि को (पुनातु) पवित्र करे और जो
(वाचः) वाणी का (पतिः) रक्षक (नः) हमारी (वाचम्) वाणी को स्व-
दतु) मीठी चिकनी कोमल प्रिय करे उस (यज्ञपतिम्) राज्य के रक्षक राजा
को (भगाय) ऐश्वर्ययुक्त धन के लिये (प्र, सुव) उत्पन्न कीजिये और (यज्ञ-
म्) राजधर्मरूप यज्ञ को भी (प्र, सुव) सिद्ध कीजिये ॥ १ ॥

भावार्थः जो विद्या की शिक्षा को बढ़ाने वाला शुद्धगुणकर्मस्वभावयुक्त राज्य की रक्षा
करने को यथायोग्य ऐश्वर्य को बढ़ाने हारा धर्मात्माओं का रक्षक परमेश्वर का उपासक और
समस्त शुभ गुणों से युक्त हो वही राजा होने के योग्य होता है ॥ १ ॥

तत्सवितुरित्यस्य नारायण ऋषिः । सविता देवता ।

निचृद्वायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो
यो नः प्रचोदयात् ॥ २ ॥

तत् । सवितुः । वरेण्यम् । भर्गः । देवस्य । धीमहि । धियः । यः । नः ।
प्रचोदयादिति प्रचोदयात् ॥ २ ॥

पदार्थः—(तत्) (सवितुः) समग्रस्य जगदुत्पादकस्य
सर्वैश्वर्यप्रदस्य (वरेण्यम्) वर्तुमर्हमत्युत्तमम् (भर्गः)
भृज्जन्ति दुःखानि यस्मात्तत् (देवस्य) सुखप्रदातुः
(धीमहि) धरेम (धियः) प्रज्ञाः कर्माणि वा (यः)
(नः) अस्माकम् (प्रचोदयात्) प्रेरयेत् ॥ २ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यो नो धियः प्रचोदयात् तस्य सवितुर्देवस्य
यद्दरेण्यं भर्गो यथा वयं धीमहि तथा तद्युगमपि दधेध्वम् ॥ २ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—यथा परमेश्वरो जीवानशुभाचरणान्नि-
वर्त्य शुभाचरणे प्रवर्त्तयति तथा राजापि कुर्यात् यथा परमेश्वरेपितृभावं
कुर्वन्ति तथा राजन्यपि कुर्युर्यथा परमेश्वरो जीवेषु पुत्रभावमाचरति तथा
राजापि प्रजासु पुत्रभावमाचरेत् । यथा परमेश्वरः सर्वदोषक्लेशाऽन्यायेभ्यो
निवृत्तोस्ति तथैव राजापि भवेत् ॥ २ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो! (यः) जो (नः) हमारी (धियः) बुद्धि वा कर्मों को (प्रचोदयात्) प्रेरणा करे उस (सवितुः) समग्र जगत् के उत्पादक सब ऐश्वर्य तथा (देवस्य) सुख के देने हारे ईश्वर के जो (वरेण्यम्) ग्रहण करने योग्य अत्युत्तम (भर्गः) जिस से दुःखों का नाश हो उस शुद्ध स्वरूप को जैसे हम लोग (धीमहि) धारण करें वैसे (तत्) उस ईश्वर के शुद्ध स्वरूप को तुम लोग भी धारण करो ॥ २ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे परमेश्वर जीवों को अशुभाचरणों से अलग कर शुभ आचरण में प्रवृत्त करता है वैसे राजा भी करे जैसे परमेश्वर में पितृभाव करते अर्थात् उस को पिता मानने हैं वैसे राजा को भी माँने जैसे परमेश्वर जीवों में पुत्रभाव का आचरण करता है वैसे राजा भी प्रजाओं में पुत्रवत् वर्त्ते जैसे परमेश्वर सब दोष क्लेश और अन्यायों से निवृत्त है वैसे राजा भी होवे ॥ २ ॥

विश्वानित्यस्य नारायण ऋषिः । सविता देवता ।

गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव ।

यद्भद्रं तन्न आ सुव ॥ ३ ॥

विश्वानि । देव । सवितः । दुरितोनीतिं दुःश्रुतानि । परा । सुव । यत् । भद्रम् । तत् । नः । आ । सुव ॥ ३ ॥

पदार्थः—(विश्वानि) समग्राणि (देव) दिव्यगुणकर्मस्वभाव (सवितः) उत्तमगुणकर्मस्वभावेषु प्रेरक परमेश्वर

दुष्टाचरणानि दुःखानि वा (परा) दूरार्थे (सुव) ग-
मय (यत्) (भद्रम्) भन्दनीयं धर्म्याचरणां सुखं वा
(तत्) (नः) (अस्मभ्यम्) (आ) समन्तात् (सुव)
जनय ॥ ३ ॥

अन्वयः—हे देव सवितस्त्वमस्मद्विश्वानि दुरितानि परा सुव यद्भद्रं
तन्न आ सुव ॥ ३ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—यथोपासितो जगदीश्वरस्त्व भक्तान् दुष्टा-
चारान्निवर्त्य श्रेष्ठाचारे प्रवर्त्तयति तथा राजाऽपि प्रजा अधर्मान्निवर्त्य ध-
र्मं प्रवर्त्तयेत् स्वयमपि तथा स्यात् ॥ ३ ॥

पदार्थः—हे (देव) उत्तम गुणकर्मस्वभावयुक्त (सवितः) उत्तम गुण
गुण कर्म स्वभावों में प्रेरणा देने वाले परमेश्वर आप हमारे (विश्वानि)
सब (दुरितानि) दुष्ट आचरण वा दुःखों को (परा, सुव) दूर कीजिये और
(यत्) जो (भद्रम्) कल्याणकारी धर्मयुक्त आचरण वा सुख है (तत्) उस
को (नः) हमारे लिये (आ, सुव) अच्छे प्रकार उत्पन्न कीजिये ॥ ३ ॥

भावार्थः—इस मन्त्र में वाचकलु०—जैसे उपासना किया हुआ जगदीश्वर अ-
पने भक्तों को दुष्ट आचरण से निवृत्त कर श्रेष्ठ आचरण में प्रवृत्त करता है वैसे राजा
भी अधर्म से प्रजाओं को निवृत्त कर धर्म में प्रवृत्त करे और पाप भी वैसा होवे ॥३॥

विभक्तारमित्यस्य मेधातिथिर्ऋषिः । सविता देवता ।

गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

विभक्तारं हवामहे वसोश्चित्रस्य राधसः ।
सवितारं नृचक्षंसम् ॥ ४ ॥

विभक्तारमिति विभक्तारम् । हवामहे । वसोः । चित्रस्य । राधसः । स-
वितारम् । नृचक्षसमिति नृचक्षसम् ॥ ४ ॥

पदार्थः—(विभक्तारम्) विभाजयितारम् (हवामहे)
प्रशंसेम (वसोः) सुखानां वासहेतोः (चित्रस्य) अ-
द्भुतस्य (राधसः) धनस्य (सवितारम्) जनयिता-
रम् (नृचक्षसम्) नृणां द्रष्टारं परमात्मानम् ॥ ४ ॥

अन्वयः—हे मनुष्या यं वसोश्चित्रस्य राधसो विभक्तारं सवितारं नृच-
क्षसं वयं हवामहे तं यूययप्पाह्वयत ॥ ४ ॥

भावार्थः—अत्र वाचकलु०—हे राजन् यथा परमेश्वरः स्वस्वकर्मानुकूलं
सर्वजीविभ्यः फलं ददाति तथा भवानपि ददातु । यथा जगदीश्वरो यादृशं
यस्य कर्म पापं पुण्यं यावच्चाऽस्ति तावदेव तादृशं तस्मै ददाति तथा त्व-
मपि यस्य यावद्दस्तु यादृशं कर्म च तावत्तादृशं च तस्मै देहि यथा परमेश्व-
रः पक्षपातं विहाय सर्वेषु जीविषु वर्तते तथा त्वमपि भाव ॥ ४ ॥

पदार्थः—हे मनुष्यो ! जिस (वसोः) सुखों के निवास के हेतु (चित्रस्य)
आश्चर्यस्वरूप (राधसः) धन का (विभक्तारम्) विभाग करने हारे (सवि-
तारम्) सब के उत्पादक (नृचक्षसम्)सब मनुष्यों के अन्तर्यामि स्वरूप से सब
कामों के देखने हारे परमात्मा की हम लोग (हवामहे) प्रशंसा करें उस की
तुम लोग भी प्रशंसा करो ॥ ४ ॥

भावार्थः— इस मन्त्र मे वाचकलु० — हे राजन् ! जैसे परमेश्वर
अपनेर कर्मों के अनुकूल सब जीवों को फल देता है वैसे आप भी देओ जैसे जग-
दीश्वर जैसा जिस का पाप वा पुण्यरूप जितना कर्म है उतना वैसा फल उस

के लिये देता जैसे आप भी जिस का जैसा वस्तु वा जितना कर्म है उस को वैसा वा उतना फल दीजिये जैसे परमेश्वर पक्षपात को छोड़ के सब जीवों में वर्तता है वैसे आप भी हाजिये ॥४॥

ब्रह्मण इत्यस्य नारायण ऋषिः । परमेश्वरो देवता ।

स्वराडतिशकरी छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

ईश्वरवद्राज्ञापि कर्त्तव्यमित्याह ॥

ईश्वर के तुल्य राजा को भी करना चाहिये इस वि० ॥

ब्रह्मणो ब्राह्मणां क्षत्राय राजन्यं मरुद्भ्यो वैश्यं
तपसे शूद्रं तमसे तस्करं नारकाय वीरहणं पाप्म-
ने क्लीवमाक्रयाया अयोगं कामाय पुंश्चलूमति-
कुष्टाय माग्धम् ॥ ५ ॥

ब्रह्मणे । ब्राह्मणम् । क्षत्राय । राजन्यम् । मरुद्भ्यः इति मरुत्भ्यः । वै-
श्यम् । तपसे । शूद्रम् । तमसे । तस्करम् । नारकाय । वीरहणम् । वीरहन-
मिति वीरहनम् । पाप्मने । क्लीवम् । आक्रयाया इत्याऽऽक्रयायै । अयोगम् ।
कामाय । पुंश्चलूम् । अतिकुष्टायैत्यतिऽकुष्टाय । माग्धम् ॥ ५ ॥

पदार्थः— (ब्रह्मणे) वेदेश्वरविज्ञानप्रचाराय (ब्राह्मणम्)
वेदेश्वरविदम् (क्षत्राय) राज्याय पालनाय वा (राजन्य-
म्) राजपुत्रम् (मरुद्भ्यः) पश्वादिभ्यः प्रजाभ्यः (वैश्यम्)
विक्षु प्रजासु भवम् (तपसे) सन्तापजन्याय सेवनाय

(शूद्रम्) प्रीत्यां सेवकं शुद्धिकरम् (तमसे) अन्धकाराय प्रवृत्तम् (तस्करम्) चोरम् (नारकाय) नरके दुःखबन्धने भवाय कारागाराय (वीरहणम्) यो वीरान् हन्ति तम् (पाप्मने) पापाचरणाय प्रवृत्तम् (क्लीबम्) नपुंसकम् (आक्रयायै) आक्रमन्ति प्राणिनो यस्यां तस्यै हिंसायै प्रवर्तमानम् (अयोगूम्) अयसा शस्त्रविशेषेण सह गन्तारम् (कामाय) विषयसेवनाय प्रवृत्तान् (पुंश्चलूम्) पुंभिः सह चलितचित्तां व्यभिचरिणीम् (अतिक्रुष्टाय) अत्यन्तनिन्दनाय प्रवर्तकम् (मागधम्) नृशंसम् ॥ ५ ॥

अन्वयः—हे परमेश्वर राजन् वा त्वमत्र ब्रह्मणो ब्राह्मणं क्षत्राय राजन्यं मरुद्भ्यो वैश्यं तपसे शूद्रं सर्वतो जनय तमसे तस्करं नारकाय वीरहणं पाप्मने क्लीबमाक्रयाया अयोगूं कामाय पुंश्चलूमतिक्रुष्टाय मागधञ्च दूरे गमय ॥ ५ ॥

भावार्थः—हे राजन् यथा जगदीश्वरो जगति परोपकाराय पदार्थान् जनयति दोषान्निवारयति तथा त्वमिह राज्ये सज्जनानुत्कर्षेण दुष्टान् निःसारय दण्डय ताडय च यतः शुभगुणानां प्रवृत्तिर्दुर्व्यसनानाञ्च निवृत्तिः स्यात् ॥५॥

पदार्थः—हे परमेश्वर वा राजन् ! आप इस जगत् में (ब्रह्मणो) वेद और ईश्वर के ज्ञान के प्रचार के अर्थ (ब्राह्मणम्) वेद ईश्वर के जानने वाले को (क्षत्राय) राज्य वा राज्य की रक्षा के लिये (राजन्यम्) राजपूत को (मरुद्भ्यः) पशु आदि प्रजा के लिये (वैश्यम्) प्रजाओं में प्रसिद्ध जन को (तपसे) दुःख से उत्पन्न होने वाले सेवन के अर्थ (शूद्रम्) प्रीति से सेवा करने तथा शुद्धि करने हारे शूद्र को सब ओर से उत्पन्न कीजिये (तमसे) अन्धकार

के लिये प्रवृत्त हुए (तस्करम्) चोर को (नारकाय) दुःख बन्धन में हुए
कारागार के लिये (वीरहणम्) वीरों को मारने हारे जन को (पाप्मने)
पापाचरण के लिये प्रवृत्त हुए (क्लीबम्) नपुंसक को (आक्रयायै) प्राणियों
की जिस में भागाभूगी होती उस हिंसा के अर्थ प्रवृत्त हुए (अयोगम्) लोहे
के हथियार विशेष के साथ चलने हारे जन को (कामाय) विषय सेवन के
लिये प्रवृत्त हुई (पुंश्चलुम्) पुरुषों के साथ जिस का चित्त चलायमान उस
व्यभिचारिणी स्त्री को और (अतिकुष्ठाय) अत्यन्त निन्दा करने के लिये
प्रवृत्त हुए (मागधम्) भाट को दूर पहुंचाइये ॥ ५ ॥

भावार्थः—हे राजन् ! जैसे जगदीश्वर जगत् में परोपकार के लिये पदार्थों को
उत्पन्न करता और दोषों को निवृत्त करता है वैसे आप इस राज्य में सज्जनों की उन्नति
कीजिये, दुष्टों को निकालिये, दण्ड और ताड़ना भी दीजिये, जिस से शुभ गुणों की प्रवृत्ति
और दुष्टव्यसनों की निवृत्ति होवे ॥ ५ ॥

वृत्तायेत्यस्य नारायण ऋषिः । परमेश्वरो देवता ।

निचृदष्टिश्छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

पुना राजपुरुषैः किं कर्तव्यमित्याह ॥

फिर राजपुरुषों को क्या करना चाहिये इस वि० ॥

नृत्ताय सूत गीताय शैलूपं धर्माय सभाचरं
नरिष्टायै भीम्लं नर्माय रेभः हसाय कारिमान्-
न्दाय स्त्रीष्वंप्रमदे कुमारीपुत्रं मेधायै रथकारं धै-
र्याय तक्षाणम् ॥ ६ ॥

नृत्ताय । सूतम् । गीताय । शैलूपम् । धर्माय । सभाचरमिति सभाऽचरम् ।
नरिष्टायै । भीम्लम् । नर्माय । रेभम् । हसाय । कारिम् । आनन्दायेत्यानन्दा-

यं । स्त्रीषखम् । स्त्रीसखमिति स्त्रीऽमुखम् । प्रमदऽइति प्रऽमदे । कुमारीपुत्रमिति
कुमारीऽपुत्रम् । मेधायै । रथकारमिति रथऽकारम् । धैर्याय । तक्षाणम् ॥६॥

पदार्थः— (नृत्ताय) नृत्या (सूतम्) क्षत्रियाद्वाह्यण्यां
जातम् (गीताय) गानाय (शैलूपम्) गायनम् (धर्माय)
धर्मरक्षणाय (सभाचरम्) यः सभायां चरति तम् (नरि-
ष्ठायै) अतिशयिता दुष्टा नराः सन्ति यस्यां तस्यै प्रवृत्तम्
(भीमलम्) यो भीमान् भयंकारान् लात्याददाति तम्
(नर्माय) कोमलत्वाय (रेभम्) स्तोतारम् । रेभ इति
स्तोतृना० निघं० ३ । १६ । (हसाय) हसनाय प्रवृत्तम्
(कारिम्) उपहासकर्तारम् (आनन्दाय) (स्त्रीषखम्)
स्त्रिया मित्रं पतिम् (प्रमदे) प्रमादाय प्रवृत्तम् (कुमारी-
पुत्रम्) विवाहात्पूर्वं व्यभिचारेणात्यन्नम् (मेधायै) प्रज्ञायै
(रथकारम्) विमानादिरचकं शिल्पिनम् (धैर्याय) तक्षा-
णम्) तनूकर्तारम् ॥ ६ ॥

अन्वयः— हे जगदीश्वर राजन् ! या त्वं नृत्ताय सूतं गीताय शैलूपं ध-
र्माय सभाचरं नर्माय रेभमानन्दाय स्त्रीषखं मेधायै रथकारं धैर्याय तक्षाण
मासुव नरिष्ठायै भीमलं हसाय कारिं प्रमदे कुमारीपुत्रं परासुव ॥ ६ ॥

भावार्थः— राजपुरुषैः परमेश्वरोपदेशेन राजाज्ञया य सर्वे श्रेष्ठा धार्मिका
जना उत्साहनीया हास्यभयप्रदा निवारणीया अनेकाः सभाः निर्माय सर्वा
व्यवस्थाः शिल्पविद्योन्नतिश्च कार्या ॥ ६ ॥

पदार्थः—हे जगदीश्वर ! वा राजन ! आप (नृत्ताय) नाचने के लिये (सूतम्) क्षत्रिय से ब्राह्मणी में उत्पन्न हुए सूत को (गीताय) गाने के अर्थ (शैलूषम्) गाने हारे नट को (धर्माय) धर्म की रक्षा के लिये (सभाचरम्) सभा में विचरने हारे सभापति को (नर्माय) कोमलता के अर्थ (रेभम्) स्तुति करने हारे को (आनन्दाय) आनन्द भोगने के अर्थ (स्त्रीषखम्) स्त्री से मित्रता रखने वाले पति को (मेधायै) बुद्धि के लिये (रथकारम्) विमानादि को रचने हारे कारीगर को (धैर्याय) धीरज के लिये (तत्ताणम्) महान काम करने वाले बड़ई को उत्पन्न कीजिये (नरिष्ठायै) अतिदुष्ट नरों की गोष्ठी के लिये प्रवृत्त हुए (भीमलम्) भयंकर विषयों को ग्रहण करने वाले को (हसाय) हंसने के अर्थ प्रवृत्त हुए (कारिम्) उपहासकर्ता को और (प्रमदे) प्रमाद के लिये प्रवृत्त हुए (कुमारीपुत्रम्) विवाह से पाहले व्यभिचार से उत्पन्न हुए को दूर कर दीजिये ॥ ६ ॥

भावार्थः— राज पुरुषों को चाहिये कि परमेश्वर के उपदेश और राजा की आज्ञा से सब श्रेष्ठ धर्मात्मा जनों को उत्साह दें हंसी करने और भय देने वालों को निवृत्त करें अनेक सभाओं को बना के सब व्यवस्था और शिल्पविद्या की उन्नति क्रिया करें ॥ ६ ॥

तपस इत्यस्य नारायण ऋषिः । विद्वांसो देवता ।

निचृदष्टिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

तपसे कौलालं मायायै कर्मारु रूपाय मणि-
कारु शुभे वपुः शरव्याया इषुकारु हेत्यै ध-
नुष्कारं कर्मणो ज्याकारं दिष्टाय रज्जुसर्ज मृत्य-
वै मृग्र्युमन्तकाय श्वनिनम् ॥ ७ ॥

तपसे । कौलालम् । मायायै । कर्मारम् । रूपाय । मणिङ्कारमिति मणि-
ङ्कारम् । शुभे । वपम् । शरव्यायै । इषुकारमिति षुङ्कारम् । हेत्यै । धनु-
ङ्कारम् । धनुः कारमिति धनुःङ्कारम् । कर्मणे । ज्याकारमिति ज्याङ्कारम् ।
दिष्टाय । रज्जुसर्जमिति रज्जुसर्जम् । मृत्यवे । मृगयुमिति । मृगयुम् । अन्त-
काय । श्वनिनमिति श्वनिनम् ॥ ७ ॥

पदार्थः—(तपसे) तपनाय (कौलालम्) कुलाल
पुत्रम् (मायायै) प्रज्ञावृद्धये । मायेति प्रज्ञाना० निघं० ३ ।
९ । (कर्मारम्) यः कर्माण्यलं करोति तम् (रूपाय)
सरूपनिर्मापकाय (मणिङ्कारम्) यो मणिन् करोति
तम् (शुभे) शुभाचरणाय (वपम्) यो वपति क्षेत्रा-
णि कृषीवल इव विद्यादिशुभान् गुणाँस्तम् (शरव्यायै)
शराणां निर्माणाय (इषुकारम्) य इषून् वाणान् करोति
तम् (हेत्यै) वज्रादिशस्त्रनिर्माणाय (धनुङ्कारम्) यो
धनुरादीनि करोति तम् (कर्मणे) क्रियासिद्धये (ज्याकारम्)
यो ज्यां प्रत्यञ्चां करोति तम् (दिष्टाय) दिशत्यतिसृजति
येन तस्मै (रज्जुसर्जम्) यो रज्जुः सृजति तम्
(मृत्यवे) मृत्युकरणाय प्रवृत्तम् (मृगयुम्) य आत्मानो मृगान्
हन्तुमिच्छति तं व्याधम् (अन्तकाय) यो अन्तं करोति
तस्मै हितकरम् (श्वनिनम्) बहुश्वपालम् ॥ ७ ॥

भावार्थः—हे जगदीश्वर नरेश ! वा त्वं तपसे कौलालं मायायै कर्मरं
रूपाय मणिङ्कारं शुभे वपं शरव्यायै इषुकारं हेत्यै धनुङ्कारं कर्मणे ज्याकारं
दुष्टाय रज्जुसर्जमासुव । मृत्यवे मृगयुमन्तकाय श्वनिनं परासुव ॥ ७ ॥

भावार्थः—राजपुरुषैर्यथा परमेश्वरेण सृष्टौ रचनाविशेषा दर्शितास्तथा शिल्पविद्यया सृष्टिदृष्टान्तेन च रचना विशेषाः कर्तव्याः । हिंसकाः श्वपालिनश्चांडालादयो दूरे निवासनीयाः ॥ ७ ॥

पदार्थः—हे जगदीश्वर वा राजन् ! आप (तपसे) वर्त्तन पकाने के ताप को भेलने के अर्थ (कौलालम्) कुम्हार के पुत्र को (मायायै) बुद्धि बढ़ाने के लिये (कर्मरम्) उत्तम शोभित काम करने हारे को (रूपाय) सुन्दर स्वरूप बनाने के लिये (मणिकारम्) मणि बनाने वाले को (शुभे) शुभ आचरण के अर्थ (वपम्) जैसे किसान खेत को वैसे विद्यादि शुभ गुणों के बोनने वाले को (शरण्यायै) वाणों के बनाने के लिये (इपुकारम्) बाणकर्त्ता को (हेत्यै) वज्र आदि हथियार बनाने के अर्थ (धनुष्कारम्) धनुष् आदि के कर्त्ता को (कर्मणे) क्रियासिद्धि के लिये (ज्याकारम्) प्रत्यञ्चा के कर्त्ता को (दिष्टाय) और जिस से अति रचना हो उस के लिये (रज्जुसर्जम्) रज्जु बनाने वाले को उत्पन्न काजिये और (मृत्यवे) मृत्यु करने को प्रवृत्त हुए (मृगयुम्) व्याध को तथा (अन्तकाय) अन्त करने वाले के हितकारी (श्वनिनम्) बहुत कुत्ते पालने वाले को अलग बसाइये ॥ ७ ॥

भावार्थः—राजपुरुषों को चाहिये कि जैसे परमेश्वर ने सृष्टि में रचनाविशेष दिखाये हैं वैसे शिल्पविद्या से और सृष्टि के दृष्टान्त से विशेष रचना क्रिया करें और हिंसक तथा कुत्तों के पालने वाले चण्डालादि को दूर बसावें ॥ ७ ॥

नदीभ्य इत्यस्य नारायण ऋषिः । विद्वांसो देवताः ।

कृत्तिश्छन्दः । निषादः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

नदीभ्यः पौञ्जिष्ठमृक्षीकाभ्यो नैषादं पुरुष-
व्याघ्राय दुर्मदं गन्धर्वाप्सरुभ्यो ब्रातं प्रयुग्भ्य

उन्मत्तः सर्पदेवजनेभ्योऽ प्रतिपदमयेभ्यः कि-
 तवमीर्यताय अकितवं पिशाचेभ्यो विदलकारीं
 यातुधानेभ्यः कण्टकीकारीम् ॥ ८ ॥

नदीभ्यः । पौञ्जिष्ठम् । ऋत्नीकाभ्यः । नैषादम् । नैसा इमिति नैऽसादम् ।
 पुरुषव्याघ्रायेति पुरुषऽव्याघ्राय । दुर्मदमिति दुःऽमदम् । गन्धर्वाप्सरोभ्यऽ-
 इति गन्धर्वाप्सरःऽभ्यः । व्रात्यम् । प्रयुभ्यऽइति प्रयुक्ऽभ्यः । उन्मत्तमित्युत्-
 मत्तम् । सर्पदेवजनेभ्यऽइति सर्पदेवजनेभ्यः । अप्रतिपदमित्यप्रतिऽपदम् ।
 अयेभ्यः । कितवम् । ईर्यतायै । अकितवम् । पिशाचेभ्यः । विदलकारीमिति
 विदलऽकारीम् । यातुधानेभ्यऽइति यातुऽधानेभ्यः । कण्टकीकारीमिति क-
 ण्टकीऽकारीम् ॥ ८ ॥

पदार्थः—(नदीभ्यः) सरिद्विनाशाय प्रवृत्तम् (पौ-
 ञ्जिष्ठम्) पुक्कसम् (ऋत्नीकाभ्यः) या ऋक्षा ग-
 तीः कुर्वन्ति ताभ्यः प्रवृत्तम् (नैषादम्) निषादस्य पु-
 त्रम् (पुरुषव्याघ्राय) व्याघ्रइव पुरुषस्तस्मै हितम् (दु-
 र्मदम्) दुर्गतो दुष्टो मदोऽभिमानं यस्य तम् (गन्धर्वा-
 प्सरोभ्यः) गन्धर्वाश्चाप्सरसश्च ताभ्यः प्रवृत्तम् (व्रात्यम्)
 असंस्कृतम् (प्रयुभ्यः) ये प्रयुञ्जते तेभ्यः प्रवृत्तम् (उन्मत्त-
 म्) उन्मादरोगिणम् (सर्पदेवजनेभ्यः) सर्पाश्च देवजनाश्च
 तेभ्यो हितम् (अप्रतिपदम्) अनिश्चितबुद्धिम् (अयेभ्यः)

य अद्यन्ते प्राप्यन्ते पदार्थास्तेभ्यः प्रवृत्तम् (कितवम्)
 द्यूतकारिणाम् (ईर्ष्यतायै) कम्पनाय प्रवृत्तम् (अकि-
 तवम्) अद्यूतकारिणाम् (पिशाचेभ्यः) पिशिता नष्टा-
 ऽऽशा येषां ते पिशाचाः, अथवा पिशितमवयवीभूतं
 सरक्तं वा मांसमाचामन्ति भक्षयन्तीति पिशाचाः । उभ-
 यथा पृषोदरादित्वात्सिद्धिः । (विदलकारीम्) या विग-
 तान् दलान् करोति ताम् (यातुधानेभ्यः) यान्ति येषु
 ते यातवो मार्गास्तेभ्यो धनं येषान्तेभ्यः प्रवृत्तम् (कण्ट-
 कीकारीम्) या कण्टकीं करोति ताम् ॥ ८ ॥

अन्वयः—हे जगदीश्वर नृप वा त्वं नदीभ्यः पौञ्जिष्ठमृत्तीकाभ्यो नैषादं
 पुरुषव्याघ्राय दुर्मदं गन्धर्वाप्सरोभ्यो व्रात्यं प्रयुग्भ्य उन्मत्तं सर्पदेवजनेभ्योऽप्रति-
 पदमयेभ्यः कितवमिर्ष्यताया अकितवं पिशाचेभ्यो विदलकारीं यातुधानेभ्यः
 कण्टकीकारीं परासुव ॥ ८ ॥

भावार्थः—हे राजन् ! यथा परमेश्वरो दुष्टेभ्यो महात्मनो दूरे वासयति दुष्टाः
 परमेश्वराददूरे वसन्ति तथा त्वं दुष्टेभ्यो दूरे वस दुष्टांश्च स्वतो दूरे वासय
 सुशिक्षया साधून् सम्पादय वा ॥ ८ ॥

पदार्थः—हे जगदीश्वर वा राजन् ! आप (नदीभ्यः) नदियों को विगाड़ने
 के लिये प्रवृत्त हुए (पौञ्जिष्ठम्) धातुक को (ऋत्तीकाभ्यः) गमन करने
 वाली स्त्रियों के अर्थ प्रवृत्त हुए (नैषादम्) निषाद के पुत्र को (पुरुषव्याघ्राय)
 व्याघ्र के तुल्य हिंसक पुरुष के हितकारी (दुर्मदम्) दुष्ट अभिमानी को (गन्ध-
 र्वाप्सरोभ्यः) गाने नाचने वाली स्त्रियों के लिये प्रवृत्त हुए (व्रात्यम्) संस्कार
 रहित मनुष्य को (प्रयुग्भ्यः) प्रयोग करने वालों के अर्थ प्रवृत्त हुए (उन्मत्तम्)
 उन्माद रोग वाले को (सर्पदेवजनेभ्यः) सांप तथा मूखों के लिये हितकारी
 (अप्रतिपदम्) संशयात्मा को (अयेभ्यः) जो पदार्थ प्राप्त किये जाते उन के

लिये प्रवृत्त (क्रितवम्) ज्वारी को (ईर्यतायै) कम्पन के लिये प्रवृत्त हुए
(अक्रितवम्) जुआ न करने हारे को (पिशाचेभ्यः) दुष्टाचार करने से जिनकी
आशा नष्ट होगई वा रुधिर सहित कच्चा मांस खाने के लिये प्रवृत्त (विदलकारीम्)
पृथक् १ दुकड़ों को करने हारी को और (यातुधानेभ्यः) मार्गों से जिनके घन आता
उस के लिये प्रवृत्त हुई (कण्टकीकारीम्) कांटे बाने वाली को पृथक् कीजिये ॥८॥

भावार्थः—हे राजन् जैसे परमेश्वर दुष्टों से महात्माओं को दूर बसाता और
दुष्ट परमेश्वर से दूर बसते हैं वैसे आप दुष्टों से दूर बसो और अपने से दुष्टों को
दूर बसाइये वा सुशिक्षा से श्रेष्ठ कीजिये ॥ ८ ॥

सन्धय इत्यस्य नारायण ऋषिः । विद्वान् देवता ।

भुरिगत्यष्टिश्छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

सन्धये जारं गेहायोपपतिमात्यै परिवित्तं
निऋत्यै परिविविदानमराध्या एदिधिषुःपति
निष्कृत्यै पेशस्कारीः संज्ञानायस्मरकारीं प्रका-
मोद्यायोपसदं वणायानुरुधं बलायोपदाम् ॥ ९ ॥

सन्धयेऽइति समुधये । जारम् । गेहाय । उपपतिमित्युपपतिम् । आत्या-
ऽऽइत्याऽऽत्यै । परिवित्तमिति परिऽवित्तम् । निऋत्याऽइति निः ऋत्यै ।
परिविविदानमिति परिऽविविदानम् । अराध्यै । एदिधिषुःपतिमित्येदिधिषुःऽ-
पतिम् । निष्कृत्यै । निःकृत्याऽइति निःकृत्यै । पेशस्कारीम् । पेशःकारीमिति
पेशऽकारीम् । संज्ञानायेति समुज्ञानाय । स्मरकारीति स्मरऽकारीम् । प्रकामो-
द्यायेति प्रकामुद्द्याय । उपसदमित्युपसदम् । वणाय । अनुरुधमित्यनुऽरुधम् ।
बलाय । उपदामित्युपऽदाम् ॥ ९ ॥

पदार्थः—(सन्धये) परस्त्रीसमागमनाय प्रवर्तमानम्
 (जारम्) व्यभिचारिणाम् (गेहाय) गृहपत्नीसङ्गमाय
 प्रवृत्तम् (उपपतिम्) यः पत्न्युः समीपे वर्तते तम् (आ-
 त्त्यै) कामपीडायै प्रवृत्तम् (परिवित्तम्) कृतविवाहे क-
 निष्ठे बन्धावविवाहितं ज्येष्ठम् (निर्ऋत्यै) पृथिव्यैः प्रवृ-
 त्तम् । निर्ऋतिरिति पृथिवीना० निघं० १ । १ (परिवि-
 विदानम्) अप्राप्तदाये ज्येष्ठे प्राप्तदायं कनिष्ठम् (अरा-
 ध्यै) अविद्यमानसंसिद्धये प्रवृत्तम् (एदिधिषुः पतिम्)
 अकृतविवाहायां ज्येष्ठ्यायां पुत्र्यामूढा कनिष्ठा तस्याः
 पतिम् (निष्कृत्यै) प्रायश्चित्ताय प्रवर्तमानम् (पेशस्का-
 रीम्) रूपकर्त्रीम् (सञ्ज्ञानाय) सम्यक् ज्ञानं काम-
 प्रबोधं तस्मै प्रवृत्ताम् (स्मरकारीम्) या स्मरं कामं
 करोति तां दूतिकाम् (प्रकामोद्याय) यः प्रकृष्टैः कामैरु-
 द्यतस्तस्मै (उपसदम्) यः समीपे सीदति तम् (वर्णाय)
 स्वीकरणाय प्रवृत्तम् (अनुरुधम्) योऽनुरुणद्धि तम्
 (बलम्) बलवृद्धये (उपदाम्) उप समीपे दीयते
 ताम् ॥ ९ ॥

अन्वयः—हे जगदीश्वर सभेश राजन् वा त्वं सन्धये जारं गेहायोपपतिमा-
 र्त्त्यै परिवित्तं निर्ऋत्यै परिविविदानमराध्यै एदिधिषुः पतिं निष्कृत्यै पेशस्का-
 रीं सञ्ज्ञानाय स्मरकारीं प्रकामोद्यायोपसदं वर्णायानुरुधं बलायोपदां प-
 रासुव ॥ ९ ॥

भावार्थः—हे राजन् यथा परमेश्वरो जारादीन् दुष्टान् दग्ध्यति तथा त्व-
 मेतान् दग्ध्य यथेश्वरः प्रापत्यागिनोनिगृह्णाति तथा त्वं धर्मिकाननुगृह्णाण ॥९॥

पदार्थः—हे जगदीश्वर वा समापति राजन् ! आप (सन्धये) परस्त्रीगमन के लि-
 ये प्रवृत्त (जारम्) व्यभिचारी को (गेहाय) गृहपत्नी के सङ्ग के लिये प्रवृत्त

हुए (उपपतिम्) पति की विद्यमानता में दूसरे व्यभिचारी पति को (आर्त्यैः) काम पीडा के लिये प्रवृत्त हुए (परिव्रित्तम्) छोटे भाई का विशाह हाने में विना विवाहे ज्येष्ठ भाई को (निर्ऋत्यै) पृथिवी के लिये प्रवृत्त हुए (परिविधिदानम्) ज्येष्ठ भाई के दाय को न प्राप्त होने में दाय को प्राप्त हुए छोटे भाई को (अराध्यै) अविद्यमान पदार्थ को सिद्ध करने के लिये प्रवृत्त हुए (एदिधिपुःपतिम्) ज्येष्ठ पुत्री के विवाहसे पहिले विवाहित हुई छोटी पुत्री के पतिको (निष्कृत्यै) प्राथश्चित्त के लिये प्रवृत्त हुई (पेशस्कारीम्) शृङ्गार विशेष से रूप करने हारी व्यभिचारिणी को (सम्, ज्ञानाय) उत्तम कामदेव को जगाने के अर्थ प्रवृत्त हुई (स्मरकारीम्) कामदेव को चेतन कराने वाली दूती को (प्रकामोद्याय) उत्कृष्ट कामों से उद्यत हुए के लिये (उपसदम्) साथी को (वर्णाय) स्वीकार के लिये प्रवृत्त हुए (अनुरुधम्) पीछे से रोकने वाले को (वलाय) बल बढ़ाने के अर्थ (उपदाम्) नजर भेंट वा घुंस को पृथक् कीजिये ॥ ९ ॥

भावार्थः—हे राजन्! जैसे परमेश्वर जार आदि दुष्ट जनों को दण्ड देता वैसे आप भी इन को दण्ड दीजिये और ईश्वर पाप छोड़ने वालों पर कृपा करता है वैसे आप धार्मिक जनों पर अनुग्रह किया कीजिये ॥ ९ ॥

उत्सादेभ्य इत्यस्य नारायण ऋषिः । विद्वान् देवता ।

भुरिगत्यष्टिश्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

उत्सादेभ्यः कुब्जं प्रमुदं वामनं द्वाभ्यः स्या-
मः स्वप्नायान्धमधर्माय बधिरं पवित्राय मि-
षजं प्रज्ञानाय नक्षत्रदर्शमाशिक्षायै प्रश्निनमुप
शिक्षायां अभिप्रश्निनं सूर्यादायै प्रश्नविवा-
कम् ॥ १० ॥

उत्सादेभ्यऽ इत्युत्सादेभ्यः । कुब्जम् । प्रमुदऽ इति प्रमुदे । वामनम् । द्वा-
भ्यऽ इति द्वाऽभ्यः । स्नामम् । स्वप्नाय । अन्धम् । अधर्माय । बधिरम् । प-
वित्राय । भिषजम् । प्रज्ञानायेति प्रज्ञानाय । नक्षत्रदर्शामिति नक्षत्रदर्शम् ।
आशिक्षायाऽ इत्याऽशिक्षायै । प्रश्निनम् । उपशिक्षायाऽ इत्युपशिक्षायै ।
अभिप्रश्निनमित्यभिऽप्रश्निनम् । मर्यादायै । प्रश्नविवाकमिति, प्रश्नऽविवाकम् ॥ १० ॥

पदार्थः—(उत्सादेभ्यः) नाशेभ्यः प्रवृत्तम् (कुब्जम्) व-
क्राङ्गम् (प्रमुदे) प्रकृष्टानन्दाय (वामनम्) ह्रस्वाङ्गम् (द्वा-
भ्यः) सवर्णोभ्य आच्छादनेभ्यः प्रवृत्तम् (स्नामम्) सततं
प्रस्रावितजलनेत्रम् (स्वप्नाय) निद्रायै (अन्धम्) (अधर्माय)
धर्माचरणारहिताय (बधिरम्) श्रोत्रविकलम् (पवित्राय)
रोगनिवारणेन शुद्धिकरणाय (भिषजम्) वैद्यम् (प्रज्ञानाय)
प्रकृष्टज्ञानवर्धनाय (नक्षत्रदर्शम्) यो नक्षत्राणि पश्य-
त्येतैर्दर्शयति वा तम् (आशिक्षायै) समन्ताद्विद्योपादानाय
(प्रश्निनम्) प्रशस्ताः प्रश्ना विद्यन्ते यस्य, (उपशिक्षायै)
उपवेदादिविद्योपादानाय (अभिप्रश्निनम्) अभितः बहवः
प्रश्ना विद्यन्ते यस्य तम् (मर्यादायै) न्यायाऽन्यायव्यव-
स्थायै (प्रश्नविवाकम्) यः प्रश्नान् विवेचयति तम् ॥ १० ॥

अन्वयः—हे परमेश्वर राजन् ! वा त्वमुत्सादेभ्यः कुब्जं प्रमुदे वामनं द्वाभ्यः
स्नामं स्वप्नायाऽन्धमधर्माय बधिरं परासुव । पवित्राय भिषजं प्रज्ञानाय न
क्षत्रदर्शमाशिक्षायै प्रश्निनमुपशिक्षाया अभिप्रश्निनं मर्यादायै प्रश्नविवाकसा-
सुव ॥ १० ॥

भावार्थः—हे राजन्! यथेश्वरः पापाचरणफलप्रदानेन कुब्जवामनस्त्रवितजल-
नेत्रान्धबधिरान् मनुष्यादीन् करोति भिषग्ज्योतिर्विदध्यापकपरीक्षकप्रश्नो-
त्तरविवेचकेभ्यः श्रेष्ठकर्मफलदानेन पवित्रता प्रज्ञाविद्याग्रहणाध्यापनपरीक्षा-
प्रश्नोत्तरकरणसामर्थ्योच्चददाति तथैव त्वं येन येनाङ्गेन नरा विचेष्टन्ते तस्य
तस्याङ्गस्योपरि दण्डनिपातनेन वैद्यादीमां प्रतिष्ठाकरणेन च राजधर्मं सतत
मुन्नय ॥ १० ॥

पदार्थः—हे परमेश्वर वाराजन्! आप (उत्सादेभ्यः) नाश करने को प्रवृत्त हुए
(कुब्जम्) कुबड़े को (ममुदे) प्रबल कामादि के आनन्द के लिये (वामनम्) छोटे
मनुष्य को (बधिर्यः) आच्छादन के अर्थ (स्त्रामम्) जिस के नेत्रों से निरन्तर जल
निकले उस को (स्वमाय) सोने के लिये (अन्धम्) अन्धे को और (अधर्माय) ध-
र्माचरण से रहित के लिये बधिरम् बहिरे को पृथक् कीजिये और (पवित्राय)
रोग की निवृत्ति करने के अर्थ (भिषजम्) वैद्य को (प्रज्ञानाय) उत्तम ज्ञान बढ़ाने
के अर्थ (नक्षत्रदर्शम्) नक्षत्रों को देखने वा इन से उत्तम विषयों को दिखाने हारे
गणितज्ञ ज्योतिषी को (आशिन्नायै) अच्छ प्रकार विद्या ग्रहण के लिये (प्रश्नि-
नम्) प्रशंसित प्रश्नकर्त्ता को (उपशिक्षायै) उपवेदादि विद्या के ग्रहण के लिये
(आभि, प्रश्निनम्) सब ओर से बहुत प्रश्न करने वाले को और (मर्यादायै) न्याय
अन्याय की व्यवस्था के लिये (प्रश्नविवाकम्) प्रश्नों के विवेचन कर उत्तर देने
वाले को उत्पन्न कीजिये ॥ १० ॥

भावार्थः—हे राजन्! जैसे ईश्वर पापाचरण के फल देने से लूले, लंगड़े, बौना, चिपड़े,
अंधरे, बहिरे मनुष्यादि को करता और वैद्य ज्योतिषी अध्यापक परीक्षक तथा प्रश्नोत्तरों
के विवेचकों के अर्थ श्रेष्ठ कर्मों के फल देने से पवित्रता बुद्धि विद्या के ग्रहण पढ़ने
परीक्षा लेने और प्रश्नोत्तर करने का सामर्थ्य देता है वैसे ही आप भी जिस २ अङ्ग से
मनुष्य विरुद्ध करते हैं उस २ अंग पर दण्ड मारने और वैद्यादि की प्रतिष्ठा करने से
राजधर्म की निरन्तर उन्नति कीजिये ॥ १० ॥

अर्मेभ्य इत्यस्य नारायण ऋषिः । विद्वान् देवता ।

स्वराडतिशकरी छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

अर्मेभ्यो हस्तिपंजवायाश्वपं पुष्ट्यै गोपालं
वीर्यायाविपालं तेजसेऽजपालमिरायै कीनाशं
कीलालाय सुराकारं भद्राय गृहप * श्रेयसे वित्त-
धमाध्यक्ष्यायानुक्षत्तारम् ॥ ११ ॥

अर्मेभ्यः । हस्तिपमिति हस्तिऽपम् । जवाय । अश्वपमित्यश्वऽपम् । पुष्ट्यै ।
गोपालमिति गोऽपालम् । वीर्याय । अविपालमित्यविऽपालम् । तेजसे ।
अजपालमित्यजऽपालम् । इरायै । कीनाशम् । कीलालाय । सुराकारमिति
सुराऽकारम् । भद्राय । गृहपमिति गृहऽपम् । श्रेयसे । वित्तधमिति वित्तऽधम् ।
अध्यक्ष्यायेत्याधिऽअक्ष्याय । अनुक्षत्तारमित्यनुऽक्षत्तारम् ॥ ११ ॥

पदार्थः—(अर्मेभ्यः) प्रापकेभ्यः (हस्तिपम्) हस्तीनां
पालकम् (जवाय) वेगाय (अश्वपम्) अश्वनां रक्षकं
शिक्षकम् (पुष्ट्यै) रक्षणाय (गोपालम्) गवां पाल-
कम् (वीर्याय) वीर्यवृद्धये (अविपालम्) अवीनां
रक्षकम् (तेजसे) तेजोवर्द्धनाय (अजपालम्) अजानां

रक्षकम् (इरायै) अन्नादिवृद्धये । इरेत्यन्नना० निघं० २ ।
 ७ (कीनाशम्) कृषीबलम् (कीलालाय) अन्नाय ।
 कीलाल इत्यन्नना० निघं० २ । ७ (सुराकारम्) सोम-
 निष्पादकम् (भद्राय) कल्याणाय (गृहपम्) गृहाणां
 रक्षकम् (श्रेयसे) धर्मार्थकामप्राप्तये (वित्तधम्) यो
 वित्तधनं दधाति तम् (आध्यक्ष्याय) अध्यक्ष्याणां भावाय
 (अनुक्षत्तारम्) सारथ्यनुकूलम् ॥ ११ ॥

अन्वयः— हे ईश्वर राजन् ! वा त्वमर्मेभ्यो हस्तिपं जवायाऽश्वपंपुष्ट्यै
 गोपालं वीर्यायाऽविपालं तेजसेऽजपालमिग्यै कीनाशं कीलालाय सुराकारं
 भद्राय गृहपं श्रेयसे वित्तधमाध्यक्ष्यायाऽनुक्षत्तारमासुव ॥ ११ ॥

भावार्थः— राजपुरुषैः सुशिक्षितान् हस्तिरक्षकादीन् सङ्गृह्यै तैर्यहवो
 व्यवहाराः साधनीयाः ॥ ११ ॥

पदार्थः— हे ईश्वर वा राजन् ! आप (अर्मेभ्यः) प्राप्ति कराने वालों के
 लिये (हस्तिपम्) हाथियों के रक्षक को (जवाय) वेग के अर्थ (अश्वपम्)
 घोड़ों के रक्षक शिक्क को (पुष्ट्यै) पुष्टि रखने के लिये (गोपालम्) गौश्रों
 के पालने हारे को (वीर्याय) वीर्य्य बढ़ाने के अर्थ (अविपालम्) गड़रिये को
 (तेजसे) तेज वृद्धि के लिये (अजपालम्) बकरे बकारियों को
 (इरायै) अन्नादि के बढ़ाने के अर्थ (कीनाशम्) खितिहर को (कीलालाय)
 अन्न के लिये (सुराकारम्) सोम औषधियों के रस को निकालने वाले को
 और (भद्राय) कल्याण के अर्थ (गृहपम्) घरों के रक्षक को (श्रेयसे) धर्म,
 अर्थ और कामना की प्राप्ति के अर्थ (वित्तधम्) धन धारण करने वालों को
 और (आध्यक्ष्याय) अध्यक्ष्यों के स्वत्व के लिये (अनुक्षत्तारम्) अनुकूल
 सारथि को उत्पन्न कीजिये ॥ ११ ॥

भावार्थः— राजपुरुषों को चाहिये कि अच्छे शिक्षित हाथी आदि को रखने वाले
 पुरुषों को ग्रहण कर इन से बहुत से व्यवहार सिद्ध करें ॥ ११ ॥

भाया इत्यस्य नारायण ऋषिः । विद्वान् देवता ।

विराट् पङ्क्तिश्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

भायै दार्वारं प्रभायां अग्न्येधं ब्रध्नस्य
विष्टपायाभिषेक्तारं वर्षिष्ठाय नाकाय परिवेष्टारं
देवल्लोकाय पेशितारं मनुष्यलोकाय प्रकरितार-
ॐ सर्वेभ्यो लोकेभ्य उपसेक्तारमवऽऋत्यै वधायो-
पमन्थितारं मेधाय वासःपल्पूलीप्रक्रामाय रज-
यित्रीम् ॥ १२ ॥

भायै । दार्वारमिति दारुऽआहारम् । प्रभायाऽइति प्रभायै । अग्न्येध-
मित्याग्निऽएधम् । ब्रध्नस्य । विष्टपाय । अभिषेक्तारम् । अभिसेक्तारमित्याभि-
सेक्तारम् । वर्षिष्ठाय । नाकाय । परिवेष्टारमिति परिवेष्टारम् । देवल्लोका-
येति देवऽलोकाय । पेशितारम् । मनुष्यलोकायेति मनुष्यऽलोकाय । प्रकरिता-
रमिति प्रकरितारम् । सर्वेभ्यः । लोकेभ्यः । उपसेक्तारमित्युपसेक्तारम् ।
अवऽऋत्याऽ इत्यवऽऋत्यै । वधाय । उपमन्थितारमित्युपमन्थितारम् ।
मेधाय । वासःपल्पूलीमिति वासःपल्पूलीम् । प्रक्रामायेति प्रक्रामाय ।
रजयित्रीम् ॥ १२ ॥

पदार्थः— (भायै) दीप्त्यै (दार्वहारम्) यो दारुणि
 काष्ठान्याहरति तम् (प्रभायै) (अग्न्येधम्) अग्निश्चै-
 धश्च तत् (ब्रध्नस्य) अश्वस्य । ब्रधू इत्यश्वना० निघं०
 १ । १४ (विष्टपाय) विशन्ति यत्र तस्मै मार्गाय (अ-
 भिषेक्तारम्) अभिषेककर्तारम् (वर्षिष्ठाय) अतिवृद्धा-
 य श्रेष्ठाय (नाकाय) अविद्यमानदुःखाय (परिवेष्टारम्)
 परिवेषणकर्तारम् (देवलोकाय) देवानां दर्शनाय (पे-
 शितारम्) विद्यावयववेत्तारम् (मनुष्यलोकाय) मनु-
 ष्यत्वदर्शनाय (प्रकरितारम्) विक्षेप्तारम् (सर्वेभ्यः)
 (लोकेभ्यः) संहतेभ्यः (उपसेक्तारम्) उपसेचनक-
 र्तारम् (अवऋत्यै) विरुद्धप्राप्तये (वधाय) हननाय प्रवृ-
 त्तम् (उपमन्थितारम्) समीपे विलोडितारम् (मेधाय)
 सङ्गमाय (वासःपल्पूलीम्) वाससांशुद्धिकरीम् (प्रका-
 माय) प्रकृष्टकामनासिद्धये (रजयित्रीम्) विविधराग-
 कारिणीम् ॥ १२ ॥

अन्वयः—हे जगदीश्वर राजन् वा त्वं भायै दार्वहारं प्रभाया अग्न्येधं
 ब्रध्नस्य विष्टपायाभिषेक्तारं वर्षिष्ठाय नाकाय परिवेष्टारं देवलोकाय पेशि-
 तारं मनुष्यलोकाय प्रकरितारं सर्वेभ्यो लोकेभ्य उपसेक्तारं मेधाय वासःप-
 ल्पूलीं प्रकामाय रजयित्रीमासुव । अवऋत्यै वधायोपमन्थितारं परासुवा ॥ १२ ॥

भावार्थः—राजपुरुषादिमनुष्यैरीश्वरसृष्टेः सकाशात्सर्वाः सारग्रीर्वाच्या-
 स्ताभिः शरीरबलं विद्यान्यायप्रकाशो महत्सुखं राज्याभिषेकाः दुःखविनाशो
 विद्वत्सङ्गो अनुष्यस्वभाषो वज्रादिपवित्रता निष्पादनीया विरोधश्च
 त्यक्तः ॥ १२ ॥

पदार्थः—हे जगदीश्वर वा राजन् ! आप (भायै) दीप्ति के लिये (दार्वहा-
 रम्) काष्ठों को पहुंचाने वाले को (प्रभायै) कान्ति शोभा के लिये (अग्न्येधम्)

आग्नेन और इन्धन को (ब्रध्नस्य) घोंडे के (विष्टपाय) मार्ग के अर्थ (अभिषे-
क्तारम्) अभिषेक राजतिलक करने वाले को (वर्षिष्ठाय) अति श्रेष्ठ (नाकाय)
सब दुःखों से रहित सुख विशेष के लिये (परिवेशारम्) परांसने वाले को (देव-
लोकाय) विद्वानों के दर्शन के लिये (पेशिनारम्) विद्या के अवयवों को जानने
वाले को (मनुष्यलोकाय) मनुष्यजन के देखने को (प्रकरितारम्) चित्तप करने वाले
को (सर्वेभ्यः) सब (लोकेभ्यः) लोकों के लिये (उपसेक्तारम्) उपसेचन करने वाले
को (मेधाय) सङ्गम के अर्थ (वासःपल्पूलीम्) वस्त्रों को शुद्ध करने वाली ओषधि
को और (प्रकामाय) उत्तम कामना की सिद्धि के लिये (रजयित्रीम्) उत्तम
रंग करने वाली आंषधि को उत्पन्न प्रकट कीजिये और (अवच्छत्यै) विरुद्ध
प्राप्ति जिस में हो उम (वधाय) मारने के लिये प्रवृत्त हुए (उपमन्थितारम्)
ताडनादि से पीड़ा देने वाले दुष्ट को दूर कीजिये ॥ १२ ॥

भावार्थः—राजपुरुषादि मनुष्यों को चाहिये कि ईश्वर रचित सृष्टि से सब साम-
ग्रियों को ग्रहण करें उन से शरीर का बल विद्या और न्याय का प्रकाश बड़ा सुख राज्य
का अभिषेक दुःखों का विनाश विद्वानों का संग मनुष्यों का स्वभाव वस्त्रादि की पवित्र-
ता अच्छी सिद्ध करें और विरोध को छोड़ें ॥ १२ ॥

ऋतय इत्यस्य नारायण ऋषिः । ईश्वरो देवता ।

कृतिश्लोकाः । निषादः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

ऋतये स्तेनहृदयं वैरहत्याय पिशुनं विविक्तयै
क्षत्तारमौपद्रव्यायानुक्षत्तारं बलायानुचरं भूमने
परिष्कन्दं प्रियायं प्रियवादिनपरिष्क्या अश्व-
सादश्च स्वर्गायं लोकायं भागदुधं वर्षिष्ठाय नाकाय
परिवेशारम् ॥ १३ ॥

ऋतये । स्तेनहृदयमिति स्तेनऽहृदयम् । वैरहत्यायेति वैरऽहत्याय । पिशुनम् ।
विविक्त्याऽइति विऽविक्त्यै । क्षत्तारम् । औपद्रष्ट्यायेत्यौपऽद्रष्ट्याय । अनु-
क्षत्तारमित्यनुऽक्षत्तारम् । बलाय । अनुचरमित्यनुऽचरम् । भूमने । परिष्कन्दम् ।
परिष्कन्दामिति परिऽष्कन्दम् । प्रियाय । प्रियवादिनमिति प्रियवादिनम् । अ-
रिष्ट्यै । अश्वसादमित्यश्वऽसादम् । स्वर्गायेति स्वऽर्गाय । लोकाय । भागदु-
घमिति भागऽदुघम् । वर्षिष्ठाय । नाकाय । परिवेष्टारमिति परिवेष्टारम् ॥ १३ ॥

पदार्थः— (ऋतये) हिंसायै प्रवृत्तम् (स्तेनहृदयम्) चा-
रस्य हृदयमिव हृदयमस्यतम् (वैरहत्याय) वैरं हत्या च य-
स्मिन् कर्मणि तस्मै प्रवर्त्तमानम् (पिशुनम्) विरुद्धसूचकम्
(विविक्त्यै) विवेकाय (क्षत्तारम्) क्षतात्तारकं धर्मा-
त्मानम् (औपद्रष्ट्याय) उपद्रष्टृत्वाय (अनुक्षत्तारम्)
(बलाय) (अनुचरम्) (भूमने) बहुत्वाय (परिष्कन्दम्)
सर्वतो रेतसः सेत्तारम् (प्रियाय) प्रीत्यै (प्रियवादिन-
म्) (अरिष्ट्यै) कुशलप्राप्तये (अश्वसादम्) योऽश्वा-
न् सादयति तम् (स्वर्गाय) सुखविशेषाय (लोकाय)
दर्शनाय सङ्घाताय वा (भागदुघम्) यो भागान् दे-
ग्धि प्रपिपत्ति तम् (वर्षिष्ठाय) अतिशयेन वृद्धाय
(नाकाय) अविद्यमानदुःखायाऽऽनन्दाय (परिवेष्टारम्)
परितः सर्वतो व्याप्तविद्वां विद्वांसम् ॥ १३ ॥

अन्वयः—हे परमात्मन् राजन् वा त्वमृतये स्तेनहृदयं वैरहत्याय पि-
शुनं परासुव । विविक्त्यै क्षत्तारौपद्रष्ट्यायानुक्षत्तारं बलायाऽनुचरं भूमने
परिष्कन्दं प्रियाय प्रियवादिनारिष्ट्याअश्वसादं स्वर्गाय लोकाय भागदुघं
वर्षिष्ठाय नाकाय परिवेष्टारमासुव ॥ १३ ॥

भावार्थः—राजादिमनुष्यैर्दुष्टसङ्गं विहाय श्रेष्ठसङ्गं विधाय विवेकादी-
न्युत्पाद्य सुखयितव्यम् ॥ १३ ॥

पदार्थः—हे परमात्मन् वा राजन् आप (ऋतये) हिंसा करने के लिये
प्रवृत्त हुए (स्तेनहृदयम्) चोर के तुल्य छली कपर्दी को और (वैरहत्यायः)
वैर तथा हत्या जिस कर्म में हो उस के लिये प्रवृत्त हुए (पिशुनम्) निन्दक
को पृथक् कीजिये । (त्रिविक्तयैः) विविक्ते करने के लिये (क्षत्तारम्) ताड़ना
से रक्षा करने हारे धर्मात्मा को (श्रीपद्रुष्याय) उपद्रष्टा होने के लिये (अनु-
क्षत्तारम्) धर्मात्मा के अनुकूल वर्ती को (बलाय) बल के अर्थ (अनुचरम्)
सेवक को (भूम्ने सृष्टि की अधिकता के लिये (परिष्कन्दम्) सब ओर से
वीर्य संचिने वाले को (प्रियाय) प्रीति के अर्थ (प्रियवादिनम्) प्रियवादी को
(अरिष्ट्यै) कुशल प्राप्ति के लिये (अश्वसादम्) घोड़ों को चलाने वाले को
(स्वर्गाय) सुख विशेष के लोकाय) देखने वा संचित करने के लिये (भागदुष्यम्)
अशों को पूर्ण करने वाले को (वर्षिष्ठाय) अति श्रेष्ठ (नाकाय) सब दुखों से
राहित आनन्द के लिये (परिवेष्टारम्) सब ओर से व्याप्त विद्या वाले विद्वान् को
प्रकट कीजिये ॥ १३ ॥

भावार्थः—राजा आदि उत्तम मनुष्यों को चाहिये कि दुष्टों के संग को छोड़ श्रेष्ठों
का संग कर विवेक आदि को उत्पन्न कर सुखी हों ॥ १३ ॥

मन्यव इत्यस्य नारायण ऋषिः । राजेश्वरौ देवते ।

निचूदयष्टिंशच्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसीवि० ॥

मन्यवैऽयस्तापंक्रोधाय निसुरयोगाय योक्ता
रथशोकायाऽभिसर्तारं क्षमाय विमोक्तारमुत्कूल-
निकूलेभ्यस्त्रिष्टिनं वपुषे मानस्कृतशीलायाञ्ज-
नीकारिं निर्ऋत्यै कोशकारीं यमायासूम् ॥ १४ ॥

मन्यवे । अयस्तापमित्यङऽतापम् । क्रोधाय । निसरमिति निऽसरम् । योगाय । योक्तारम् । शोकाय । अभिसर्तारमित्यभिऽसर्तारम् । क्षेमाय । विमोक्तारमिति विऽमोक्तारम् । उत्कूलनिकूलेभ्यऽ इत्युत्कूलऽनिकूलेभ्यः । त्रिष्टिनम् । त्रिस्थिनमिति त्रिऽस्थिनम् । वपुषे । मानस्कृतम् । मानऽऽकृतमिति मानऽऽकृतम् । शीलाय । आज्ञनीकारीमित्याज्ञनीऽकारीम् । निर्ऋत्याऽइति निऽऽकृत्यै । कोशकारीमिति कोशऽकारीम् । यमाय । असूम् । ॥ १४ ॥

पदार्थः—(मन्यवे) आन्तर्यक्रोधाय प्रवृत्तम् (अयस्तापम्) लोहसुवर्णतापकम् (क्रोधाय) बाह्यकोपाय प्रवृत्तम् (निसरम्) यो निश्चितं सरति गच्छति तम् (योगाय) युञ्जन्ति यस्मिँस्तस्मै (योक्तारम्) योजकम्(शोकाय) (अभिसर्तारम्) आभिमुख्ये गन्तारम् (क्षेमाय) रक्षणाय (विमोक्तारम्)दुःखाद्धिमोचकम् (उत्कूलनिकूलेभ्यः) ऊर्ध्वनीचतटेभ्यः (त्रिष्टिनम्)ये त्रिषु जलस्थलान्तरिक्षेषु तिष्ठन्ति ते त्रिष्टा बहवस्त्रिष्टा विद्यन्ते यस्य तम् (वपुषे) शरीरहिताय (मानस्कृतम्) मनस्कृतेषु विचारेषु कुशलम् (शीलाय)जितेन्द्रियत्वादिशीलिने (आञ्जनीकारीम्) आञ्जनीः प्रसिद्धाः क्रियाः कर्तुं शीलं यस्यास्ताम् (निर्ऋत्यै) भूम्यै (कोशकारीम्)या कोशं करोति ताम् (यमाय) दण्डदानाय प्रवृत्तम् (असूम्) याऽस्यति प्रक्षिपति ताम्॥ १४ ॥

अन्वयः—हे जगदीश्वर ! राजन् वा ! त्वं मन्यवेऽयस्तापं क्रोधाय निसरं शोकायाभिसर्तारं यमायासूं पराशुव । योगाय योक्तारं क्षेमाय

विमोक्तारमुत्कूलनिकूलेहेभ्यस्त्रिष्ठिनं वपुषे मानस्कृतं शीलायाऽऽञ्जनीकारिं
निर्ऋत्यै कोशकारीमासुव ॥ १४ ॥

भावार्थः—हे राजादयो मनुष्या ये तप्तं लोहमिव क्रुद्धा अन्येषां
परितापका धर्मनियमानां विनाशकाः स्युस्तान् दण्डयित्वा योगाभ्यासक-
र्त्तादीन् सत्कृत्य सर्वत्र यानगमकान् सङ्गृह्य यथावत् सुखं युष्माभिर्वर्द्ध-
नीयम् ॥ १४ ॥

पदार्थः—हे जगदीश्वर वा सभापते राजन् ! आप (मनुष्ये) अन्तर्य क्रोध
के अर्थ प्रवृत्त हुए (अयस्तापम्) लोह वा सुवर्ण को तपाने वाले को (क्रोधाय)
बाह्य क्रोध के लिये प्रवृत्त हुए (निसरम्) निश्चित चलने वाले को (शोकाय)
शोच के लिये प्रवृत्त हुए (अभिसर्त्तारम्) सन्मुख चलने वाले को और
(यमाय) दण्ड देने के लिये प्रवृत्त हुए (असूम्) क्रोध से इधर उधर हाथ
आदि फेंकने वाली को दूर काँजिये और (योगाय) योगाभ्यास के लिये (योक्तारम्)
योग करने वाले को (क्षेमाय) रक्षा के लिये (विमोक्तारम्) दुःख से छुड़ाने
वाले को (उत्कूलनिकूलेभ्यः) ऊपर नीचे किनारों पर चढ़ाने उतारने के लिये
(त्रिष्ठिनम्) जल स्थल और आकाश में रहने वाले विमानादि यानों से युक्त
पुरुष को (वपुषे) शरीर हित के लिये (मानस्कृतम्) मन से किये विचारों
में प्रवीण को (शीलाय) जितेन्द्रियता आदि उत्तम स्वभाव वाले के लिये
(आञ्जनीकारीम्) प्रसिद्ध क्रियाओं के करने हारे स्वभाव वाली स्त्री को और
(निर्ऋत्यै) भूमि के लिये (कोशकारीम्) कोश का संचय करने वाली स्त्री
को उत्पन्न वा प्रगट कीजिये ॥ १४ ॥

भावार्थः—हे राजा आदि मनुष्यो ! जो तपे लोहे के तुल्य क्रोध को प्राप्त हुए
औरो को दुःख देने और धर्म नियमों को नष्ट करने वाले हों उन को दण्ड देकर
योगाभ्यास करने वाले आदि का सत्कार कर सब जगह सवारी चलाने वालों को इकट्ठा
कर तुम को यथावत् सुख बढ़ाना चाहिये ॥ १४ ॥

यमायेत्यस्य नारायण ऋषिः । राजेश्वरौ देवते ।

विराट् कृतिश्छन्दः । त्रिषादः स्वः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

यमायं यमसूमर्थर्वभ्योऽवतोकाः संवत्सरायं
पर्यायिणीं परिवत्सरायविजातामिदावत्सराया-
तीत्वंरीमिद्वत्सरायातिष्कद्वरीं वत्सराय विजर्ज-
रां संवत्सराय पलिक्रीमृभुभ्योऽजिनसन्धः
सा येभ्यश्चर्मन्म ॥ १५ ॥

यमायं । यमसूमिति यमसूमं । अर्थर्वभ्यः इत्यर्थर्वभ्यः । अवतोका-
मित्यवतोकां । संवत्सरायं । पर्यायिणीम् । पर्यायिनीमिति परिञ्चायिनीम् ।
परिवत्सरायेति परिवत्सरायं । अविजातामित्यविजाताम् । इदावत्सरायं ।
अतीत्वंरीमित्यतिऽत्वंरीम् । इद्वत्सरायेतीत्सरायं । अतिष्कद्वरीम् । अति-
स्कद्वरीमित्यतिऽस्कद्वरीम् । वत्सरायं । विजर्जरामिति विजर्जराम् । संवत्स-
रायं । पलिक्रीम् । ऋभुभ्यः इत्यृभुभ्यः । अजिनसन्धमित्यजिनसन्धम् ।
साध्येभ्यः । चर्मन्मिति चर्मन्म ॥ १५ ॥

पदार्थः—(यमाय)नियन्त्रे (यमसूम)या यमान् नियन्त्रीन्
सूतेताम्(अर्थर्वभ्यः)आहिंसकेभ्यः(अवतोकां)निरपत्यम्

पदार्थः—(संवत्सराय)(पर्यायिणीम्)परितःकालक्रमज्ञाम्
 (परिवत्सराय)द्वितीयवर्षनिर्णयाय (अविजाताम्)
 अप्रसूतां ब्रह्मचारिणीम् (इदावत्सराय) इदावत्सरस्तृ-
 तीयस्तत्र कार्यसम्पादनाय । अत्र वर्षाव्यत्ययः । (अ-
 तीत्वरीम्) अतिगमनशीलाम् (इद्वत्सराय) पञ्चमाय
 वर्षाय (अतिष्कद्वरीम्) अतिशयेन या स्कन्दति जा-
 नाति ताम् (वत्सराय) सामान्याय (विजर्जराम्)
 विशेषेण जर्जरीभूताम् (संवत्सराय) चतुर्थायानुवत्स-
 राय । अत्रानोः पूर्वपदस्य लोपः(पलिकनीम्) श्वेतके-
 शाम् (ऋभुभ्यः) मेधाविभ्यः(अजिनसन्धम्) जेतुम-
 योग्यान् संदधाति तम् । अत्र जि धातोःकर्मणि नक्
 उ० । ३ । २ । (साध्येभ्यः) ये साहुं योग्यास्तेभ्यः
 (चर्मन्मम्) यञ्चर्म विज्ञानं म्नात्यभ्यस्यति तम् ॥१५॥

अन्वयः—हे जगदीश्वर राजन् ! वा त्वं यमाय यमसूमथर्वभ्योऽवतोकां
 संवत्सराय पर्यायिणीं परिवत्सरायाविजातामिदावत्सरायातीत्वरीमिद्वत्स-
 रायातिष्कद्वरीं वत्सराय विजर्जरां संवत्सराय पलिकनीमृभुभ्योऽजिनसन्धं
 साध्येभ्यश्चर्मन्मसासुव ॥ १५ ॥

भावार्थः—प्रभवादिषष्टिसंवत्सरेषु पञ्च पञ्च कृत्वा द्वादश युगानि
 भवन्ति प्रत्येकयुगे क्रमेण संवत्सरपरिवत्सरे दावत्सरांनुवत्सरेद्वत्सराः पञ्च
 सङ्घा भवन्ति तान् सर्वकालावयवमूलान् विशेषतया याः स्त्रियो यथावद्वि-
 ज्ञाय ठ्यर्थं न नयन्ति ताः सर्वार्थसिद्धिसाम्पु वन्ति ॥ १५ ॥

पदार्थः—हे जगदीश्वर ! वा राजन् ! आप (यमाय) नियमकर्ता के लिये
 (यमसूम) नियन्ताओं को उत्पन्न करने वाली को (अथर्वभ्यः) अहिंसकों के

लिये (अवतोकां) जिस की सन्तान बाहर निकल गयी हो उस स्त्री को (संवत्स-
राय) प्रथम संवत्सर के अर्थ (पर्यायिणीम्) सब ओर से काल के क्रम को
जानने वाली को (परिवत्सराय) दूसरे वर्ष के निर्णय के लिये (अविजाताम्)
ब्रह्मचारिणी कुमारी को (इदावत्सराय) तीसरे इदावत्सर में कार्य साधने के
अर्थ (अतीत्वरीम्) अत्यन्त चलने वाली को (इद्वत्सराय) पाचवें इद्वत्सर के
ज्ञान के अर्थ (अतिष्कद्वरीम्) अतिशय कर जानने वाली को (वत्सराय) सा-
मान्य संवत्सर के लिये (विजर्जरां) वृद्धा स्त्री को (संवत्सराय) चौथे अनुवत्सर
के लिये (पलिकनीम्) श्वेत केशों वाली को (ऋभुभ्यः) बुद्धिमानों के अर्थ
(अजिनसन्धम्) नहीं जीतने योग्य पुरुषों से मेल रखने वाले को (साध्येभ्यः)
और साधने योग्य कार्यों के लिये (चर्मन्म्) विज्ञान शास्त्र का अभ्यास करने
वाले पुरुष को उत्पन्न कीजिये ॥ १५ ॥

भावार्थः— प्रभव आदि ६० साठ संवत्सरों में पांच २ कर १२ वारह युग होते
हैं उन प्रत्येक युग में क्रम से संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर और इद्वत्सर;
ये पांच संज्ञा हैं उन सब काल के अवयवों के मूल संवत्सरों को विशेष कर जो स्त्री
लोग यथावत् जान के व्यर्थ नहीं गवाती वे सब प्रयोजनों की सिद्धि को प्राप्त होती
हैं ॥ १५ ॥

सरोभ्य इत्यस्य नारायण ऋषिः । राजेश्वरी देवते ।

विराट् कृतिश्छन्दः । निपाद्ः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयसाह ॥

फिर उसी वि० ॥

सरोभ्यो धैवरमुपस्थावराभ्यो दाशं वैशन्ता-
भ्यो वैन्दं नडूलाभ्यः शौष्कलं पारायं मार्गारम-
वारायं केवत्तं तीर्थेभ्यं आन्दं विषमेभ्यो मैनालुं
स्वनेभ्यः पर्णकं गुहाभ्यः किरातुं सानुभ्यो
जम्मकं पर्वतेभ्यः किम्पूरुषम् ॥ १६ ॥

सरोभ्यऽ इति सरःऽभ्यः । धैवरम् । उपस्थावराभ्यऽ इत्युपऽस्थावराभ्यः ।
 दाशम् । वैशन्ताभ्यः । वैन्दम् । नड्वलाभ्यः । शौक्लम् । पाराय । मार्गरम् ।
 आवाराय । केवर्त्तम् । तीर्थेभ्यः । आन्दम् । विषमेभ्यऽइतिविऽममेभ्यः । मैनालम् ।
 स्वेनेभ्यः । पर्णाकम् । गुहाभ्यः । किरातम् । सानुभ्यऽइति सानुऽभ्यः । जम्भकम् ।
 पर्वतेभ्यः । क्रिम्पूरुपम् । क्रिम्पूरुपमिति किम्ऽपूरुपम् ॥ १६ ॥

पदार्थः—(सरोभ्यः) तडागेभ्यस्तारणाय (धैवरम्)
 धीवरस्यापत्यम् (उपस्थावराभ्यः) उपस्थिताभ्योऽव-
 राभ्यो निकृष्टक्रियाभ्यः (दाशम्) दाशत्यस्मै तम्
 (वैशन्ताभ्यः) वैशन्ता अल्पजलाशयास्ता एव ताभ्यः
 (वैन्दम्) निषादस्यापत्यम् (नड्वलाभ्यः) नडा विद्य-
 न्ते यासु भूमिषु ताभ्यः (शौक्लम्) यश्शुक्लैर्म-
 ल्यैर्जीवति तम् (पाराय) मृगकर्मसमाप्त्यर्थं प्रवृत्तम्
 (मार्गरम्) यो मृगाणांमरिर्व्याधस्तस्यापत्यम् (अवा-
 राय) अर्वाचीनमागमनाय (केवर्त्तम्) जले नौकायाः
 पारावारयोगमकम् (तीर्थेभ्यः) तरन्ति यैस्तीर्यन्ते वा
 तेभ्यः (आन्दम्) वन्धितारम् (विषमेभ्यः) निकटदेशे-
 भ्यः (मैनालम्) यो मैनां कामदेवमलति वारयति तं
 जितेन्द्रियम् (स्वेनेभ्यः) शब्देभ्यः (पर्णाकम्) यः पर्णांषु
 पालनेषु कुत्सितस्तम् (गुहाभ्यः) कन्दराभ्यः (किरातम्)
 जनविशेषम् (सानुभ्यः) शैलशिखरेभ्यः (जम्भकम्)

यो जम्भयति नाशयति तम् (पर्वतेभ्यः) गिरिभ्यः (किम्पूरुषम्) जाङ्गलं कुत्सितं मनुष्यम् ॥ १६ ॥

अन्वयः—हे जगदीश्वर राजन् वा ! त्वं सरोभ्यो धैवरमुपस्थाधराभ्यो दाशं वैशन्ताभ्यो वैन्दं नड्वलाभ्यः शौष्कलं विपमेभ्यो मैनालनवाराय केवर्त्तं तीर्थेभ्य आन्दमासुव । पाराय मार्गारं स्वनेभ्यः पणकं गुहाभ्यः किरातं सानुभ्यो जम्भकं पर्वतेभ्यः किम्पूरुषं परासुव ॥ १६ ॥

भावार्थः—मनुष्या ईश्वरगुणकर्मस्वभावानुकूलैः कर्मभिर्धानरादीन् संरक्ष्य व्याधादीन् पत्न्यज्योत्तमं सुखं प्राप्नुवन्तु ॥ १६ ॥

पदार्थः—हे जगदीश्वर वाराजन्! आप (सरोभ्यः) बड़े तलावों के लिये (धैवरम्) धीमर के लड़के को (उपस्थाधराभ्यः) समीपस्थ निकृष्ट क्रियाओं के अर्थ (दाशम्) जिस को दिया जावे उस सेवक को (वैशन्ताभ्यः) छोटे २ जलाशयों के प्रबन्ध के लिये (वैन्दम्) निपाद के अपत्य को (नड्वलाभ्यः) नरसल वाली भूमि के लिये (शौष्कलम्) मच्छियों से जीवने वाले को और (विपमेभ्यः) विकट देशों के लिये (मैनालम्) कामदेव को रोकने वाले को (अवाराय) अपनी ओर आने के लिये (केवर्त्तम्) जल में नौका को इस पार उस पार पहुंचाने वाले को (तीर्थेभ्यः) तरने के साधनों के लिये (आन्दम्) बांधने वाले को उत्पन्न कीजिये (पाराय) हरिण आदि की चण्डों को समाप्त करने को प्रवृत्त हुए (मार्गारम्) व्याध के पुत्र को (स्वनेभ्यः) शब्दों के लिये (पणकम्) रक्षा करने में निन्दित भील को (गुहाभ्यः) गुहाओं के अर्थ (किरातम्) बहेलिये को (सानुभ्यः) शिखरों पर रहने के लिये प्रवृत्त हुए (जम्भकम्) नाश करने वाले को और (पर्वतेभ्यः) पहाड़ों से (किम्पूरुषम्) खांटे जंगली मनुष्य को दूर कीजिये ॥ १६ ॥

भावार्थः—मनुष्य लोग ईश्वर के गुणकर्म स्वभावों के अनुकूल कर्मों से कहार आदि की रक्षा कर और बहेलिये आदि हिंसकों को छोड़ के उत्तम सुख पावें ॥ १६ ॥

बीभत्साया इत्यस्य नारायण ऋषिः । राजेश्वरौ देवते ।

विराट् धृतिश्छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

बीभत्सायै पौलकसं वर्णाय हिरण्यकारं तुला-
यै वाणिजं पश्चादोषाय ग्लाविनं विश्वेभ्यो भू-
तेभ्यः सिध्मलं भूत्यै जागरणमभूत्यै स्वपनमा-
त्यै जनत्रादिनं व्यृद्ध्या अपगल्भ सशरायं
प्रच्छिदम् ॥ १७ ॥

बीभत्सायै । पौलकसम् । वर्णाय । हिरण्यकारमिति हिरण्यकारम् । तु-
लायै । वाणिजम् । पश्चादोषायेति पश्चादोषाय । ग्लाविनम् । विश्वे-
भ्यः । भूतेभ्यः । सिध्मलम् । भूत्यै । जागरणम् । अभूत्यै । स्वपनम् । आ-
त्यैऽ इत्याऋत्यै । जनत्रादिनमिति जनत्रादिनम् । व्यृद्ध्याऽ इति त्रिऽऋध्यै ।
अपगल्भमित्यपऽगल्भम् । सशरायेति समऽशरायं । प्रच्छिदमिति प्रऽ
च्छिदम् ॥ १७ ॥

पदार्थः—(बीभत्सायै) भर्त्सनाय प्रवृत्तम् (पौलक-
सम्) पुक्कसस्थान्त्यजस्याऽपत्यम् । अत्र पृषोदरादि-
त्वादभीष्टसिद्धिः (वर्णाय) सुरूपसंपादनाय (हिरण्य-
कारम्) सुवर्णकारं सूर्यं वा (तुलायै) तोलनाय (वा-
णिजम्) वाणिजपत्यम् (पश्चादोषाय) पश्चादोषदानाय
प्रवृत्तम् (ग्लाविनम्) अहर्षितारम् (विश्वेभ्यः) सर्वे-

भूयः (भूतेभ्यः) (सिध्मलम्) सिध्माः सुखसाधका
 विद्यन्ते यस्य तम् (भूत्यै) ऐश्वर्याय (जागरणम्) जा-
 गृतम् (अभूत्यै) अनैश्वर्याय (स्वपनम्) निद्राम् (आ-
 त्त्यै) पीडानिवृत्तये (जनवादिनम्) प्रशस्ता जनवादा
 विद्यन्ते यस्य तम् (वृद्ध्यै) विगतां चासौ ऋद्धिश्च व्यु-
 द्विस्तस्यै (अपगल्भम्) प्रगल्भतारहितम् (संशराय)
 सम्यग्धिसनाय प्रवृत्तम् (प्रच्छिदम्) यः प्रच्छिनत्ति
 तम् ॥ १७ ॥

अन्वयः—हे ईश्वर वा राजन् ! त्वं वीभत्सायै पौलकसं पश्चादोषाय
 ग्लाविनमभूत्यै स्वपनं व्युद्ध्या अपगल्भं संशराय प्रच्छिदं पराशुव । वर्णाय
 हिरण्यकारं तुलायै वाणिजं विश्वेभ्यो भूतेभ्यः सिध्मलं भूत्यै जागरणमात्त्यै
 जनवादिनमाशुव ॥ १७ ॥

भावार्थः—ये सनुष्या नीचसङ्गत्यकत्वोत्तमसङ्गतिं कुर्वन्ति ते सर्वव्यवहा-
 रसिद्धयैश्वर्यावन्तो जायन्ते । येऽनलसाः सन्तोः सिद्धये यतन्ते ते सुख ये
 चाऽलसास्ते च दारिद्र्यमाप्नुवन्ति ॥ १७ ॥

पदार्थः—हे जगदीश्वर वा राजन् ! आप (वीभत्सायै) धमकाने के लिये
 प्रवृत्त हुए (पौलकसम्) भंगी के पुत्र को (पश्चादोषाय) पीछे दोष देने को
 प्रवृत्त हुए (ग्लाविनम्) हर्ष को नष्ट करने वाले को (अभूत्यै) दरिद्रता के
 अर्थ समर्थ (स्वपनम्) सोने को (व्युद्ध्यै) संपत् के विगाड़ने के अर्थ प्रवृत्त
 हुए (अपगल्भम्) प्रगल्भता रहित पुरुष को तथा (संशराय) सम्यक् मारने
 के लिये प्रवृत्त हुए (प्रच्छिदम्) अधिक छेदन करने वाले को पृथक् कीजिये
 और (वर्णाय) सुन्दररूप बनाने के लिये (हिरण्यकारम्) सुनार वा सूर्य
 को (तुलायै) तालने के अर्थ (वाणिजम्) वणिये के पुत्र को (विश्वेभ्यः)
 सब (भूतेभ्यः) प्राणियों के लिये (सिध्मलम्) सुख सिद्ध करने वाले जिस
 के सहायी हों उस जन को (भूत्यै) ऐश्वर्य होने के अर्थ (जागरणम्)

प्रबोध को और (आर्त्यै) पीडा की निवृत्ति के लिये (जनवदिनम्) मनुष्यों को प्रशंसा के योग्य वाद विवाद करने वाले उत्तम मनुष्य को उत्पन्न वा प्रकट कीजिये ॥ १७ ॥

भावार्थः— जो मनुष्य नीचों का संग छोड़ के उत्तम पुरुषों की संगति करते हैं वे सब व्यवहारों की सिद्धि से ऐश्वर्य वाले होते हैं जो अनालसी हो के सिद्धि के लिये यत्न करते वे मुली और जो आलसी होते वे दरिद्रताको प्राप्त होते हैं ॥ १७ ॥

अक्षराजाद्योत्पश्य नारायण ऋषिः । राजेश्वरौ देवते ।

निचृत्प्रकृतिश्लन्दः । धैवतः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

अक्षराजाय कित्वं कृतायादिनवदर्शं त्रेतायै
कल्पिनं द्वापरायाधिकल्पिनमास्कन्दाय सभा-
स्थाणुं मृत्यवे गोव्यच्छमन्तकाय गोघातं क्षधे
यो गां विकृन्तन्तं भिक्षमाण उपतिष्ठति दुष्कृ-
ताय चरकाचार्य्यपाप्मने सैलुगम् ॥ १८ ॥

अक्षराजायेत्यक्षराजाय । कित्वम् । कृताय । आदिनवदर्शमित्यादि-
नवदर्शम् ! त्रेतायै । कल्पिनम् । द्वापराय । अधिकल्पितमित्याधिःकल्पिनम् ।
आस्कन्दायेत्यास्कन्दाय । सभास्थाणुमिति सभाऽस्थाणुम् । मृत्यवे । गो-
व्यच्छमिति गोऽव्यच्छम् । अन्तकाय । गोघातमिति गोऽघातम् । क्षुधे ।

यः । गाम् । विकृन्तन्तमिति विकृन्तन्तम् । भिक्षमाणः । उपतिष्ठतीत्युपतिष्ठति । दुष्कृताय । दुःकृतायेति दुःकृताय । चरकाचार्यमिति चरकऽआचार्यम् । पाप्मने । सैलगम् ॥ १८ ॥

पदार्थः—(अक्षराजाय) येऽक्षैः क्रीडन्ति तेषां राजा तस्मै हितम् (कितवम्) द्यूतकारिणाम् (कृताय) (आदिनवदर्शम्) य आदौ नवान् पश्यति तम् (त्रेतायै) त्रयाणां भवाय (कल्पिनम्) कल्पः प्रशस्तं सामार्थ्यं विद्यते यस्य तम् (द्वापराय) द्वावपरौ यस्मिन्तस्मै (अधिकल्पिनम्) अधिगतसामर्थ्ययुक्तम् (आस्कन्दाय) समन्ताच्छोषणाय (सभास्थाणुम्) सभायां स्थितम् (मृत्यवे) मारणाय (गोठ्यच्छम्) गोषु विचेष्टितारम् (अन्तकाय) नाशाय (गोघातम्) गवां घातकम् (क्षुधे) (यः) (गाम्) धेनुम् (विकृन्तन्तम्) विच्छेदयन्तम् (भिक्षमाणः) (उपतिष्ठति) (दुष्कृताय) दुष्टाचाराय प्रवृत्तम् (चरकाचार्यम्) चरकाणां भक्षकाणामाचार्यम् (पाप्मने) पापात्मने हितम् (सैलगम्) सीलाङ्गस्य दुष्टस्यापत्यं सैलगम् ॥ १८ ॥

अन्वयः—हे जगदीश्वर वा राजन् ! त्वमक्षराजाय कितवम् मृत्यवे गोठ्यच्छमन्तकाय गोघातं क्षुधे यो गां छिनत्ति तं विकृन्तन्तं यो भिक्षमाण उपतिष्ठति दुष्कृताय तं चरकाचार्यं पाप्मने सैलगं पराशुव । कृतायाऽऽदिनवदर्शं त्रेतायै कल्पिनं द्वापरायाऽधिकल्पिनमास्कन्दाय सभास्थाणुमाशुव ॥१८॥

भावार्थः—वे ज्योतिर्विदादिसत्याचरणान् सत्कुर्वन्ति दुष्टाचारात् गोघ्नादीन् ताडयन्ति ते राज्यं कर्तुं शक्नुवन्ति ॥ १८ ॥

पदार्थः—हे जगदीश्वर ! वा राजन् ! आप (अक्षराजाय) पासों से खेलने वालों के प्रधान के हितकारी (कितवम्) जुभा करने वाले को (मृत्यवे) मारने के अर्थ (गोव्यच्छम्) गौओं में बुरी चेष्टा करने वालों को (अन्तकाय) नाश के अर्थ (गोघातम्) गौओं के मारने वाले को (चुधे) जुभा के लिये (यः) जो (गाम्) गौ को मारता उस (विक्रान्तन्तम्) काटते हुए को जो (भिक्षमाणः) भीख मांगता हुआ (उपतिष्ठति) उपस्थित होता है (दुष्कृताय) दुष्ट आचरण के लिये प्रवृत्त हुए उस (चरकाचार्यम्) भक्षण करने वालों के गुरु को (पाप्मने) पापी के हितकारी (सैलगम्) दुष्ट के पुत्र को दूर कीजिये (कृताय) किये हुए के अर्थ (आदिनवदर्शम्) आदि में नवीनों को देखने वाले को (त्रेतायै) तिन के होने के अर्थ (कल्पिनम्) प्रशंसित सामर्थ्य वाले को (द्वापराय) दो जिस के इश्वर सम्बन्धी हों उस के अर्थ (अधिकल्पिनम्) अधिकतर सामर्थ्ययुक्त को और (आस्कन्दाय) अच्छे प्रकार सुखाने के अर्थ (सभास्थानम्) सभा में स्थिर होने वाले को प्रकट वा उत्पन्न कीजिये ॥ १८ ॥

भावार्थः—जो मनुष्य ज्योतिषी आदि सत्याचारियों का सत्कार करते और दुष्टाचारी गोहत्यारे आदि को ताडना देते हैं वे राज्य करने को समर्थ होते हैं ॥ १८ ॥

प्रतिश्रुत्काया इत्यस्य नारायण ऋषिः । राजेश्वरौ देवते ।

भुरिभृतिश्छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

प्रतिश्रुत्काया अर्त्तनघोषाय भ्रषमन्ताय बहु-
वादिनमनन्ताय मूक* शब्दायाडम्बरघातं महसे
वीणावादं क्रोशाय तूणवृधममवरस्पराय शङ्-
खधमं वनाय वनपमन्यतौऽरण्याय दावपम् ॥ १९ ॥

प्रतिश्रुत्कायाऽइति प्रतिऽश्रुत्कायै । अर्त्तनम् । घोषाय । भषम् । अन्ताय ।
 बहुवादिनामिति बहुऽवादिनम् । अनन्ताय । मूकम् । शब्दाय । आडम्बराघा-
 तमित्याडम्बरऽआघातम् । महसे । वीणावादादिति वीणाऽवादम् । क्रोशाय ।
 तूणवधमिति तूणवऽधमम् । अवरस्पराय । अवरपरायेति अवरऽपराय ।
 शङ्खधमिति शङ्खऽधमम् । वनाय । वनपमिति वनऽपम् । अन्यतोरणयायेत्य-
 न्यतःऽअरणयाय । दावपमिति दावऽपम् ॥ १९ ॥

पदार्थः—(प्रतिश्रुत्कायै) प्रतिज्ञायै(अर्त्तनम्) प्रापकम्
 (घोषाय) (भषम्) परिभाषकम् (अन्ताय) समीपाय
 ससीमाय वा (बहुवादिनम्) (अनन्ताय) निःसीमाय
 (मूकम्) आवाचम् (शब्दाय) प्रवृत्तम् (आडम्बराघातम्)
 आडम्बरस्याघातकं कोलाहलकर्त्तारम् (महसे) महते
 (वीणावादम्) वाद्यविशेषम् (क्रोशाय) रोदनाय प्रवृ-
 त्तम् (तूणवधमम्) यस्तूणाव धमति तम् (अवरस्पराय)
 योऽ वरेषां परस्तस्मै (शङ्खधमम्) यः शङ्खान् धमति
 तम् (वनाय) (वनपम्)जङ्गलरक्तकम् (अन्यतोरणयाय)
 अन्यतोऽरण्यानि यस्मिन् देशे तद्विनाशाय प्रवृत्तम्
 (दावपम्) वनदाहकम् ॥ १९ ॥

अन्वयः—हे परमेश्वर ! राजन्! वा त्वं प्रतिश्रुत्काया अर्त्तनं घोषाय भष-
 संन्ताय बहुवादिनमनन्ताय मूकं महसे वीणावादमवरस्पराय शङ्खधमं
 वनाय वनपमासुव । शब्दायाडम्बराघातं क्रोशाय तूणवधमन्यतोरणयाय
 दावपस्परसुव ॥ १९ ॥

भावार्थः—मनुष्यैः स्वकीयैस्त्रीपुरुषादिभिरध्यापनसंवादादिव्यवहाराः साधनीयाः ॥ १८ ॥

पदार्थः—हे परमेश्वर वा राजन्! आप (प्रतिश्रुत्कायै) प्रतिज्ञा करने वाली के अथ (अर्त्तनम्) प्राप्ति कराने वाले को (घोषाय) घोषणे के लिये (भषम्) सब ओर से बोलने वाले को (अन्ताय) समीप वा मर्यादा वाले के लिये (बहुवादिनम्) बहुत बोलने वाले को (अनन्ताय) मर्यादा रहित के लिये (मूकम्) गूंगे को (महसे) बड़े के लिये (वीणावादाय) वीणा बजाने वाले को (अत्ररस्पराय) नीचे के शत्रुओं के अर्थ (शङ्खधमम्) शङ्ख बजाने वाले को और (वनाय) वन के लिये (वनपम्) जङ्गल की रक्षा करने वाले को उत्पन्न वा प्रकट कीजिये (शब्दाय) शब्द करने को प्रवृत्त हुए (आडम्बराघातम्) हल्ला गुल्ला करने वाले को (क्रोशाय) कोशने को प्रवृत्त हुए (तूणावधम्) बाजे विशेष को बजाने वाले को (प्रन्यतोरणाय) अन्य अर्थात् ईश्वरीय सृष्टि से जहां वन हों उस देश की हानि के लिये (दावयम्) वन को जलाने वाले दूर कीजिये ॥ १९ ॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि अपने स्त्री पुरुष आदि के साथ पेढ़ाने और संवाद करने आदि व्यवहारों को सिद्ध करें ॥ १८ ॥

नर्मायेत्यस्य नारायण ऋषिः । राजेश्वरौ देवते ।

भुरिगतिजगती छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

किं उसी वि० ॥

नर्मायं पुँश्चलूँ हर्मायं कारिं यादसे शाबल्यां
ग्राम्ण्यं गणकमभिक्रोशकं तान्महसे वीणावादं
पाणिघ्नं तूणावधं तान्नृत्तायानन्दाय तलवम् ॥२०॥

नर्मयं । पुंश्चलूम् । हसाय । कारिम् । यादसे । शाबल्याम् । ग्रामण्यम् ।
 ग्रामन्युमितिं ग्रामऽन्यम् । गणकम् । अभिक्रोशकमित्याभिक्रोशकम् । तान् ।
 महसे । वीणावादमिति वीणाऽवादम् । प्राणिघ्नमिति प्राणिऽघ्नम् । तूणवध्म-
 मिति तूणवध्मम् । तान् । नृत्ताय । आनन्दायेत्याऽनन्दाय तलवम् ॥ २० ॥

पदार्थः—(नर्मयं) क्रीडायै प्रवृत्ताम् (पुंश्चलूम्) व्य-
 भिचारिणीं स्त्रियम् (हसाय) हसनाय प्रवृत्तम् (कारिम्)
 विक्षेपकम् (यादसे) जलजन्तवे प्रवृत्ताम् (शाबल्याम्)
 शबलस्य कर्बुरवर्णास्य सुताम् (ग्रामण्यम्) ग्रामस्य नाय-
 कम् (गणकम्) गणितविदम् (अभिक्रोशकम्) योऽभितः
 क्रोशति आह्वयतितम् (तान्) (महसे) पूजनाय (वी-
 णावादम्) (प्राणिघ्नम्) यः प्राणिभ्यां हन्ति तम् (तूणव-
 ध्मम्) यस्तूणावं धमति तम् (तान्) (नृत्ताय) नर्तनाय
 (आनन्दाय) (तलवम्) यो हस्तादि तलानि वाति-
 हिनस्ति तम् ॥ २० ॥

अन्वयः—हे परमेश्वर राजन् वा त्वं नर्मय पुंश्चलूं हसाय कारिं
 यादसे शाबल्यां पराशुव । ग्रामण्यं गणकनभिक्रोशकं, तान्महसे वीणावादं
 प्राणिघ्नं तूणवध्मं तान्नृत्तायाऽऽनन्दाय तलवमाशुव ॥ २० ॥

भावार्थः—मनुष्यैर्होस्यथभिचारादिदोषांस्त्यक्त्वा गानवादिन्नृत्या-
 दिकर्मणां शिक्षां प्राप्यानन्दितव्यम् ॥ २१ ॥

पदार्थः—हे परमेश्वर वा ! राजन् ! आप (नर्माय) क्रीडा के लिये प्रवृत्त हुई (पुंश्चलूम्) व्यभिचारिणी स्त्री को (हसाय) हंसने को प्रवृत्त हुए (कारि-
म्) विचित्र पागल को और (यादसे) जल जन्तुओं के मारने को प्रवृत्त हुई (शावण्याम्) कबरे मनुष्य की कन्या को दूर कीजिये (ग्रामण्यम्) ग्रामाधीश
(गणकम्) ज्योतिषी और (अभिक्रोशकम्) सब ओर से बुलाने वाले जन (तान्) इन सब को (महसे) सत्कार के अर्थ (वीणावादम्) वीणा बजाने
(पाणिधनम्) हाथों से वादित्र बजाने और (तूणवधम्) तूणवनामक बाजे को बजाने वाले (तान्) उन सब को (वृत्ताय) नाचने के लिये और
(आनन्दाय) आनन्द के अर्थ (तलवम्) ताली आदि बजाने वाले को उत्पन्न वा प्रसिद्ध कीजिये ॥ २० ॥

भावार्थः—मनुष्यों को चाहिये कि हंसी और व्यभिचारादि दोषों को छोड़ और गाने बजाने नाचने आदि की शिक्षा को प्राप्त होके आनन्दित हों ॥ २० ॥

अग्नये इत्यस्य नारायण ऋषिः । राजेश्वरौ देवते ।

भुरिगस्यष्टिशब्दः । गान्धारः स्वरः ॥

पुनस्तन्नेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

अ॒ग्नये॒ पी॒वानं॑ पृथि॒व्यै पी॒ठस॒र्पिणं॑ वा॒यवे॑
चाण्डालमन्तरि॒क्षाय॑ व॒श॒न॒र्त्ति॒नं दि॒वे खलु॑
ति॒क्ष्णसूर्या॑य ह॒र्य॒क्षं नक्ष॑त्रेभ्यःकि॒र्मि॒रं च॒न्द्रम॑से
कि॒लास॑मन्हे शु॒क्लं पि॒ङ्गाक्ष॑रात्र्यै कृ॒ष्णं पि॒
ङ्गाक्ष॑म् ॥ २१ ॥

अग्नये । पीवानम् । पृथिव्यै । पीठसर्पिणमिति पीठऽसर्पिणम् । वायवे ।
चाण्डालम् । अन्तरिक्षाय । वशशानर्त्तिनमिति वशशऽनार्त्तिनम् । दिवे । ख-

लतिम् । सूर्याय । ह्यक्षमिति हरिञ्चक्षम् । नक्षत्रेभ्यः । किर्मिरम् । चन्द्रमसे । किलासम् । अन्हे । शुक्लम् । पिङ्गाक्षमिति पिङ्गऽञ्चक्षम् । रात्र्यै । कृष्णम् । पिङ्गाक्षमिति पिङ्गऽञ्चक्षम् ॥ २१ ॥

पदार्थः— (अग्नये) पावकाय (पीवानम्) स्थूलम् (पृथिव्यै) (पीठसर्पिणम्) पीठेन सर्पितुं शीलं यस्य तम् (वायवे) वायुस्पर्शाय (चाण्डालम्) (अन्तरिक्षाय) सूर्यपृथिव्योर्मध्यस्थायाऽऽकाशाय (वंशनर्त्तिनम्) वंशे नर्त्तितुं शीलं यस्य तम् (दिवे) क्रीडायै प्रवृत्तम् (खलतिम्) निर्वालाशिरस्कम् (सूर्याय) (ह्यर्क्षम्) हरीणां वानराणामक्षिणी इवाक्षिणी यस्य तम् (नक्षत्रेभ्यः) क्षत्राणां विरोधाय प्रवृत्तेभ्यः (किर्मिरम्) कर्बुरवर्णम् (चन्द्रमसे) (किलासम्) ईषच्छेतवर्णम् (अन्हे) (शुक्लम्) शुद्धम् (पिङ्गाक्षम्) पिङ्गे पीतवर्णेऽक्षिणी यस्य तम् (रात्र्यै) (कृष्णम्) कृष्णवर्णम् (पिङ्गाक्षम्) पीताक्षम् ॥ २१ ॥

अन्वयः—हे परमेश्वर! राजन्! वा त्वमग्नये पीवानं पृथिव्यै पीठसर्पिणमन्तरिक्षाय वंशनर्त्तिनं सूर्याय ह्यर्क्षं चन्द्रमसे किलासमन्हे शुक्लं पिङ्गाक्षमासुव । वायवे चाण्डालं दिवे खलतिं नक्षत्रेभ्यः किर्मिरं रात्र्यै कृष्णं पिङ्गाक्षं परासुव ॥ २१ ॥

भावार्थः—अग्निर्हि स्थूलं दग्धुं शक्नोति न सूक्ष्मं पृथिव्यां पीठसर्पिणः सततं विचरन्ति नेतरे विहंगमाश्चाण्डालस्य शरीरागतौ वायुदुर्गन्धत्वान्न सेवनीय इत्यादि ॥ २१ ॥

पदार्थः—हे परमेश्वर वा राजन् ! आप (अग्नये) अग्नि के लिये (पविानम्) मोटे पदार्थ को (पृथिव्यै) पृथिवी के लिये (पीठसर्पिणम्) विना पगों के कढ़िरि के चलनेवाले सांप आदि को (अन्तरिक्षाय) आकाश और पृथिवी के बीच में खेलने को (वंशनर्त्तिनम्) बांस से नाचने वाले नट आदि को (सूर्याय) सूर्य के ताप प्रकाश मिलने के लिये (हर्यक्षम्) बांदर की सी छोटी आंखों वाले शीतप्राय देशी मनुष्यों को (चन्द्रमसे) चन्द्रमा के तुल्य आनन्द देने के लिये (किलासम्) थोड़े श्वेतवर्ण वाले को और (अन्हे)दिन के लिये (शुक्लम्) शब्द (पिङ्गलम्) पीली आंखों वाले को उत्पन्न कीजिये (वायवे) वायु के स्पर्श के अर्थ (चाण्डालम्) भंगी को (दिवे) क्रीड़ा के अर्थ प्रवृत्त हुए (खलतिम्) गंजे को (नक्षत्रेभ्यः) राज्य विरोध के लिये प्रवृत्त हुआ के लिये (कार्मिरम्) कवरों को और (रात्र्यै) अन्धकार के लिये प्रवृत्त हुए (कृष्णम्) काले रंग वाले (पिङ्गाक्षम्) पीले नेत्रों से युक्त पुरुष को दूर कीजिये ॥ २१ ॥

भावार्थः—अग्नि स्थूल पदार्थों के जलाने को समर्थ होता है सूक्ष्म को नहीं। पृथिवीपर निरन्तर सर्पादि फिरते हैं किन्तु पक्षी आदि नहीं। भंगी के शरीर में आया वायु दुग्न्ध युक्त होने से सेवने योग्य नहीं होता इत्यादि तात्पर्य जानना चाहिये ॥ २१ ॥

अथैतानित्यस्य नारायण ऋषिः । राजेश्वरौ देवते ।

निचृत्कृतिश्छन्दः । निषादः स्वरः ॥

पुनस्तमेव विषयमाह ॥

फिर उसी वि० ॥

अथैतानष्टौ विरूपनालभतेऽतिदीर्घं चातिह्र-
स्वं चातिस्थूलं चातिकृशं चातिशुक्लं चातिकृष्णं
चातिकुल्वं चातिलोमशञ्च अशूद्रा अब्राह्मणास्ते

प्राजापत्याः । मागधः पुँश्चली कित्तवः क्लीवो
अशूद्राः अब्राह्मणास्ते प्राजापत्याः ॥ २२ ॥

अथ । एतान् । अष्टौ । विरूपानिति विऽरूपान् । आ । लभते । अतिदीर्घमि-
त्यतिऽदीर्घम् । च । अतिह्रस्वमिति अतिऽह्रस्वम् । च । अतिस्थूलमित्यतिऽ-
स्थूलम् । च । अतिकृशमित्यतिऽकृशम् । च । अतिशुक्लमित्यतिऽशुक्लम् । च ।
अतिकृष्णमित्यतिऽकृष्णम् । च । अतिकुल्वमित्यतिऽकुल्वम् । च । अतिलोमश-
मित्यतिऽलोमशम् । च । अशूद्राः । अब्राह्मणाः । ते । प्राजापत्याऽइति प्राजा-
पत्याः । मागधः । पुँश्चली । कित्तवः । क्लीवः । अशूद्राः । अब्राह्मणाः । ते ।
प्राजापत्याऽइति प्राजापत्याः ॥ २२ ॥

पदार्थः—(अथ) आनन्तर्ये (एतान्) पूर्वोक्तान् (अष्टौ)
(विरूपान्) विविधस्वरूपान् (आ) समन्तात् (लभते)
प्राप्नोति (अतिदीर्घम्) अतिशयेन दीर्घम् (च) (अतिह्र-
स्वम्) अतिशयेन ह्रस्वम् (च) (अतिस्थूलम्) (च)
(अतिकृशम्) (च) (अतिशुक्लम्) (च) (अतिकृष्णम्)
(च) (अतिकुल्वम्) लोमरहितम् (च) (अतिलोमशम्)
अतिशयेन लोमयुक्तम् (च) (अशूद्राः) न शूद्रा अशूद्राः
(अब्राह्मणाः) न ब्राह्मणाः अब्राह्मणाः (ते) (प्राजापतिदेवता-
काः (मागधः) नृशंसः (पुँश्चली) या पुँभिश्चलितचित्ता

व्यभिचारिणी (कितवः) द्यूतशीलः (क्लीबः) नपुंसकः (अ-
शूद्राः) अविद्यमानः शूद्रो येषान्ते (अब्राह्मणाः) अ-
विद्यमानो ब्राह्मणो येषान्ते (ते) (प्राजापत्याः) प्रजापतेरि-
मे ते ॥ २२ ॥

अन्वयः—हे राजानो! यथा विद्वानतिदीर्घं चातिह्रस्वं चातिस्थूलं चाति-
कृशं चातिशुक्लं चातिकृष्णं चातिकुल्वं चातिलोमशं चैतान्विरूपानष्टावाल-
भने तथा यूयमप्यालभध्वम् । अथ येऽशूद्रा अब्राह्मणाः प्राजापत्याः सन्ति
तेऽप्यालभेरन् । यो सागधो या पुंश्चली कितवः क्लीबोऽशूद्रा अब्राह्मणा-
स्ते दूरे वासनीयाः । ये प्राजापत्यास्ते समीपे निवासनीयाः ॥ २२ ॥

भावार्थः—अत्र.वाचकलु० । हे मनुष्या ! यथा विद्वांसः सूक्ष्ममहस्पदाथान्
विज्ञाय यथोयोग्यं व्यवहारं साध्नुवन्ति तथाऽन्येपि साध्नुवन्तु । सर्वैः प्रजापते-
रीश्वरस्योपासना नित्यं कर्त्तव्या इति ॥ २२ ॥

अस्मिन् अध्याये परमेश्वरस्वरूपराजकृत्ययोर्वर्णनादेतदर्थस्य पूर्वाध्यायेन सह
सङ्गतिरस्तीति वेद्यम् ॥

पदार्थः—हे राजा लोगो ! जैसे विद्वान् (अतिदीर्घम्) बहुत बड़े (च)
और (अतिह्रस्वम्) बहुत छोटे (च) और (अतिस्थूलम्) बहुत मोटे (च)
और (अतिकृशम्) बहुत पतले (च) और (अतिशुक्लम्) अतिश्वेत (च)
और (अतिकृष्णम्) बहुत काले (च) और (अतिकुल्वम्) लोम रहित (च)
और (अतिलोमशम्) बहुत लोभों वाले को (च) भी (एतान्) इन (वि-
रूपान्) अनेक प्रकार के रूपों वाले (अष्टौ) आठों को (आ, लभते) अच्छे
प्रकार प्राप्त होता है वैसे तुम लोग भी प्राप्त होओ (अथ) इस के अनन्तर
जो (अशूद्राः) शूद्रभिन्न (अब्राह्मणाः) तथा ब्राह्मण भिन्न (प्राजापत्याः)

प्रजापतिः देवता वाले हैं (ते) वे भी प्राप्त हों जो (मागधः) मनुष्यों में निन्दित जो (पुंश्चली) व्यभिचारिणी (कितवः) जुआरी (क्लीवः) नपुंसक (अशूद्राः) जिन में शूद्र और (अत्राह्नयाः) ब्राह्मण नहीं उन को दूर बसाना चाहिये और जो (प्राजापत्याः) राजा वा ईश्वर के सम्बन्धी हैं (ते) वे समीप में बसने चाहियें ॥ २२ ॥

भावार्थः—इस मंत्र में वाचकलु० हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान् छोटे बड़े पदार्थों को जान के यथायोग्य व्यवहार को सिद्ध करते हैं वैसे और लोग भी करें सब लोगों को चाहिये कि प्रजा के रक्षक ईश्वर और राजा की आज्ञा सेवन तथा उपासना नित्य किया करें ॥ २२ ॥

इस अध्याय में परमेश्वर के स्वरूप और राजा के कृत्य का वर्णन होने से इस अध्याय के अर्थ की पूर्व अध्याय के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥

यह तीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां श्रीयुतविरजानन्दसरस्वती
स्वामिनांशिष्येण श्रीमत् परमहंसपरिव्राजकाचार्येण
दयानन्दसरस्वतीस्वामिना निर्मिते संस्कृत-
भाषाभ्यां विभूषिते सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वेद-
भाष्ये त्रिंशोऽध्यायः पूर्तिमगमत् ॥



